

श्री जैनसिद्धान्त ग्रन्थमाला का तीसरा पुष्प

पूजन रत्नाकर

एकविंशति, सप्तसप्तम, पंचमंगल, अग्निपेक पाठ,
विश्वनिघण्ट पूजा संस्कृत (सार्थ) व भाषा,
श्रीबीस तीर्थहरो को पूजाये, समस्त पर्वों की
संस्कृत व भाषा पूजाये, समस्त निरय व
वैमिशिक पूजाये, सिद्धसेन पूजाये,
एकमह आदिह. विज्ञानक विधान,
कलिकुमार कीर्तनपूजा, लक्ष्मि-
संघ पूजा आदि १३२
पूजाओं का संग्रह]

❀

सम्पादक—

अजितकुमार जैन शास्त्री

❀

प्रकाशक—

मन्वी—श्री जैनसिद्धान्त ग्रन्थमाला

पहाड़ी धीरज, देहली ।

❀

प्रथमज्वार
२०००

वैत्र सुदी १३
वीर सं० २४७०
वि० सं० २००८

मूल्य
पांच रुपये

मुद्रक—अजितकुमार जैन, लक्ष्मिक प्रेस, सिकंदरबाग, देहली ।

आद्य वक्तव्य

...००...

भारत धर्म प्राण देश है और यहां समय २ पर अनेक धर्मों की उत्पत्ति होती रही है। यों तो भगवान ऋषभदेव के समय से ही ३६३ मतों की उत्पत्ति बतलाई गई है परन्तु भगवान महावीर के समय में प्रचलित धर्मों को दो प्रधान श्रेणियों में रखा जा सकता है १ वैदिक २ अवैदिक। भगवान महावीर के समय में भारत में वेदों का सर्वत्र प्रचार था, यत्र तत्र यूपों (याज्ञिक खम्भों) की भरमार थी तथा वेदविहित हिंसा अधर्म नहीं समझी जाती थी। लोग हिंसामयी याज्ञिक विधि विधानों से घबरा उठे थे, सर्वत्र त्राहि २ मची हुई थी। उस समय, भगवान महावीर ने इस मान्यता का खण्डन कर भारत में अहिंसा का साम्राज्य स्थापित किया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध भी उसी समय हुए और उन्होंने भी हिंसा पूर्ण विधि विधानों का दृढ़ता के साथ खण्डन किया पर वे हिंसा का पूर्ण त्याग न करसके।

धीरे २ भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। छोटे-बड़े, शरीर अमीर और वैभवशाली अनेक राजागण भी उनकी छत्रछायामें आये तथा वातावरण ऐसा बदला कि भारत से याज्ञिक हिंसा का नाम निरान ही उठगया। परन्तु उसके कट्टर अनुयायी इस बात को सहन न कर सके और उन्होंने अपने भोले भक्तों को भड़काना प्रारम्भ किया। जैन व बौद्धों को 'नास्तिक' कहकर बदनाम किया जाने लगा तथा उसी समय 'हस्तिना पीड्यमानेऽपि न गच्छेज्जैनमन्दिरम्' अर्थात् हाथी के पैर के नीचे कुचले जाने (का अवसर आने) पर भी जैन मन्दिर में नहीं जाना चाहिये, जैसी बातें प्रचलित हुईं।

वर्तमान में समय की गतिविधि को गम्भीरता से समझने वाले लोग यह जानते हैं कि प्रचार का प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्रचार में विरोधी के विषय में अनेक असंगत और तथ्यहीन बातें कही जाती हैं पर वे भी अपना प्रभाव डालती हैं और लोगों के मन में अनेक सन्देह उत्पन्न कर देती हैं। जैन व बौद्धों के विरुद्ध किया जाने वाला प्रचार भी व्यर्थ नहीं गया। धीरे २ उनके प्रति लोगों में अभद्रता उत्पन्न होने लगी और कई जगह तो वह घृणा की सीमा तक पहुँच गई। उसके पश्चात् अनेक कारणों से आठवीं शताब्दी के लगभग भारत में बौद्ध धर्म के ह्रास होजाने से विरोध में सिर्फ जैनधर्म ही रह गया। उस समय उसके ऊपर अनेक अमानुषिक अत्याचार किये गये तथा यत्र तत्र उसके अनुयायियों का तिरस्कार किया गया। यद्यपि जैन धर्म अपनी लोकोत्तर विशेषताओं के कारण आज भी अपना मस्तक, ऊँचा किये हुये है, भारत की संस्कृति पर उसका पर्याप्त प्रभाव है और अनेक क्षेत्रों में जैनियों का अधिकार व प्रमुखता है परन्तु विरोधी प्रचार का प्रभाव अबतक यत्र तत्र किसी न किसी रूप में दरिद्रगोचर हो जाता है। 'नास्तिक' शब्द के अर्थ को न जानकर भी बहुत से लोग अपनी धारणा के अनुसार अबतक जैनियों को नास्तिक ही समझते व कह देते हैं। आस्तिक और नास्तिक का असली अर्थ क्या है वहाँ संक्षेप मे इसका जान लेना आवश्यक है।

जैनधर्म परम आस्तिक है

व्याकरण से ही शब्दों की सिद्धि होती है। वैयाकरणों में शाकटायन अति प्राचीन हैं। वे इस शब्द की इस प्रकार सिद्धि करते हैं—“देष्टिकास्तिकनास्तिकः” (३-२-६१) वृत्तिकार भी अभयचन्द्र सूरि ने इसका अर्थ किया है ‘अस्ति परलोकान्दिमतिरस्य आस्तिकः। तद्विपरीतो नास्तिकः’ अर्थात् परलोक, पुण्य पाप

आदि को मानने वाला आस्तिक और उससे उल्टे विचार वाला नास्तिक है।

आचार्य पार्ष्णिनि जो सबसे बड़े वैयाकरण माने जाते हैं, अपने ग्रन्थ में लिखते हैं कि 'अस्तिनास्तिदिष्ट मतिः' (४-४ ६०) कौमुदीकार महाजि दीक्षित ने इसकी वृत्ति लिखी है 'तदस्येत्येव' अस्ति परलोक इत्येव मतिर्यस्य स आस्तिकः । नास्तीति मतिर्यस्य सः नास्तिकः । अर्थात् परलोक को माननेवाला मनुष्य आस्तिक और न माननेवाला नास्तिक है। श्री हेमचन्द्राचार्यने अपने सिद्ध-हेमशब्दानुशासन नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ में भी यही अर्थ माना है। जैन धर्म नरक स्वर्गादि गतिया (७ नरक, १६ स्वर्ग) तथा पाप पुण्यरूप कर्मानुसार उनमें उत्पत्ति मानता है यह सर्व-विदित है। अतः व्याकरण के अनुसार जैनधर्म आस्तिक धर्म है।

कोष (Dictionary) से शब्दों का अर्थ ज्ञान होता है। 'शब्दस्तोममहातिथि प्र० १८५ पृष्ठ ६३४ 'अभिधानचिन्तामण' काण्ड ३ श्लोक ५२६ आदि सब सुप्रसिद्ध कोष उपर्युक्त अर्थ को ही बताते हैं। अभिधानचिन्तामण में नास्तिक के पर्यायवाची इस प्रकार बतलाये हैं—“बाहस्पत्यः नास्तिकः, चार्वाकः, लौकायतिकः इति तन्नामानि।” अर्थात् बाहस्पत्य, नास्तिक, चार्वाक और लौकायतिक ये चार नास्तिक के नाम हैं। इस प्रकार कोष के अनुसार जैनधर्म नास्तिक नहीं।

किसी भी दार्शनिक विद्वान् ने जैन धर्म का नास्तिक नहीं बताया है। नास्तिक के सिद्धान्त भी जैन धर्म को मान्य नहीं। जैन शास्त्रकारों ने प्रमेयकमलमार्तण्ड, अष्ट सहस्री आदि ग्रन्थों में अन्य मतों के साथ नास्तिक मत का भी सयुक्तिक और जोर-दार खण्डन किया है।

यद्यपि मनुस्मृतिकार ने नास्तिकों को वेदानन्दकः' अर्थात् जो

वेदों को नहीं मानता, उनकी निन्दा करता है वह नास्तिक है ऐसा लिखा है पर यह उनकी अपनी कल्पना है। यदि ऐसा माना जाय तो आज ईसाई, मुसलमान, सिख, पारसी आदि के साथ-साथ स्वयं वेदानुयायी भी नास्तिक कहलाने से नहीं बच सकते। ऋक्, यजुः, साम और अथर्व इन चारों वेदों में से एक वेद मानने वाले बाकी तीन वेदों की, द्विवेदी बाकी दो वेदों की तथा त्रिवेदी बाकी एक वेद को न मानकर उसकी निन्दा करते हैं। विभिन्न टीकाकार अलग-अलग अर्थ लगाकर दूसरे के अर्थ को नहीं मानते। सनातन धर्मी वेदों में हिंसा बताने वाले महीधर भाष्य को ठीक बताते हैं पर आर्य समाजी सायण और महीधर को नहीं मानते हैं।

फिर वेद को मानने वालों को नास्तिक कहने का दूसरों पर जबरन अपनी बात लादने से अधिक कोई मूल्य नहीं। जब दो भिन्न २ धर्म हैं तो एक के शास्त्रों को दूसरा मान्यता की कोटि में कैसे रख सकता है !

साहित्यकार भी वेद को ईश्वरकृत स्वीकार नहीं करते। आचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने अपनी 'साहित्य सीकर' पुस्तक में इस बात को स्पष्ट कर दिया है।

कुछ लोग कहते हैं कि जैनधर्म परमात्मा को सृष्टिकर्ता नहीं मानता, इसलिए वह नास्तिक है। पर जैसा कि पहिले स्पष्ट किया जा चुका है परलोक न मानने वाला नास्तिक कहलाता है, ईश्वर को सृष्टि कर्ता न माननेवाला नहीं। नास्तिक शब्द रूढ़ि यौगिक शक्ति से भी उसका वाचक नहीं है। फिर प्रमाणों से भी ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं ठहरता। उसे सृष्टिकर्ता मानने पर अनेक दोषों का प्रादुर्भाव होने से उसमें ईश्वरत्व नहीं रह सकता। आप्तपरीक्षा, प्रमेयकमलमार्तण्ड, अष्टसहस्रा आदि

जैन ग्रन्थ इस से भरे हुए हैं। इसके अलावा सांख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष की सत्ता स्वीकार कर सृष्टि रचना का कार्य बड़ रूप प्रकृति द्वारा होना बताता है। मीमांसक भी ईश्वर को सृष्टिकता नहीं मानते पर फिर भी विद्वानों ने अब तक उनको नास्तिक नहीं लिखा क्यों कि जैसा पहिले बताया जा चुका है, इस बात का आस्तिक व नास्तिक से कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

इस विषय में पाश्चात्य तर्कविद्या के पिता अरस्तू जैसे शान्त, विचारवान और चिन्तक के विचार देखिये—

“ईश्वर किसी भी दृष्टि से विश्व का निर्माता नहीं है। सब अविनाशी पदार्थ परमार्थिक हैं। सूर्य, चन्द्र तथा दृश्यमान आकाश सब सक्रिय हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि उनकी गति अवरुद्ध हो जाए। यदि हम उन्हें परमात्मा के द्वारा प्राप्त पुरस्कार मानें तो या तो हम उसे अयोग्य न्यायाधीश अथवा अन्यायी न्यायकर्ता बना डालेंगे। यह बात परमात्मा के स्वभाव के विरुद्ध है। जिस आनन्द की अनुभूति परमात्मा को होती है वह इतना महान है कि हम उसका कभी रसास्वाद कर सकते हैं। वह आनन्द आश्चर्यप्रद है।”

God is in no sense the Creator of the Universe. All imperishable things are actual. Sun, moon, while visible heaven is always active. There is no time that they will stop. If we attribute these gifts to God, we shall make him either an incompetent judge or an unjust one and it is alien to his nature. Happiness which God enjoys is as great as that, which we can enjoy sometimes. It is marvellous.

—Aristotle.

वैज्ञानिक जूलियन हक्सले कहते हैं—“इस विश्व पर शासन करने वाला कौन या क्या है? जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, वहां तक हम यही देखते हैं कि विश्वका नियन्त्रण स्वयं अपनी ही शक्ति से हो रहा है। यथार्थ में देश और उसके शासक की उपमा इस विश्व के विषय में लगाना मिथ्या है।”

श्री जवाहरलाल नेहरू अपने आत्म चरित्र ‘मेरी कहानी’ में अपने हृदय के मार्मिक उद्गारों को व्यक्त करते हुये लिखते हैं—
“परमात्मा की कृपालुता में लोगों की जो श्रद्धा है, उस पर कभी २ आश्चर्य होता है कि किस प्रकार यह श्रद्धा चोट पर चोट खाकर जीवित है और किस तरह घोर विपत्ति और कृपालुता का उल्टा सुबूत भी उस श्रद्धा की दृढ़ता की परीक्षाएँ मान ली जाता है।”

बिहार के भूकम्प पीड़ित प्रदेश में पर्यटन द्वारा दुःखी व्यक्तियों का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त कर नेहरू जी लिखते हैं—“हमें इस पर भी ताज्जुब होता है, कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसी निदयतापूर्ण दिल्गी क्यों की कि पहिले तो हमको झुटियों से पूर्ण बनाया, हमारे चारों ओर जाल और गड्ढे बिछा दिये, हमारे लिये कठोर और दुःखपूर्ण संसार की रचना कर दी, चींता भी बनाया और भेड़ भी। और हमको सजा भी देता है।”

धर्म के विषय में नेहरू जी के विचारों से कितनी ही मत-भिन्नता क्यों न हो, किन्तु निष्पक्ष विचारक व्यक्ति की आत्मा उनके द्वारा आन्तरिक तथा सत्यता से पूर्ण विचारधारा का समर्थन किये बिना न रहेगा।

Who and what rules the Universe? So far as you can see, it rules itself and indeed the whole analogy with a country and its ruler is false.
—Julian Huxley.

देखिये, मृत्यु की गेद में जाते-जाते पंजाबकेशरी ला० लाजपतराय इस विषय में कितनी सजीव और अमर बात कह गये हैं—“क्या मुसीबतों, विषमताओं और क्रूरताओं से परिपूर्ण यह जगत एक भद्र परमात्मा की कृति हो सकता है ? जब कि हजारों मस्तिष्कहीन, विचार तथा विवेकशून्य, अनैतिक, निर्दय अत्याचारी, जालिम, लुटेरे, स्वार्थी मनुष्य विलासिता का जीवन बिता रहे हैं और अपने अधीन व्यक्तियों को हर प्रकार से अपमानित, पददलित करते हैं और मिट्टी में मिलाते हैं, इतना ही नहीं, चिढ़ाते भी हैं। ये दुःखी लोग अवर्णनीय कष्ट, घृणा तथा निर्दयतापूर्ण अपमान सहित जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक वस्तुएं भी नहीं मिल पाती। भला, ये सब विषमताएं क्यों हैं ? क्या ये न्यायशील और ईमानदार ईश्वर के कार्य हो सकते हैं ?”

“Can this world full of miseries, inequalities, cruelties and barbarities be the handiwork of a good God, while hundreds and thousands of wicked people, people without brains, without head or heart, immoral and cruel people, tyrant, oppressors, exploiters and selfish people living in luxury, and in every possible way insulting trampling under foot, grinding into dust and also mocking their victims, these latter are lives of untold misery, degradation, disgrace of sheer want ? They do not even get the necessities of life. Why all this inequality ? Can this be the handiwork of a just and true God ?”

आगे चलकर पंजाबकेशरी कहते हैं—“मुझे बताओ तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। मैं तो इस निस्सार जगत में उसका कोई भी निशान नहीं पाता।”
(जैन शासन)

इतिहास पर दृष्टि डालने से भी यही विदित होता है कि किसी भी निष्पक्ष इतिहासकार ने जैनधर्म को नास्तिक नहीं लिखा बल्कि अनेक सुप्रसिद्ध इतिहासकारों ने इसका खंडन किया है।

इसप्रकार यह बात स्पष्ट है कि व्याकरण, कोष, दर्शन, इतिहास किसीभी दृष्टि से विचार करने पर जैनधर्म परम आभितिक सिद्ध होता है। उसके सिद्धान्त अत्यन्त व्यवस्थित और अनेक हैं। उसकी मान्यता है कि जीव अपने ही भावों से शुभाशुभ कर्म बान्धता है तथा स्वयं उसका फल भोगता है।

जैनधर्म और ईश्वर

जैनधर्म की यह एक विशेष मान्यता है कि वह ईश्वर की सत्ताको स्वीकार करते हुये भी उसे किसी व्यक्ति विशेष में ही केन्द्रित नहीं मानता है बल्कि प्रत्येक आत्मामें ईश्वरत्व शक्ति स्वीकार करता है। वह किसी एक अनादि सिद्ध परमात्मा को तो नहीं मानता परन्तु अबतक कर्मरूपी मैल को अलग करके जितने आत्मा मुक्त (परम आत्मा) होचुके हैं और आगे भी होते रहेंगे, जैनसिद्धान्त के अनुसार वे र भी मुक्तात्मा, सिद्धात्मा, परमात्मा, भगवान या ईश्वर हैं। वे रागद्वेषादि १८ दोषों से छूट जाते हैं तथा उनके अनन्त दर्शन, ज्ञान, मुख वीर्य आदि आत्मिक गुण प्रकट हो जाते हैं। वे लोकके अप्रभागमें स्थित सिद्धालय स्थान में जा विराजते हैं। संसार के किसी भी कार्यसे उनका कोई सम्बन्ध

“Where is they God ? I find no trace of him in this absurd world.”

— Lalo Lajpatrai in *Mahratta* 1933.

नहीं रहता तथा जिसप्रकार धानसे छिलका अलग होजाने पर चावलों में उगने की शक्ति नहीं रहती उसीप्रकार संसार में उत्पन्न होने का कारण, कर्म रूप बीज नष्ट होजाने पर सिद्धात्माओं को संसार में फिर कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता और वे सदा अपने निराकुल आत्मिक सुख में लीन रहते हैं। कर्मशत्रुओं को जीतने के कारण उनको जिन या जिनेन्द्र भी कहते हैं।

उनमें से कुछ मुक्तात्माओं को जिन्होंने मुक्त होने से पूर्व प्राणियों को संसार के दुःखों से छूटने और मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बतलाया था, जैनधर्म में तीर्थङ्कर माना गया है। प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में ऐसे तीर्थङ्करों की संख्या २४ होती है। उन्हीं की अरहंत (मोक्ष जाने से पूर्व) अवस्था की मूर्तियां जैन-मंदिरों में विराजमान होती हैं।

जैन-पूजा

जब जैन धर्म किसी अनादि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, सृष्टि की उत्पत्ति से ईश्वर का कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता और माने हुये ईश्वर—सिद्धात्मा रागद्वेषादि रहित होने के कारण किसी का कोई लाभ नहीं करते तो उनकी स्तुति-पूजा करने से लाभ ही क्या है, ये प्रश्न अनायास ही प्रत्येक पाठक के हृदय में उठने लगते हैं और इनके समाधान को मन व्यग्र हो उठता है।

संसारी प्राणी प्रत्येक क्षण अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति के अनुसार शुभ या अशुभ कर्मों का बन्ध करते रहते हैं। ऐसी दशा जितनी देर पूजा करते हैं संसार के अन्य कार्यों के त्याग तथा मन वचन काय की पवित्रता के कारण शुभ कर्म का बन्ध होता है। जिसका फल सुख के रूप में प्राप्त होता है।

जब कोई व्यक्ति इत्र वाले की दुकान पर जाता है तो वहाँ पहुँचने पर वह इत्र न भी प्राप्त करे तो भी उसे सुगन्ध तो आती ही है और उतनी देर के लिये मन प्रसन्नता व सुगन्ध से भर जाता है। उसी प्रकार जितनी देर तक हम भगवान् के समक्ष रहते हैं, सांसारिक व गृहजीवन के बातावरण से दूर रहकर भगवान् के गुणरूप सुगन्ध को प्राप्त करते हैं जिससे पवित्रता आती है।

पूजन के समय भगवान् के गुण-स्मरण और गुणगान से सांसारिक अहंकार भाव क्षीण होकर विनय-गुण का संचार होता है तथा यह भाव जाग्रत होता है कि—

तुममें हममें भेद यह, और भेद कछु नाहिं ।

तुम तन तज परब्रह्म भये, हम दुःखिया जग माहिं ॥

इस भांति भगवान् यद्यपि साक्षात् कुछ भी नहीं देते परन्तु पूजन के द्वारा पुण्य कर्म की प्राप्ति होने से सांसारिक सुख प्राप्त हो जाता है, आत्मा में पवित्रता आती है तथा आत्मा की वास्तविकता का ज्ञान होकर संसार से छूटने व अपनी शुद्धावस्था को प्राप्त करने का भाव जाग्रत हो जाता है। इस प्रकार हमारा वास्तविक उद्देश्य सब पूर्ण हो जाता है और उसमें निमित्त कारण परमात्मा है। वैसे परमात्मा ने स्वयं कुछ नहीं दिया है। परमात्म-दशा की प्राप्ति संसारी जीव का प्रधान लक्ष्य है और वह दशा अपने पुरुषार्थ से स्वयं प्राप्त की जाती है पर भगवान् की पूजा उसमें एक व्यवहारिक निमित्त अवश्य है।

इस बात को भली भांति समझकर तथा उच्च उद्देश्य रखकर ही पूजा करनी चाहिये। सांसारिक सुख तो साधारण वस्तु हैं और पुण्य कर्म से अनायास ही उनकी प्राप्ति भी हो जाती है। अतः मात्र उनकी प्राप्ति की भावना से वीतराग भगवान् की पूजा करना अपने धर्म व संस्कृति की अनभिज्ञता का शोचक है।

जैन-मूर्ति-पूजा

इस्लाम में मूर्तिपूजा को नहीं माना गया है तथा मुस्लिम युग में कुछ कट्टर वादशाहों ने भारत में मन्दिर व मूर्तियों का विध्वंस भी किया था। तात्कालिक परिस्थिति के प्रभाव के कारण उस समय कुछ सम्प्रदायों ने मूर्तिपूजा का विरोध भी किया। हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल (वि० सं० १३७५ से १७०० तक) में निर्गुण भक्ति धारा के कबीर, रैदास, पलटू, मल्लकदास आदि कवियों ने मूर्ति की पूजा करने का निषेध किया है। वे परमात्मा को निराकार परन्तु सर्वव्यापी मानकर उसका ध्यान लगाने का उपदेश देते रहे हैं। यहां पाठक देखेंगे कि उन सच ने मूर्ति को पत्थर समझकर उसका निषेध किया है परन्तु जैनधर्म की मूर्ति-पूजा और उसका उद्देश्य अत्यन्त मनोवैज्ञानिक है।

जैनधर्म मूर्ति-पूजा शब्द में पृथ्वी तत्पुरुष (मूर्ति: पूजा = मूर्ति पूजा) अर्थात् मूर्ति की पूजा = मूर्ति पूजा न मानकर तृतीया तत्पुरुष (मूर्तया पूजा = मूर्ति पूजा) यानी मूर्ति के द्वारा मूर्तिमान

दुनिया ऐसी बावरा, पत्थर पूजन जाय ।

घर की चक्की कोई न पूजे, जाका पीसा खाय ॥

पाहन पूजे हरि मिलै, सो मे पूजों पहार ।

ताते या चाकी भली, पीस खाय ससार ॥ (कबीर)

तोड़ू न पाती पूजूं न देवा (मूर्ति),

सहज समाधि करूं हरि सेवा । (रैदास)

जल पपान ने पूजते, सरा न एकी काम ।

पलटू तन कर देहरा, काहे पांज पपान ॥ (पलटू)

साधो दुनिया बावरी, पत्थर पूजन जाय ।

मल्लक पूजै आतमा, कछु मागै कछु ग्वाय ॥ (मल्लकदास)

की पूजा = मूर्ति पूजा मानता है। यदि मूर्ति पूजा शब्द का अर्थ मूर्ति की पूजा माना जाता होता तो जिस धातु या पत्थर की वह मूर्ति बनी है उसके अथवा मूर्ति (आकार) के गुण गाये जाते कि, "हे मूर्ति ! तू इस चीज की बनी हुई है, काली है या सफेद है, तेरा अमुक अंग सुन्दर है, तुझे अमुक व्यक्ति ने बनाया है" परन्तु सभो जानते हैं कि जैन मन्दिरों में यह कुछ नहीं होता बल्कि तदाकार ध्यानस्थ सौम्य तथा वीतरागता की प्रतीक मूर्ति में भक्त साक्षात् तीर्थङ्कर भगवान की कल्पना करके उनके गुण गाते हैं। पंच कल्याणक तथा जयमाल में जीवन की विशेष घटनाओं का वर्णन कर भगवान के गुणों में अपने को तन्मय करने का भाव रखते हैं। उनको मूर्ति में धातु या पत्थर के नहीं साक्षात् भगवान के दर्शन होते हैं। कहा भी है कि:—

जाकी रहीं भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी।

बच्चों की पुस्तकों में हम प्रारम्भ से वर्णमाला चित्रों में पाते हैं। बड़ी बड़ी पुस्तकों में भी बीच २ में कुछ चित्र होते हैं जिनसे उस विषय का बोध सुगमता से हो जाता है। मानचित्र (नक्शा) ज्ञान का बहुत बड़ा साधन है और उसके बिना भूगोल पढ़ाया ही नहीं जा सकता।

बनारस में भारतमाता के संगमरमर के मन्दिर में प्रत्येक स्थान की ऊंचाई दिखाई गई है। सन् १९५१ के प्रारम्भ में देहली में होने वाली इंजीनियरिंग की विशाल प्रदर्शनी में भारत का एक बहुत बड़ा मानचित्र लगभग ८० हजार रूपया लगाकर बनाया गया था जिसमें सभी स्थानों की ऊंचाई स्पष्ट दिखती थी और दर्शकों पर जिसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता था। इन सब बातों से यह तो स्पष्ट है कि मूर्ति या चित्र से उस विषय

का ज्ञान सरलतापूर्वक हो जाता है तथा उसका प्रभाव भी पड़े बिना नहीं रहता ।

हम लोक में भी देखते हैं कि जो चित्रकला सीखना चाहता है उसे प्रारम्भ से ही चित्र बनाना नहीं आजाता । वह पहिले लकीरें खींचकर साधारण आकृतियां बनाना और रंग भरना सीखता है । धीरे धीरे वह सामने रखी हुई वस्तु का चित्र बनाने लगता है जिसको मोडल ड्राइंग (Model drawing) कहते हैं । अभ्यास करते २ वह बढ़िया चित्र बनाने लगता है तथा एक समय ऐसा भी आता है जब वह बिना देखे अपनी कल्पना से ही अनेक नये २ दृश्यों का चित्रण करता है । परन्तु यह कला उसे एकदम ही नहीं आगई । यह सब सतत प्रयत्न तथा सामने रखी हुई चीजों के चित्र बनाते २ ही प्राप्त की गई है ।

इसी प्रकार हम सब सांसारिक विषय वासनाओं में फंसे प्राणी बिना मूर्ति के आश्रय के अपने मन को स्थिर करने तथा ध्यान लगाने में समर्थ नहीं हो सकते और वीतराग भगवान की मूर्ति हमारे लिये बहुत बड़े साधन का काम देती है । यदि भगवान के गुणों का स्मरण व गान करते हुये ध्यान पूर्वक उनकी सुख-मुद्रा को निहारा जाय तो मन पर अपूर्व प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता ।

आचार्य सोमदेव सूरि ने भगवान की अनुपस्थिति में भगवान की मूर्ति के द्वारा उनके गुण स्मरण के लाभ का जो सुन्दर बर्णन किया है वह हमारे लिये पर्याप्त है ।

आप्तस्यासन्निधानेऽपि पुण्यायाकृतिपूजनम् ।
तादर्थ्यमुद्रा न किं कुर्यात् विषसामर्ध्यसूदनम् ॥

(सोमदेव सूरि)

हमें यह विचारना चाहिये कि यदि आज भगवान् ससन्-
शरण में साक्षात् विराजमान होते तो हम वहाँ पहुँचकर क्या र
करते ? उनकी शान्ति छवि के दर्शन पूजन करके अपने जीवन
को धन्य मानते तथा वहाँ बैठकर उनके उपदेश से लाभ उठाते ।
हम चाहें तो वही सारे लाभ आज भी मन्दिर में प्राप्त हो सकते
हैं । भगवान् की मूर्ति को साक्षात् भगवान् मानकर दर्शन पूजा
करके अक्षय पुण्य और वीतरागता प्राप्त कर सकते हैं तथा भगवान्
की बाणी जो शास्त्रों में विद्यमान है उसके अध्ययन से हृदय के
अन्धकार को भगाकर आत्मा को प्रमत्त पवित्र बनाने का मार्ग भी
प्रशस्त कर सकते हैं । पर यह सब हमारी दृष्टि और विचारों पर
निर्भर है । इस विषय पर सम्पादक जी ने भी पर्याप्त प्रकाश डाला है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ

जैनपूजा की साधकता तथा उसकी विधि को पूर्णतया समझाने
वाले साहित्य का अभाव लोगों को बहुत समय के खटक रहा था ।
बहु विषय परम्परा से उपासकों को ज्ञात होता रहा है पर इसका
सर्वाङ्ग विवेचन करने वाली कोई खास पुस्तक देखने में नहीं
आई । मन्दिरों में जो पूजायें होती हैं उनके लिये कई भिन्न २
पुस्तकों का उपयोग करना पड़ता था तथा एक ऐसे समूह की
आवश्यकता प्रतीत होरही थी जिसमें उपयोग में आने वाली
भिन्न २ कवियों की सभी आवश्यक पूजाओं का संकलन हो ।
इन्हीं दो उद्देश्यों से यह 'पूजन रत्नाकर' जैन सिद्धान्त ग्रन्थमाला
के तीसरे पुष्प के रूप में आपके सम्मुख है ।

इसके सम्पादक श्रीमान् पं० अजितकुमारजी शास्त्री (मुलतान-
वाले) समाज के सुप्रतिष्ठित, सुपरिचित व उच्चकोटि के विद्वान्
हैं । आपने पूजन और उसकी विधिका सर्वाङ्ग सुन्दर विवेचन किया
है जो पाठकों को पूजन विषयक जैन दृष्टिकोण को समझने में

पर्याप्त सहायक होगा। स्वस्ति व ऋद्धियों आदि को स्पष्ट करके संस्कृत की नित्यपूजाओं का हिन्दी में भली। अर्थ समझाया गया है जिससे पाठकों के ज्ञान में भी अवश्य वृद्धि होगी। ५० जी ग्रन्थमाला के विशेष अंग (उपसभापति) हैं और आपने इस कार्य को बड़ी तत्परता से उसी रूप में निभाया है। इसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ।

जहां तक पूजनो के संग्रह की बात है, उनके संग्रह में यह पूरा ध्यान रखा गया है कि उपयोग में आनेवाली कोई भी पूजा छूटने न पाये। इसके लिये सम्पादकजी के साथ ग्रन्थमाला के मंत्री श्री डाक्टर फूलचन्दजी जैन का प्रयत्न अत्यन्त प्रशंसनीय है। आपने संग्रह के लिये पूजा की पुस्तको के जुटाने, छपाई की व्यवस्था तथा धन संग्रह में अपना काफी समय लगाकर इस कार्य को बड़ी लगन से पूर्ण किया है। इसके लिये उनको हार्दिक धन्यवाद है।

इस विषय का यह एक प्रयास है तथा इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है इसका निरर्थक विद्वानो व पाठकों पर निर्भर है। इस में जो त्रुटि या कमी प्रतीत हो उसे विद्वान् अवश्य सूचित करने की कृपा करें जिससे अगले संस्करण में उस विषय का संशोधन और परिवर्द्धन हो सके।

बिनीत,

दहली
ता० १६-४-५१ }

हीरालाल जैन "कौशल"
(साहित्यरत्न, शास्त्री, न्यायतीर्थ)
प्रकाशन-मंत्री।

सम्पादकीय

श्रीसमन्तभद्राचार्य ने 'धर्म' का लक्षण करते हुए रत्नकरबट-
भावकाचार में लिखा है—

‘संसारदुःखतः सत्वान् षो धरत्युत्तमे सुखे ।’

पानी-जन्म, मरण, भूख, प्यास, चिन्ता, रोग शोक आदि दुःखों से दुष्खी संसारी जीवों का उद्धार करके निराकुल सुख में जो पहुँचा देता है वह धर्म है। अर्थात् जैन सिद्धान्त की दृष्टि में सांसारिक सुख—वह चाहे चक्रवर्तीका साम्राज्यपद हो अथवा दिव्य विभूति इन्द्रासन ही क्यों न हो—त्याज्य या हेच हैं क्योंकि उनसे जीव की उ्बाकुलता, तृष्णा या जन्म मरण की जंजीर नहीं टूटती, आत्मा स्वतंत्र नहीं हो पाता ।

अत एव जैनधर्म का लक्ष्य बीतराग पद (संसार बंधन के मूल कारण रागद्वेष मोह आदि दुर्भावों का नाश होना) प्राप्त करना है। इसी मूल लक्ष्य के साधनके लिये जघन्य (सबसे नीचे) श्रेणी के जैन के भी आदरणीय पदार्थ 'बीतराग अर्हन्त देव, निर्मन्व (संसार, शरीर, विषय-भोगों से विरक्त नग्न साधु) गुरु तथा बीतराग के उपदेशों का संकलनरूप शास्त्र' माने गये हैं। उनके सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति को वह चाहे सम्राट (राजाओं का राजा) हो या इन्द्र (देवों का राजा) हो; पूज्य नहीं माना गया क्योंकि वह भी हम जैसा ही राग, द्वेष, जन्म, मरण का रोगी है।

जिस प्रकार एक साधारण विद्यार्थी गुरु सेवा और अभ्यसन (पढ़ने लिखने का अभ्यास) से एक दिन आप स्वयं अपने अध्यापक गुरु के बराबर हो जाता है उसी प्रकार एक साधारण संसारी आत्मा अपने परम गुरु अर्हन्त भगवान की सेवा यत्कि

करता हुआ और उनके मार्ग पर चलता हुआ किसी दिन उन जैसा ही जगत्पूज्य परमात्मा बन जाता है ।

धर्म के मार्ग पर आया हुआ संसारी जीव पहले 'दासोऽहं' यानी—'हे भगवन् मैं आपका सेवक हूँ' की श्रेणी में होता है ।

उसके बाद वह अपने आराध्यदेव के रूप को अपने में लाने के लिये अभ्यास करता हुआ पहले अक्षर 'दा' को त्यागकर 'सोऽहं' यानी—'उस आराध्य वीतराग परमात्मा जैसा ही मैं हूँ' रूप में जा पहुँचता है । अर्थात् आत्मध्यान में बैठा हुआ व्यक्ति 'सोऽहं' का पाठ अभ्यास करता है ।

जब वह 'सोऽहं' का यथार्थ, पूर्ण-अभ्यासी हो जाता है तब एक दिन कर्मजंजाल को तोड़कर स्वतंत्र, निर्मल, पूर्णविकसित आत्मा यानी—'परमात्मा' बन जाता है । उस समय 'सोऽहं' का 'सो' (सः) हट जाता है केवल 'अहं' यानी—'मैं परमात्मा हूँ' रह जाता है । अर्थात् सेवक सेवा करता हुआ एक दिन स्वयं सेवनीय या भगवान परमात्मा बन जाता है ।

उस 'दासोऽहं' वाली प्रथम श्रेणी में 'भक्तिभाव' आता है सेवा, पूजा, दर्शन, उपासना आदि नाम उसी भक्तिभाव के हैं इनके ढंग में कुछ-कुछ अन्तर है किन्तु अभिप्राय प्रायः सबका एक है । तदनुसार नृत्य, गान, स्तवन, दर्शन, अभिषेक, पूजन आदि सब भक्ति के अंग हैं । अतः यह सभी कार्य भक्त को भगवान के समीप पहुँचाने के सरल साधन हैं । योगी अपने ध्यान बल से परमात्मपद पाने की कठिन तपस्या करता है और भक्त अपने सरल सीधे भक्तिभाव से भगवान की समीपता प्राप्त करता है ।

जिस प्रकार आत्मध्यान में मानसिक वृत्ति आत्मा की ओर तन्मय होनी चाहिये ठीक, उसी प्रकार भक्त श्रावक की मानसिक वृत्ति भी सब ओर से हटकर भगवान की ओर होनी चाहिये ।

बिना मन लगाये जिस प्रकार योमी का ध्यान आत्मा की शुद्धि नहीं करता उसी प्रकार भगवान् की ओर बिना मन लगाये भक्ति-भाव भी कुछ फलदायक नहीं होता ।

श्री कुमुदचन्द्राचार्य ने कल्याणमंदिर स्तोत्र में यही कहा है 'यस्मात्क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः ?

यानी—बिना भावलगाये बाहरी पूजन, स्तवन आदि करना निष्फल होता है ।

ऐसा होते हुए भी पूजा के दो भेद किये हैं, १—द्रव्यपूजा (अष्ट द्रव्यों द्वारा, शारीरिक क्रिया-नमस्कार, धोक देना आदि से, वाचनिक क्रिया—स्तुति पढ़ना आदि), २—भावपूजा (अष्ट द्रव्यों के बिना—अपने मानसिक भावों से पूजा करना) ।

इनमें यद्यपि भावपूजा मुख्य है किन्तु वह सबके लिये नहीं है ।

द्रव्यपूजा में पुजारी अपने मन, वचन, काय को भगवान् की ओर लगाकर आठ द्रव्यों को क्रम से चढ़ाता-हुआ पूजन करता है । आठ द्रव्यों के सहारे पुजारी के योग अपने पूज्य भगवान् की ओर लगे रहते हैं । किन्तु आरम्भ-परिग्रह-त्यागी श्रावक (आठवीं, नौवीं, दशवीं, ग्यारहवीं प्रतिमाधारक) तथा मुनि जो कि पूजन के अष्ट द्रव्य तैयार नहीं कर सकते—वे भावपूजा किया करते हैं अर्थात् अपने भक्तियुक्त परिणामों के द्वारा बिना जल-आदि-द्रव्य चढ़ाये भगवान् का पूजन करते हैं ।

अपने वचनों से गुणगान करना, हाथ जोड़कर शिर झुकाकर नमस्कार करना भी पूजा का ही एक प्रकार है । अतः जो गृहस्थ रोग, सूतक, पातक आदि के कारणवश पूजन सामग्री नहीं चढ़ा सकता, भगवान् का अभिषेक नहीं कर सकता वह भी अष्ट-द्रव्यों के बिना मन, वचन, काय से पूजा (स्तवक, नमस्कार आदि)

करे। योगों की अपेक्षा मानसिक पूजा को भावपूजा और वचन, शरीर द्वारा की गई पूजा को भी द्रव्यपूजा कहते हैं। द्रव्यपूजाका प्रधान लक्ष्य अष्टद्रव्यों द्वारा पूजा करना है। घर से जो लौंग, चावल आदि दो एक द्रव्य ले जाकर भगवान के आगे चढ़ाते हैं यह भी द्रव्यपूजा का एक प्रकार है।

पूजन करते समय पूजा के छन्दों को अच्छे ताल, स्वर, बाजे के साथ बोलना चाहिये जिससे दूसरे सुनने वाले व्यक्तियों का मन भी उस ओर आकर्षित हो। मुलतान में अष्टाह्निका, दश-लक्षण, दिवाली आदि पर्वों के समय पूजा ऐसे सम्मिलित मधुर स्वर, ताल से हारमोनियम, मृदंग के साथ पढ़ी जाती थी जिसको सुनने के लिये अजैन जनता भी आकर्षित होकर बिना बुलाये आ जाती थी और पूजन का एक एक अक्षर स्पष्ट सुन, समझ पड़ता था। इसी तरह का आयोजन सब जगह होना चाहिये।

भगवान का अभिषेक तीर्थंकर के जन्मकल्याणक के अभिषेक की प्रतिकृति (नकल) नहीं है जैसा कि कुछ भाई समझते हैं और इसी कारण उस समय वे जन्मकल्याणक वाला मंगल—“सहस्र अठोत्तर कलशा प्रभु के शिर ढरे। पुनि शृङ्गार प्रमुख आचार सबै करे” इत्यादि पढ़ते हैं। हम अर्हन्त प्रतिमा का पूजन करते हैं और अभिषेक पूजन का पहला अंग बतलाया गया है, अतः उस समय अभिषेक पाठ पढ़ना चाहिये जो कि नित्यनियम-पूजा तथा सहस्रनाम पाठ से पहले २५ वें पृष्ठ पर दिया गया है।

यहाँ एक बात और ध्यान रखनी चाहिये कि पूजनार्थी जिसकी पूजा करना चाहता है वह पदार्थ उसके सामने हो या न हो किन्तु पुजारी अपनी उत्कट पवित्र भावना से अपने पूज्य देव को अपने सामने विराजा हुआ प्रत्यक्ष देखता है। इसी नियम के अनुसार वद्यपि भगवान ऋषभदेव आदि पूज्य देव हमसे बहुत

दूर सिद्धालय में हैं किन्तु हम तो अपनी पवित्र पूजन की भावना से पूजन करते समय अपने सामने ठौने पर विराजा हुआ ऐसा देखते हैं जैसे कि साक्षात् उनके समवशरख में खड़े हुए उनका दर्शन पूजन कर रहे हों। जिन लोगों की दृष्टि (नजर) में प्रतिमा एक पत्थर है उनको फल भी पत्थर की भावना का मिलता है और जिनकी दृष्टि में वह प्रतिमा भगवान की समवशरखवाली जैसी ही मूर्ति है उनको अपनी भावना के अनुसार भगवान की भक्ति का फल मिलता है।

स्वास्थ्य ठीक रहते हुए, समय निकालकर प्रत्येक भाई को पूजा अवश्य करनी चाहिये, या पूजा करनेवालों के साथ मिलकर पूजन पढ़वाना चाहिये।

पूज्य देव के लिये समपण की हुई सामग्री को गृहस्थों को न तो बेचना चाहिये, न अपने काम में लेना चाहिये, या तो उसे अग्नि में जला देवे अथवा जल में बहा देवे। चावल नारियल के चटके आदि जो वस्तु फिर बिक्री में न आ सके, केवल खाने के काम ही आ सकें उन चीजों को मंदिर के नौकर माली आदि या भिखारियों को भी दे सकते हैं। साराश यह है कि अपने काम में न लेते हुए उस चढ़ाई हुई सामग्री का जैसा उचित उपयोग प्रतीत हो वेंसा करना चाहिये।

मंदिर एक धर्मसाधन का पवित्र स्थान है अतः जब तक मंदिर में रहें धर्मसाधनसम्बन्धी कार्य—दर्शन, पूजन, सामायिक, स्वाध्याय, धर्मचर्चा आदि—ही करते रहे। उसके सिवाय घर-गृहस्थी की चर्चा, किसी की निन्दा, प्रशंसा, खेल, बिसबाद (झगड़ा) आदि कार्य न करने चाहिये, क्योंकि पवित्र स्थान में ऐसे काम करने से महान पाप का बन्ध होता है।

संस्कृत मंदिरजी में असत्यभाषण भी न करना चाहिये। एवं-
हिंसा, चोरी, मैथुन आदि भिन्न पाप मंदिर की सीमा में कदापि
न होने चाहिये। जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान नहीं रखते वे
बर्बाद हो जाते हैं।

इसी प्रकार मंदिर की द्रव्य को पवित्र धार्मिक घोड़े समझ
कर उसको पूर्ण सुरक्षित रखना चाहिये और उसका हिसाब
पंचायत को बताते रहना चाहिये।

आज कल केशर के नाम पर नकली अशुद्ध केशर मिलने लगी
है ऐसी दशा में केशर के स्थान पर हारसिगार के फूल भी काम
में लाये जा सकते हैं।

इस पूजन ग्रन्थ के सम्पादन का कार्य मुझे दिया गया था
मैंने यथाशक्ति इसका निर्वाह किया है। पूजन विधान के जो मैंने
५२ पृष्ठ लिखे हैं उसमें मैंने अपनी समझ के अनुसार पूजन दर्शन,
अभिषेक आदि करने का संचित ढंग लिखा है मैं क्रियाकण्ड का
मर्मज्ञ विद्वान नहीं अतः उसमें जिन महानुभावों को जो त्रुटि जान
पड़े मुझे सूचित करने की कृपा करें।

पुस्तक छपाकर तैयार करने की शीघ्रता थी और पूजन की
यथेष्ट प्रतियां मौजूद नहीं अतः कुछ स्थल ऐसे रह गये हैं जिनका
सन्तोषजनक संशोधन नहीं हो सका, कुछ कवियों की बनाई कुछ
ऐसी भाषा पूजायें हैं जिनमें समर्पण मंत्र (ॐ ह्रीं) अपनी हिन्दी
भाषा और संस्कृत भाषा की खिचड़ी बनाकर लिखे हैं मैंने
उसको वैसा ही रहने दिया है। प्रक संशोधन में सावधान रहा
हूँ किन्तु देवनागरी लिपि, कलकतिया टाईप (जिसकी अनेक मात्राएँ
पोली होने के कारण मशीन पर टूट जाया करती हैं) का संशोधन
कैसी टेढ़ी खीर है इसको भुक्तभोगी अच्छी तरह जानते हैं। फिर

‘समय की कमी, अन्य किसी व्यक्ति का सहारा न मिलना’ ऐसी कठिनाई हैं जिनसे प्रूफसंरोधकमें त्रुटि रहना संभव है। फिर भी अपने कर्तव्य में प्रमादी नहीं रहा। पहली छपी हुई पूजन पुस्तकों में जो त्रुटियां मुझे प्रतीत हुईं उन्हें निकाल दिशा है। संस्कृत अकृत्रिम चैत्यालयों के अर्घों को तथा संस्कृत रत्नत्रय पूजा को पाठकमहानुभाव देखें।

ग्रन्थमाला की समिति ने मुझे कुछ सेवा सौंपी तथा श्रीमान् पं० हीरालाल जी कौशल न्यायतीर्थ और डा० फूलचन्द जी ने मुझे सहयोग दिया एतदर्थ मैं उनका आभारी हूँ।

निवेदक—

अजितकुमार जैन शास्त्री

दो शब्द

'देवपूजा' गृहस्थ का सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है तथा इस के पश्चात् ही अन्य गृहकार्यों में लगने पर गृहस्थ-जीवन की सफलता बतलाई है। मन्दिरों में प्रातः काल से ही जाकर दर्शन पूजनादि की परिपाटी प्रचलित है तथा लोग जाकर अत्यन्त भक्ति भाव से इन दैनिक कर्तव्यों को करते हैं। समय के परिवर्तन के अनुसार कुछ लोगों में धार्मिक शिथिलता भी स्थान करने लगी है तथा कुछ लोग चाहते हुए भी प्रज्ञाल पूजनादि न कर सिर्फ भगवान के दर्शन करके ही सन्तोष कर लेते हैं क्योंकि उनको उसकी विधि का यथावत ज्ञान नहीं है। इस विषय में श्री० महा-वीरप्रसाद जी बी० एससी. सुपरिटेन्डेन्ट कृषि मंत्रालय भारत सरकार देहली आदि कुछ मित्रों का यह विचार हुआ कि पूजन विषयक एक ऐसा ग्रन्थ तैयार कराया जाय जिस में आवश्यक सभी पूजन विधानों के संग्रह के साथ ही प्रारम्भ से लेकर अन्त तक की समस्त पूजन विधि का भी अच्छा विवेचन हो इस विषय की जिस किसी से भी चर्चा हुई उन सभी सज्जनों ने इसकी आवश्यकता अनुभव कर सिर्फ इस विचार का समर्थन ही नहीं किया बल्कि हर प्रकार ये सहयोग देने की भी इच्छा प्रकट की। फलतः इस विषय को ग्रन्थमाला की प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष उपस्थित किया गया जिसने सहर्ष इसको स्वीकार कर लिया।

सर्वप्रथम ४०० पृष्ठ का ग्रन्थ तैयार करने का विचार निश्चित हुआ जिसके लिये दुर्लभ पूजाओं के संग्रह, पूजन विधि आदि लिखने तथा सम्पादन का कार्य श्रीमान् पं० अजितकुमार जी शास्त्री को सौंपा गया जिसे उन्होंने कृपापूर्वक सहर्ष स्वीकार कर

लिया। उस कार्य को आपने अत्यन्त सुन्दरता से सम्पन्न किया है। ज्यों २ ग्रंथ छपता गया उसको बढ़ा बनाने का विचार भी बढ़ता गया तथा फलस्वरूप विचार से दुगुने आकार अथवा ८०० से भी अधिक पृष्ठों के रूप में यह ग्रन्थ आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इसके लिये परिश्रम को हार्दिक धन्यवाद है।

ग्रन्थमाला की स्थिति को देखते हुये इतने बड़े कार्य का प्रारम्भ करना अत्यन्त कठिन कार्य था, परन्तु ग्रन्थमाला समिति के उत्साह तथा मित्र वर्ग के सहयोग से आर्थिक सहायता के लिये कार्य चालू किया। श्री महावीरप्रसादजी, दयादीपकप्रकाशजी, सुजानसिंहजी, प्रेमचन्दजी, राजेन्द्रप्रसादजी, विशेशरनाथजी आदि सज्जनों ने इस कार्य में जो परिश्रम किया तथा समय लगा कर आर्थिक सहायता संग्रह कराने में पूर्ण सहयोग दिया, उसी से यह कार्य इतने अच्छे रूप में सम्पन्न हो सका। मुझे प्रसन्नता है कि इस पवित्र कार्य के लिये हम लोगों ने जिन से भी चर्चा की उन महानुभावों ने सहर्ष हमें सहायता प्रदान की है। इसके लिये सभी सज्जनों को हार्दिक धन्यवाद है।

श्रीमान् पं० हीरालाल जी 'कौशल' की अमूल्य सम्मति तथा देखभाल ने हमें जो सहायता दी है वह स्मरणीय और प्रशंसनीय है। वे ग्रन्थमाला के एक प्रमुख अंग हैं फिर भी मैं उनको हार्दिक धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता।

श्रीमान् ला० राजेन्द्रप्रसाद जी जेन बैंकर्स नई देहली ने इस ग्रन्थ में हमें कुछ बहुमूल्य परामर्श देने की कृपा की है इसके लिये उनको हार्दिक धन्यवाद है।

वर्तमान मंहगाई के समय में जब कि प्रत्येक वस्तु के लिये कई गुना खर्च करना पड़ता है तथा कागज का बाजार में अभाव

सा-झे रद्दा है इतने बड़े ग्रन्थ का प्रकाशित होना अत्यन्त कठिन कार्य था इस कार्य में जिन २ महानुभावों ने हमें जिस किसी रूप में भी सहायता दी है मैं ग्रन्थमाला की ओर से उनका अस्वन्त आभारी हूँ ।

इस ग्रन्थमाला का प्रधान उद्देश यह है कि जैन, अजैन जनता में जैन धर्म के पवित्र व हितकर सिद्धान्तों का प्रचार किया जाय । जिससे जनता में फैली हुई अशान्ति व चोभ दूर होकर सुख शान्ति का प्रसार हो ।

इसके लिये तन, मन, धन सभी की आवश्यकता होती है । मानसिक शक्ति विद्वानों से चाहिये कि वे उपयोगी धार्मिक साहित्य सृजन करके देने की कृपा करें । आर्थिक सहायता उदार दानी महानुभावों से चाहिये जिससे कि उस साहित्य का प्रकाशन व प्रचार हो सके ।

जो महानुभाव जिस रूप में भी ग्रन्थमाला की सहायता करेंगे, सम्मान से उनकी सहायता का स्वागत किया जायगा ।

निवेदक

पहाड़ी धीरज, देहली

(डा०) फूलचन्द जैन,

मंत्री, जैन सिद्धान्त ग्रन्थमाला

विषय-सूची

प्रकाशकीय वक्तव्य	(ग)	विभिन्न पूजाओं का संक्षिप्त	
सम्पादकीय वक्तव्य	१	वर्णन	१५
मन्त्र वक्तव्य	८	षोडश कारण पूजा	१७
पूजन विधान		पंचमेरु पूजा	१८
आत्मा के परिणामन	१७	नन्दीश्वरद्वीप पूजा	१६
प्रतिमा का भभाव	१६	दशलक्षण पूजा	६०
प्रतिमा पूजा पर आक्षेप	२१	रत्नत्रय पूजा	६२
प्रतिमा का स्वरूप	२७	बाहुवली पूजा	६२
प्रतिमा पूज्य कथ होती है	२८	रत्नाबधन या श्रावणीपर्व	६३
अप्रवाद	२८	दीपावली पूजन	६४
पूजन का अर्थ	२६	गुणावा क्षेत्र पूजा	६४
परमेष्ठियों का क्रम	३०	पटनाक्षेत्र	६५
भक्ति और सिद्धान्त	३२	जम्बू स्वामी पूजा	६५
मन्दिर में आने का ढंग	३४	कलिकुण्ड पारश्वनाथ पूजा	६५
गन्धोदक नाम क्यों हुआ	३७	श्रुत पंचमी	६५
सामायिक क्या वस्तु है	३७	शेष पर्व	६७
पूजनार्थी	४०	स्तुति संग्रह	
पूजन के अष्ट द्रव्य	४२	बुधजन कृत स्तुति	६६
तेरहपथ और बीसपथ	४२	दौलतराम कृत स्तुति	६६
पूजन की सामग्री	४७	पारश्वनाथ स्तुति	७१
अभिषेक	४८	पंच मंगल	७३
पूजा का प्रारम्भ	५०	अभिषेक व्रत	८२
चन्दोषा	५१	जिनसहस्रनाम स्तोत्र	८५
आठद्रव्य समर्पण करने		स्तुति	६५
(चढ़ाने) का अभिप्राय :	५३		

सिद्धचक्र मन्त्र (लघु)	६४
अष्टान्तिका व्रत की जापें	६५
श्री षोडशकारणव्रत की जापें	६५
श्री दशलशण व्रत की जापें	६६
श्री पंचमेरुव्रत की जापें	६६
श्री रत्नत्रयव्रत की जापें	६६
रविव्रत जाप मंत्र	६६
अनन्त चतुर्दशी मंत्र	६६

“नित्य नियम पूजा”

(हिन्दी अनुवाद सहित)

१ स्वस्ति मंगल विधान	१
२ देवशास्त्र गुरु पूजा	१६
३ विद्यमान तीर्थङ्कर	४७
४ अकृत्रिम चैत्यालयों के अर्घ	५२
५ सिद्ध पूजा (द्रव्याष्टक)	६०
६ सिद्ध पूजा (भावाष्टक)	६६
७ पंचपरमेष्ठि जयमाला	७८
८ शांति पाठ	८२
९ संस्कृत स्तुति	८६
१० विसर्जन	८८

भाषा नित्यनियम पूजा

११ स्वस्ति मंगल विधान	९०
१२ देव शास्त्र गुरु पूजा	९४
१३ बीस तीर्थङ्कर पूजा	१००

१४ तीनलोकसंबंधी अकृ- त्रिम चैत्यालय पूजा	१०४
१५ सिद्ध चक्र पूजा	११६
१६ समुच्चय चौबीसी	१२५
१७ श्री आदिनाथ पूजा	१२६
१८ श्री शांतिनाथ पूजा (वस्तावर)	१३५
१९ श्री पारश्वनाथ पूजा (वस्तावर)	१४०
२० शान्तिपाठ भाषा	१४७
२१ भाषा स्तुतिपाठ (तुम तरन तारन)	१४६
२२ विसर्जन	१४८

नैमित्तिक पूजायें

वर्तमान चौबीसी पूजा

(कविवर वृन्दावन कृत)

२३ नामावली स्तोत्र	१५२
२४ श्री आदिनाथ पूजा	१५४
२५ श्री अजितनाथ पूजा	१५६
२६ श्री सभवाथ पूजा	१६५
२७ श्री अभिनंदन पूजा	१७०
२८ सुमतिनाथ पूजा	१७८
२९ पद्मप्रभ जिन पूजा	१८३
३० सुपार्ष्वनाथ पूजा	१८६
३१ श्री चन्द्रप्रभ पूजा	१९६

- ३२ श्रीपुष्पदन्त जिन पूजा २०२
 ३३ श्री शीतलनाथ पूजा २०८
 ३४ श्री श्रेयांसनाथ पूजा २१४
 ३५ श्री वासुपूज्य पूजा २१६
 ३६ श्री विमलनाथ जिन
 पूजा २२४
 ३७ श्री अनन्तनाथ पूजा २३०
 ३८ श्री धमेनाथ पूजा २६५
 ३९ श्री शान्तिनाथ पूजा २४१
 ४० श्री कंथुनाथ पूजा २४६
 ४१ श्री अरनाथ जिनपूजा २५२
 ४२ श्री मङ्गिनाथ पूजा २५७
 ४३ श्री मुनिसुव्रत पूजा २६३
 ४४ श्री नमिनाथ पूजा २६६
 ४५ श्री नोमनाथ पूजा २७४
 ४६ श्री पार्वनाथ पूजा २७६
 ४७ श्री वद्धनाथ पूजा २८५
 ४८ समुच्चय अर्घ्य २६१
 ४९ श्रीतीसचौबीसी पूजा २६३
 ५० पंच बालयति तीर्थङ्कर
 पूजा ३०१
 ५१ श्री गोम्भटेश्वर
 (बाहुर्बाल) पूजा ३०६
 ५२ श्री कलिकृष्ण पार्व-
 नाथ पूजा (संस्कृत) ३१३
 ५३ श्री कालकंड पार्व-
 नाथ पूजा (भाषा) ३२२

- ५४ नव ग्रह अरिष्ट-
 निवारक विधान ३३०
 ५५ सूर्यग्रह अरिष्ट निवा-
 रक पद्मप्रभ पूजा ३३५
 ५६ चन्द्रअरिष्ट निवारक
 श्री चंद्रप्रभ पूजा ३४०
 ५७ मंगल अरिष्ट निवा-
 रक श्री वासुपूज्य
 पूजा ३४४
 ५८ बुधग्रह अरिष्ट
 निवारक पूजा ३४८
 ५९ गुरु अरिष्ट निवारक
 श्री अष्ट जिन पूजा ३५३
 ६० शुक्र अरिष्ट निवा-
 रक श्री पुष्य दत्त पूजा ३५७
 ६१ शनि अरिष्ट निवा-
 रक श्री मुनिसुव्रत
 पूजा ३६१
 ६२ राहु अरिष्ट निवा-
 रक नेमिनाथ पूजा ३६७
 ६३ केतु अरिष्ट निवारक
 श्री मल्लि, पार्वनाथ
 पूजा ३७२
 ६४ नवग्रह शांति स्तोत्र ३७६
 ६५ (गौतमस्वामी)
 गुणावा पूजा ३७७

६६ जम्बूस्वामी पूजा (मथुरा चौरासी)	३८२
६७ निर्वाण क्षेत्र पूजा	३८८
६८ श्री ऋषि मण्डल पूजा भाषा	३९२
६९ वत्तवार्थ सूत्र पूजा	४०४
७० सप्तऋषि पूजा	४०८
पर्व पूजायें	
७१ देव पूजा	४१४
७२ सरस्वती पूजा	४१६
७३ गुरु पूजा	४२३
७४ सहस्र कूट जिन वैत्यालय पूजा	४२८
७५ षोडश कारण पूजा संस्कृत	४३३
७६ षोडश कारण पूजा भाषा	४३८
७७ पंचमेरु समुच्चय पूजा संस्कृत	४४२
७८ पंचमेरु पूजा भाषा	४४६
७९ नन्दीश्वर पूजा (संस्कृत)	४५०
८० श्री नन्दीश्वर द्वीप की भाषा पूजा	४६१
८१ दशलक्षणपूजासंस्कृत	४६६
८२ दशलक्षण धर्म भाषा पूजा	४७६

८३ रत्नत्रय पूजा संस्कृत	४८७
८४ रत्नत्रय पूजा भाषा	४९४
८५ क्षमावली पूजासंस्कृत	४९५
८६ क्षमावली पूजा भाषा	४३०
८७ स्वयम्भूस्तोत्र संस्कृत	५३५
८८ स्वभूयस्तोत्र भाषा	५३८

अर्घावली

८९ समुच्चय अर्घ	५४१
९० सोलहकारणअर्घ(सं०)	५४२
९१ सोलहकारणअर्घ(भा०)	५४२
९२ दशलक्षण अर्घ (सं०)	५४४
९३ दशलक्षण अर्घ(भा०)	५४४
९४ रत्नत्रय अर्घ (सं०)	५४४
९५ रत्नत्रय अर्घ (भाषा)	५४४
९६ पंचमेरु अर्घ भाषा	५४५
९७ नन्दीश्वरद्वीपका अर्घ	५४५
९८ महात्रतोका अर्घ सं०	५४५
९९ जिनवाणीका अर्घभा०	५४५
१०० महामुनियों का अर्घ	५४६
१०१ महा अर्घ (मँदेव श्री अर्हन्त)	५४६
१०२ शातिन्पाठ (शास्त्रोक्त विधि)	५४७
१०३ भजन (हमारे परमेशी आधार)	५४८
१०४ त्रिसर्जन (सम्पूर्णविधि)	५४९

सलूनापर्व पूजा

१०५ श्रीअकम्पाचार्य सप्त- शत मुनि पूजा	५५०
१०६ श्री विष्णुकुमार महामुनि पूजा	५५५
१०७ दीपावली विधान	५६०
१०८ श्री गौतमगणपति पू०	५६१
१०९ निर्वाणकारण भाषा	५६६
११० महावीराष्टक स्तोत्र	५६६
१११ अनन्त व्रत पूजा	५७१
११२ श्री रविव्रत पूजा	५७४

श्री सिद्ध क्षेत्र पूजायें

११३ श्रीनिर्वाणक्षेत्र पूजा	५८०
११४ श्री सम्मेद शिखर पूजा विधान	५६४
११५ पोदनपुर बाहुबलीपू०	६०६
११६ कैलाशगिरि पूजा	६१३
११७ श्रीचंपापुर सिद्धक्षेत्र	६१७
११८ श्रीगिरिनारक्षेत्र पूजा	६२१
१२६ श्रीपावापुर सिद्धक्षेत्र	६२७
१२० श्रीखंडगिरिक्षेत्र पूजा	६३१
१२१ श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्र	६३६
१२२ श्रीसोनागिरि पूजा	६४१

१२३ श्री नयनागिरि (रेसंदीगिरि) पूजा	६४७
१२४ श्री द्रोणागिरि पूजा	६५१
१२५ श्री शङ्खजय पूजा	६५४
१२६ श्रीतारंगामिरि पूजा	६५६
१२७ श्री पावागढ़ पूजा	४६२
१२८ गज पंथ पूजा	६६५
१२९ श्री तुङ्गीगिरि पूजा	६७१
१३० श्रीकुम्भलगिरी पूजा	६७६
१३१ श्री मुक्तागिरि पूजा	६७६
१३२ श्री सिद्धवर कूट	६८४
१३३ श्री चूलगिरि (बावन गंजा) की पूजा	६८८
१३४ श्रीसेठसुदर्शन पूजा	६६२
१३५ श्रीहस्तिनागपुर क्षेत्र	६६६
१३६ पंचपरमेष्ठीकी आरती	७००
१३७ आरती श्रीजिनराज	७०१
१३८ आरती श्रीमुनिराज	७०१
१३९ चौथी आरती	७०२
१४० निश्चय आरती	७०२
१४१ आरती आत्मा	७०३
१४२ आरती आत्मा	७०३
१४३ आरती श्रीबद्धमान	७०३
१४४ आरती	७०४

पूजन रत्नाकर :



भगवान महावीर

(चाँदन गाँव)

पूजन विधान ।

०६

आत्मा के परिणामन

ब्रह्म तो लोक में अनन्तानन्त प्राणी हैं जिनको जीव, आत्मा आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं (यद्यपि उन शब्दों के नाम में कुछ अन्तर है परन्तु उन सबका वाक्य-अर्थ एक ही है) इस कारण उनके परिणामन (हालत बदलना) भी उतने ही तरह के हैं क्योंकि प्रत्येक आत्माकी पर्याय (दशा) प्रविष्टि स्वतन्त्र रूप से अलग अलग बदलती है। वह बात दूसरी है कि जो आत्माएँ कर्मजाल से मुक्त हो चुकी हैं उन सबका स्वाभाविक परिणामन होता है और नियमानुसार स्वाभाविक परिणामन एक सीखा ही हो सकता है, क्योंकि उसमें भेदभाव डालनेका अन्व कोई कारण नहीं रहता है, इसलिये अनन्तों मुक्त आत्माएँ (जिनको परमात्मा भी कहते हैं) पृथक् पृथक् रूप से अपनी पर्याय बदलती हैं किन्तु उनकी पर्याय एक जैसी हुआ करती है।

परन्तु संसार-चक्र में घूमने वाले प्राणियों में कम बन्ध के कारण अनन्तों भेद है इसी कारण प्रत्येक संसारी जन्म की दशा भिन्न भिन्न होती है प्रायः दूसरे से नहीं मिलती फिर भी मोटे रूप से उनके परिणामनों (पर्यायों-हालतों) को तीन तरह से विभक्त किया गया है।

१-अशुभ, २-शुभ, और ३- शुद्ध

हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, ठगी, अन्याय, अत्याचार, अशुभ प्रेम आदि काम करने में जीवों की अशुभ परिणति होती है। क्योंकि ऐसे कार्य करते समय जीव के विचार, बचन और शरीर की क्रिया शुभ (अच्छी-स्वपरलाभदायक) नहीं होती, अशुभ बानी-स्वराव-हानिकारक होती है।

दया, क्षमा, शान्ति, सत्यभाषण, दान, रक्षा, परोपकार, शंभ राग आदि कार्य शुभ परिणामो के होते हैं क्योंकि ऐसे विचारों, वचनों और शारीरिक क्रिया से अपने आपको तथा अन्य जीवों को सुख शांति मिलती है।

मसर, शरीर, तथा विषय भोगों से विरक्त होकर, समस्त पदार्थों से सब प्रकार के (शुभ तथा अशुभ) राग द्वेष, भाव त्यागकर आत्मध्यान में लीन होना शुद्ध परिणति है। यानी सब अच्छी-बुरी साम्सारिक क्रिया छोड़कर शुद्ध आत्म काय में लगना।

इन तीनों परिणतियों में शुद्ध परिणति सबसे उत्तम है क्योंकि इसी परिणति के द्वारा जीव कमबन्धन में मुक्त होता है किन्तु साधारण जीव जोकि सहसा राग द्वेष भावों से नहीं छूट सकते उनके लिये जगत-हितैषी ऋषियों ने अशुभ राग द्वेष छोड़कर शंभ राग रूप दान, परोपकार, सत्य बालना आदि काम करने का विधान किया है। यानी-जिन कामों के करने में अशुभ परिणाम न होकर शंभ परिणाम हो ऐसे काम करने का उपदेश दिया है।

शुभ परिणामों के लिये अहिंसा, सत्य अचौय ब्रह्मचर्य आदि त्रत आचरण करने का माग बतलाया है जो कि महाव्रतों के रूप में गृहस्थांगी साधु पालते हैं और अगुव्रतों के रूप में गृहस्थ आचरण किया करते हैं। इनके सिवाय वास्यामा की कालिमा घटाने के लिये या शुभ परिणाम उत्पन्न करने के लिये गृहस्था का प्रतिदिन करने के ६ आवश्यक कार्य और भी बतलाये हैं।

देवपूजा गुरुपास्ति. स्वाध्याय. सयमस्तप ।

दान चेत्ति गृहस्थाना षट्कर्माणि दिने दिने ॥

शानी ६-देवपूजा (जिनेन्द्र भगवान का दर्शन, अभिषेक पूर्वक करेना), २-गुरुउपासना (मुनि, पेलक कुल्लक आदि का विनय सत्कार करना, उनका उपदेश सुनना, भक्तिपूर्वक उनकी

आहार उपकरण दान करना आदि) ३-स्वाध्याय (शास्त्र पढ़ना, सुनना, सुनाना आदि), ४-संयम (जीवरक्षा तथा इन्द्रियनिग्रह करना), ५-तप (उपवास, एकेशन, रस त्याग आदि करना), ६-दान (व्रती, तथा दीन दुखी जीवों को भोजन कसना आदि), ये छह कार्य गृहस्थों को प्रतिदिन अवश्य करने चाहिये।

प्रतिमा का प्रभाव

प्रत्येक ससारी नेत्रधारी जीव—वह चाहे मनुष्य हो या पशु छोटा हो या बड़ा, पुरुष हो या स्त्री—अपने नेत्रों के द्वारा प्रायः अपने अरुद्ध बुरे परिणामों को बनाता है। अर्थात् बाहरी चीजें वे चाहे जड हो या चेतन; जीव के विचारों पर अच्छा या बुरा प्रभाव डाला करती हैं।

छोटा सा अबोध बच्चा भी सुन्दर, रंगदार, चमकदार खिलौनों को देखकर प्रसन्न होता है और असुन्दर (बदसूरत) चीजों की ओर देखना भी नहीं चाहता। यदि छोटे बच्चे को हँसते हुए आप चप्पत भी लगाते रहेंगे तो वह हसता खेलता रहेगा और यदि क्रोधभरी दृष्टि से उसको देखेंगे तो बिना मारे भी वह भयभीत हो जावेगा और रोने लगेगा।

कभी कभी भड़िया मनुष्य के बच्चों को उठा ले जाता है और अपने स्थान पर ले जाकर उसे बिठाकर उसे खेलता है उस समय बच्चों यदि हँसता रहता है तो भड़िया उसको नहीं मारता बल्कि भड़िया की माता उसको अपना दूध पिला कर पाल लेती है। (भड़ियों द्वारा पाले गये ऐसे लड़के लड़कियाँ अनेक बार भड़ियों के भित्तों से पाये गये हैं। कुछ पहले बंगाल में २-६ वर्ष की दो लड़कियाँ भड़ियों के से भित्तों पकड़ कर लार्डे गई थी जो कि कुछ दिन बाद मर गईं।)

गभिणी स्त्री यदि मुन्दर, शिञ्जित, सञ्चरित्र वीर पुरुषों के चित्रों का देखती रहे तो उसके गर्भस्थ बच्चे में मुन्दरता, सञ्चरित्रता आदि गुण आ जाते हैं, विषयी पुरुष बैर्या आदि नग्न दुश्चरित्र स्त्रियों के चित्र अपने कमरे में लगाकर उनसे मानसिक व्यवभिचार करते हैं और वीर पुरुष वीरों के चित्र लगाकर अपनी वीरता को बढ़ाने की भावना किया करते हैं। देशभक्त देशभक्तों के चित्रों को अपने घर में सजाकर प्रमन्नता प्राप्त करते हैं।

महाभारत की कथाके अनुसार एकलव्य भील न गुरु द्रोणकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के द्वारा धनुर्गिया सीखी थी और अर्जुन जसी निपुणता प्राप्त की थी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा गर्भ में ग्रहण की थी।

इन सब दृष्टान्तों में यह बात सहज ही समझ में आ जाती है कि बाहरी पदार्थ व चाहे जीते जागते हों या धातु, पत्थर, मिट्टी की मूर्ति हों अथवा कागज, भीत कपड़े आदि पर बने हुए चित्र हों—आंखों द्वारा देखे जाने पर अपने अच्छे बुरे प्रभाव मन पर अंकित करते रहते हैं। यह एक स्वाभाविक नियम है इसको कोई उलटा नहीं कर सकता।

यदि कोई मनुष्य संसार की अशान्ति दूर करके वीतराग (राग, द्वेष, क्रोध, दंभ आदि दुर्भावों से रहित) बनना चाहता है तो उसको निर्बिकार (छोटे बच्चे के समान काम वासनादि से रहित) शान्त धीर, वीतराग की मूर्ति प्रतिमा या चित्र अपने नेत्रों के सामने रखना चाहिये। जिससे उस मूर्ति को देख कर मन में शान्ति, वीतरागता के भाव प्राप्त हो उठें।

इसी वैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार जैनदर्शन में देव मन्दिरो का निर्माण कराकर उस में वीतराग अर्हन्त देवकी मूर्ति विराज-

मान करने का विधान है। जो कि समवसरण की प्रतिकृति (नकल) है।

प्रतिमापूजा पर आक्षेप

कुछ भाई (जैन तथा अजैन) प्रतिमा को पत्थर आदि जड़ पदार्थों की बनी होने के कारण प्रतिमापूजन के इस वैज्ञानिक उपयोगी सिद्धान्त पर आक्षेप करके उसको अनुपयोगी बतलाते हैं। उनका कहना है कि—

१—मूर्ति ज्ञानरहित जड़ है, उसके दर्शन पूजन से हमको कुछ शिक्षा नहीं मिल सकती क्योंकि न वह कुछ बोलती है और न कोई संकेत (इशारा) करती है।

२—पत्थर पत्थर सब एक समान हैं नव पत्थर का मूर्ति को ही क्यों पूजते हो, दूसरे पत्थरों को भी पूजो।

३—मूर्ति जब अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी, चूहे आदि को भी नहीं हटा सकती तब तुम्हारा क्या कल्याण करेगी ?

४—जिस मूर्ति को तुम देव मानकर पूजते हो उसी को दुष्ट विधर्मी लोग तोड़ फोड़ कर तुम्हारे पूज्य देव का अपमान करते हैं। यदि मूर्ति न बनाओ तो धर्मका यह अपमान न हो सके।

५—मन्दिर बनाकर, छत्र, चंवर आदि सामान बनवा कर जो द्रव्य खर्च करते हो यदि उसी द्रव्य से पाठशाला खोलो, कीन दरिद्री जनता का दुख मिटाओ तो द्रव्यका अधिक सदुपयोग हो।

६—जब वीतराग देव को पूजना चाहते हो तो छत्र, चंवर, भामंडल, चंदोवे आदि की सजावट करके राग उत्साहक सामग्री मन्दिर में क्यों संचित करते हो ?

७—मुक्त परमात्मा जब अपमान करने पर अग्रसन्न (नाराज) होकर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते और पूजा, दर्शन से प्रसन्न

हाकर हमारा भला नहीं कर सकते तब उनकी पूजा करना व्यर्थ है उससे कुछ लाभ नहीं ।

इन आक्षेपों का सक्षेप में क्रम से यह उत्तर है—

१—आत्मा पर अच्छा बुरा असर जड़ पदार्थ भी डाला करते हैं । गंदे चित्र हृदय पर गंदगी और अच्छे चित्र अच्छे भाव उत्पन्न करते हैं ।

स्थानकवासी साधुओं का उनके आगम का उपदेश है कि ऐसे स्थान में न ठहरो जहाँ पर बुराया आदि के चित्र हों । क्योंकि वहाँ पर साधु का ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं रह सकता । तथा साधु साबित (पूरा) कला न खाव (क्योंकि उसका आकार पुरुषांग जैसा होना से वह विकार भावका निर्मात्त हो सकता है)

आर्य समाज भाई स्वामी दयानन्द जी सरस्वती व स्वामी श्रद्धानन्द जी आदि के चित्र आर्य समाजी मन्दिर में उच्च स्थान पर टांग कर बड़ी श्रद्धा से उनको देखकर अपना मन हर्षयुक्त करते हैं ।

हैदराबाद में सनातन-धर्मियों के साथ शास्त्रार्थ करते हुए आर्य समाजी विद्वान पं० बुधदेव जी विद्यालंकार ने आर्य समाज की मूर्ति पूजानिषेध का प्रमाण देते हुए सनातनधर्मी विद्वान के अनुरोध पर स्वामी दयानन्द जी के चित्र पर जूता मारा था । इस पर आर्यसमाज ने पं० बुधदेव जी को बहुत फटकार बताया था । क्या यह आर्यसमाज की मूर्ति-पूजा नहीं ?

आचाराग सूत्रआदि आगमग्रन्थ, वेद, कुरान ग्रन्थ भी जड़ पदार्थ हैं वे भी अक्षर, पद, वाक्यों की मूर्तिरूप ही तो हैं उनके हाथ जोड़ना, नमस्कार करना क्या जड़पूजा नहीं है ? वे चित्र वा ग्रन्थ जिस तरह जड़ होकर भी सतमार्ग का उपदेश देने हैं ।

इसी प्रकार मूर्ति यद्यपि जड़ है किन्तु अपनी शकल सूरत में देखने वाले के मन पर अपने अनुरूप प्रभाव डालती है। सिनेमा के जड़ चलचित्रों का प्रभाव मन पर जो पड़ता है उससे तो स्थानकवासी भाई, आर्यसमाजी, मुसलमान आदि कोई भी मूर्तिपूजा-निये एक सम्प्रदाय इनकार नहीं कर सकता।

अतः संसार में कोई भी पंथ या मनुष्य जड़ मूर्ति के असर मानने में अब्बूता नहीं, केवल उनकी मान्यता के ढंगमें अन्तर है।

२—जब कागज कागज सब एक से है तो जिस पर आचाराग सूत्र, ऋग्वेद या कुरान लिखा है वही क्यों आदरणीय (आदर सत्कार—विनय करने योग्य) माना जाता है अन्य कागजों का वह सत्कार क्यों नहीं किया जाता? नोट का कागज अन्य कागजों की अपेक्षा क्यों मूल्यवान माना जाता है? जो बात आपको अन्य कागजों की अपेक्षा अपने धर्मग्रन्थ में या नोट में प्रतीत होती है वैसी ही बात हमको अन्य पत्थरों की अपेक्षा अपनी देवमूर्ति में अनुभव होती है। इसलिये सब पत्थरों को समान समझना गलती है।

३—बीतराग मूर्ति का तो आदर्श यही है कि 'जस समय आत्मध्यान में बैठो तब चाहे जैसे प्रबल, भयानक विघ्न उपद्रव आवे किन्तु तुम उनसे जरा भी विचलित न होओ तब ही बाहुबली, सुकुमाल, गजकुमार, सुकोशल आदि साधुओं के समाज सिद्धि पाओगे। मक्खी बैठने आदि से विचलित हो जाने वाले आत्मसिद्धि नहीं पा सकते।' मूर्ति के इस आदर्श का विचार करो। जड़ मूर्ति से भी हमको धीरता, निश्चलध्यानवृत्ति का पाठ पढ़ना है जो कि हमको वहां से मिलता है यदि अपने ऊपर बैठी हुई मक्खियों आदि को यन्त्रद्वारा उड़ा देने योग्य अणुपाण्डु को बना दिया जाय तो हम उस मूर्ति से निश्चलता, धीरता का

आदर्श पाठ नहीं सीख सकते। बाहुबली जैसे निश्चलध्यानी बनने की शिक्षा हमको वैसी निश्चल बुद्धि दिखाने वाली मूर्ति से ही मिल सकती है।

४—यदि कोई मूर्ख किसी सज्जन साधु का अपमान करे अथवा किसी धर्मग्रन्थ को फाड़ देवे तो उससे वह साधु या ग्रंथ अमान्य या अनुपयोगी नहीं हो जाता। इसी प्रकार अगर कोई दुजन देवमूर्ति का अपमान करता है तो उससे देवप्रतिमा अनुपयोगी नहीं हो जाती। बन्दर अदरख का स्वाद न समझे या भैस वीणा का स्वर न समझे तो उससे अदरख और वीणा की विरोधता नष्ट नहीं हो जाती। यदि कोई मूर्ख शिर पर जूता और पैर में मुकुट बांध ले, या क्रीवा उड़ाने के लिये बहुमूल्य रत्नको समुद्र में फेक दे तो उस मुकुट, रत्न का मूल्य कम नहीं हा जाता और न उस जूते का मूल्य बढ़ जाता है ऐसी ही बात देव मूर्ति के विषय में है।

५—अपने संचित धन को अपने विषय भागों में खर्च करने की अपेक्षा अन्तमकल्याण के अभिलाषी असंख्य स्त्री पुरुषों के धर्मसाधन के लिये जिन-मन्दिर तथा उसके अन्य सामान को बनाने में खर्च करना बहुत उत्तम और उपयोगी है जब तक वह मन्दिर रहेगा लोग उससे लाभ लेते रहेंगे। विद्याप्रचार, दया-पालन आदि कार्यों में भी द्रव्य खर्च करना चाहिये किन्तु मन्दिर बनाकर धर्मसाधन का पथ निर्माण करना भी बहुत उपयोगी है। जिस व्यक्ति को जिस कर्म की अधिक उपयोगिता प्रतीत होती है वह उसी काम में अपना द्रव्य खर्च करता है। ऐसा करने से यदि वह दूसरे काम में खर्च नहीं कर पाता तो लोक कल्याण के लिये किया गया उसका वह काम व्यर्थ नहीं हो जाता। मन्दिर बनवाना स्वार्थ साधन के लिये नहीं किन्तु उसमें अर्थव्यगुणो परोपकार

कं लिये है, उस में आनं बालं लोम दया, क्षमा, शान्ति, दान आदि सदाचार का तब तक पाठ पढ़कर बाहर निकलेंगे जब तक वह मन्दिर रहेगा। अतः पांशुवां आशुप निराधार है।

६—मन्दिर का निर्माण समवशरण कं अनुकरण रूप है। समवशरण का सौन्दर्य दिव्य (देव कृत) रचना का परिणाम है अतः वहां पर जिस तरह रत्न सुवर्णमय कोट, स्तूप, मानस्तम्भ सिंहासन, चंवर, छत्र, भामंडल आदि विभूति होती है, वैसी विभूति वाली रचना तो मनुष्यों द्वारा बनाये गये मन्दिर में आ नहीं सकती किन्तु फिर भी जितनी सुन्दरता लाइ जा सकती है मन्दिर में लाई जाती है।

जिस प्रकार समवशरण में मनोहारिणी विभूति कं रहते हुए भी श्री अर्हन्त भगवान सबसे निर्लिप्त रहते हैं, सिंहासन से चार अंगुल ऊपर रहते हैं उनका वह रूप वीतरागता का प्रतीक है और आदर्श है इस बात का कि संसार की सुन्दर विभूतियां वीर स्वस्थ, वीतराग, वीर आत्मा को रंचमात्र भी विचलित नहीं कर सकती।

यही बात मन्दिर में पाइ जाती है छत्र, चंवर, सिंहासन आदि विभूति के रहते हुए भी पूज्य, दर्शनीय अर्हन्त प्रतिमा सब से अलिप्त अपने वीतराग रूप में विराजमान है और अपनी आकृति से यह मौन उपदेश देती है कि सांसारिक विभूति, आध्यात्मिक विभूति—वीतरागता की तुलना में हेब एव हेय है, शान्ति, निश्चलता, निराकुलता प्राप्त करने के लिये संसार की जड़माया छोड़ना आवश्यक है। अतः मन्दिर की सुन्दरता रचना किसी विशेष उद्देश्य को लेकर है—वह राग बढ़ाने के लिये नहीं बल्कि रागभाव घटाने के लिये है। वीतरागता तक पहुंचाने का एक साधन है।

७—संसार के प्रायः समस्त धर्मों का अभीष्ट उद्देश सासारिक सुख-राज्य, धन, स्वर्ग आदि-प्राप्त करना है। किन्तु जैन धर्म का उद्देश सासारिक विभूति को छोड़ कर वीतराग पद प्राप्त करना है। तदनुसार जैनधर्मानुयायियों का उपास्य देव भी 'वीतराग' है, उनका गुरु भी संसार, शरीर और भोगों से विरक्त नग्न दिगम्बर होता है।

जो अपनी प्रशंसा सुनकर किसी पर प्रसन्न नहीं होता और न अपनी निन्दा करने वाले पर अप्रसन्न होता है। जिसका आत्मा राग, द्वेष, मान, दम्भ, ईर्ष्या, लोभ, आशा आदि समस्त विकार मैलों से सवथा धुलकर निर्मल हो चुका है उसको वीतराग कहते हैं। ऐसा वीतराग न अपनी पूजा उपासना, प्रशंसा कराना चाहता है और न ऐसा करने वाले से प्रसन्न होता है। तथा अपने निन्दक प्राणी पर उसको क्रोध भी नहीं आता। अतः यह बात बिलकुल ठीक है कि अहन्त भगवान की पूजा दर्शन उपासना करने से उपासना करने वालों को उनकी कोई कृपा प्राप्त नहीं होती किन्तु वीतराग की पूजा उपासना करते समय पुजारी के मन, वचन, काय में क्रोध, मान, माया, दम्भ, ईर्ष्या आदि दुर्भाव नहीं होते, शुभराग होता है इस कारण उस भक्त पुजारी को अनायास-वीतराग देव के प्रसन्न न होने पर भी-शुभ कर्म का उपार्जन होता है जोकि वर्तमान तथा भविष्य में उस पुजारी का सुख शान्ति प्रदान करता है, वीतराग देव की शान्त निर्विकार मुद्रा का दर्शन, स्मरण, गुणकीर्तन करने से आत्मा में राग द्वेष आदि विकारों का दमन शमन होता है इस कारण आत्मा में स्वच्छता आती है, दुर्भावनाएँ लुप्त होती हैं। इस ढंग से आत्म-उन्नति में वीतराग भगवान निमित्त हो जाते हैं। अतः वीतराग देवकी उपासना निष्कल नहीं होती। जिस तरह पेड़ किसी को छाया

देने की इच्छा नहीं रखता है फिर भी जो कोई उसके नीचे बैठता है उसको छाया मिल ही जाती है। इसी प्रकार वीतराग देव किसी को सुख सामग्री नहीं देना चाहते (क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है) फिर भी उनकी उपासना से नेत्र और मन के द्वारा शुभ प्रवृत्ति होने से सुख का कारण पुण्यबन्ध हो ही जाता है।

इस प्रकार अर्हन्त भगवान की प्रतिमा की भक्ति, पूजा करने में जो शंकाएँ की जाती हैं, वे सब व्यर्थ हैं।

प्रतिमा का स्वरूप

तीर्थङ्कर का शरीर समचतुरस्र संस्थान (शरीर के समस्त अंग उपांग ठोक नापवाले) का होता है। तदनुसार उनकी प्रतिमा भी समचतुरस्र रूप बनाई जाती है। यदि शिल्पकार (सिलावट) प्रतिमा का कोई अंग उपांग कम या अधिक नापवाला बना दे तो वह प्रतिमा अमान्य होती है।

इसके सिवाय उस प्रतिमा में सौम्यता, शान्तिता, प्रसन्नता, निर्भयता की छटा होनी चाहिये। वक्रता, क्रूरता आदि की भलक प्रतिमा में न होनी चाहिये। किसी वस्त्र, आभूषण का चिह्न न होना चाहिये। प्रतिष्ठाशास्त्र में जो निषिद्ध दोष बतलाये गये हैं वे उसमें न होने चाहिये। जिसके दर्शन करने से मन में शान्ति, वीतरागताका स्मृत खुल जावे वह आभा प्रतिमामें होनी चाहिये।

अर्हन्त की प्रतिमा आठ प्रातिहाययुक्त होती है, अतः छत्र आदि सहित अर्हन्त प्रतिमा का निर्माण होना चाहिये।

प्रतिमा का लक्षण प्रतिष्ठासारोद्धारमें भी ऐसा ही लिखा है—

शान्तप्रसन्नमध्यस्थनासामस्थाविकारदृक् ।

सम्पूर्णभावरूपानुविद्वांगं लक्षणान्वितम् ॥ ६१ ॥

रौद्रादिदोषनिमुक्तं प्रातःकार्याङ्ग्यत्तयुक् ।
निर्माण्य विधिना पीठे जिनचिम्बं निवेशयेत् ॥६२॥

इन श्लोकों का अभिप्राय ऊपर लिखे अनुसार ही है ।

प्रतिमा पूज्य कब होती है

प्रतिमा बन जाने पर भी तब तक पूज्य वह नहीं होती जब तक कि उसकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा न हो जावे । जो प्रतिष्ठाचाय प्रतिष्ठाविधि का अच्छा जानकार हो उसके द्वारा ठीक मुहूर्त में प्रतिष्ठाशास्त्र के अनुसार ठीक विधान से प्रतिष्ठा होने के बाद ही प्रतिमा पूजा करने योग्य होती है । प्रतिष्ठा होने से पहले वह पूज्य नहीं होती । जैसे कि ठीक विधि से जब तक राजअभिषेक न हो, राजगद्दी न मिले तब तक राजपुत्र राजा नहीं माना जाता । इसलिये अप्रतिष्ठित मूर्ति को नमस्कार, विनय, पूजन नहीं करना चाहिये ।

इसी तरह चित्रों में अंकित, दीवालों पर बनी हुई अर्हन्त की, साधु, आचार्य आदि की तस्वीरों को नमस्कार आदि करना भी उचित नहीं । उनको उच्चस्थान में रखना, उनका अपमान, अविनय न होने देना इत्यादि उपचार विनय तो करना चाहिये किन्तु अर्हन्त प्रतिमा के समान उनको पूज्य समझकर नमस्कार आदि न करना चाहिये ।

अपवाद

कोई अप्रतिष्ठित प्रतिमा भी यदि बहुत समय से पुजती चली आ रही हो तो वह भी प्रतिष्ठित प्रतिमा के समान पूज्य हो जाती है ।

वेदी, चरणपादुका, मंदिर की भी प्रतिष्ठा होती है अतः विधि अनुसार वेदी की प्रतिष्ठा कराकर ही उसेमें प्रतिमा विराज-

मान करनी चाहिये। वेदी बनवाकर उसको अधिक समय तक खाली नहीं रखना चाहिये। बानी प्रतिष्ठा कराके प्रतिमा विराजमान करने में अधिक दिन न लगाने चाहिये।

वेदी का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिये। यदि कदाचित् ऐसा किसी स्थान पर न हो सके तो वहाँ चतुर्मुख प्रतिमा विराजमान करके ब्रह्म दोष निकाला जा सकता है। मंदिर का द्वार पूव या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिये।

वेदी के ऊपर शिखर होना चाहिये और शिखर पर कलश (सुवर्ण या पाषाण के) तथा ध्वजा होनी चाहिये।

शिखर में चारों ओर प्रतिमाओं का रखना भी बहुत उपयोगी रहता है जिनका दर्शन मंदिर के बाहर से भी हो सके जिससे मंदिर में भीतर न जा सकने वाला भक्त व्यक्ति भी उनका दर्शन कर सके। जहा तक हो मंदिर के बाहर मानस्तम्भ भी बनाना चाहिये जिसमें चारों ओर प्रतिमाएँ हों जिनका बाहर से ही दर्शन किया जा सके।

पूजन का अर्थ

आदरणीय व्यक्ति का उसके योग्य आदर सत्कार करना पूजा या पूजन कहा जाता है। तदनुसार माता पिता व शिक्षा गुरु, बड़े भाई आदि का भिन्न भिन्न प्रकार से आदर सत्कार हुआ करता है। धर्म-गुरु मुनि आदि की पूजा उससे भिन्न प्रकार से होती है। विद्यागुरु की पूजा करते समय उनको बस, सुवस्त्र फल आदि भी भेंट किये जा सकते हैं किन्तु दीक्षागुरु या धर्मगुरु धन सम्पत्ति वस्त्र आदि के त्वांगी होते हैं अतः उनकी पूजा करते समय वैसी वस्तुओं को भेंट नहीं किया जाता।

परमेष्ठी

आदरणीय या पूज्य व्यक्तियों में सबसे अधिक पूज्य पात्र परमेष्ठी होते हैं (परमे पदे तिष्ठति इति परमेष्ठी) उनके प्रसिद्ध नाम अहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु हैं। इन पात्रों को मनुष्य, राजा, देव, इन्द्र आदि बड़े से बड़े सासारिक व्यक्ति भी पूजते हैं। अतः सबसे अधिक आदरणीय होने से इन पात्रों को 'परमेष्ठी' कहते हैं।

परमेष्ठियों का क्रम

इन पात्रों परमेष्ठियों में आचार्य, उपाध्याय, साधु गुरु कहलाते हैं। गृहस्थवर्ग इनसे धार्मिक शिक्षा, दीक्षा, प्रहण करता है। मुनिसंघ के व्यवस्थापक या शासक होने के कारण आचार्य का पद गुरुवर्ग में सबसे ऊँचा है। अपने स्वाध्याय ध्यान आदि आत्महित-उपयोगी समय को जनकल्याण (मुनिसंघ व्यवस्था करने, शिक्षा, दीक्षा प्रायश्चित्त आदि देने रूप) के लिये लगाते हैं जिससे सध में धमाचरण ठीक चलता रहता है। अतः आचार्य का पद मुनियों में सबसे ऊँचा है।

आचार्य की आज्ञानुसार अन्य साधुओं को शिक्षा देने वाले 'उपाध्याय' होते हैं उनका त्याग आचार्य की अपेक्षा कम और अन्य मुनियों की अपेक्षा अधिक है। अतः उपाध्याय को साधु से ऊँचा तथा आचार्य से नीचे रक्खा गया है।

आचार्य, उपाध्याय के सिवाय शेष समस्त मुनि किसी व्यवस्था सम्बन्धी कार्य में कुछ भी भाग न लेकर केवल स्वाध्याय (सामाजिक आदि) करते हैं, अतः लोक कल्याण की दृष्टि से गुरुवर्ग में उनका तीसरा स्थान है। आत्मशुद्धि की अपेक्षा प्रथम स्थान है।

मुक्ति साधुः पद से ही प्राप्त होती है अतः आचार्य उपाध्याय को भी अपना पद अन्वये सयोग्य साधु को सौंपकर साधु पद लेकर ही मुक्ति प्राप्ति के लिये तपस्या करनी पड़ती है।

अर्हन्त और सिद्ध परमेष्ठी 'परमात्मा' या 'देव' कहलाते हैं। इनमें आत्म-शुद्धि की अपेक्षा यद्यपि सिद्ध परमेष्ठी अधिक हैं क्योंकि वे समस्त कर्ममल से पूर्ण मुक्त हैं, आत्मगुणों का पूर्ण विकास उनमें विद्यमान है, और अर्हन्त अभी ४ अघाती कर्मों से नहीं छूट पाये हैं, मुक्ति का अभी बहुत सा मार्ग उनको तय करना है। अतः इस-आत्मशुद्धि की अपेक्षा प्रथम पद सिद्ध परमेष्ठी का है। किन्तु लोक-कल्याण अर्हन्त परमेष्ठी से ही हाता है। अर्हन्त ही अपनी जीवन्मुक्त-कैवल्य अवस्था में अपने दिव्य उपदेश द्वारा सासारिक प्राणियों को सुमार्ग दिखाते हैं अतः ससार के व अधिक हितकारक हैं, इसी कारण लोककल्याण की दृष्टि से उनका पद भी सर्वोच्च है।

इस तरह सर्वसाधारण संसारवर्ती प्राणी 'आत्मा' हैं, आचार्य उपाध्याय, सर्वसाधु ये तीन परमेष्ठी 'महात्मा' (महत्त्वशाली आत्मा है और अर्हन्त, सिद्ध ये दो परमेष्ठी 'परमात्मा' (सबसे उच्च आत्मा) हैं।

यद्यपि देवगढ़ आदि कई स्थानों पर आचार्य, उपाध्याय, साधु की मूर्तियां (पाषाण स्तम्भों पर उकेरी हुई) भी पाई जाती हैं। इन्हीं में आचार्य चन्द्रसागर जी की मूर्ति भी एक मन्दिर में है किन्तु अधिकतर इन तीनों परमेष्ठियों के चरणचिन्ह ही बनाकर पूजे जाते हैं। प्रतिष्ठापाठ में भी-मुनिबों के चरणचिन्हों की प्रतिष्ठा का विधान पाया जाता है।

आचार्य उपाध्याय साधु की प्रत्यक्ष में सेवा करना (नमस्कार, चरण छूना, उनके अगुपार्ग देवाना आदि) विधिपूर्वक आहार

कराना, अष्ट द्रव्य से पूजा करना, स्तुति पढ़ना आदि गुरुपूजन है। गुरुओं के विद्यमान (मौजूद) न होने पर उनके चरख चिन्हों का अभिषेक, पूजन नमस्कार, स्तुति करना अथवा चरखचिन्ह न होने पर उनकी ठोने में स्थापना करके पूजन करना परोक्ष गुरु पूजन है।

अहन्त परमेशी की साक्षात् पूजा तो समवशरण में होती है और परोक्ष पूजा उनकी प्रतिमा बनाकर अथवा ठोने में स्थापना करके की जाती है।

सिद्ध परमेशी की परोक्ष पूजा ही होती है क्योंकि वे उपासकों (भक्तों) को कभी प्रत्यक्ष नहीं दीखते।

—हाथ जोड़ कर, शिर झुकाकर, पंचांग (घुटने टेक कर) तथा अष्टांग (सामने लेटकर) नमस्कार करना, प्रदक्षिणा देना, स्तुति पढ़ना भी पूजा ही है क्योंकि यह सब भी भक्ति-आदर का एक ढग है।

भक्ति और सिद्धान्त

किसी भी विषय को यथार्थ बतलाना 'सिद्धान्त' है। तदनुसार "अहन्त, सिद्ध परमेशी पूर्ण बीतराग हैं इसी कारण वे किसी भी सांसारिक हलचल में रंचमात्र भी भाग नहीं लेते। समस्त इच्छाओं से रहित होने के कारण उनको न तो यह अभिलाषा होती है कि अपनी सेवा, प्रशंसा करने वाले प्राणी को कुछ लाभ हो जावे, उसका सकट दूर हो जावे, उसको देवगति में पहुँचा दें, उसे धन पुत्र आदि पदार्थ दिला दें। तथा न ऐसी ईच्छा होती है कि जो मनुष्य हमको नमस्कार आदि नहीं करता वा हमारी निन्दा करता है उसके ऊपर आपत्ति वर्षा दें, उसके अन्तः, पुत्र, मित्र का नाश कर दें, उसको दुःख भोगने के लिये नरक भेज दें।

परमात्मा कभी ऐसा करता नहीं, उसकी समस्त जीवों में समान दृष्टि होती है तथा जो किसी के भला, बुरा करने का विचार या प्रयत्न (कोशिश) करता है वह परमात्मा नहीं हो सकता।

परन्तु अर्हन्त, सिद्ध परमात्मा (जीवन्मुक्त-सशरीर परमात्मा, पूर्णमुक्त अशरीर परमात्मा) की जो व्यक्ति सेवा, प्रशंसा करता है उसके मन के विचार, मुख के वचन और शरीर की चेष्टा अच्छे शुभ कार्य में लगे होने के कारण उस जीव के पुण्यकर्म का (अच्छे भाग्य) बन्ध अपने आप होता है। और जो पवित्र परमात्मा की निन्दा करता है उसके परिणाम, वचन अशुभ बुराई में सने हुए-होते हैं इस लिये उसको पापबन्ध होता है।”

श्री समन्तभद्राचार्य ने श्री वासुपुत्र्य तीर्थङ्कर की स्तुति में कहा है—

‘न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे, न निन्दया नाथ त्रिवान्तवैरे।
तथापि तं पुण्यगुणस्मृतिर्नः पुनाति चित्तं दुरिताजनेभ्यः ॥’

इस श्लोक का अभिप्राय ऊपर लिखे अनुसार ही है। यह कथन यथार्थ (बिल्कुल ठीक) है अतः सिद्धान्त है।

परन्तु अपने पण्य परमात्मा के साथ गहरा अनुराग (प्रेम) रखने वाला पुरुष जब उसकी भक्ति में लीन हो जाता है तब वह अपने आपको, भगवान के यथार्थ रूप को तथा सिद्धान्त को भूल जाता है। वह परमात्मा के साथ निकट सम्पर्क (नजदीकी रिश्ता) स्थापित (कायम) करने के लिये प्रेमवश सिद्धान्त से बाहर की भी बातें बोल जाता है। जैसे कि—

“हे भगवन् ! तुम तीन लोक के स्वामी हो, सबके दुखहर्ता सुखकर्ता हो, आपने सीता, अंजना, चन्दना, श्रीपाल आदि के दुख दूर किये मैं भी आपका सेवक हूँ मेरे भी कष्ट मिटा दो, मेरे

दोषों का विचार मत करो, मैं महा दुर्जन, पतित पापी हूँ, आप पतित पावन हैं मुझे दुख सागर से पार लगा दो। आदि"—

भक्ति-भाव में कहीं हुईं ये बातें सत्य नहीं हैं, गलत हैं क्योंकि परमात्मा ने किसी का भला बुरा नहीं किया, भला बुरा अपने कर्माये पुण्य पापके अनुसार ही होता है। किन्तु भगवान की भक्ति करने वाले का मन, वचन, काय संसार की अन्य बातों की ओर से हटकर अच्छी बात की ओर लगा हुआ होता है इसलिये भक्ति से निकले हुए वे शब्द अशुद्ध (गलत) होते हुए भी पुण्य कर्म का बंध करा देते हैं। जिससे संकट दूर होते हैं, सुख सम्पत्ति मिलती है।

सिद्धान्त और भक्ति में यही अन्तर है।

मन्दिर में आने का ढंग

प्रातः सयउदय से पहले उठकर, पहले हाथ पैर धोकर सामान्यिक करनी चाहिये कम से कम २७ या ६ बार एमोकार मंत्र पढ़ना चाहिये। उसके पीछे शौच (टट्टी, पेशाब) से निवृत्त कर दन्तधावन (दान्तौन) करके मुख धोना चाहिये। इसके बाद यदि घुला हुआ पवित्र धोती दुपट्टा धरपर हो तो उसे पहन कर, खड़ाऊं पहन कर मन्दिर जी में जाना चाहिये। जो व्यक्ति पूजन न करना चाहे उसे भी नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहन कर हाथ में लोंग चावल आदि लेकर दर्शन करने के लिये बड़ी भक्ति और विनय से मन्दिर में आना चाहिये। अपने आपको धन्य समझना चाहिये कि मेरे नेत्र, पैर हाथ आदि इस योग्य हैं कि मैं मन्दिर जी में आकर भगवान का दर्शन कर सकता हूँ।

पांच परमेष्ठी ५, जिनप्रतिमा (चैत्य) ६, चैत्यालय (मन्दिर) ७, जिनधम ८, और जिनवाणी (शास्त्र) ९, ये ६ देवता माने

गये हैं। अतः धर्मस्थान मंदिर को भी नमस्कार करना चाहिये अकृत्रिम, कृत्रिम चैत्यालयों (मनुष्य के बनाये हुये मंदिरों) की भी पूजा की जाती है। मन्दिर की पवित्रता ग्थिर (कायम) रखना, मन्दिर में अशुद्ध दशा में नहीं जाना, वहा पर अविनय का कोई काम न करना, चैत्यालय भक्ति का अंग है। इस कारण मन्दिर में शारीरिक शुद्धता करके जाना चाहिये। मन्दिर में पहुँच कर बाहर जते (यदि जुराबें पहनी हुई हों तो वे भी) उतार दे फिर हाथ पैर धोकर भीतर जाना चाहिये। सूतक पातक के समय भी नहा धोकर मन्दिर जाना चाहिये किन्तु उस दशा में न तो मन्दिर जी के भीतर बेदी में जाना चाहिये, न शास्त्रों का, गन्धोदक का स्पर्श करना चाहिये। रजस्वला स्त्री को मन्दिर जी में न आना चाहिये। इसके सिवाय मामभन्नी, मद्यपायी, गलित-कुम्भी, रक्तस्नावी (जिसके शरीर से खून बह रहा हो) पागल व्यक्ति का भी मन्दिर में न आना चाहिये।

दर्शनार्थी (दर्शन करने वालो) को श्री जिनेन्द्र देव के सामने पहुँचते हुए 'निःसहि निःसहि नि सहि' कहना चाहिये (इसका अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति (देव, मनुष्य) दर्शन कर रहा हो तो 'निःसहि' शब्द सुनकर एक ओर हट नावे, दर्शन करने के लिये स्थान दे देवे)। तदनन्तर भगवान के सामने पहुँचकर बहुते विनय से हाथ जोड़ कर तीन आवर्त (जोड़ हुए हाथों को गोल रूप से घुमाना) करके मस्तक झुकाकर नमस्कार करे और गमोकार मंत्र पढ़े। तथा—

‘उदकचन्दनतन्दुलपुष्पकैश्वरुसुदीपसुधूपफलार्घकैः।

धवलमंगलगानरवाकुले, जिनगृहे जिननाथमई यजे ॥’

अथवा अन्य कोई पद्य पढ़कर हाथ में लिये हुए चावल आदि को भगवान के सामने चढ़ावे। फिर धोक देने के लिये

अष्टांग (भगवान के सामने दंडाकार लेट कर) अथवा पंचांग (घुटने के बल, जोड़े हुए हाथों और मस्तक पृथ्वी को छूता हुआ) नमस्कार करे ।

उसके बाद खड़ा होकर किसी स्तोत्र को पढ़ना प्रारम्भ करे और हाथ जोड़कर वेदी के चारों ओर अपने बांये ओर से तीन परिक्रमा दे । जहां ऐसी वेदी न हो वहां भगवान के सामने ही स्तोत्र पढ़ता रहे ।

मन्दिर समवशरण की ही प्रतिकृति (नकल) है समवशरण में श्री अहेन्त भगवान का मुख चारों ओर दीखता है । और वेदी के चारों ओर प्रदक्षिणा देने के लिये खुला हुआ स्थान होता है अतः दर्शनार्थी समवशरण में चतुर्मुख भगवान का वेदी के चारों ओर घूम कर दर्शन करता है । तीन बार प्रदक्षिणा देने का अभिप्राय मन, वचन, काय तीनों योगों की विनय को प्रगट करना है ।

समवशरण के अनुरूप ही मन्दिर जी में वेदी की तीन प्रदक्षिणा की जाती है ।

प्रदक्षिणा देने से बाद भगवान के सामने आकर पूर्वोक्त रूप से धोकर देवे । फिर मन्दिर जी में यदि और भी वेदियां हों तो उनके दर्शन भी इसी ढंग में करे । दर्शन कर लेने के बाद भगवान के अभिषेक का गन्धोदक

“निर्मलं निर्मलीकारं, पवित्रं पापनाशकम् ।
जिनगन्धोदकं वंदे, अष्टकर्मविनाशकम् ॥”

अथवा

निर्मलं सं निर्म अती, अधनाशक सुखसीर ।
वंदूँ जिन अभिषेक कृत, यह गंधोदक नीर ॥

पढ़कर अपने शिर, मस्तक, नेत्र आदि उत्तम अंगों (नाभि से ऊपर) से लगावे।

गन्धोदक नाम क्यों हुआ

तीर्थङ्कर देव का शरीर सुगन्धित होता है, अतः उनके अभिषेक का जल भी सुगन्धित हो जाता है। उसी के अनुरूप इस प्रक्षाल जल को भी गन्धोदक (गंध = सुगन्धित, + उदक (जल) = गन्धोदक) कहते हैं।

तदनन्तर जहां शास्त्र विराजमान हों वहां पर बहुत विनय से शास्त्रों को नमस्कार करे।

फिर किसी एकान्त स्थान में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुग्य करके खड़े होकर या बैठ कर सामायिक करे।

सामायिक करने का संक्षेप ढंग यह है कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा होवे, ६ बार णमोकार मंत्र पढ़े फिर धोक देवे पश्चात् खड़ा होकर फिर शिरोनाति (जोड़े हुए हाथों पर शिर झुकाना) करे फिर दाहिने ओर घूमकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तीन बार णमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवर्त, एक शिरोनाति करे फिर दाहिनी ओर घूमकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ३ बार णमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवर्त और एक शिरोनाति करे। फिर दाहिनी ओर घूमकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसी प्रकार तीन बार णमोकार मंत्र पढ़कर तीन आवर्त और एक शिरोनाति करे। इसके पीछे पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर या पद्मासन में बैठकर सामायिक करे।

सामायिक क्या वस्तु है

ससार के सब पदार्थों से तथा अपने शरीर से भी मोह (राग द्वेष) त्यागकर, तथा पांचों पापों का त्याग करके समताभाव धारण

करना सामायिक कहलाता है। सामायिक के समय परिणामों को मोहभाव से दूर रखने के लिये सामायिक पाठ, वैराग्य भावना बारह भावनाओं का चिन्तवन, आत्मस्वरूप का मनन, पंच परमेष्ठी का विचार आदि में अपने मन की परिणति लगानी चाहिये।

सामायिक करते समय यों विचारना चाहिये कि—

“मैं एक चेतन आत्मा हूँ, संसार के सब जड़ पदार्थ धन, घर आदि, चेतन पदार्थ पुत्र स्त्री मित्र आदि यहाँ तक कि मेरा शरीर भी अपना नहीं है, मुझसे अलग है।

मैं अकेला सुख दुख भोगता हूँ उसमें कोई भी सम्मिलित नहीं होता, अपना मतलब सिद्ध करने के लिये मेरे मित्र, संबंधी मुझ से प्रेम करते हैं किंतु उनका मतलब बनाने के लिये मैं जो भूठ, कूट कपट से रुपया पैसा कमाता हूँ उस पाप का जब मुझे दुखदायक फल मिलेगा तब मेरा मित्र पुत्र स्त्री आदि उस दुःख में भाग (हिस्सा) लेने नहीं आवेंगे, मरकर मैं अकेला ही नरक जाऊँगा।

इस जीवन का कुछ विश्वास नहीं कब समाप्त हो जावे इसलिये मुझे धर्मसाधन करने में देर न करनी चाहिये। मेरा सच्चा मित्र धर्म है और सच्चा बैरी पाप है और कोई शत्रु मित्र नहीं है। धर्म ही दुःख में बचाता है और पाप ही दुःख में डुबाता है।

अहंन्त, सिद्ध, तीर्थंकर भी मेरे समान ही प्राणी थे उन्होंने दोष, पापों, से बचकर अपने कल्याण की ओर ध्यान लगाया तभी वे संसार के पृथ्वी बन गये यदि मैं भी ऐसा करूँ तो मैं भी संसार का पृथ्वी तीर्थंकर, अहंन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु बन सकता हूँ। इत्यादि।”

णमोकार मंत्र आदि मंत्र का जाप देना चाहिये। शरीर का हलन चलन बंद रखकर, मौन भाव से सामायिक करना चाहिये।

अपने हाथों में जाप देने का ढंग यह है पहले मध्यमा (बीच की) उङ्गली के बीच के पोरुए पर, फिर उसी उङ्गली के ऊपरी पोरुए पर, फिर तर्जनी (अंगूठे के पास वाली) उङ्गली के ऊपर के, फिर उसी उङ्गली के बीच के, फिर नीचे के पोरुए पर अंगूठा रखता हुआ मंत्र पढ़ता जावे, इसके बाद बीच की उङ्गलीके निचले पोरुए पर मंत्र पढ़े, फिर अनामिका (सबसे छोटी उङ्गली के साथ वाली) उङ्गली के निचले पोरुए, बीचके तथा ऊपरले पोरुए पर क्रमसे अंगूठा रखकर मंत्र पढ़े । इसी प्रकार फिर बीच की उङ्गली के बीच के पोरुए में प्रारम्भ करे । इस तरह ६-६ बार मंत्र जपता रहे ऐसे १२ बार जपने में १०८ बार की पूरी जाप हो जाती है ।

हृदयमें कल्पित आंठ पांखुरी और कर्णिका का यह अनुरूप है ।

जाप करने के लिये कुछ मन्त्र ये हैं

१	अक्षर का मन्त्र—ॐ
२	“ “ —ॐ ह्रीं, सिद्ध, अहं
३	“ “ —अरहंत, असिसाह, आदिनाथ, महावीर
४	“ “ असिआउसा
५	“ “ अरहंतसिद्ध
६	“ “ ॐ ह्रीं असिआउसा नमः
१०	“ “ ॐ ह्रीं क्लीं असिआउसा नमः
११	“ “ ॐ ह्रीं अहं असिआउसा नमः
१६	“ “ अहंसिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः
३५	“ “ एमोकार मन्त्र (इत्यादि)

समस्त मन्त्रों में मुख्य एमोकार मन्त्र है इस मन्त्र के श्रद्धा पूर्वक जाप से सब संकट टल जाते हैं । यह अनुभूत बात है ।

अन्त में खड़े होकर ६ बार एमोकार मन्त्र पढ़कर उसी पूर्व दिशा में धोक देनी चाहिये ।

आत्मशुद्धि का सबसे प्रधान कारण सामायिक है ।

सामायिक कर लेने पर शास्त्रस्वाध्याय करना चाहिये । प्रथमानुयोग (पुराण कथा), चरणानुयोग (मुनि, गृहस्थ का आचार सम्बन्धी), द्रव्यानुयोग (जीव अजीव आदि द्रव्यों का निरूपण करने वाले), करणानुयोग (लोक अलोक, काल निरूपक) शास्त्रों में से अपनी रुचि के अनुसार किसी भी शास्त्र को स्वयं पढ़ना, पढ़ाना, सुनना सुनाना या पाठ करना स्वाध्याय कहलाता है । स्वाध्याय करने से आत्मा, अनात्मा, परमात्मा, संसार, मोक्ष, पाप पुण्य आदि अवश्य जानने योग्य बातों का ज्ञान सहज में हो जाता है । हृदय का अन्धकार दूर जाता है, प्रकाश फैलता जाता है ।

इसलिये जिन युवक, वृद्ध पुरुष स्त्रियों को पुस्तक पढ़ने का अभ्यास हो उनको अपनी रुचि के अनुसार पद्मपुराण, रत्नकर-डश्रावकाचार, मोक्षमार्गप्रकाश, पद्मनन्दिपंचविंशतिका आदि शास्त्र स्वयं पढ़ना चाहिये जो न पढ़ें हों उनको शास्त्र सुनना चाहिये ।

शास्त्र स्वाध्याय करके अन्त में फिर श्री जिनेन्द्र देव के नमस्कार करके मन्दिर से जाना चाहिये ।

पूजनार्था

जो भाई पूजन करना चाहते हों वे या तो अपने घर पर शुद्ध धुले धोती डुपट्टे, बनियान का प्रबन्ध रक्खें और प्रातःकालीन नित्य नियम (शौच) दन्तधावन, तैलमर्दन आदि से निवृत्त होकर शुद्ध छत्रे हुए जल से स्नान करके उन शुद्ध वस्त्रों को पहनें ।

यदि पूजन सामग्री उनके घर पर हो तो उसको भी शुद्धता के साथ बनाकर, उसको वस्त्र से ढककर, लकड़ी की खड़ाऊं पहन कर मन्दिर जी में आवें। यदि घर पर सामग्री का प्रबन्ध न हो तो पूजन सामग्री मन्दिर जी में आकर तयार करें। तथा यदि घर पर शुद्ध वस्त्रों की व्यवस्था न हो तो स्नान की व्यवस्था भी मन्दिर जी में रखें जैसा कि आज कल प्रायः होता है।

मन्दिर जी में या मन्दिर के आस पास जलकूप (कुवां) होना आवश्यक है जिससे जल भर कर मन्दिर में लाया जावे और और उस जल की जिवानी तले में कुण्डेदार बालटी या लोटे में डालकर उस कुण्ड में पहुँचा दी जावे।

स्नान करने का जल मन्दिर का नौकर भी ला सकता है। उसको छानकर स्नान के काम में लाना चाहिये। पूजा करने वाले को मन्दिर में आकर पहले स्नान करना चाहिये। कुछ भाई मन्दिर में कुरला दांतन भी किया करते हैं किन्तु ऐसा करना उचित नहीं क्योंकि मन्दिर एक पवित्र स्थान है वहाँ पर थक, नासिकामल आदि डालना अनुचित है।

स्नान करके मन्दिर में रखे हुए शुद्ध धोती चादर पहने। बहुत से भाई धोती का आधा भाग पहन कर उसी का शेष आधा भाग ओढ़ लेते हैं सो अनुचित है क्योंकि अधोवस्त्र (धोती) शरीर के निचले अंग उपांग टांकने का वस्त्र है, वे अंग अशुद्ध माने गये हैं, उन अंगों के आच्छादन वस्त्र को शिर पर रखना योग्य नहीं। अतः शिर पर ओढ़ने का डुपट्टा अलग होना चाहिये।

वस्त्र पहनकर यदि मुकुट हार हों तो वह भी पहन लेने चाहिये क्योंकि पुजारी सौ धर्म इन्द्र का प्रतिरूप माना जाता है। इन्द्र खूब सज धज कर सुन्दर आकर्षक रूप में भगवान की भक्ति पूजन करता है उसीका यथासंभव अनुकरण पुजारी को करना

चाहिये । तिलक, कुंडल, कंकण, हार अंगूठी के सूचक चंदन की रेखा माथे कान, कलाई, गले, उंगली पर लगाना चाहिये । शिर पर चादर ओढ़ लेनी चाहिये—नंगे शिर न रहना चाहिये ।

वस्त्र पहन लेने के बाद पूजन सामग्री तयार करनी चाहिये । मामग्री धोने के लिये पुजारी को मन्दिर के लोटा डोल आदि शुद्ध बर्तन में कुएं से जल भर कर लाना चाहिये । जल को शुद्ध साफ दुहरे बस्त्र से या तो कुएं पर छान कर लेना चाहिये और उसकी जिवानी वहीं कुएं में डाल आना चाहिये अथवा वहां मुविधा न हो तो मन्दिर में जल लाकर छान लेना चाहिये और उसकी जिवानी उसी कुएं में कुण्डेदार बालटी से डाल देनी चाहिये । छने हुये जल में दोघड़ी (४८ मिनट) बाद फिर असजीव पैदा हो जाते हैं यदि उस छने जल में लोंग डाली जावे तो कई घंटे तक जीव उत्पन्न नहीं होते हैं अतः छने हुए जल में लोंग डाल देनी चाहिये ।

पूजन के अष्ट द्रव्य

देव शास्त्र गुरु की पूजा करने के लिये आठ द्रव्य होते हैं—
१ जल, २ चन्दन, ३ अक्षत (बिनाटूटे हुए सफेद चावल), ४ पुष्प (फूल), ५ नैवेद्य (पकवान), ६ दीप ७ धूप, और ८ फल । इन आठों द्रव्यों को मिलाकर अर्घ बनता है अतः उसको अलग द्रव्य नहीं माना गया ।

तेरह पंथ और बीस पंथ

प्रसंग अनुसार यहां संक्षेप में तेरह पंथ और बीस पंथ का उल्लेख कर देना आवश्यक है ।

लगभग वि० सं० १२०४ में जबकि भारतवर्ष पर मुसलमानों का शासन था । देहली में एक महासेन नामक दिगम्बर (नग्न) जैन

मुनि थे, वे बड़े विद्वान् प्रभावशाली साधु थे। उस समय का मुसलमान बादशाह, उसके मंत्री आदि भी उनके दर्शन किया करते थे।

एक बार बादशाह की बेगमों ने भी उन मुनि महाराज के दर्शन करने की इच्छा प्रगट की किन्तु नग्न होने के कारण वे दर्शन नहीं कर पाईं। तब बादशाह ने मुनि महाराज से प्रेरणा की कि आप एक कपड़ा ओढ़ लें जिससे हमारी बेगमों आपका दर्शन कर सकें।

इस पर उन मुनि महाराज ने स्वयं तो वस्त्र न पहना और इसी कारण वे वन में चले गये किन्तु अपने शिष्य को कह गये कि 'यह समय बहुत विकट है इस समय नग्न वेश में रहना कठिन है। अतः धर्मरक्षा के उद्देश से जैन संघ को संगठित रखने के लिये तुम वस्त्र पहन करके जैन गुरु बनो।' उनके शिष्य ने ऐसा ही किया।

तदनुसार उस नग्न वेश को छोड़कर, कपड़े पहन कर जैनगुरु बनने वाले का नाम 'भट्टारक' रक्खा गया। और उसने देहली में अपना पट्ट (गद्दी) स्थापित किया। देहली के अनुसार गुजरात, दक्षिण भारत आदि अन्य प्रान्तों तथा नगरों में भी भट्टारकों की गद्दी स्थापित हुई।

भट्टारक बनने का ढंग वैसा ही रहा। यानी भट्टारक बनने से पहले वे नग्न होते थे फिर उनके शिष्य कहते थे कि 'महाराज ! यह समय बहुत विकट है, इस समय नग्न साधुचर्या नहीं हो सकती अतः आप वस्त्र पहन लीजिये।' ऐसा निवेदन सुनकर वे कपड़े पहन लेते थे। इस तरह पट्टधर वस्त्रधारक, शालग्रामधारी जैनगुरु 'भट्टारक' नाम से प्रचलित हुए।

भट्टारक अर्थात् ब्रह्मचारी, बड़े विद्वान, प्रभावशाली होते रहे

उन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की है किन्तु उनमें कहीं भी ऐसा विधान नहीं किया है कि 'महाव्रती साधु वस्त्रधारक भी हो सकता है।' जैनसंघ की रक्षा के लिये वे अपने समय में पूर्ण सावधान रहे। जैन मन्दिरों, शास्त्र भंडारों की रक्षा करते रहे और मंत्र तंत्रादि के वेत्ता (जानकार) होते रहे। अनेक प्रकार के चमत्कार दिखलाकर तत्कालीन राजाओं, बादशाहों को प्रभावित करते रहे।

किन्तु लगभग ५०० वर्ष बीत जाने पर उनका आचार शिथिल होने लगा और वे अपने भक्त श्रावकों को तंग करने लगे। यहाँ तक कि कोड़ों से मार लगवाकर अपने भक्तों से कर (टैक्स) के रूप में द्रव्य एकत्र करने लगे। परिग्रह में बहुत आसक्त हो गये, आत्म तेज उनमें न रहा।

तब सं० १७०० में कामा (मथुरा) में भट्टारकों के विरुद्ध गृहस्थ जैनों का एक दल उठ खड़ा हुआ। उस दल ने घोषणा कर दी कि "पाँच महाव्रतधारी, नग्न दिगम्बर साधु ही जैन गुरु हो सकता है, भ्रष्ट रूप में रहने वाले वस्त्र, धन आदि परिग्रहलिन भट्टारक जैनगुरु नहीं हैं।"

यह विद्रोह उत्तर भारत में प्रायः सर्वत्र फैल गया और वहाँ सब स्थानों पर भट्टारकों की अमान्यता तेजी से फैलने लगी। कुछ लोग उस समय भी भट्टारकों के अनुयायी बने रहे।

जो लोग भट्टारकों को गुरु मानते थे वे 'बीस पंथी' कहलाये और जिन्होंने भट्टारकों को गुरु मानने का निषेध कर दिया वे 'तेरहपंथी' कहलाये।

"पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीन गुप्ति इन तेरह प्रकार के चारित्र धारक निर्ग्रन्थ मुनि को अपना गुरु मानने वाला दल तेरह पंथ कहलाता है।" ऐसी एक बात कही जाती है किन्तु यह बात ठीक नहीं जंचती क्योंकि एक तो निर्ग्रन्थ साधु को बीसपंथ

समुदाय भी अपना गुरु मानता है। दूसरे तेरहपंथ का यदि यही अभिप्राय है तो बीसपंथ का क्या अभिप्राय है? इसका कुछ समाधान नहीं। अतः तेरहपंथ बीसपंथ शब्द का यौगिकार्थ क्या है यह बात अभी तक अज्ञात है।

तेरहपंथी समुदाय ने भट्टारकों को गुरु न मानने के सिवाय पूजाविधि में कुछ परिवर्तन किया जो कि संक्षेप में यह है—

१—प्रतिमा का पंचामृत अभिषेक (घी, दूध, दही, अमृत (ईख का रस) और सर्वांध—सुगंधित द्रव्यों का जल) से नहीं करना, केवल जल से अभिषेक करना।

२—प्रतिमा का चंदन से विलेपन न करना, न उस पर चंदन की टिकी लगाना, न प्रतिमा के ऊपर फूल आदि रखना।

३—पूजन सामग्री में सचित्त (हरे) फल, फूल उपयोग में न लाना।

४—दीपक जलाकर न चढ़ाना

५—पकवान न चढ़ाना।

६—खड़े होकर पूजन करना।

बीस-पंथी समुदाय इसके विरुद्ध ढंग से पूजन करता रहा।

तेरह पंथ को पुष्ट करने वाले आगरा, जयपुर में अनेक विद्वान् हुये और उन्होंने अनेक युक्तियों से उपर्युक्त बातों का बलवान् समर्थन किया।

१—पंचामृत अभिषेक को भट्टारकों द्वारा संचालित प्रथा बताया और इसके विरोध में यह युक्ति दी कि घी, दूध, ईख रस आदि से अभिषेक करने पर प्रतिमा के ऊपर चीटियां आदि जन्तु आ जाते हैं, आरम्भ अधिक होता है इस कारण केवल जल से ही अभिषेक करना चाहिये।

२—प्रतिमा पर टिक्की लगाने तथा विलेपन करने से प्रतिमा की वीतराग छवि में अन्तर आता है, प्रतिमा का शृङ्गार हो जाता है अतः विलेपन, टिक्की न लगाना चाहिये ।

३—फूलों में सूक्ष्म जन्तु होते हैं, हरित फलों में कीड़े पड़ने आदि की संभावना रहती है, कुछ समय बाद वे सड़ने लगते हैं अतः फूलों के स्थान पर या तो सूखे प्रासुक फूल अथवा केसर से रंगे हुए चावलों को फूल मानकर उनका उपयोग करना अच्छा है । फलों के लिये सूखे फल (मेवा) काम में लाना चाहिये ।

४—दीपक जलाने में उसके ऊपर आये हुए या आसपास उड़ने वाले मक्खी आदि जन्तुओं के घात की संभावना है अतः दीपक के स्थान पर रंगे हुए नारियल के छोटे छोटे टुकड़े (चटकें) काम में लेना उपयोगी है ।

५—पकवान बनाने में आग जलाना, कढ़ाई चढ़ाना, खांड गलाना आदि बहुत आरम्भ करना पड़ता है अतः उसके स्थान पर बिना रंगे नारियल की गिरी के टुकड़े काम में लाना चाहिये ।

६—बैठ कर पूजा करने से विनय भाव में कमी होती है, सुखासन होने से बैठकर पूजन करने में प्रमाद भी आता है अतः खड़े होकर पूजन करना उचित है । इत्यादि ।

‘तेरहपंथ ठीक है या बीसपंथ’ हम इस विवाद को यहां नहीं लेते इसका निर्णय पाठकों के ऊपर छोड़ते हैं, किन्तु इतना लिखना अनुचित भी नहीं समझते कि पूजन ग्रन्थों में—वे चाहे प्राचीन हों अथवा तेरहपंथी विद्वानों की बनाई भाषा पूजन पाठ हों—बेला, चमेली, कमल आदि के फूल चढ़ाने एवं आम, केला आदि फलों के चढ़ाने का विधान पाया जाता है, कपूर को जला कर अथवा घी के दीपक चढ़ाने के छन्द भी प्रायः प्रत्येक पूजा में विद्यमान हैं । ऐसी ही बात नैवेश के विषयमें हैं घेवर, खाजा,

फैनी, लाडू आदि पकवान चढ़ाने का उल्लेख सब पूजाओं में मिलता है।

इसके विपक्ष-लोगों में प्रमाद बहुत आ गया है अन्य सांसारिक कार्यों की अपेक्षा धर्म कार्य में समय थोड़े लगाने की आदत पड़ गई है अतः लोग सच्चि फल, फूल नवेद्य लाने में शुद्धता प्रासुकता का विचार बहुत कम रखते हैं, जैसा हाथ लगा बैसा फल फूल खरीद लाये उन में जीव जन्तु आदि का विचार न किया, मिठाई तयार कराने में पवित्रता का विचार न रक्खा।

इन सब बातों के प्रकाश में तेरहपंथ और वीसपंथ को विचार करके दृष्टवाद, खींचतान, विवाद को छोड़कर शुद्ध, शान्त मार्ग अपनाना चाहिये, अपनी त्रुटियों का संशोधन करना चाहिये, गतानुगतिक (लकीर का फकीर) न बनना चाहिये। विवेक (गुण दोष का विचार) को काम में लेकर तेरहपंथ और वीसपंथ को अपनी त्रुटि का सुधार करके प्रेम और शांति से एक दूसरे के निकट आना चाहिये।

पूजा की सामग्री

हम यहां तेरहपंथ आम्नाय के अनुसार अष्ट द्रव्यों का संक्षेपमें विवरण देते हैं।

१—जल—छना हुआ शुद्ध 'जल' पूजा करने की पइली द्रव्य है।

२—चंदन—केसर या हार सिंगार के साथ घिसे हुए चंदन को जल में मिलाकर रखना 'चंदन' द्रव्य है।

३—अच्छत-शुद्ध जल से धोये हुए सफेद चावल 'अच्छत' द्रव्य है।

४—पुष्प—केसर चंदन से रंगे हुए चावल अथवा त्रस जीवों से रहित शुद्ध फूल 'पुष्प' द्रव्य है।

५—नैवेद्य-झीले हुए नारियल की गिरी के टुकड़े जो कि जल से धो लिये जावें 'नैवेद्य' है। अथवा दिवाली के दिन चढ़ाये जाने वाले लाडू की तरह शुद्धता से तयार कराये हुए पकवान को 'नैवेद्य' कहते हैं।

६—दीप-नारियल के चटकों को-जिनको नैवेद्य के लिये काम में लेते हैं-यदि चंदन केसर से रंग लिया जावे तो वे 'दीप' कहलाते हैं। अथवा कपूर जला कर भी दीप होता है।

७—धूप-चन्दन चूरा, कूटी हुई लोंग, अगर, तगर आदि को 'धूप' कहते हैं। उसे भी जल से धो लेते हैं।

८—फल-बादाम किशमिश, पिस्ता आदि सूखे मेवा 'फल' हैं। उन्हें जल से धो लेना चाहिये। अथवा अंगूर आम आदि निर्दोष फल भी फल द्रव्य है।

उक्त आठों द्रव्यों को मिलाकर जो संग्रह द्रव्य होता है उसको अर्घ्य कहते हैं।

जल और चन्दन अलग अलग भाारियों (छोटे कलशां या गिलासां) में रखना चाहिये और अक्षत, पुष्प, नैवेद्य (चरु), दीप, धूप, फल एक थाल में क्रमशः (नम्बरवार) रख लेने चाहिये थाल के बीच में जो स्थान खाली रहे वहां सब द्रव्यों को मिला कर अर्घ्य बना रखना चाहिये। पूजन सामग्री ठीक बना लेने पर श्री जिनेन्द्र देव का आभषेक करना चाहिये।

अभिषेक

स्नान करने को 'अभिषेक' कहते हैं। श्री अहंस्त देव की प्रतिमा का अभिषेक करना पूजन विधान का प्रथम अंग है। बिना अभिषेक किये द्रव्यपूजा का प्रारम्भ नहीं होता। अतः पूजा प्रारम्भ करने से पहले अभिषेक अवश्य करना चाहिये।

अभिषेक करने के लिये जिस मन्दिर में या जिस वेदी में केवल अचल प्रतिमा (बड़ी, भारी प्रतिमा—जो कि उस स्थान से हटाई न जा सके) हो उसका अभिषेक तो वहीं पर करना चाहिये, और जो प्रतिमाएँ हलकी छोटी हों उनको थाल में विराजमान करके अभिषेक करना चाहिये ।

अभिषेक करने से पहले चल, अचल प्रतिमाओं को साफ शुद्ध, कोमल, सूखे वस्त्र से पोंछ लेना चाहिये जिससे प्रतिमा के ऊपर यदि धूलि-गर्द या कोई छोटे जीव जन्तु हों तो वे वहां न रहने पावें । फिर अचल प्रतिमा के शिर पर छोटे कलश या भारी से जल धारा देनी चाहिये जिससे प्रतिमा के समस्त शरीर पर जल पहुंच जावे । फिर धुले हुए, साफ शुद्ध वस्त्र से उस जल को अच्छी तरह पोंछ लेना चाहिये फिर उस वस्त्र को किसी थाल या कटोरे में निचोड़ लेना चाहिये तथा उस वस्त्र को अन्य जल से धो लेना चाहिये और उसको सुखाने के लिये किसी ऐसे स्थान में फैल देना चाहिये जहां पर कोई अन्य अपवित्र व्यक्ति छू न सके, वस्त्र पवित्र बना रहे ।

चल प्रतिमाओं (जो हलकी, छोटी प्रतिमाएँ हैं एक स्थान से उठाकर सहज में दूसरे स्थान पर रक्खी जा सकती हैं) का अभिषेक करने के लिये वेदी के सामने मेज या चौकी को—जिस पर कि ^{कर} करना हो—पहले जल से धोकर पवित्र कर लेना चाहिये उस पर थाल रखना चाहिये, थाल में एक सांथिया (स्वस्तिक) और उस सांथिये के ऊपरी भाग में आधे चन्द्र के समान आकार घिसे हुए केसर चन्दन से बना लेना चाहिये । फिर उस थाल में उन चल प्रतिमाओं को बहुत विनय और सावधानी से विराजमान करना चाहिये जब सब प्रतिमाएँ थाल में विराजमान हो जावें तब मंगल पाठ, अभिषेक पाठ पढ़ते हुए

बड़े हर्ष के साथ कलश, भारी के पवित्र जल की धारा उन प्रतिमाओं के शिरपर छोड़नी चाहिये। उस समय घंटा, घड़ियाल आदि मंगलवाद्य बजने चाहिये। अभिषेक करते समय अपने आपको धन्य समझना चाहिये कि 'मैं आज इस योग्य हूँ कि अर्हन्त देव की सेवा भक्ति उनका अग स्पश करते हुए कर रहा हूँ।'

अभिषेक कर लेने पर प्रतिमाओं को शुद्ध सूखे वस्त्र से अच्छी तरह पोछ लेना चाहिये और उस वस्त्र को शुद्ध जल से धो कर सुखा देना चाहिये। तथा प्रतिमाओं को यथास्थान वेदी में विराजमान कर देना चाहिये।

अभिषेक के जल को 'गन्धोदक' कहते हैं उस गन्धोदक को पवित्र और पवित्रकारक मान कर बड़े विनय और भक्ति में अपने शिर, मस्तक, नेत्र, कंठ आदि उत्तम अंगों पर लगाना चाहिये तथा उस गन्धोदक को ऐसे स्थान पर रख देना चाहिये जहाँ पर अन्य दर्शनार्थी भी उसको ले सकें।

पूजा का प्रारम्भ

अभिषेक कर लेने के पीछे पूजन का प्रारम्भ करना चाहिये। पूजन के लिये जो अष्ट द्रव्य तयार किये हों उनको वेदी के सामने मेज पर ला कर रखे। प्रतिमा के वाम (बाएँ) हाथ की ओर यानी पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा होवे। सामग्री के पास एक थाल सामग्री चढ़ाने के लिये रक्खे उस थाल में एक सांथिया (स्वस्तिक) बनावे। थाल के ऊपर शिरोभाग में एक ठौना (ऊँची रकावी) रक्खे उस में भी चन्दन का सांथिया बना देवे। जल, चन्दन चढ़ाने के लिये एक अन्य कलश, कटोरी आदि कोई बर्तन थाल के पास रक्खे तथा जलते हुए कोयले वाली एक धूपदानी भी वहाँ पर रक्खे। द्रव्य चढ़ाने के लिये (जितने पूजा करने वाले, हों उतनी) रकावी रक्खे। जल चन्दन चढ़ाने के

लिये छोटी कटोरी रखे। जल चन्दन लेने के लिये जल चन्दन के कलशों में छोटी चमची रखे। रक्षावी पोंछने के लिये एक बख भी रखे।

चन्दोवा

यह ध्यान रखना चाहिये कि पूजन, अभिषेक करने के स्थान पर, सामग्री बनाने के स्थान पर तथा शास्त्र वाचने के स्थान पर चन्दोवा अवश्य लगा रहना चाहिये जिससे वहां ऊपर से कोई जीव जन्तु आदि न गिरने पावे।

पूजन करने से पहले पूजा करने वाला मन वचन से यह संकल्प करे कि 'मैं इन्द्र हूं और श्रीजिनेन्द्रदेव की पूजन करता हूं। निम्नलिखित वाक्य पढ़े।

श्रीमन्त भगवन्तं अर्हन्तं आद्यानां आद्ये जम्बूद्वीपे भरतगण्डे
आर्यक्षेत्रे.....नगरे मासोत्तममासे.....मासे.....तिथौ
.....वासरे इन्द्रोहं पूजयामि।

फिर 'ॐ जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु' आदि पढ़ता हुआ पूजन शुरू करे।

यदि समय हो तो 'विघ्नोद्याः प्रलयं यान्ति' आदि श्लोक पढ़ लेने पर भगवान का सहस्रनाम पाठ पढ़ना चाहिये। यदि समय न हो तो 'उदकचन्दनतन्दुलपुष्पकैः' आदि श्लोक पढ़कर भगवान के सहस्र (हजार) नामों को अर्थ चढ़ावे।

फिर स्वस्ति मंगल पाठ 'क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तो' आदि श्लोक तक पढ़े और पुष्प चढ़ाता जावे। स्वस्तिमंगल विधानके बाद अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार देवशास्त्र गुरु की संस्कृत या भाषा पूजा करे। उसके बाद विद्यमान (मौजूदा) वीस तीर्थङ्करों (विदेह क्षेत्र में इस समय मौजूद) की पूजा करे फिर

कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा करे या उनको अथ चढ़ावे । फिर सिद्ध पूजा करे ।

ये चार पूजाएँ तो प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिये इसी कारण इनको 'नित्यनियम पूजाएँ' कहते हैं । नित्यनियम पूजा के बाद जैसी सुविधा हो तदनुसार चौबीस तीर्थङ्करों की समुच्चय पूजा, मूलनायक प्रतिमा की पूजा वा किसी अन्य तीर्थङ्कर की पूजा, सप्त ऋषि पूजा, या कोई और नैमित्तिक पूजा करे । पर्व दिनों में पर्व पूजा अवश्य करे ।

पूजा के पांच अंग होते हैं १- आह्वान (पूज्य देव आदि को 'अत्र अवतर अवतर संवोषट्' कहते हुए बुलाना) २-स्थापन (पूज्य-जिसकी पूजा करनी है उसको 'अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः कहते हुए स्थापन करना) ३-सन्निधिकरण 'अत्र मम सन्निहितो भव भव' करते हुए पूज्य को अपने हृदय के निकट करना (ये तीनों क्रियाएँ ठौना में पुष्प चोपण करते हुए की जाती है) ४- पूजन (आठों द्रव्य चढ़ाते हुए पूजा करना) ५-विसर्जन (पूजा कर चुकने पर शान्ति पाठ पढ़कर 'ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि' आदि विसर्जन पाठ पढ़ते हुए पूजन विधि समाप्त करना) । तदनुसार पूजा कर लेने के बाद पुष्प वर्षाते हुए शान्ति पाठ पढ़ना चाहिये शान्ति पाठ में 'करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रः' वाक्य तीन बार बोलते हुए बचे हुए जल चंदन को चढ़ा देना चाहिए ।

विसर्जन के बाद भगवान् की स्तुति पढ़नी चाहिये अन्य वेदियों पर अर्घ्य चढ़ाना चाहिये । अंत में ठौना के पुष्पों को पवित्र समझते हुए ।

“श्रीजिनवर की आशिका, लीजे शीश चढ़ाय ।

भव भवके पातक कटें, विघन दूर हो जाय ॥”

पढ़कर उन पुष्पों को मस्तक से लगावे । और चावलों को

किसी पवित्र स्थान पर रखदे अथवा धूपदानों के अँगारों में रख देवे जिससे उनका अविनय न होने पावे।

पूजन कर लेने पर सामायिक, स्वाध्याय करे फिर पूजन के बख उतारकर अपने घर के बख पहने और पूजन के धोती डुपट्टे धोकर सुखा देवे।

आठद्रव्य समर्पण करने (चढ़ाने) का अभिप्राय ।

१—जल चढ़ाते हुए अपना यह अभिप्राय प्रगट किया जाता है कि जिस प्रकार जल स्वयं उज्ज्वल निर्मल पदार्थ है और दूसरे मेंले पदार्थों का (बख शरीर आदि का) मैल हटा देता है, उनको निर्मल कर देता है, उसी प्रकार मेरे जन्म, जरा (बुढ़ापा) और मृत्यु रूप आत्मा के मैल दूर हो जावें, मैं निर्मल अजर अमर बन जाऊँ। अतः आपको जल समर्पण करता हूँ।

२—चन्दन एक शीतल (ठंडा) पदार्थ है, शरीर की गर्मी दूर करने के लिये चन्दन को घिसकर शरीर पर लेप किया करते हैं। यह आत्मा सांसारिकसंताप—आकुलता, अनेकप्रकारकी चिन्ताओं की गर्मी से सदा व्याकुल रहता है। वह सांसारिक सन्ताप दूर करने के अभिप्राय से मैं आपके सामने चन्दन समर्पण करता हूँ।

३—धान से निकले हुए चावल जिस प्रकार फिर नहीं उग सकते, अक्षय रहते हैं उसी प्रकार मुझे भी अक्षय पद मिल जावे, कर्म मुझे किसी भी तरह क्षति-हानि न पहुँचाने पावें इस अभिप्राय से मैं अक्षतों (बिना टूटे चावलों) को चढ़ाता हूँ।

४—संसार में कामवासना सबसे प्रचंड अदम्य (न रुक सकने वाली) वासना है। फूलों की सुगंधि (खुशबू) से काम विकार (काम की मस्ती) अधिक बढ़ता है इसी कारण फूलों को कामदेव का वाण (तीर) कहते हैं। मैं अपनी कामवासना (मैथुन संज्ञा) नष्ट करने के लिये फूलों को चढ़ाता हूँ।

५—संसार में लुधा (भूख) एक भयानक राग है इसी का शांत करने के लिये संसारी जीव अन्न, फल, पकवान आदि अनेक तरह के पदार्थ खाते हैं किन्तु उनसे कुछ देर की शान्ति होती है फिर भूख सताने लगती है, यह भूख फिर कभी न सतावे। इस अभिप्राय में मैं नैवेद्य चढ़ाता हूँ।

६—जिस प्रकार बाहरी अन्धकार (अंधेरे) से बाहरी पदार्थ नहीं दीख पड़ते उसी प्रकार मोह भाव के कारण आत्मा नहीं दीख पड़ता, यानी मोह से आत्मा संसारी पदार्थों में फँसा रहता है अपनी ओर दृष्टि नहीं डालता। उस मोह रूपी अंधेरे को दूर करने के लिये मैं प्रकाश करने वाले दीपक को चढ़ाता हूँ।

७- संसार में अग्नि समस्त पदार्थों को भष्म कर देती है मैं अपने आठों कर्मों को भष्म (नष्ट) करना चाहता हूँ इस कारण अग्नि में धूप के रूप में अपने कर्म जलाने के अभिप्राय से धूप चढ़ाता हूँ।

८—फल कुछ समय तक आनन्द देते हैं मुझे ये फल नहीं चाहिये मैं मोक्षरूपी फल चाहता हूँ उस मोक्षरूपी फल को पाने के अभिप्राय से मैं फल चढ़ाता हूँ।

इस प्रकार आठ द्रव्य चढ़ाने का पृथक्-पृथक् अभिप्राय है। आठों द्रव्यों को मिलाकर जो अर्घ बनाया जाता है वह अनर्घ (अमूल्य) पद यानी मुक्तिपद पाने के मतलब से चढ़ाया जाता है।



विभिन्न पूजाओं का संक्षिप्त विवरण

अर्हन्त देव रागद्वेष रहित वीतराग होते हैं अतः वे पूजा करने से किसी पर न प्रसन्न होते हैं और न, पूजा न करने वाले पर अथवा निन्दा करने वाले पर अप्रसन्न-रुष्ट होते हैं। यानी न वे किसी का कोई कार्य सिद्ध करते हैं और न किसी का कुछ बिगाड़ते हैं किन्तु उनका दर्शन, अभिषेक, पूजन, भक्ति करते समय भक्त के वचन काय की क्रिया शुभ होती है उस शुभ परिणति के कारण उसके शुभ-पुण्यकर्मों का बंध होता है और उन शुभ कर्मों का उदय होने पर उस भक्त जीव को सुख शान्ति की सामग्री प्राप्त हाती है, परभव में अच्छा उंचा सुख-सम्पन्न परिवार मिलता है-यानी भगवान की भक्ति से उपाजित शुभकर्मों में के उदय से इस भव में तथा परभव में दुख संकट दूर होकर सुखसम्पत्ति प्राप्त होती है। यदि इस भव में वह शुभ कर्म उदय न आया तो परभव में अवश्य आता है।

इसके सिवाय कुछ ऐसी अतिशय-युक्त प्रतियायें भी होती हैं जिनके भक्त देव भी होते हैं वे देव भी कभी कभी उस प्राणिमा की भक्ति करने वाले स्त्री पुरुषों को उनकी मनःकामना पूर्ण करने में सहायता देते हैं जैसे कि कलिकुण्ड के पार्श्वनाथ, महावीर जी के भगवान महावीर आदि।

किन्तु पूजा भक्ति करते समय कोई इच्छा न रखनी चाहिये क्योंकि सुखसम्पत्ति-दायक पुण्य कर्मों का बंध बिना कुछ इच्छा किये भी अवश्य होगा। अतः जैसे पेड़ के नीचे जाकर पेड़ से छाया मांगना व्यर्थ है उसी तरह पूजा करके सुखसम्पत्ति मांगना भी व्यर्थ है वह तो बिना मांगे भी मिलेगी ही।

अतः जब कोई कष्ट, विपत्ति, व्याकुलता, क्लेश, चिंता आदि

हो तब बड़ी शांति और श्रद्धा से अपनी रुचि के अनुसार भगवान की पूजा करे। मिथ्या कुदेवों की भक्ति पूजा मनौती से न तो पुण्य बंध होता है, न शांति प्राप्त होती है उलटा मिथ्यात्व के कारण पापबंध होता है।

इस कारण स्नाबंधन, दीपावली (दिवाली) आदि त्यौहारों के चालू होने का ठीक कारण समझ कर (जैसा कि आगे लिखा गया है) उन त्यौहारों पर मिथ्यात्व-बर्द्धक कोई काम न करने चाहिये। उस समय जिस प्रकार जिसकी पूजा करना बतलाया है वही पूजा करनी चाहिये।

रक्षाबंधन के समय अकम्पनाचार्य संघ के ७०० मुनियों की तथा विष्णुकुमार मुनि की पूजा करके और उनकी कथा सुनकर रक्षा सूत्र (मुनिसंघ की रक्षा की याद दिलाने वाला सूत्र) हाथमें बांधना चाहिये। सेमरियों का भोजन करना चाहिये किंतु इसके सिवाय भीत पर लकीरें खींच कर उनको पूजना—जैसा कि कुछ स्त्रियां करती हैं—मिथ्यात्व है ऐसा न करना चाहिये।

इसी प्रकार दीपावली के समय अमावस के प्रातः समय भगवान महावीर, पावापुर क्षेत्र तथा गौतम गणधार की पूजन करना चाहिये और शुभमुहूर्त में बही खाते रख लेने चाहिये। इसके सिवाय लक्ष्मी की पूजा करना आदि मिथ्यात्व है। लक्ष्मी की प्राप्ति यानी धन का समागम शुभक्रमे के उदय से होता है, न कि लक्ष्मीकी पूजा करने से। तथा लक्ष्मी देनेवाली लक्ष्मी नामक कोई देवी भी नहीं है।

तथा—हाथी, घोड़ा, मछली, चिड़िया आदि के रूप में बने हुए खांड के खिलौने भी न खाने चाहिये और न खिलाने चाहिये।

षोडशकारण पूजा

कर्मों की १४८ प्रकृतियों में तीर्थङ्कर प्रकृति सबसे अधिक पुण्य प्रकृति है। तीर्थङ्कर प्रकृति का उदय यद्यपि १३ वें गुणस्थानमें होता है किन्तु उसकी शुभछाया बहुत पहले से पड़ जाती है जिससे तीर्थङ्कर प्रकृति वाले जीवको अनेक असाधारण शांति, सुखदायक पदार्थ स्वयं प्राप्त होते हैं। जैसे कि गर्भ में आने से ६ मास पहले से तीर्थङ्कर के पिता के घर में रत्नवर्षा होना फिर तीर्थङ्कर के गर्भ, जन्म, तप तथा केवल ज्ञान प्राप्त होने पर देव, इन्द्रों द्वारा असाधारण अनुपम उत्सव होना, तीर्थङ्कर का उपदेश-लाभ लेने के लिये समवशरण नामक अनुपम वैभवसम्पन्न, अनुपम सुन्दर सभा मंडप का देवों द्वारा बनना, मुक्त होने पर देवों द्वारा महाउत्सव होना आदि।

इस तीर्थङ्कर प्रकृति को प्राप्त कराने वाले सोलह विशेष कारण हैं १-दर्शनविशुद्धि (निर्मल सम्यग्दर्शन), २-विनय-सम्पन्नता (देव गुरु शास्त्र की विनय), ३-अनतिचार शील-व्रत (निर्दोष शील, व्रतों का पालन), ४-अभीक्षण ज्ञानोपयोग (सदा ज्ञानाभ्यास करना) ५-संवेग (संसार से भय तथा धर्म से प्रेम), ६-शक्तित-स्त्याग (शक्ति अनुसार दान करना), ७-शक्तितस्तप (शक्ति अनुसार तप करना), ८-साधुसमाधि (समाधि से शरीर त्याग करना—समाधि मरण), ९-वैयावृत्य (रोगी वृद्ध मुनि की सेवा करना, दीन दुखी की सेवा), १०-अर्हन्त भक्ति (अर्हन्त भगवान की भक्ति करना), ११-आचार्य भक्ति (संघ के सर्वोच्च नायक आचार्य की भक्ति करना), १२-बहुश्रुत भक्ति (बहुत ज्ञानी-उपाध्याय की भक्ति करना), १३ प्रवचन भक्ति (शास्त्र की भक्ति करना), १४- आव-श्यकापरिहाणि (छह आवश्यक कार्यों में कमी न आने देना), १५-मार्ग प्रभावना (जैनधर्म का प्रभाव फैलाना), १६-प्रवचनवा-

त्सल्य (साधर्म्य से गहरा प्रेम करना)। इन सोलह कारणों से तीर्थङ्कर प्रकृति का बन्धरूप कार्य होता है। इस कारण इनको षोडश (सोलह) कारण भावना कहते हैं।

तीर्थङ्कर प्रकृति का बन्धन इन में से १६ या इससे कम भावनाओं के द्वारा भी हो जाता है किन्तु दर्शन-विशुद्धि अवश्य होनी चाहिये उसके साथ में १-२ आदि भावनाएँ और होनी आवश्यक हैं।

षोडशकारण पर्व भाद्रपद, माघ और चैत्र मास में वदी १४ से सुदी १४ तक १६ दिन का होता है। इन १६ दिन तक

दर्शनविशुद्धि भावना भाय,
सोलह तीर्थङ्कर पददाय' परमगुरु हो'

आदि षोडशकारण पूजा की जाती है।

किन ही आचार्यों के मतानुसार यह पर्व एक मास का भी होता है तदनुसार माघवदी १ से फागुनवदी १ तक, चैत्रवदी १ से बैसाख वदी १ तक और भाद्रपद वदी १ आसोज वदी १ तक होता है।

पंचमेरु पूजा

जम्बू द्वीप के बीचमें एक लाख योजन ऊँचा एक गोल पर्वत है जिसका नाम 'सुदर्शन' मेरु' है। जम्बू द्वीपवर्ती दो सूर्य दो चन्द्र वाला ज्योतिषचक्र इसी पर्वत के चारों ओर सदा घूमता रहता है। धातकी खंड द्वीप में पूर्व तथा पश्चिम दिशा में विजय और अचल नामों के दो गोलाकार पर्वत हैं जो कि ८४-८४ हजार योजन ऊँचे हैं। तीसरे पुष्कर द्वीप में पूर्व में मन्दर और पश्चिम में विद्युन्माली नाम के दो पर्वत हैं वे भी ८४-८४ हजार योजन ऊँचे हैं। जम्बू द्वीप की तरह धातकी खंड तथा पुष्कर द्वीप के सूर्य चन्द्र आदि ज्योतिष विमान इन पर्वतों के चारों ओर सदा घूमा करते हैं।

इन पांचों मेरु पर्वतों की तलहटी में 'भद्रशाल' नामक वन है, कुछ ऊपर पहली कटनी पर 'नन्दन' वन है, उससे कुछ ऊपर दूसरी कटनी पर 'सौमनस' वन है और पांचों ही मेरु पर्वतों के ऊपर जो वन है उसका नाम 'पांडुक' वन है। जिस में पांडुक शिला है जिस पर कि तीर्थङ्कर का अभिषेक होता है।

इन चारों वनों में पूर्व, पश्चिम उत्तर, दक्षिण दिशा में पर्वत में वन हुए एक एक अकृत्रिम चैत्यालय हैं, सदा से चले आ रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक पर्वत के चारों वनों में चारों दिशाओं में एक एक चैत्यालय होने से प्रत्येक पर्वत पर सोलह सोलह चैत्यालय हैं अतः पांच पर्वतों के ८० चैत्यालय हैं। पंचमेरु पूजा में

“पांचों मेरु असी (८०) जिनधाम,
सब प्रतिमा को करों प्रणाम”

आदि रूप से इन ही ८० चैत्यालयों की, उन में विराजमान अकृत्रिम प्रतिमाओं की पूजा की जाती है।

नन्दीश्वरद्वीप पूजा

जम्बूद्वीप से आगे ६ द्वीपों के बाद आठवां द्वीप नन्दीश्वर है। उस नन्दीश्वर द्वीप की चारों दिशाओं में काले रंग के ८४-८४ हजार योजन ऊंचे 'अंजनगरि' नामक गोल पर्वत हैं। उन पर्वतों के चारों ओर एक एक लाख योजन लम्बी चौड़ी चार चार मीलें (बावड़ी) है, उन १६ मीलों (बावड़ियों) में दश हजार योजन ऊंचे एक एक 'दधिमुख' नामक सफेद गोल पर्वत हैं। तथा उन मीलों (बावड़ियों) के बाहरी दो दो कोनों पर एक एक हजार ऊंचे लाल रंग के 'रतिकर' नामक दो दो गोल पर्वत हैं। यानी-प्रत्येक दिशा में १ अंजनगरि, चार दधिमुख और आठ रतिकर इस प्रकार कुल तेरह तेरह पर्वत हैं अर्थात् चारों दिशाओंमें नन्दीश्वर द्वीप में

सब ५२ बावन पर्वत हैं। इन प्रत्येक पर्वत के ऊपर एक एक अकृत्रिम मन्दिर हैं तदनुसार नन्दीश्वर द्वीपमें ५२ अकृत्रिम मंदिर हैं। उनमें १०८-१०८ रत्नमय सुन्दर पांच २ सौ धनुष अवगाहना की मनोहर प्रतिमाएं हैं।

कार्तिक, फागुन और आषाढ़ मास में सुदी अष्टमी से पूर्णमासी तक ८-८ दिन तक नन्दीश्वर द्वीप में देव, इन्द्र जाकर बड़े उत्सव के साथ पूजन करते हैं। इसी के अनुरूप यहां भी उक्त तीनों महीनों के अन्तिम आठ दिनों में

‘नन्दीश्वर श्री जिनधाम बावन (५२) पूज करों,
वसु (८) दिन प्रतिमा अभिराम आनन्द भाव धरों।’

इत्यादि छन्दों में रची हुई पूजन करते हैं। इन ही आठ दिनों को अष्टान्हिका (अष्ट=आठ, अह्न=दिन यानी-आठदिन) कहते हैं, अष्टान्हिका में नन्दीश्वर द्वीप की पूजा के सिवाय सिद्धचक्र-विधान भी किया जाता है। और पंचमेरु की पूजा भी की जाती है।

दशलक्षण पर्व

जैनसिद्धान्तानुसार भरत, ऐरावत खण्ड में दुःषम-दुःषम नामक छठे काल के अन्त में आर्यखण्ड में प्रकृति के प्रकोप से ४६ दिन तक अनुपम, भयानक अग्नि, आंधी, वर्षा आदि से प्रलय हो जाती है। जो जीव यहां से भागकर या देवों द्वारा इन क्षेत्रों से बाहर चले जाते हैं वे तो बच जाते हैं शेष सभी मर जाते हैं, घर, वाग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। फिर ४६ दिन तक ऐसी अच्छी वर्षा होती रहती है जिससे वह प्रलय कालीन भयानक वातावरण दूर हो जाता है और यह क्षेत्र फिर मनुष्य पशु पक्षियों के रहने योग्य हो जाता है। इसी कारण फिर यहां जीव बसने लगते हैं।

उस नवीन सृष्टि का शुभदिन भाद्रपद सुदी पंचमीसे होता है। उसी दिन से इधर उधर आस पास के प्रदेशों में प्राण बचाने के लिये गये हुये मनुष्य पशु पक्षी स्वयं आकर अथवा दैवी सहायता पाकर यहां आकर फिर बसने लगते हैं।

आये खण्ड की इस घुनः-स्थापन के स्मरणरूप भाद्रपद सुदी ५ से पूर्णिमा तक १० दिन 'दशलक्षण पर्व' रक्खा है [यह एक आनुमानिक कल्पना है, इसका कोई सैद्धान्तिक आधार नहीं है।] इन दिनों में जैसे तो और भी अनेक व्रत किये जाते हैं। किन्तु उन सब में प्रधान दशलक्षण व्रत है। यानी-धर्म के जो उत्तमज्ञान, मार्ग, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आर्किचन और ब्रह्मचर्य ये जो दश भेद किये हैं प्रलय के बाद इन ही दशधर्मों के उपदेश से मनुष्यों को शान्तिमय जीवन बिताने का उपदेश दिया गया था। इन दशधर्मों का पालन भी इन १० दिनों में विशेष रूप से किया जाता है। दशधर्मों की पूजा भी प्रतिदिन इन दिनों में की जाती है। तत्वाथेसूत्र के १० अध्यायों का विवेचन इन दिनों में हुआ करता है। तथा रत्नत्रय, पुष्पांजलि, अनन्तचतुर्दशी, षोडशकारण आदि अनेक प्रकार के व्रत, तप संयम इन दिनों में किये जाते हैं। दश धर्मों के नाम पर इस पर्व को 'दशलक्षण पर्व' कहते हैं।

यह दशलक्षण पर्व भाद्रपद, माघ तथा चैत्र मास में यानी एक वर्ष में ३ बार होता है। ऐसा शास्त्रीय विधान है किन्तु भाद्रपद में वार्षिक प्रतिक्रमण होता है तथा क्षमावणी भी भाद्रपद में ही होती है; अतः सब स्थानों पर यह दशलक्षण पर्व जिसका दूसरा नाम 'पर्युषण' पर्व भी है भाद्रपद मास में ही मनाया जाता ।

इस पर्व के अन्त में आसोज वदी १ को क्षमावणी की पूजन

होकर चमावणी (समस्त जीवों से चूमा मांगना, स्वयं सबको चूमा करना) का कार्य किया जाता है।

रत्नत्रय पूजा

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीन गुणों को रत्नत्रय कहते हैं। उत्कृष्ट वस्तु को 'रत्न' कहते हैं जैसे श्रेष्ठ मनुष्य को 'नररत्न' कहते हैं। सम्यग्दर्शन (सत्यश्रद्धा), सम्यग्ज्ञान (यथार्थ ज्ञान) और सम्यक्चारित्र (सच्चा आचरण) इन तीनों गुणों से आत्मा कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है अतः मुक्ति का कारण होने से इन तीनों गुणों को 'रत्नत्रय' (तीन रत्न) शब्द से कहते हैं।

भाद्रपद, माघ और चैत्र मास में सुदी १३ से सुदी १५ तक तीन दिन रत्नत्रय पर्व होता है उन ही तीनों दिन रत्नत्रय पूजा की जाती है। प्रति दिन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र की पूजा करनी चाहिये।

बाहुबली पूजा

भगवान् ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र, भरतक्षेत्र के आद्य चक्रवर्ती भरत को जब उनके लघु किन्तु बलवान् भ्राता बाहुबली ने तीनों प्रकार के युद्ध में हरा दिया तब भरत ने अपने अपमानका बदला लेने के लिये अपना अमोघ अस्त्र चक्र बाहुबली का प्राण हरण करने के लिये बाहुबली पर चलाया किन्तु नियमानुसार चक्र स्वगोत्र (चक्रवर्ती के कुल के किसी व्यक्ति) का घात नहीं कर सकता अतः चक्र अस्त्र विफल हुआ। इस पर क्रुद्ध होकर भरत ने बाहुबली को अपने राज्य में से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी।

यह सुनकर बाहुबली को संसार से वैराग्य हो गया और राज्यपद छोड़ कर साधु बन गये। उन्होंने एक अडिग आसन से

खड़े होकर एक वर्ष तक तपस्या की। आस पास की बेलें उनके शरीर पर चढ़ गईं उनके पैरों के निकट सर्प रहने लगे, वर्षा, धूप, शर्दी उन्होंने अपने नग्न शरीर पर भेली।

अन्त में भरत चक्रवर्ती ने आकर उनको नमस्कार किया तब उनको केवल ज्ञान हुआ और कुछ समय के बाद भगवान् ऋषभदेव से भी पहले मुक्त हो गये।

श्रवणबेलगोला में 'गोम्मटेश्वर' नाम से उनकी ५७ फीट ऊंची संसारप्रसिद्ध मूर्ति है।

उन ही बाहुबली की पूजा की जाती है।

रत्नावन्धन या श्रावणी पर्व

आज से हजारों वर्ष पहले की बात है जब बलि आदि ४ ब्राह्मण ऋषियों ने धार्मिक द्वेषवश श्री अकम्पनाचार्य को ७०० मुनियों के संघ सांघत जीवित जला देने की इच्छा से हस्तिनापुर के बाहर मुनि संघ के चारों ओर धुणेंदार अग्नि जला दी, साधु-गण अपने ऊपर महा-विपत्ति समझकर आत्मध्यान में लीन हो गये। तब श्री विष्णुकुमार मुनि जो कि विक्रियाऋद्धि धारक थे। धार्मिक प्रेमवश तुरन्त हस्तिनापुर आये और उन्होंने विक्रिया (अपने शरीर को अपनी इच्छानुसार छोटा बड़ा बना लेने की आत्मशक्ति) ऋद्धि से त्रौन ब्राह्मण का रूप बना कर बलिमंत्री से अपने लिये ३ पैँड़ (कदम) पृथ्वी मांगी। उसने देना स्वीकार कर लिया तब उन्होंने विक्रिया से बड़ा रूप बना कर दो पैँड़ (कदम) में ही मानुषोत्तर पर्वत तक समस्त पृथ्वी नाप ली। तीसरा चरण बलि की पीठ पर रक्खा।

इस प्रकार पृथ्वी पर अधिकार पाकर उन्होंने तुरन्त अकम्पनाचार्य के संघ के चारों ओर की अग्नि हटवाकर उनकी विपत्ति

दूर की। जनता को इससे शान्ति-संतोष हुआ और उसने आटे की सेमरियों का आहार उन मुनियों को दिया क्योंकि धुएँ से उनके गले भी भर गये थे इस कारण सेमरियों के आहार से उनको आराम मिला।

वह दिन श्रावण शुक्ल १५ का था अतः उस दिन से प्रति वर्ष उनके स्मरण में 'श्रावणीपर्व' चालू हुआ है सलना पूजन भी इसी कारण उस दिन होती है और मुनिरक्षा का स्मरण रूप रक्षासूत्र हाथ में बांधा जाता है।

इस दिन भीतों पर लकीरें खींच कर ख्यां जो उनकी पूजा करती हैं सो मिथ्यात्व है। ऐसा न करना चाहिये।

दीपावली पूजन

विक्रम सं० से ४७० वर्ष पहले कार्तिक वदी अमावस्या के प्रातः से कुछ समय पहले अंतिम तीर्थङ्कर श्री भगवान महावीर पावापुरी से मुक्त हुये थे उस समय रात्रि का कुछ अन्धकार शेष था अतएव देवों ने तथा मनुष्यों ने वहाँ पर अगणित दीपक जलाकर, प्रकाश करके मोक्ष उत्सव मनाया था।

तदनुसार तब से ही प्रतिवर्ष भारतवर्ष में कार्तिक वदी अमावस को अनेक दीपकों का प्रकाश करके दीपावली उत्सव मनाया जाता है। चतुर्दशीकी रात्रिके अंतसमय भगवान महावीर की पूजा करके उनको निर्वाण लाडू चढ़ाया जाता है।

इस दिन भगवान महावीर की मोक्ष-लक्ष्मी तथा गौतम गणेश (गणधर) की पूजा के सिवाय अन्य लक्ष्मी, गणेश की पूजा करना मिथ्यात्व है।

गुणावा क्षेत्र

जिस समय अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ उसी समय श्री गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था।

कुछ दिन बाद श्री गौतमगखबर नवादा के निकट गुणावा से मुक्त हुए। गुणावा में तालाब के भीतर एक प्राचीन मन्दिर में उनके चरखचिन्ह हैं जिनको दिगम्बर श्वेताम्बर दोनों पूजते हैं। सबके के किनारे भी एक दि० जैन मन्दिर बना हुआ है।

पटना क्षेत्र

पटना में नगर के बाहर एक पुरानी धर्मशाला है उसके सामने वृद्धों की छाया में सुदर्शन सेठ के चरख-चिन्ह हैं। यहाँ से सुदर्शन सेठ को मुक्ति प्राप्त हुई थी,

सुदर्शन सेठकी कथा प्रसिद्ध है वे बहुत सुन्दर युवक थे। उस नगर की रानी उन पर आसक्त हो गई थी। उसने सेठ सुदर्शन के साथ अपनी कामवासना तृप्त करने की अपनी ओर से पूर्ण शारीरिक चेष्टा की किन्तु सुदर्शन सेठ अपने ब्रह्मचर्य अगुण्यत (पत्नीव्रत) के रंचमात्र भी विचलित न हुए रानी ने अपने प्रयत्नों में सफलता न पाकर, सुदर्शन सेठ पर बलात्कार व्यवहार करने का दोष आरोपण किया। राजा ने ठीक बात का पता न चलाकर उत्तेजनावश सुदर्शन सेठ को प्राणदण्ड सुना दिया।

किन्तु दैवी प्रभाव से सुदर्शन सेठ की शूली सिंहासन के रूप में हो गई। फिर सुदर्शन सेठ मुनि होकर तपस्या कर पटना से मुक्ति पधारे।

जम्बूस्वामी पूजा

भगवान महावीर के समय में राजगृह नगर में एक सेठ के पुत्र का नाम 'जम्बूकमार' था वे बड़े शूरवीर थे। उन्होंने युद्ध में शत्रु पर विजय पाई थी। उनका ४ सुन्दरी कन्याओं के साथ विवाह हुआ। उन सुन्दरियों ने रसीली काम कथाओं द्वारा पहली सुहागरात को जम्बू कुमार का मन विषय-भोगों में फँसाना चाहा किन्तु जम्बूकुमार न फसे बल्कि उन्होंने ससार, विषयभोगों

से विरक्त उत्पन्न करनेवाली ऐसी प्रभावशालिनी बातों की जिससे वे तत्काल विवाहित नवयुवतों बधुए भी संसार से विरक्त हो गईं, इतना ही नहीं किन्तु चोरी करने के लिये आया हुआ विद्यु-चचर चोर भी उन बातोंको सुनकर संसारसे विरक्त हो गया और जैसे ही जम्बूकुमार ने साधुदीक्षा ली उसी तरह विद्यु चचर ने भी प्रातः होते अपने ५०० वीरों के साथ साधुदीक्षा ग्रहण की।

जम्बूस्वामी तपस्या करते हुए केवलज्ञानी हो गये और मथुरा के निकट चौरासी स्थान से मुक्ति पधारे। जम्बूस्वामी अन्तिम केवलज्ञानी थे उनके पीछे फिर और कोई केवलज्ञानी नहीं हुआ। उन ही जम्बूस्वामी की पूजा की जाती है।

कलिकुण्ड पार्श्वनाथ पूजा

भगवान पार्श्वनाथ की अतिशययुक्त प्रसिद्ध प्रतिमाए मकसी, शिरपुर आदि अनेक स्थानों में है उनको मकसी पार्श्वनाथ, श्रीपुर पार्श्वनाथ आदि कहते हैं। तदनुसार दक्षिण भारत में कलिकुण्ड एक स्थान है वहा पर भगवान पार्श्वनाथ की एक सातिशय प्रतिमा है जिसके पूजन से विघ्न, विपत्ति, रोग मिट जाते हैं। उस पार्श्वनाथ मूर्ति की पूजा का नाम 'कलिकुण्ड पार्श्वनाथ' पूजा है।

श्रुतपंचमी

भगवान महर्षी के मुक्त हो जाने पर लगभग ६०० वर्ष तक जैन सिद्धान्तग्रन्थों का पठन पाठन मौखिक रूप से-बिना किसी ग्रंथ के सहारे-चलता रहा गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा देते थे और शिष्य सुनकर बिना कुछ लिखे याद कर लेते थे।

इसके पीछे धरसेन आचार्य ने (जो कि गिरनार की चंद्रगुफा में तपस्या करते थे) निमित्तज्ञान से यह निश्चय किया कि मनुष्यों की स्मरणशक्ति क्षीण हो गई है, आगे इससे भी कम हो

जायगी। यह विचार कर तथा अपनी आयु थोड़ी जानकर यह निश्चय किया कि 'कम से कम दो बुद्धिमान शिष्यों को जितना सिद्धान्त मुझे उपस्थित (याद) है उतना पढ़ा दूँ और उनसे कह दूँ कि मैंने जो कुछ पढ़ाया है उसको शास्त्ररूप में लिख दो जिससे सिद्धान्त ज्ञान आगामी समय के लिये स्थिर रह सके।'

तदनुसार उन्होंने महिमा नगरी के मुनि सम्मेलन को पत्र लिख कर दो बुद्धिमान मुनियों को अपने पास बुलाया। वहाँ से पुष्पदत्त, भूतबलि नामक दो मुनि धरसेनाचार्य के पास आये। धरसेनाचार्यने उनकी बुद्धिमानों की परीक्षा दीनाचर, अधिकाचर वाला मत्र देकर की। तदनन्तर उन्होंने उन दोनों को सिद्धान्त पढ़ाया।

आषाढ़ सुदी एकादशी का यह पढ़ाना समाप्त हुआ उसी समय चातुर्मास (वर्षायोग) निकट जानकर तथा अपनी मृत्यु निकट समझकर धरसेनाचार्य ने पुष्पदत्त भूतबलि को अपने पास में विदा कर दिया ताकि उनको मोहजनित दुःख न होवे।

श्री पुष्पदन्त भूतबलि आचार्य ने षट्खंड आगम लिखना प्रारम्भ किया और विक्रम सं० १४४ के ज्येष्ठ सुदी पंचमी को समाप्त किया। जैनग्रन्थों में यह सबसे पहला ग्रन्थ है।

उस दिन बहुत उत्सव मनाया गया और तभी से प्रतिवर्ष जेठ सुदी पंचमी को 'श्रुतपंचमी' का उत्सव मनाया जाने लगा। इस दिन शास्त्रों की पूजा की जाती है, शास्त्रों को धूप दी जाती है तथा वेष्टन बदले जाते हैं।

शेष पर्व

पुष्पाजलि— भाद्रपद सुदी ५ से ६ तक—पंचमेरु पूजा
लम्बिविधान— भाद्रपद सुदी ९ स २ तक, चौबीस
तीर्थंकर पूजा

रोट तीज—	भाद्रपद सुदी ३—चौबीस तीर्थङ्कर पूजा
शीलसप्तमी—	भाद्रपद सुदी ७—
सुगन्धदशमी—	भाद्रपद सुदी १०—शीतलनाथ पूजा
अनन्तव्रत—	भाद्रपदसुदी ११ से १४ तक अनन्तनाथ पूजा
क्षमावाणी—	आसोज वदी १—क्षमावाणी पूजा
ऋषभनिर्वाण—	माघ वदी १४—आदिनाथ पूजा
महावीर जयन्ती—	चैत्र सुदी १३—वर्द्धमान पूजा
अक्षयवृत्तीया—	वैशाख सुदी ३—आदिनाथ पूजा
श्रुत पंचमी—	जेठ सुदी ५—शास्त्र पूजा
मोक्षसप्तमी—	श्रावण सुदी ७—पार्वनाथ पूजा
रोहिणीव्रत—	जिस तिथिको रोहिणी—वासु- नक्षत्र हो पूज्य पूजा
रविव्रत—	आषाढ़ सुदी ८ से भाद्रपद सुदी— १५ तक प्रत्येक रविवार—पार्वनाथ पूजा (६ वर्ष तक)

ऊपर लिखे अनुसार पुष्पांजलि आदि व्रत नियत तिथि को बतार्ई गई पूजन करके करने चाहिये ।

चैत्रवदी १०
बी० सं० २४७७
१-४-५१

}

अजितकुमार जेन शास्त्री
अकलंक प्रेस,
सदरबाजार, देहली ।

बुधजनकृत स्तुति

प्रभु पतितपावन मैं अपावन, चरन आयो सरनजी ।
 या विरद आष निहार स्वामी, भेंट जामन मरनजी ॥ १ ॥
 तुम ना पिछान्यो आन मान्यो, देव विविधप्रकारजी । या
 बुद्धि सेती निज न जाएयो, भ्रम गिण्यो हितकारजी ॥२॥
 भवविकट वनमें करम वैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो । तब
 इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति घरतो फिर्यो ॥ ३ ॥
 धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जनम मेरो भयो ।
 अब भाग मेरो उदय आयो, दरश प्रभुको लख लयो ॥४॥
 छवि वीतरागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासापै धरैं । वसु प्राति-
 हार्य अनंत गुण जुत, कोटि रवि छविको हरैं ॥ ५ ॥ मित
 गयो तिमिर मिथ्यात मेरो, उदयरवि आतम भयो । मो उर
 हरष ऐमो भयो, मनु रंक चिंतामणि लयो ॥ ६ ॥ मैं हाथ
 जोड़ नवाय मस्तक, वीनऊं तुअ चरन जी । सर्वोत्कृष्ट त्रि-
 लोकपति जिन, सुनहु तारन तरन जी ॥ ७ ॥ जाचूं नहीं
 सुरवास पुनि, नरराज परिजन माथजी । बुध जाचहूं तुअ
 भक्ति भव भव, दीजिये शिवनाश जी ॥ ८ ॥

दौलतरामकृत स्तुति

दोहा—सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि, निजानन्दरसलीन ।

सो जिनेन्द्र जयवंत नित, अरिरजरहसविहीन ॥१॥

जय वीतराग विज्ञानपूर, जय मोहतिमिरको हरनसूर ।
 जय ज्ञान अनंतानंतधार, दृग सुख वीरजमण्डित अपार
 ॥ २ ॥ जय परमशांत मुद्रा समेत, भविजनको निज अनु-
 भूति हेत । भविभागनवश जोगेशाय, तुमधुनि हूँ सुनि
 विभ्रम नशाय ॥३॥ तुम गुण चितत निजपरविवेक, प्रगतै
 विघटै आपद अनेक । तुम जगभूषण दूषणवियुक्त, सब
 महिमायुक्त विष्कपमुक्त ॥ ४ ॥ अविरोद्ध शुद्ध चेतनस्वरूप,
 परमात्म परम पावन अनूप । शुभअशुभविभाव अभाव
 क्रीन, स्वाभाविकपरिणतिमयअछीन ॥ ५ ॥ अष्टादशदोष-
 विमुक्त धीर, स्वचतुष्टयमय राजत गभीर । मुनिगणधरादि
 सेवत महंत, नवकेवललब्धिरमा धरत ॥ ६ ॥ तुम शासन
 सेय अमेय जीव, शिव गये जाहि जैहैं सदीव । भवसागर-
 में दुख छार वारि, तारनको अवर न आप टारि ॥ ७ ॥ यह
 लखि निज दुखगदहरणकाज, तुमही निमित्तकारण इलाज ।
 जाने तातैं मैं शरण आय, उचरों निज दुख जो चिर लहाय
 ॥ ८ ॥ मैं अम्यो अपनपो विसरि आप, अपनाये विधिफल
 पुण्य पाप । निजको परको करता पिछान, परमें अनिष्टता
 इष्ट ठान ॥ ९ ॥ आकुलित भयो अज्ञान धारि, ज्यों मृग
 मृगतृष्णा जानि वारि । तनपरणतिमें आपो चितार, कवहूँ
 न अनुभवो स्वपदसार ॥१०॥ तुमको विन जाने जो कलेश,
 पाये सो तुम जानत जिनेश । पशुनारकनरसुरगतिमभार,

भव धर धर मरयो अनंत वार ॥११॥ अब काललब्धिवल्लै
 दयाल, तुम दर्शन पाल भयो सुख्याल । मन शांत भयो
 मिटि सकल द्वन्द, चारुयो स्वातमरस दुखनिकंद ॥ १२ ॥
 तातैं अब ऐसी करहु नाथ, विछुरै न कमी तुअ चरण
 साथ । तुम गुणगणको नहिं छेव देव, जग तारनको तुअ
 विरद एव ॥ १३ ॥ आत्मके अहित विषय कषाय, इनमें
 मेरी परिणति न जाय । मैं रहूं आपमें आप लीन, सो करो
 हौंउ ज्यों निजाधीन ॥ १४ ॥ मेरे न चाह कछु और ईश,
 रत्नत्रयनिधि दीजै मुनीश । मुझ कारजके कारन सु आप,
 शिव करहु हरहु मम मोहताप ॥१५॥ शशि शांतिकरन तप
 हरन हेत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत ॥ पीवतपियूष ज्यों
 रोग जाय, त्यों तुम अनुभवतै भव नशाय ॥१६॥ त्रिभुवन
 तिहुंकाल मंभार कोय, नहिं तुम विन निज सुखदाय
 हांप ॥ मो उर यह निश्चय भयो आज, दुखजलधि उतारन
 तुम जिहाज ॥ १७ ॥

दाहा—तुम गुणगणमणि गणपती, गणत न पावहिं पार ।
 'दौल' स्वल्पमति किमि कहै, नमू' त्रियोग संभार ॥

पार्श्वनाथ स्तुति ।

भुजङ्गप्रयात छन्द ।

नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीसं, शतेन्द्रं सु पूजै भजै नाथ
 शीशं । मुनीन्द्रं गर्णेन्द्रं नमै जोडि हाथं, नमै देवदेवं सदा

पार्वनार्थ ॥ १ ॥ गर्जेन्द्रं मृगेन्द्रं गह्यो तू ह्युडार्वै, महा-
 आगतै नागतै तू बचावै । महावीरतै युद्धमे तू जितावै, महा-
 रोगतै बंधतै तू ह्युडार्वै ॥२॥ दुस्वीदुःखहर्ता सुखीसुखकर्ता,
 सदा सेवकोंको महानन्दभर्ता । हरे यच्च राक्षस्स भूतं पिशाचं
 विषं डाकिनी विघ्नके भय अवार्य ॥३॥ दरिद्रीनको द्रव्यके
 दान दीनं, अपुत्रीनकौ तू भले पुत्र कीने । महासंकटोंसे
 निकारै विधाता, सबै संपदा सर्वको देहि दाता ॥४॥ महा-
 चोरको वज्रको मय निवारे, महापौनके पुंजतै तू उवारै ।
 महाक्रोधकी अग्निका मेघधारा, महालोभशैलेशको वज्र
 मारा ॥ ५ ॥ महामोह अंधेरको ज्ञानभानं, महाकर्मकांतारको
 दौ प्रधानं । किये नाग नागिनि अधोलोकस्वामी, हरयो मान
 तू दैत्यको हां अकामी ॥ ६ ॥ तुही कल्पवृक्षं तुही कामधेनं
 तुही दिव्यचिंतामणी नाग एनं । पशू नर्कके दुखतै त
 ह्युडार्वै, महास्वर्गतै मुक्तिमे तू बसावै ॥७॥ करै लोहका
 हेमपाषाण नामी, रटै नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी । करै
 सेव ताको करै देव सेवा, सुनै वेन सोही लहै ज्ञान मेवा ॥८॥
 जपै जाप ताको नहीं पाप लागै, धरे ध्यान ताके सबे दोष
 भागै । बिना तोहि जाने धरे भव घनरे, तुम्हारी कृपातै
 मरै काज मेरे ॥

दोहा—गणधर इन्द्र न कर सकै, तुम विनती भगवान ।

‘द्यान्त’ प्रीति निहारिके, कीजे आप समान ॥९॥

पंच मंगल ।

पञ्चविधि पंच परमगुरु, गुरु जिन सासनो,
सकलसिद्धिदातार सु विघनविनासनो ।
सारद अरु गुरु गौतम मुमति प्रकाशनो,
मंगल कर चउ-संघहि पापपणासनो ॥

पापहिपणासन गुणहि गरुवा दोष अष्टादश—रहिउ ।
धरि ध्यान करमविनाश केवल, ज्ञान अविचल जिन लहिउ ।
प्रभु पञ्चकल्याणक विराजित, सकल सुर नर ध्यावही ।
त्रैलोक्यनाथ सु देव जिनवर, जगत मङ्गल गावही ॥ १ ॥

गर्भकल्याणक ।

जाके गरभकल्याणक धनपति आइयो ।
अवधिज्ञान-परवान सु इंद्र पठाइयो ॥
रचि नव बारह जोजन, नयरि सुहावनी ।
कनकरयणमणिमडित, मंदिर अति बनो ॥
अति बनी पौरि पगारि परिखा, सुवन उपवन सोहए ।
नर नारि सुन्दर चतुरभेष सु देख जनमन मोहए ॥
तहं जनकगृह छहमास प्रथमहि रतनधारा बरसियो ।
पुनि रुचिकवासिनि जननिसेवा करहि सब विधि हरबिद्यो ॥
सुकुजरसम कुंजर, धवल धुरंधरो ।
केहरि-केशरशोभित, नख शिखसुन्दरो ॥
कमलाकलश- न्हवन, दुश्दाम सुहावनी ।
रविशशि मंडल मधुर, मीन जुग पावनी ॥

पावनिकनक घट जुग्म-भूरन, कमलकलित सरोवरो ।
 कल्लोलमालाकुलितसागर सिंहपीठ मनोहरो ॥
 रमणीक अमरविमान फणपति-भुवच भवि छवि छाजई ।
 रुचि रतनराशि दिपंत, दहन सु तेजपुञ्ज बिराजई ॥ ३ ॥

ये सखि सोलह सुपने सूती सयनही ।

देखे माय मनोहर, पश्चिम रयनही ॥

उठि प्रभात पिय पूजियो, अवधि प्रकाशियो ।

त्रिभुवनपति सुत होसी, फल तिहुं भासिया ॥

भासियां फल तिहिं चित दम्पति परम आनंदित भये ।

छहमासपरि नवमास पुनि तहं, रैन दिन सुखसौं गये ॥

गभावतार महंत महिमा, सुनत सब सुख पावही ।

भणि 'रूपचन्द' सुदेव जिनवर जगत मङ्गल गावही ॥४॥

जन्मकल्याणक ।

मतिश्रत प्रवधिविराजित, जिन जब जनमिया ।

तिहुँलोरु भयो छोभित, सुगगन भरमियां ॥

कल्पवापि घर घंट, अनाहद बज्जिया ।

जोतिष घर हरिनाद सहजगल गज्जिया ॥

गज्जिया सहजहिं संख भावन, भुवन सबद सुहावने ।

वितरनिलय पटु पटह बज्जहि, कहत महिमा क्यों बने ॥

कंपित सुरासन अवधिवल जिन जनम निहचै जानियो ।

धनराज तब गजराज माया मयी निरमय आनियो ॥५॥

जोजन लाख गयंद वदन सौं निरमये ।

बदन बदन वमुदंत दंत सर संठये ॥

हरसर सौ पनबीस कमलिनी ब्राजहीं ।

कमलिनि कपलिनि कमल पचीस विराजहीं ॥

सलाही कमलिनि कमलऽठोतर सौ मनोहर दल बने ।
दल दलाई अपहर नटहि नवरस, हाव भाव सुहावने ॥
मणि कनककिणिकिणिकि वर विचित्र सु अमरमण्डप सोहये ।
घनघंट चंवर धुजा पताका, देखि त्रिभुवन मोहये ॥६॥

तिहिं करि हरि चढि आयउ सुरपरिवारियो ।

पुरहिं प्रदच्छन दे त्रय जिन जयकारियो ॥

गुप्तजाय जिन जननिहिं सुखनिद्रा रची ।

मायाभयि सिसु राखि तो जिन आन्यो सची ॥

आन्यो सची जिनरूप निरखत, नयन तृपति न हूजिये ।
तब परम हरषित हृदय हरिने सहस लोचन पूजिये ॥
पुनि करि प्रणाम जु प्रथम इन्द्र, उल्लंग धरि प्रभु लीनऊ ।
ईशान इन्द्र सु चन्द्र छवि सिर, छत्र प्रभुके दीनऊ ॥७॥

सनतकुमार महेंद्र चमर दुइ ढारहीं ।

सेस सक्र जयकार सबद उच्चारहीं ॥

उच्छवसहित चतुरविधि सुर हरषित भये ।

जोजन सहस निन्यानवे गगन उल्लंघि गये ॥

लंघिगये सुरागिरि जहां पांडुक, वन विचित्र विराजहीं ।
पांडुक शिला तहं अर्द्धचन्द्र समान, मणि छवि ब्राजहीं ।
जोजन पचास विशाल दुगुणायाम, वसु ऊंची गनी ।
वर अष्ट-मंगल-कनक कलशनि सिंहापीठ सुहावनी ॥८॥

रचि मणिमंडप सोभित मध्य सिंहासनो ।

थाप्यो पूरब मुख तहं, प्रभु कमलासनो ॥

बाजहि ताल मृदंग-बिणुं धीशा-धने ।

दुन्दुभि प्रमुखं मधुरंधुनि, अवरं जु बाजे ॥ ११० ॥

बाजने बाजहि सची सब मिलि, धवल मंगल गावहि ।
पुनि करहि नृत्य सुरागना सब, देव कौतुक धावहि ।
भरि छीरसागर जल जु हाथहि, हाथ सुरगिरि ल्यावहि ।
सौधर्म अरु ईशान इन्द्र सु कलश ले प्रभु न्हावहि ॥६॥

वदन उदर अत्रगाह, कलसगत जानिये ।

एक चार वसु जोजन, मान प्रमानिये ॥

सहस-अठोतर कलसा, प्रभुक सिर ढरई ।

पुनि सिंगार प्रमुख, आचार सबै करई ॥

करि प्रगट प्रभु महिमा महोच्छ्रव, आनि पुनि मातहि दयो ।
धनपतिहि सेवा राखि सुरपति, आप सुरलोकहि गयो ।
जनमाभिषेक महत महिमा, सुनत सब सुख पावही ।
भाण रूपचन्द' सुदेव जिनवर जगतमगल गावही ॥१०॥

तपकल्याणक ।

श्रमजलरहित सरीर, सदा सब मलरहिउ ।

छीर वरन वर रुधिर, प्रथम आकृति लहिउ ॥

प्रथम सार सहनन, सरूप विराजही ।

सहज सुगंध सुलच्छन, मंडित छाजही ॥

छाजहि अतुलबल परम प्रिय हित, मधुर वचन सुहावने ।
दस सहज अतिशय सुभग मूर्ति, बाललील क्हावने ॥
आबाल काल त्रिलोकपति मन, रुचिर उचित जु नित नये ।
अमरोपनीत पुनीत अनुपम सकल भोग विभोगये ॥११॥

मन्तन-भाग-विरत्त, कदाचित् चित्तम् ।
 धन जीवन पिय पुत्त, कलत्त अनित्तम् ॥
 कोउ न सरन मरनदिन, दुख चहुँगति मरयो ।
 सुखदुख एकहि भोगत, जिय विधिवसि परयो ॥
 पर्या विधिवसि आन चेतन, आन जड़ जु कलेबरो ।
 तन असुचि परतैं होय आस्रव, परिहरेतैं संवरो ॥
 निरजरा तपबल होय समकित, बिन सदा त्रिभुवन भन्यो ।
 दुर्लभ भिवेक बिना न कबहूँ, परम धरमविषै रन्यो ॥१०॥
 ये प्रभु वारह पावन, भावन भाइया ।
 लौकातिक वर देव, नियोगी आइया ॥
 कुसुमांजलि दे चरन, कमल सिर नाइया ।
 स्वयंबुद्ध प्रभु धुतिकर, तिन समुभाइया ॥
 समुन्हाय प्रभुको गये निजपुर, पुनि महोच्छ्रव हरि कियो ।
 रुचिरुचिर चित्र विचित्र सिविका, करसु नंदन वन लियो ॥
 तहं पंचमुद्गी लोच कीनों, प्रथम सिद्धनि धुति करी ।
 मंडिय महाशक्ति पंच दुद्धर सकल परिगह परिहरी ॥ १३ ॥
 'मणिमयभाजन' केश परिद्विय सुरपती ।
 'छीरसमुद्-जल' खिपकरि, गयो अमरावती ॥
 तपसंयमबल 'प्रभु'को, मनपरजय मयां ।
 मौनसहित तप करत, काल कछु तहं गयो ॥
 गयो कछु तहं काल तपबल, अद्धि बसुविधि सिद्धिया ।
 नसू धर्मध्यानबलेन खयगय, सप्त प्रकृति प्रसिद्धिया ।
 खिपि सातवे गुण जतनबिन तहं, तीन प्रकृति जु बुधि बद्धि ।
 करि करण तीन प्रथम सुकलबल, खिपकसेनी प्रभु चदिव ॥१४॥

प्रकृति छतीस नवें-गुण, थान विनासिया ।
 दसवें छच्छमलोभ, प्रकृति तहें नासिया ॥
 सुकल ध्यानपद दूजो, पुनि प्रभु पुरियो ।
 बारहवें-गुण सोरह, प्रकृति जु चूरियो ॥

चूरियो त्रेसठ प्रकृति इहविधि, घातिया करमनितणी ।
 तप कियो ध्यानपर्यन्त बारह-विधि त्रिलोकासरोमणी ॥
 निःकमणकल्याणक सु महिमा, सुनत सब सुख पावही ।
 भणि 'रूपचन्द' सुदेव जिनवर, जगत मंगल गावही ॥१४॥

ज्ञानकल्याणक ।

तेरहवें गुण-थान सयोगि जिनसुरो ।

अनंतचतुष्टयमंडिय, भयो परमेसुरो ॥

समवसरन तब धनपति, बहुविधि निरमयां ।

आगमजुगति प्रमान, गगनतल परिठयो ॥

परिठयो चित्र विचित्र मण्डिमय, सभामण्डप सोहये ।

तिर्हिमध्य बारह बने कोठे, कनक सुरनर मोहये ।

मुनि कल्पवासिनि अरजिका पुनि ज्योति भौमि-भबन्त्रिषा ।

पुनि भवनव्यंतर नभग सुरनर पशुनि कोठे बठिषा ॥१६॥

मध्यप्रदेश तीन, मखिपीठ तहां बने ।

गंधकुटी सिंहासन, कमल मुहावने ॥

तीन छत्र सिर सोहत त्रिभुवन मोहए ।

अंतरीच्छ कमलासन, प्रभुतन सोहए ॥

सोहये चौसठ चमर ढरत, अशोकतरुतल छाजए ।

पुनि दिव्यधुनि प्रतिसवदजुत तहं, देव दुंदभि बाजए ।

सरपुहुपवृष्टि सुप्रभामण्डल, कोटि रवि छवि छाजए ।
 शम अष्ट अनुपम प्रातिहारज, वर विभूति विराजए ॥१७॥

दुइसै जोजनमान सुभिच्छ चहुँ दिसी ।

गगनगमन अरु प्राणी, वध नह अहनिसी ॥

निरुपसर्ग निरहार, सदा जगदीशए ।

आनन चार चहुँदिसि, सांभित दीसए ॥

दीसय असेस वैसेस विद्या, विभव वर ईसुरपना ।

छायाविबर्जित सूद्ध फटिक समान तन प्रभुका बना ॥

नहिं नयनपलकपतन कदाचित, केस नख सम छाजहीं ।

ये धार्तयाद्यजनि अतिशय, दस विचित्र विराजहीं ॥१७॥

सकल अरथमय मागधि-भाषा जानिए ।

सकल जीवगत मैत्री-भाव बखानिए ॥

सकल ऋतुत्र फलफूल, वनस्पति मन हरै ।

दरपनसम मन्वि अविनि, पवनगति अनुसरै ॥

अनुसरै परमानंद सबको, नार नारि जे सेबता ।

जोजन प्रमान धरा सुमाजहिं, जहां माहत देवता ॥

पुनि करहिं मेघकुमार गधोदक सुबुष्टि सुहावनी ।

पदकमलतर सुर ग्विपहिं कमलसु धरणि ससिसोभा बनी ॥१८॥

अमलगगनतल अरु दिसि, तहँ अनुहारहीं ।

चतुरनिकाय देवगण, जय जयकारहीं ॥

धर्मचक्र चल आगै, रविजहँ लाजहीं ।

पुनि भृंगार-प्रमुख वसु मंगल राजहीं ॥

राजर्ही चौदह चारु अतिशय, देव रचित सुहावने ।
 जिनराज केवलज्ञानमहिमा, अवर कहत कहा बने ।
 तब इन्द्र आय कियो महोच्छ्रव, सभा सोभा अति बनी ।
 धर्मोपदेश दियो तहां, उच्चरिय वानी जिनतनी ॥२०॥

क्षुधातृषा अरु रोग, रोष असुहावने ।

जनम जरा अरु मरण, त्रिदाष भयावने ॥

रोग सोग भय विस्मय, अरु निद्रा घनी ।

स्वेद स्वेद मद मोह, अरति चिंता गनी ॥

गनिये अठारह दोष तिनकरि रहित देव निरंजनो ।

नव परम केवललब्धिर्मंडिय सिवरमनि-मनरंजनो ॥

भीज्ञानकल्याणक सुमहिमा, सुनत सब सुख पावही ।

भयि 'रूपचन्द' सुदेव जिनवर, जगत मंगल गावही ॥२१॥

निर्बाणकल्याणक ।

केवलदृष्टि चराचर, देख्यो जारिसो ।

भव्यनिप्रति उपदेश्यो, जिनवर तास्सिो ॥

भवभयभीत भविकजन, मरणे आइया ।

रत्नत्रयलच्छन सिवपंथ लगाइया ॥

१.५ लगगाइया पंथ जु भव्य पुनि प्रभु तृतीय सुकल जु पूरियो ।

तजि तेरवां गुणधान जोग अजोगपथपग धारियो ॥

पुनि चौदहें चौथे सुकलबल, बहत्तर तेरह हती ।

इमि घाति वसुविध क्रमे पहुंच्यो, समयमें पंचमगती ॥२२॥

लोकसिखर तनुवात, बलयमहँ संठियो ।

धर्मद्रव्यविन गमन न जिहिं आगे कियो ॥

भयनरहित मूषे:दर, अंबर जागिसो ।

किमपि हानानजतनुते, भयो प्रभु तारिसो ॥

तारिसो पर्जय नित्य अर्बिचल, अर्थपजय छनद्धयी ।
निश्चयनयेन अनंतगुण, विवहार नय वसुगुणमयी ।
वस्तुस्वभाव विभावावराहत, सुद्ध परिणति परिणयो ।
चिदरूपपरमानंद मन्दिर, सिद्ध परमात्म भयो ॥२३॥

तनुपरमाणू दामिनिवत, सब खिरगए ।

रहे मेस नखकेश-रूप, जे परिणए ॥

तव हरिप्रमुख चतुरविधि, सुरगण श्छुभ सच्या ।

मायामयि नख केशरहित, जिनतनु रच्या ॥

रवि अग्ररच-दन प्रमुख परिमल, द्रव्य जिन जयकारियो ।
पदपतित अग्निकुमार मुकुटानल, सुविध सस्कारियो ।
निर्वाण कल्याणक सु महिमा, सुनत सब मुख पावही ।
भणिए 'रूपचन्द' सुदेव जिनवर, जगत मंगल गावही ॥२४॥

धै मातहान भगतिवम भावन भाइया ।

मंगल गातप्रबंध, सु जिनगुण गाइया ॥

जो नर सुनहि, बखानहि सुर धरि गावही ।

मनवाञ्छित फल सा नर, निहचै पावही ॥

पावही आठो सिद्धि नवनिधि, मन प्रतीत जो लावही ।
भ्रम भाव छुटै सकल मनके निजस्वरूप लखावही ॥
पुनि हरहि पातक टरहि विघन सु होहि मंगल नितनये ।
भणिए 'रूपचन्द' त्रिलोकपति, जिनदेव चउसंघहि जये ॥२५॥

अभिषेक पाठ ।

दोहा ।

जय जय भगवते मदा, मंगल मूल महान ।

वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, नर्मा जोरि जगपान ॥

हाल मंगलकी छन्द अडिल्ल और गीता ।

श्रीजिन जगमें ऐमौ, को बुधवंत जू । जो त्म गुण वर-
ननि करि पावें अत जू ॥ इन्द्रादिक सुर चार ज्ञानधारी मुनी ।
कहि न सकें त्म गुणगण हे त्रिभुवनधनी ॥ अनुपम अमित
तुम गुणनिवारिधि, ज्यो अलाकाकाश है । किमि धरै हम
उर कोषमें मा अकथगुणमणिराश है ॥ पे निजप्रयोजन सि-
द्धिकी तम नाममे ही शक्ति है । यह वित्तमे मरधान यातै
नाम हीमे भक्ति है ॥१॥ ज्ञानावगणी दर्शन आवगणी मन ।
कर्ममोहना अंतराय चारो हन ॥ लोकालाक विलोक्यो केव-
लज्ञानमें । इन्द्रादिकके मुकुट नये सुरग्यानमें ॥ तब इन्द्र जा-
न्या अवधित, उठि सुरनयुत वन्दत भयो । तुम पुरपको प्रेर्यो
हरी है मुदित धनपनिसौ चयो । अब बेगि जाय रचो सम-
वसृति मफल सुरपदको करौ । साक्षात् श्रीअरहंतके दर्शन
करौ कल्मष हरौ ॥२॥ ऐसे वचन सुने सुरपतिके धनपती ।
चल आयो ततकाल मोद धारै अती । वीतराग छवि देखि
शब्द जय जय चर्यौ । द परदन्दिना बार बार वंदत भयो ॥

अति भक्ति भीनो नम्रचित हूँ समवशरण रन्यौ सही ।
 ताकी अनूपम शुभगतीकां, कहन समरथ कोउ नहीं ॥ प्राकार
 तारण सभामंडप कनकमणिमय छाजही । नगजडित गंध-
 कुटी मनोहर मध्यभाग विराजही ॥ ३ ॥ मिहासन तामध्य
 बन्यौ अदभुत दिपे । तापर वारिज रन्यौ प्रभा दिनकर छिपै ॥
 तीनछत्र मिरशोभित चोसठचमरजी । महाभक्तिपुत डोरतहैं तहां
 अमरजी ॥ प्रभु तरनतारन कमल ऊपर अन्तरीक्ष विराजिया ।
 यह बीतगगदशा प्रतच्छ विलोकि भविजन सुख लिया ॥
 मुनि आदि द्वादश मभाके भवि जीव मस्तक नायकै । बहु-
 भाति चारंवार पूजै, नमै गुणगण गायकै । ४ । परमो-
 दारिक दिव्य देह पावन सही । लूधा तृषा चिता भय गद-
 ऽपण नहीं । जन्म जरा मृति अरति शोक विस्मय नसे ।
 राग रोष निद्रा मद मोह मधै खसे ॥ श्रमविना श्रमजलरहित
 पावन अमल ज्योतिस्वरूपजो । शरणागतनिका अशुचिता
 हरि, करत विमल अनूपजी ॥ ऐसे प्रभुकी शांतिमुद्राको
 न्हवन जलतै कर । जस भक्तिवश मन उक्तिते हम, भानु
 ढिगदीपक धर ॥५॥ तुमतो सहज पवित्र यही निश्चय भयो ।
 तुम पवित्रताहेत नहीं मज्जन ठया ॥ मै मलीन रागादिक
 मलतै हूँ रह्यो । महामलिन तनमें बसुविधिवश दुख सह्यो ॥
 चीत्यो अनन्तो काल यह, मेरी अशुचिता ना गई । तिस
 अशुचिनापर एक तुम ही भगद् बॉला चित ठई ॥ अब अष्ट-

कर्म विनाश सब मल गणरागादिक हरो । तनरूप कारागहते
 उद्धार शिववामा करौ ॥ ६ ॥ मै जानत तुम अष्टकर्म हरि
 शिव गये । आवागमन विमुक्त गगवजित भये ॥ पर तथापि
 मेरो मनरथ पूरत सही । नयप्रमानते जानि महा
 साता लही ॥ पापाचरण तजि न्हवन करता चित्तमें ऐसे
 घरुं । साक्षात् श्रांअग्रहतका माना न्हवन परमन करुं ॥
 ऐसे विमल पांश्याम हाते अशुभ नमि शुभवन्धतै । विधि
 अशुभ नसि शुभवधते हूँ शर्म सब विधि तासतै । ७ ॥
 पावन मेरे नयन, भय तुम दरमते । पावन पान भये तुम
 चरनान परसतै ॥ पावन मन हूँ गयो निहार ध्यानतै ।
 पावन रसना मानी, तुम गुण गानतै ॥ पावन मई परजाय
 मेरी, भयो मै पूरणवर्ना । मे शक्तिपूर्वक भाक्त कीनी,
 पूर्णभक्ति नहा वनी ॥ धन्य ते बड़भागि भवि तिन नीव
 शिवघरका धरा । वर चौरसागर आदि जल मणिकुम्भ भरि
 मक्ती करौ ॥ ८ ॥ विघनसघन वनदाहन-दहन प्रचंड हा ।
 मोहमहातम दलन प्रबल मारतड हा ॥ ब्रह्मा विष्णु महेश,
 आदि संज्ञा धरो । जगविजयी यमराज नाश ताको करौ ॥
 आनन्दकारण दुखनिवारण, परममंगलय सहा । मोसां पतित
 नहिं और तोसौ, पतिततार सुन्यौ नही ॥ चिंतामणी पारस
 कलपतरु, एकभव सुखकार ही । तुम भक्तिनवका जे चढे ते,
 भये भवदधि पार जी ॥ ९ ॥

दोहा ।

तुम भविदधितै तरि गये, भये निकल अविकार ।
तारतम्य इम भक्तिकां, हमें उतागे पार ॥ १ ॥

श्रीजिनसहस्रनामस्तोत्रं ।

(श्रीभगवज्जिनसेनाचार्यकृत)

स्वयंभुवे नमस्तुभ्यमुत्पाद्यात्मानमात्मनि । स्वात्मनैव तथोद्भूत-
वृत्तयेऽचित्यवृत्तये ॥१॥ नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मीभ्रै नमो नमः ।
विदांबर नमस्तुभ्यं नमस्तं वदतांबर ॥ २ ॥ कामशत्रुहर्ग
देवमामनन्ति मनीषिणः । त्वामानमत्सुरेणमौलिभामालाभ्यचितक्र-
मम् ॥३॥ ध्यानदुर्घणनिभिन्नघनघातिमहातरुः । अनन्तभवसंतान-
चयोप्यासीरनन्तजित् ॥४॥ त्रैलोक्यनिर्जयाव्याप्तदुर्दुष्पमतिदुजयम् ।
मन्युराजं विजित्यासीज्जन्ममृत्युञ्जयो भवान् ॥५॥ विधूताशेषसंसारो
बन्धुर्नो भव्यवान्धवः । त्रिपुरारिस्त्वमीशोसि जन्ममृत्युजरान्तकृत ॥६॥
त्रिकालविषयाशेषतस्त्वभेदात् त्रिधोच्छिदम् । केवलाख्यं दधच्चक्षु-
स्त्रिनेत्रोमि त्वमीशिता ॥ ७ ॥ त्वामन्धकान्तकं प्राहुर्मोहान्धासुर-
मर्हनात् । अर्द्धन्ते नारयो यस्मादर्धनारीश्वरोस्युत ॥ ८ ॥ शिवः
शिवपदाध्यासाद् दुरितारिहरो हरः । शंकरः कृतशं लोके संभवस्त्वं
भवन्मुख्ये ॥९॥ वृषभोसि जगज्ज्येष्ठः गुरुर्गुरुगुणोदयैः । नाभेयो
नाभिसंभूतेरिद्वाकुलनन्दनः ॥ १० ॥ त्वमेकः पुरुषस्कन्धस्त्वं
द्र लोकास्य लोचने । त्वं त्रिधाबुधसन्मागस्त्रिज्ञानधारकः ॥११॥
चतुःशरणमांगल्यमूर्तिस्त्वं चतुरः सुधीः । पञ्चब्रह्ममयो देवः
पावनस्त्वं पुनीहि माम् ॥ १२ ॥ स्वर्गावतारिणे तुभ्यं सद्योजाता-
त्मनेनमः । जन्माभिषेकवामाय वामदेव नमोस्तुते ॥१३॥ मुनिःकां-
नाय घोराय परं प्रशममीयुषे । केवलज्ञानमसिद्धावीशानाय

नमोस्तु ते ॥ १४ ॥ पुरुस्तत्पुरुषत्वेन विमुक्तपदभागिने । नमस्त-
 त्पुरुषावस्थां भाविनीं तेऽद्य विभ्रते ॥ १५ ॥ ज्ञानावरणनिर्हास
 नमस्तेऽनन्तचक्षुषे । दर्शनावरणोच्छेदात्मस्ते विश्वमर्शिने ॥ १६ ॥
 नमो दर्शनमोहादिज्ञायिकामलदृष्टये । नमश्चारिन्नमोहघ्ने विरागाय
 मदीजसे ॥ १७ ॥ नमस्तेऽनन्तवीर्याय नमोनन्तसुखाय ते । नमस्ते-
 ऽनंतलोकाय लोकालोकविलोकिने ॥ १८ ॥ नमस्तेऽनंतदानाय
 नमस्तेऽनंतलब्धये । नमग्नेऽनंतभोगाय नमोऽनंताय भोगिने ॥ १९ ॥
 नमः परमयोगाय नमस्तुभ्यमयोनये । नमः परमपूताय नमस्ते
 परमर्षये ॥ २० ॥ नमः परमविद्याय नमः परमच्छिद्रे । नमः
 परमतत्त्वाय नमस्ते परमात्मने ॥ २१ ॥ नमः परमरूपाय नमः
 परमतेजसे । नमः परममार्गाय नमस्ते परमेषिने ॥ २२ ॥ परमद्विजुषे
 धाम्ने परमज्योतिषे नमः । नमः पारेतमःप्राप्रधाम्ने ते परमात्मने
 ॥ २३ ॥ नमः क्षीणकलंकाय क्षीणबंध नमोस्तु ते । नमस्ते क्षीण-
 मोहाय क्षीणदोषाय ते नमः ॥ २४ ॥ मनःसुगतये तुभ्यं शोभनाग-
 तमीयुषे । नमस्तेऽतीन्द्रियज्ञानसुखायानिन्द्रियात्मने ॥ २५ ॥
 कायबंधननिर्मात्तादकायाय नमोस्तु ते । नमस्तुभ्यमयोगाय योगि-
 नामपि योगिने ॥ २६ ॥ अवेदाय नमस्तुभ्यमकपायाय ते नमः ।
 नमः परमयोगीन्द्रवंदितांघ्रिद्वयाय ते ॥ २७ ॥ नमः परमविज्ञान
 नमः परमसंयम । नमः परमदृग्दृष्टपरमार्थाय ते नमः ॥ २८ ॥
 नमस्तुभ्यमलेश्याय शुक्ललेश्यांशकंपृशे । नमो भव्यतरावस्थाव्य-
 तीताय विमोक्षणे ॥ २९ ॥ संज्ञासंज्ञिद्वयावस्थातिरिक्तामलात्मने ।
 नमस्ते वीतसंज्ञाय नमः ज्ञायिकदृष्टये ॥ ३० ॥ अनाहाराय तृप्ताय
 नमः परमभाजुषे । व्यतीताशेषदोषाय भवाद्द्वै पारमीयुषे ॥ ३१ ॥
 अजराय नमस्तुभ्यं नमस्तेऽतीतजन्मने । अमृत्यवे नमस्तुभ्यम-
 चलायाक्षरात्मने ॥ ३२ ॥ अलमास्तां गुणस्तोत्रमनन्तास्तावका गुणाः ।
 त्वन्नामस्मृतिमात्रेण परमं शं प्रशास्महे ॥ ३३ ॥

इति प्रस्तावना ।

प्रसिद्धाष्टसहस्रं द्रलक्षणस्त्वां गिरांपति । नाम्नामष्टसहस्रं ए
 त्वां स्तुमोऽभीष्टसिद्धये ॥१॥ एवं स्तुत्वा जिनं देवं भक्त्या परमया
 सुधीः । पठेदष्टोत्तरं नाम्नां सहस्रं पापशान्तये ॥ श्रीमान्स्वयं भूर्वृषभः
 शंभवः शंभुरात्मभूः । स्वयंप्रभः प्रभुर्भोक्ता विश्वभूरपुनर्भवः ॥२॥
 विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षुरक्षरः । विश्वविद्विश्वविद्येशो
 विश्वयोनिरनीश्वरः ॥ ३ ॥ विश्वहृत् विश्वविमुर्धाता विश्वेशो विश्वला-
 चनः । विश्वव्यापी विश्ववेधाः शाश्वतो विश्वतोमुखः । ४ ॥ विश्वकर्मा ज-
 गज्येष्ठो विश्वमूर्तिजिनेश्वरः । विश्वहृक् विश्वभूतेशो विश्वयोतरनो-
 श्वरः । ५ ॥ जिनो जिष्णुरमेयात्मा जगदीशो जगत्पतिः । अनंतचिद-
 चित्यात्मा भव्यबंधुरबंधनः ॥ ६ ॥ युगादिपुरुषो ब्रह्मा पंचब्रह्ममयः
 शिवः । परः परतरः सूक्ष्मः परमेष्ठी सनातनः ॥ ७ ॥ स्वयं ज्ञातिर-
 जोऽजन्मा ब्रह्मयोनिरयोनिजः । मोहारिविजयी जेता धमचक्री
दयाध्वजः ॥ ८ ॥ प्रशांतारिरनंतात्मा योगी योगीश्वरार्चितः । ब्रह्म-
 विद् ब्रह्मतत्त्वज्ञो ब्रह्मेद्याविद्यतीश्वरः ॥ ९ ॥ शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा
 सिद्धार्थः सिद्धशासनः । सिद्धः सिद्धांतविद् ध्येयः सिद्धसाध्यो
 जगद्धितः ॥ १० ॥ सहिष्णुरच्युतोऽनंतः प्रभाविष्णुर्भवोद्भवः ।
 प्रभूष्णुरजरोऽजर्यो भ्राजिष्णुर्ध्वरोऽव्ययः ॥ ११ ॥ विभावसुर-
 संभूष्णुः स्वयंभूष्णुः पुरातनः । परमात्मा परज्योतिस्त्रिजगत्पर-
 मेश्वरः ॥ १२ ॥

इति श्रीमदादिशतम् ॥ १ ॥

(यहां “उदकचंदनतंदुल” आदि श्लोक पढ़कर अर्घ चढ़ाना चाहिये)

दिव्यभाषापतिदिव्यः पूतवाक्पूतशासनः । पूतात्मा परमज्योति-
 र्धर्मायज्ञो दमीश्वरः ॥१॥ श्रीपतिर्भगवानर्हन्नरजा विरजाः शुचिः ।
 तीर्थकृत्केवली शान्तः पूजार्हः स्नातकोऽमलः ॥ २ ॥ अनंतदीप्तिर्ज्ञा-
 नात्मा स्वयंबुद्धः प्रजापतिः । मुक्तः शक्तो निराबाधो निष्कलो
 भुवनेश्वरः ॥३॥ निरंजनो जगज्ज्योतिर्निरुक्तोक्तिर्निरामयः । अचल-
 स्थितिरज्ञोभ्यः कूटस्थः स्थाणुरक्षयः ॥ ४ ॥ अप्रणीर्प्रामिणीर्नेता

प्रणेता न्यायशास्त्रकृत् । शास्ता धर्मपतिर्धर्म्यो धर्मात्मा धर्मतीर्थ-
कृत् ॥ ७ ॥ वृषध्वजो वृषाधीशो वृषकेतुर्वृषायुधः । वृषो वृषपति-
भंतो वृषभांको वृषोद्भवः ॥ ६ ॥ हिरण्यनाभिभूतात्मा भूतभृद्
भूतभावनः । प्रभवो विभवो भास्वान् भवो भावो भवांतकः ॥ ७ ॥
हिरण्यगर्भःश्रीगर्भः प्रभूतविभवोद्भवः । स्वयंप्रभुः प्रभूतात्मा भूत-
नाथो जगत्प्रभुः ॥ ८ ॥ सर्वादिः सवेदकृत् सार्वः सवज्ञः सवदर्शनः ।
सर्वात्मा सर्वलोकेशः सर्ववित्सर्वलोकजित् ॥ ९ ॥ मुगतः सुश्रुतः
मुश्रुक सुवाक् सरिवेहुश्रुतः । विश्रुतो विश्रुतःपादो विश्वशीर्षः शुच-
श्रवाः ॥ १० ॥ सहस्रशीषः क्षत्रज्ञः सहस्राक्षः सहस्रपात् । भूतभ-
व्यभवद्भर्ता विश्वावचामहेश्वरः ॥ ११ ॥

इति दिव्यादिशतम् ॥ २ ॥ अथ ।

स्थविष्ठः स्थविरो ज्येष्ठः पृष्ठः प्रेष्ठो वरिष्ठधी । स्थेष्ठो गरिष्ठो
र्वहिष्ठः श्रेष्ठो निष्ठो गरिष्ठगीः ॥ १ ॥ विश्वभृद्विश्वमृद् विश्वेष्ट
विश्वभुग्विश्वनायकः । विश्वाशीर्षिर्विश्वरूपात्मा विश्वजिद्विजितांतकः
॥ २ ॥ विभवो विभवो वीरो विशोको विजरो जरन् । विरागो
विरतोऽसंगो विविक्तो वीतमत्सरः ॥ ३ ॥ वनयंजनता-
बंधुविलीनाशेषकल्पः । वियोगो योगविद्विद्वान्विधातासुखधिः
सुधीः ॥ ४ ॥ ज्ञातभाक्प्रथिवीमूर्तिः शातिभाक् सलिलात्मकः ।
वायुमूर्तिसंगात्मा बह्निमूर्तिरधर्मभृक् ॥ ५ ॥ सुयज्वा यजमानात्मा
मृत्वा सुत्रामर्षिजितः । ऋत्विग्यज्ञपतिर्यज्ञो यज्ञांगममृतं हविः ॥ ६ ॥
न्योममूर्तिरमूर्तात्मा निर्लेपो निमलोऽचलः । सोममूर्तिः सुसौम्यात्मा
मर्यमूर्तिर्महाप्रभः ॥ ७ ॥ मंत्रविन्मन्त्रकृन्मन्त्री मंत्रमूर्तिरन्तकः ।
स्वतंत्रस्तंत्रकृत्स्वांतः कृतांतः कृतांतकृत् ॥ ८ ॥ कृती कृताथ-
सत्कृत्यः कृतकृत्यः कृतक्रतुः । नित्यो मृत्युञ्जयो मृत्युरमृतात्मा-
मृतोद्भवः ॥ ९ ॥ ब्रह्मनिष्ठः परंब्रह्म ब्रह्मात्मा ब्रह्मसंभवः । महा-
ब्रह्मपतिर्ब्रह्मेष्ट महाब्रह्मपदेश्वरः ॥ १० ॥ सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा ज्ञान-

वर्मदमप्रभु । प्रशमात्मा प्रशातात्मा पुराणपुरुषात्तम ॥ ११ ॥

इति स्थविष्ठादिशतम् ॥ ३ ॥ अथ

महाशोकध्वजोऽशोक क स्रष्टा पद्मविष्टर । पद्मेश पद्म
सभूति पद्मनाभिरनुत्तर ॥ १ ॥ पद्मयोनिजगद्योनिरित्य स्तुत्य
स्तुतीश्वर । स्तवनाहो हृषीकेशो जितजेय कृतक्रिय ॥-॥ गणाधिपो
गणज्येष्ठो गण्य पुण्यो गणाप्रणी । गुणाकरो गुणाभोधिर्गुणज्ञो
गुणनायक ॥ ३ ॥ गुणादरी गुणोच्छ्रदी निगुण पुण्यगोर्गुण ।
शरण्य पुण्यवाक्पूतो वरेण्य पुण्यनायक ॥४॥ अगण्य पुण्य
धीगण्य पुण्यकृत्पुण्यशासन । धमाराभो गुणप्राप्त पुण्यापुण्य
निरोधक ॥ ५ ॥ पापापतो विपापात्मा विपाप्मा वीतकल्मष ।
निद्रुद्धा निमद शातो निर्माहो निरुपद्रव ॥ ६ ॥ निनिमेपा निरा
हारा न क्रिया निरुपप्लव । निष्कलको निरभैना निरूतागो
निराश्रय ॥ ७ ॥ विशालोऽपिपुलज्योतिरतुलाचित्यवैभव । सुस
वृत सुगुमात्मा सुवृत्सुनयतत्त्वावन् ॥ ८ ॥ एकावद्यो महाविद्यो
मुनि पारवृढ पंत । धाशा विद्यानिधि साक्षी विनेता विह
तातक ॥ ९ ॥ पिता पितामह पाता पवित्र पावना गात । त्राता
भिषग्वरो वर्यो वरद परम पुमान् ॥ १० ॥ कवि पुराणपुरुषो
वर्षीया-वृषभ पुरु । प्रतिष्ठाप्रसवो हेतुर्भुवनैकापतामह ॥ ११ ॥

इति महाशोकध्वजादिशतम् ॥ ४ ॥ अथ ।

श्रीवृत्तलक्षण श्लक्ष्णो लक्षण्य शुभलक्षण । निरञ्ज पुण्डरी
काञ्ज पुष्कल पुष्करेक्षण ॥ १ ॥ सिद्धिद सिद्धसकल्प सिद्धात्मा
सिद्धसाधन । बुद्धबोध्या महाबाधिवधमानो महद्विक ॥ २ ॥
वदागा वदविद्वेषो जातरूपो विदावर । वदवद्य स्यवद्या विवदो
वदतावर ॥ ३ ॥ अनादिनिधनो व्यक्तो व्यक्तवाग्यक्तशासन ।
युगादिकृत् गाधारो युगादिजगदादिज ॥ ४ ॥ अतीन्द्रोऽतीन्द्रियो
धीन्द्रो महेंद्रोऽतीन्द्रियाथन्क । अनिन्द्रियोऽहमिन्द्रार्यो महद्रमहितो

महान् ॥५॥ उद्भवः कारणं कर्ता पारगो भवतारकः । अत्राद्या गहनं
 गुह्यं परार्थं परमेश्वरः ॥६॥ अनतद्विरमेर्या रचित्यद्विः समप्रधीः ।
 प्राप्रथः प्राप्रहरोऽभ्यप्रथः प्रत्यप्रोप्रथोप्रिमोप्रजः ॥ ७ ॥ महातपा
 महातेजा महोदका महोदयः । महायशो महाधामा महासन्धो
 महाधृतिः ॥ ८ ॥ महाधैर्यो महावीर्यो महासंपन्नमहाबलः । महा-
 शक्तिमहाज्योतिर्महाभूतिर्महाचुतिः ॥ ९ ॥ महामतिर्महानीतिर्महा-
 च्छांतमहोदयः । महाप्राज्ञो महाभागो महानंदो महाकविः ॥ १० ॥
 महामहामहाकीर्तिर्महाकांतिर्महावपुः । महादानो महाज्ञानो महा-
 योगो महागुणः ॥ ११ ॥ महामहपतिः प्राप्रमहाकल्याणपंचकः ।
 महाप्रभुमेहाप्रातिहार्याधीशो महेश्वरः ॥ १२ ॥

इति श्री वृक्षादिशतम् ॥ ५ ॥ अधः ।

महामुनिर्महामौनी महाध्यानी महाव्रमः । महाक्षमो महाशीलो
 महायज्ञो महामखः ॥ १ ॥ महाव्रतपतिर्महो महाकार्तवरोऽधिपः
 महामैत्रीमयोऽमयो महोपायो महोदयः ॥ २ ॥ महाकारण्यको
 मंता महामंत्रो महार्यातः । महानादो महाघोषो महेश्वरो महसां-
 पतिः ॥ ३ ॥ महाध्वरधरो धुर्यो महोदार्यो महेश्वरः । महात्मा
 महसांधाम महपिर्महितोदयः ॥ ४ ॥ महाकलेश कुशः शूरो महा-
 भूतपतिर्गुरुः । महापराक्रमोऽनतो महानोधारपुवंशा ॥ ५ ॥ महा-
 भवाब्धिसंतारिमहामोहाद्रिसूदनः । महागुणाकरः क्षातो महायो-
 गीश्वरः शमी ॥ ६ ॥ महाध्यानपतिध्याता महाधर्मा महाव्रतः ।
 महाकर्मारिरात्मज्ञो महादेवो महेशिता ॥ ७ ॥ सर्वकलेशापहः
 साधुः सवदोषहरो हरः । असंख्येयोऽप्रमेयात्मा शमात्मा प्रशमा-
 करः ॥ ८ ॥ सर्वयोगीश्वरोऽचित्यः श्रुतत्मा विप्रश्रवाः । दांतात्मा
 दमतीर्थेशो योगात्मा ज्ञानसर्वेगः ॥ ९ ॥ प्रधानमात्मा प्रकृतः परमः
 परमोदबः । प्रक्षीणबंधः कामारिः क्षेमकृत्क्षेमशासनः ॥ १० ॥
 प्रखवः प्रणयः प्राणः प्राणदः प्रणतेश्वरः । प्रमाणं प्रणिधर्दक्षो

दक्षिणोर्ध्वयुं रध्वरः ॥११॥ आनंदो नंदनो नंदो वंद्योऽनिन्द्योऽभिन-
दनः । कामहा कामदः काम्बः कामधेनुररिजयः ॥ १२ ॥

इति महामुन्यादिशतम् ॥ ६ ॥ अर्घं ।

असंस्कृतः सुसंस्कारः प्रसंकृतो वै कृतांतकृत् । अंतकृत्कांतिगुः
कांतश्चितामणिरभीष्टदः ॥ १ ॥ अजितो जितकामारिरमितोऽमित-
शासनः । जितक्रोधो जितामित्रो जितक्लेशो जितांतकः । २ ॥ जिनेन्द्रः
परमानंदो मुनीन्द्रो दुंदुभिस्वनः । महेंद्रवंद्यो योगीन्द्रोयतीन्द्रो नाभि-
नंदनः ॥ ३ ॥ नाभेयो नाभिजो जातः सुव्रतो मनुवृत्तमः । अभे-
द्योऽनत्ययोनाश्वानधिकोऽधिगुरुः सुधीः । ४ ॥ सुमेधा विक्रमी स्वामी
दुराधर्षो निरुत्सुकः । विशिष्टः शिष्टभुक् शिष्टः प्रत्ययः कामनोऽनघः
॥ ५ ॥ क्षेमी क्षेमंकरोऽक्षय्यः क्षेमधर्मपतिः क्षमी । अप्राह्यो ज्ञान-
निप्राह्यो ध्यानगम्यो निरुत्तरः ॥ ६ ॥ सुकृती धातुरिज्याहः सनयश्च-
तराननः । श्रीनिवासश्चतुर्वेकत्रश्चतुरास्यश्चतुर्मुखः ॥ ७ ॥ सत्यात्मा
सत्यविज्ञानः सत्यवाक्सत्यशासनः । सत्याशीः सत्यसंधानः सत्यः
सत्यपरायणः ॥ ८ ॥ स्थेयान्स्थवीर्यान्नदीयान्दवीयान्दूरदशनः ।
अणारण्योयाननगुर्गराद्यो गरीयसां ॥ ९ ॥ सदायोगः सदाभोगः
सदावृषः सदाशिवः । सदागतिः सदासौख्यः सदाविद्यः सदोदयः
॥ १० ॥ सुघोषः सुमुखः सौम्यः सुखदः सुहितः सुहृत् । सुगुप्तो
गुप्तिभृद् गोप्ता लोकाभ्यक्षो दमीश्वरः ॥ ११ ॥

इति असंस्कृतादिशतम् ॥ ७ ॥ अर्घं ।

बृहन्बृहस्पतिर्वाग्मी वाचस्पतिरुदारधीः । मनीषो विषणो धीमा-
च्छेमुषीशो गिरांपतिः ॥ १ ॥ नैकरूपो नयस्तुंगो नैकात्मानैकधमकृत् ।
अविज्ञेयोऽप्रसक्तर्षात्मा कृतज्ञः कृतलक्षणः ॥ २ ॥ ज्ञानगर्भो द्या-
गर्भो रत्नगर्भः प्रभास्वरः । पद्मगर्भो जगद्गर्भो हेमगर्भः सुदर्शनः
॥ ३ ॥ लक्ष्मीवांस्त्रिदशाध्यक्षो दृढीयानिन ईशित्त । मनोहरो
मनोज्ञांगो धीरो गंभीरशासनः ॥ ४ ॥ धर्मयूपो द्यावागो धर्म-

नेमिर्मनीश्वरः वमचक्रायुधो देवः कर्महा धमघोषणः ॥ ५ ॥ अमो-
घवागमोघाज्ञो निर्मलोऽमोघशासनः । मुरुः मुभगस्त्यागी समयज्ञः
समाहितः ॥६॥ संस्थितः स्वास्थ्यभाक्स्वस्थो निरजस्को निरुद्धवः
अलेपो निष्कलंकात्मा वीतरागो गतस्पृहः ॥ ७ ॥ वश्येन्द्रियो विमु-
क्तात्मा निःसपत्नो जितेन्द्रियः । प्रशानोऽनतधामर्षिभंगलं मलहा-
नघः ॥८॥ अनीहृगुपमाभूतो दृष्टिर्वमगोचरः । अमूर्तो मूर्तिमाने-
को नैको नानैकतस्वहृक् ॥ ९ ॥ अभ्यात्मगम्यो गम्यात्मा योग-
विद्योगिर्वदितः । सर्वत्रगः सदानावी त्रिकालविपयाथहृक् ॥ १० ॥
शंकरः शंवदो दांतो दमी क्षांतिपरायणः । अविद्यः परमानंदः
परात्मज्ञः परात्परः ॥ ११ ॥ त्रिजगद्वल्लभोऽभ्यर्च्य खिजगन्मगलो-
दयः । त्रिजगत्प्रतिपुत्र्यां प्रसूलोकाप्रशिखामाणः ॥ १२ ॥

इति बृहदादिशतम् ॥ ८ ॥ अथ

त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकवाता दृढव्रतः । सर्वलोकार्तागःपूज्यः
सर्वलोकैकसारथिः ॥ १ ॥ पुराणपुरुषः पूर्वः कृतत्रवांगविस्तरः ।
आदिदेवः पुराणाद्यः पुरुदवोऽधिदवता ॥ २ ॥ युगमुख्यो युगज्य-
ष्ठो युगादिस्थितदेशकः । कल्याणवर्णः कल्याणः कल्यः कल्याणल-
क्षणः ॥ ३ ॥ कल्याणः प्रकृतिर्दीप्तः कल्याणात्मा विकल्पः । वि-
कलकः कलातीतः कलिलघ्नः कलाधरः ॥ ४ ॥ देवदेवो जगन्नाथो
जगद्वंधुर्जगद्विभुः । जगद्वितैषी लोकज्ञः सवगो जगदप्रजः ॥ ५ ॥
चराचरगुरुर्गोप्योगूहात्मा गूढगोचरः । सद्योजातः प्रकाशात्मा
व्वलज्वलनसप्रभः ॥ ६ ॥ आदित्यवर्णी भर्माभः सुप्रभः कनक-
प्रभः । सुवर्णवर्णी रुक्माभः स्येकोटिसमप्रभः ॥ ७ ॥ तपनीय-
निभस्तुंगो बालाकाभांऽनलप्रभः । संध्याभ्रवभ्रुर्हेमाभस्तप्तचामी-
करच्छविः ॥८॥ निष्टुप्तकनकच्छायः कनत्काचनसन्निभः । हिर-
ण्यवर्णः स्वर्णाभः शातकुम्भनिभप्रभः ॥ ९ ॥ शुम्भभाजातरूपाभो
दीप्तजांबूनदशुनिः । सधोनकलयीतश्रीप्रदीप्तो हाटकशनि ॥ १० ॥

शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्टः स्पष्टः स्पष्टाक्षरक्षमः । शत्रुघ्नोर्पतिघो-
ऽमोघः प्रशास्ता शासिता स्वभूः ॥ ११ ॥ शांतनिष्ठो मुनिज्येष्ठः
शिवतातिः शिवप्रदः । शांतिदः शांतिकृच्छ्रान्तिः कांतमान्कामित-
प्रदः ॥ १२ ॥ श्रेयोनिधिरधिष्ठानमप्रतिष्ठः प्रतिष्ठितः । सुस्थितः
स्थावरः स्थाणुः प्रथीयान्प्रथित पृथुः ॥ १३ ॥

इति त्रिकालदर्श्यादिशतम् ॥ ६ ॥ अर्घ ।

दिग्वासा वातरशना निम्नेशो निरंवरः । निष्किचनो निरा-
शंसो ज्ञानचक्षुरभोमुहः ॥ १ ॥ तेजोराशिरनंतौजा ज्ञानाब्धिः
शीलसागरः । तेजोमयोऽमितज्योतिर्ज्योतिर्मूर्तिस्तमोपहः ॥ २ ॥
जगच्चूडामणिर्दीप्तः सर्वविघ्नविनायकः । कलिघ्नः कर्मशत्रुघ्नो
लोकालोकप्रकाशकः ॥ ३ ॥ अनिद्रानुरतद्रालुर्जागरूकः प्रभामयः ।
लक्ष्मीपतिर्जगज्ज्योतिर्धर्मराजः प्रजाहृतः ॥ ४ ॥ मुमुक्षुर्बन्धमोक्षज्ञो
जिताज्ञो जितमन्मथः । अशांतरसशैलूपो भव्यपेटकनायकः ॥ ५ ॥
मूलकर्ताखिलज्योतिर्मूलघ्नो मूलकारणः । आप्तो वागीश्वरः श्रेया-
ब्ध्यायसोक्तिर्निरुक्तवाक् ॥ ६ ॥ प्रवक्ता वचसामीशो मारजिद्वि-
श्वभावावत् । सुतनुस्तनुनिमुक्तः सुगतो हृतदुनयः ॥ ७ ॥ श्रीशः
श्रीश्रितपादाब्जो धीतभीरभयंकरः । उत्सन्नदोषो निर्विघ्नो निश्च-
लो लोकवत्सलः ॥ ८ ॥ लोकान्तरो लोकपतिर्लोकचक्षुरपारधीः ।
धीरधीबुद्धसन्भार्गः शुद्धः सूक्ष्मपूतवाक् ॥ ९ ॥ प्रज्ञापारमितः प्राज्ञो
यतिनिर्मित्तैर्द्रयः । भवतो भद्रकृद्भद्रः कल्पवृक्षो वरप्रदः ॥ १० ॥
समुन्मूलितकमारिः कर्मकाष्ठशुशुक्षाणः । कर्मण्यः कर्मठः प्रांशु-
र्हेयादेयविचक्षणः ॥ ११ ॥ अनंतशक्तिरच्छेद्यस्त्रिपुरारिस्त्रिलोचनः ।
त्रितेजस्त्रयंभक्तस्त्र्यक्षः कौबलज्ञानवीक्षणः ॥ १२ ॥ समंतभद्रः शांता-
रिर्धर्माचार्यो व्यानार्थाधः । सूक्ष्मदर्शीजितानंगः कृपालुर्धर्मदेशकः
॥ १३ ॥ शुभंयुः सुखसाद्भूतः पुण्यराशिरनामयः । धर्मपालो जग-
त्पालो धर्मसाम्राज्यनायकः ॥ १४ ॥

इति दिग्वासादि शतं ॥ १० ॥

इत्यष्टाधिकसहस्रनामावली समाप्ता । अर्घं ।

धाम्नापते तवामूनि नामान्यागमकार्वाचिदः । समुष्णितान्वनुध्याय-
 न्पुमान्पूतस्मृतिर्भवेत् ॥ ११ ॥ गोचरोऽपि गिरामासां त्वमवाग्गोचरो
 मतः । स्तोता तथाप्यसंदिग्धं त्वत्तोऽभीष्टफलं लभेत ॥ २ ॥ त्वम-
 तोऽसि जगद्धुस्त्वमतोऽसि जगद्भ्रषक् । त्वमतोऽसि जगद्धाता
 त्वमतोऽसि जगद्धितः ॥ ३ ॥ त्वमेकं जगतां ज्योतिस्त्वं द्विरूपोप-
 योगभाक् । त्वं त्रिरूपैकमुक्त्यंगं सात्थानंतचतुष्टयः ॥ ४ ॥ त्वं
 पञ्चब्रह्मतत्त्वात्मा पञ्चकल्याणनायकः । षडभेदभावतत्पञ्चस्त्वं
 सप्तनयसंप्रहः ॥ ५ ॥ दिव्याष्टगुणमूर्तिस्त्वं नवकेवललब्धिकः ।
 दशावतारनिर्धार्यो मां पाहि परमेश्वर ॥ ६ ॥ युष्मन्नामावलीदृढधा-
 विलसत्तोत्रमालया । भवंतं वरिवस्थामः प्रसीदानुगृहाण नः
 ॥ ७ ॥ इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य पूतो भवति भाक्तिकः । यः स पाठं
 पठत्येतं स स्यात्कल्याणभाजनः ॥ ८ ॥ ततः सदेदं पुण्यार्थी पुमा-
 न्पठति पुण्यधीः । पौरुहृतीं श्रियं प्राप्तुं परमार्माभलापुकः ॥ ९ ॥
 स्तुतिरिति मघवा देवं चराचरजगद्गुरुं । ततस्तीर्थविहारस्य व्यधा-
 त्प्रभ्नावनामिमां ॥ १० ॥ स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीर्तिः स्तोता भव्यः
 प्रसन्नधीः । निष्ठितार्थो भवांस्तुत्यः फलं नैश्रेयसं सुखं ॥ यः स्तुत्यो
 जगतां त्रयस्य न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित् । ध्येयो योगिजन-
 स्य यश्च नितरां ध्याता स्वयं कस्यचित् ॥ यो नेतुन् नयते नम-
 स्कृतिमल नंतव्यपक्षेक्षणः । स श्रीमान् जगतांत्रयस्य च गुरुर्देवः
 पुरुः पावनः ॥ १२ ॥ तं देवं त्रिदशाधिपार्चितपदं पातिक्षयानंतरं,
 प्रोत्थानतचतुष्टयं जिनिममं भव्याञ्जनीनाभिर्न । मानस्तंभविलो-
 कमान्तजगन्मान्धं त्रिलोकीपति, प्राप्ताचित्यबहिर्बिभूतिमनर्घ भक्त्या
 प्रवन्द्यामहे ॥ ३ ॥

पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।

इति श्रीभगवाञ्जनसेनाचार्यविरचितजिनसहस्रनामस्तवनं ।

स्तुति

श्री जी मैं तुम प्रजन आयो, मेरी अरज सुनो दीनानाथ जी ॥ मैं
जल नन्दन अचन शुभ लेके, तामे पुष्य मिलायो ॥ श्रीजी० ॥ १ ॥
चरु और दाधूप फल लेकर, सुन्दर अर्घ बनायो ॥ श्रीजी० ॥ २ ॥
अर्घ बनाय गाय गुण माला, तेरे चरणन शीश भुकायो ॥ श्रीजी० ॥ ३ ॥
आठपहर की चौसठ घड़ियाँ, शान्ति शरण तेरी आयो ॥ श्रीजी० ॥ ४ ॥
मुक्त मेवक की अर्ज यही है, जामन मरण मिटाओ ॥ श्रीजी० ॥ ५ ॥

सिद्धचक्र मंत्र (लघु)

ॐ ह्रीं अर्हं असिआउसा नमः ।

अष्टान्हिकाव्रत की जापे

समुच्चय—ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वरसंज्ञाय नमः ।

१ ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वरसंज्ञाय नमः, २ ॐ ह्रीं अष्टमहाविभूति-
संज्ञाय नमः, ३ ॐ ह्रीं त्रिलोकसागरसंज्ञाय नमः, ४ ॐ ह्रीं
चतुर्मुखसंज्ञाय नमः, ५ ॐ ह्रीं पंचमहालक्षणसंज्ञाय नमः,
६ ॐ ह्रीं स्वर्गसोपानसंज्ञाय नमः, ७ ॐ ह्रीं सिद्धचक्रसंज्ञाय नमः,
८ ॐ ह्रीं इन्द्रध्वजसंज्ञाय नमः ।

श्रीषोडशकारणव्रत की जापे

समुच्चय—ॐ ह्रीं श्रीषोडशकारणभावनाभ्यो नमः ।

१ ॐ ह्रीं श्रीदर्शनविशुद्धये नमः, २ ॐ ह्रीं श्रीविनयसत्पन्न-
तायै नमः, ३ ॐ ह्रीं श्रीशीलव्रतध्वनतिचारय नमः, ४ ॐ ह्रीं
श्रीआभीष्टज्ञानोपयोगाय नमः, ५ ॐ ह्रीं श्रीसंवेगाय नमः,
६ ॐ ह्रीं श्रीशक्तितस्त्यागाय नमः, ७ ॐ ह्रीं श्रीशक्तितस्तपसे
नमः, ८ ॐ ह्रीं श्रीसाधुसमाधये नमः, ९ ॐ ह्रीं श्रीवैद्याव्रत्य-
करणाय नमः, १० ॐ ह्रीं श्रीअर्हद्भक्त्यै नमः, ११ ॐ ह्रीं
श्रीआचार्यभक्त्यै नमः, १२ ॐ ह्रीं श्रीबहुश्रुतभक्त्यै नमः, १३ ॐ
ह्रीं श्रीप्रवचनभक्त्यै नमः, १४ ॐ ह्रीं आवश्यकापरिहाणाल नमः

१५ ॐ ह्रीं श्रीमागप्रभावनायै नमः, १६ ॐ ह्रीं श्रीप्रवचनवत्सल-
त्वाय नमः, ।

श्रीदशलक्षणव्रत की जापें

समुच्चय-ॐ ह्रीं श्रीउत्तमज्ञमामार्द्वार्जवत्यशौचसंयमतपस्त्यागा-
किचन्यब्रह्मचर्यधर्मांगाय नमः ।

१ ॐ ह्रीं श्रीउत्तमज्ञमाधर्मांगाय नमः, २ ॐ ह्रीं श्रीउत्तम-
मादेवधर्मांगाय नमः, ३ ॐ ह्रीं श्रीउत्तमाजेवधर्मांगाय नमः,
४ ॐ ह्रीं श्रीउत्तमसत्यधर्मांगाय नमः, ५ ॐ ह्रीं श्रीउत्तमशौचधर्मा-
गाय नमः. ६ ॐ ह्रीं श्रीउत्तमसंयमधर्मांगाय नमः, ७ ॐ ह्रीं
श्रीउत्तमतपाधर्मांगाय नमः, ८ ॐ ह्रीं श्रीउत्तमत्यागधर्मांगाय नमः,
९ ॐ ह्रीं श्रीउत्तमआकिञ्चन्यधर्मांगाय नमः, १० ॐ ह्रीं श्रीउत्तम-
ब्रह्मचर्यधर्मांगाय नमः ।

श्रीपंचमेरुव्रत की जापें

१ ॐ ह्रीं श्रीसुदर्शनमेरुजिनचैत्यालयेभ्यो नमः, २ ॐ ह्रीं
श्रीविजयमेरुजिनचैत्यालयेभ्यो नमः, ३ ॐ ह्रीं श्रीअचलमेरुजिन-
चैत्यालयेभ्यो नमः, ४ ॐ ह्रीं श्रीविष्णुन्मालीजिनचैत्यालयेभ्यो
नमः, ५ ॐ ह्रीं श्रीमन्दरमेरुजिनचैत्यालयेभ्यो नमः ।

श्रीरत्नत्रयव्रत जापें

१ ॐ ह्रीं श्रीअष्टांगसम्यग्दर्शनाय नमः, २ ॐ ह्रीं श्रीअष्टांगसम्य-
ग्ज्ञानाय नमः, ३ ॐ ह्रीं श्रीत्रयोदशप्रकारसम्यक्चारित्राय नमः ।

रविव्रत जाप्य मंत्र

ॐ नमो भगवते चिन्तामणिपार्वनाथाय सप्तफणमंडिताय
श्रीधरणीन्द्रपद्मावतीसाहिताय मम ऋद्धिं सिद्धिं वृद्धिं सौख्यं कुरु-
कुरु स्वाहा । अनन्त चतुर्दशी मंत्र

ॐ ह्रीं अर्हं हंसं अनन्तकेवलिभगवन् अनन्तदानलाभभोगो-
पभोगवीर्याभिवृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ।



नित्यनियमपूजा ।

(हिन्दी अनुवाद सहित)



देवशास्त्रगुरु पूजा ।

ओं जय जय जय । नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु ।

अर्थ—हे जिनेन्द्र भगवन् ! आप जयवन्त होवो, जयवन्त होवो, जयवन्त होवो। आपके लिये हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो ।

विशेष—जयकारको तीनबार उच्चारण करनेसे जिनेन्द्रभगवानकी सर्वोत्तमता तथा उनके लिये अपना उच्च आदरभाव प्रगट होता है और नमस्कारको तीनबार कहनेसे अन्तरंग विनयके साथ २ वचन तथा कायकी बहिरंग विनय भी प्रगट होती है। इसके सिवाय यह भी प्रगट होता है कि हमारे बन्दनीय आप ही है अन्य कोई नहीं है ।

आर्या ।

शमो अरिहंताणं शमो सिद्धाणं शमो आइरियाणं ।

शमो उवज्झायाणं शमो लोए सच्चसाहूणं ॥

अर्थ—मैं अरहंतोंके लिये नमस्कार करता हूं। मैं सिद्धोंके लिये नमस्कार करता हूं। मैं आचार्य परमेश्री को नमस्कार करता हूं, मैं उपाध्याय परमेश्रीके लिये नमस्कार करता हूं तथा लोकवर्ती सर्व साधुओंको नमस्कार करता हूं।

विशेष—ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मोंको नष्ट करके वीतराग तथा सर्वज्ञ पद पानेवाले अरहंत परमेश्री हैं। इनको ही परम हितोपदेशक भी कहते हैं क्योंकि केवलज्ञानसे लोक, अलोकवर्ती समस्त पदार्थोंको युगपत् जानकर जीवोंको यथार्थ उपदेश अरहंत ही देते हैं। अरहंत परमेश्री ही जिस समय बच हुए चार अघातीकर्मोंको भी नाश कर देते हैं तब वे सिद्ध परमेश्री कहलाते हैं और उसी समय वे शरीरसे छूटकर लोकके ऊपरी भागमें विराजमान हो जाते हैं। मुनियोंके संघकी ठीक व्यवस्था रखनेवाले आचार्य होते हैं। वे प्रायश्चित्त आदि देकर मुनियोंके आचारसंबंधी सर्व दोषोंको पृथक् किया करते हैं तथा भव्य भी पांच आचारोंको पालते हैं। मुनियोंको पढ़ानेवाले, धर्मका उपदेश देनेवाले उपाध्याय परमेश्री होते हैं और उपदेश आदि कार्योंको न करने हुए केवल मोक्षमार्गको साधनेवाले साधु परमेश्री होते हैं।

शंका—आठकर्मोंको नष्ट करनेवाले सिद्ध परमेश्री जब कि चार घातीकर्मोंके नाशक अरहंत परमेश्रीसे परमविशुद्ध हैं तब मंत्रमें उनका पद दूसरा क्यों रक्खा ? उनका नाम अरहंत परमेश्रीके पहले होना चाहिये। इसी प्रकार उपदेश आदि बाह्य क्रियाओंको—जो कि रागआदि विकारों अथवा सूक्ष्म मलिनताको उत्पन्न करनेवाली हैं, छोड़कर परम विशुद्धताके कारणभूत आत्म-ध्यानमें लवलीन रहनेवाले साधु परमेश्री जब कि आचार्य तथा उपाध्याय परमेश्रीमे भावोंकी विशुद्धतामें अधिक बड़े-चढ़े हैं तब

उनका पद आचार्य तथा उपाध्यायके पीछे क्यों रक्खा ?

उत्तर—यद्यपि विशुद्धतामें सिद्ध परमेष्ठी अरहंत परमेष्ठीसे तथा साधु परमेष्ठी आचार्य और उपाध्यायसे विशुद्धि में अधिक है तो भी उनके द्वारा सांसारिक जीवोंको कल्याणकी प्राप्ति वा विशुद्धता नहीं मिलती है। जिस प्रकार अरहंतके उपदेशको पाकर संसारी जीव अजर अमर हो जाते हैं उस प्रकार सिद्धोंके द्वारा वे अपनी आत्मशुद्धि नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी न तो इस संसारमें ठहरते ही हैं न शरीरधारी ही होते हैं जिसमें कि जीवोंका उपदेशादिसे कुछ कल्याण कर सके। इस कारण अरहंत परमेष्ठीको पहला स्थान दिया है। इसी प्रकार जिस तरह आचार्य तथा उपाध्याय परमेष्ठी अपने पवित्र उपदेशोंमें तथा वाद-विवाद, संघट्टवस्था आदि द्वारा जीवोंका कल्याण तथा धर्मरक्षण करते हैं उस प्रकार साधु परमेष्ठी नहीं करते हैं। अतः आचार्य तथा उपाध्याय परमेष्ठीको साधु परमेष्ठीसे उच्चपद दिया है।

ओं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः ।

अर्थ—मैं अनादिकालीन इस मूलमंत्रको नमस्कार करता हूँ ।

(यहा पुष्पांजलि क्षेपण करना)

चत्वारि मंगलं—अरहता मंगलं, सिद्धा मंगलं. माहुमं गलं,
केवलिपणत्तो धम्मा मंगलं । चत्वारि लोगुत्तमा— अरहंता

१ मं=पापं, गल्लवतीति मंगल—अर्थात् पापको नाश करनेवाला मंगल होता है। अथवा मंग=सुख जातीति मंगल अर्थात् सुख-शाक्तिका लानेवाला मंगल होता है। सो पापके नाशक तथा सुख-शाक्तिक करने-वाले संसारमें उक्त चार पदार्थ ही हैं ।

लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साधु लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि—अरहंत सरणं पव्वज्जामि, सिद्धसरणं पव्वज्जामि, साधुसरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि ।

इस संसारमें चार ही मंगल हैं । प्रथम तो अरहंत भगवान हैं । दूसरे सिद्धपरमेष्ठी मंगलरूप हैं । तीसरे साधु महाराज मंगलकारक हैं और चौथे केवली भगवानका कहा हुआ धर्म मंगलरूप है ।

इस लोकमें चार पदार्थ ही सबसे उत्तम हैं । प्रथम तो अरहंत-परमेष्ठी सर्वोत्तम हैं । दूसरे समस्त कर्ममलसे रहित सिद्ध भगवान संसारमें सबसे उत्तम हैं । तीसरे साधु परमेष्ठी हैं । चौथे सर्वज्ञ-रचित धर्म परम उत्तम है ।

सांसारिक दुःखसे बचनेके लिये मैं चारकी शरण लेता हूँ । अर्हन्तकी शरण लेता हूँ, सिद्धकी शरण लेता हूँ, साधुपरमेष्ठीकी शरण लेता हूँ तथा केवली भगवानसे उपदिष्ट धर्मकी शरण लेता हूँ ।

अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा ।

ध्यायेत्पंचनमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १ ॥

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वाविस्थां गतोऽपि वा ।

यः स्मरेत्परमात्मानं स बाह्याभ्यंतरे शुचिः ॥२॥

अपराजितमंत्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशनः ।

मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः ॥ ३ ॥

एसो पंचणमांपारो सव्वपापपणासणा ।

मगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवइ मंगलं ॥ ४ ॥

अर्हमित्यक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेष्ठिनः ।

सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम् ॥५॥

कर्माष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम् ।

सम्यक्त्वादिगुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम् ॥६॥

विध्नौघाः प्रलयं यान्त शाक्निनीभूतपन्नगाः ।

विषां निर्विषतां याति स्तूयमाने त्रिनेश्वरे ॥७॥

जीव यदि इस पंच परमंष्टीके नमस्कार-मंत्रका ध्यान करे तो वह सब पापोंसे छूट जाता है । ध्यान करते समय वह चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, चाहे अच्छी जगह हो अथवा बुरी जगह हो ॥ १ ॥

शरीर चाहे तो स्नानादि द्वारा पवित्र हो अथवा किसी अशुचि पदार्थके स्पर्शसे अपवित्र हो, इसके सिवाय सोती, जागती, उठती, बैठती, चलती आदि कोई भी दशा हो इन सभी दशाओं में जो पुरुष परमात्माका स्मरण करता है वह उस समय बाह्य और अभ्यन्तरसे (शरीरसे तथा मनसे) पवित्र है ॥ अर्थात् अपनी पवित्रता वास्तविकमें आत्मासे संबन्ध रखती है, सात कुधातुमय शरीर तो सर्वथा अपवित्र है । उसकी पवित्रता किसी भी प्रकार नहीं हो सकती । आत्माकी पवित्रता शुभ परिणामोंसे ही होती है और पंचपरमंष्टीको स्मरण करते समय परिणामोंकी विशुद्धता अवश्य ही होती है । इसलिये परम पवित्रताको करने वाला नमस्कार मन्त्र (एमोकार मन्त्र) है ॥ इस श्लोकमें

परमात्मा शब्दसे पंच परमेष्ठी लिये हैं क्योंकि उत्कृष्ट आत्मा (परम उत्कृष्ट आत्मा) संसारमें इन्हींकी है ॥ २ ॥ यह एमोकार मन्त्र अन्य किसी मन्त्रसे प्रतिहत (खंडित-रुका हुआ) नहीं हो सकता इसलिये यह मन्त्र अपराजित है (किसीसे पराजित नहीं है) और सब विघ्नोंको हरनेवाला है तथा सभी मंगलोंमें यह प्रधान मंगल माना गया है ॥ ३ ॥ यह नमस्कार मन्त्र सर्व पापकर्मोंको नष्ट करनेवाला है और सभी मंगलोंमें मुख्य मंगल है ॥ ४ ॥ 'अर्ह' ऐसे जो दो अक्षर हैं वे ब्रह्म अर्थात् अरहंतकं वाचक (कहनेवाले) हैं, तथा परम इष्ट जो सिद्धचक्र है उसको उत्पन्न करनेके लिये बीजके समान है, इसलिये 'अर्ह' को मैं मन, वचन, कायसे, सर्वदा नमस्कार करता हूं ॥ ५ ॥ आठ कर्मोंसे छूटे हुए तथा मोक्ष संपत्तिका घर और सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान, अगुरुलघु, अव्याबाध, अवगाहन, सूक्ष्म, वीर्य, इन आठ गुणों सहित सिद्धसमूहको मैं नमस्कार करता हूं ॥ ६ ॥ जिनेन्द्र भगवानका स्तवन करनेसे शाकिनी, डाकिनी, भूत, पिशाच, सर्प, सिंह, अग्नि आदि समस्त विघ्न दूर हो जाते हैं। बड़े हलाहल विष भी अपना असर त्याग देते हैं ॥ ७ ॥

(यहां पुष्पांजलि चढ़ाना चाहिये)

(यदि अवकाश हो तो यहां पर सहस्रनाम पढ़कर दश अर्घ्य देना चाहिये अन्यथा निम्न लिखित श्लोक पढ़कर एक अर्घ्य चढ़ाना चाहिये)

उदकचंदनतंदुलपुष्पकेशचरुसुदीपसुधूपफलाघर्षकैः ।

धवलमंगलगानरवाकुले जिनगृहे जिननाथमहं यजे ॥७॥

मैं निर्मल अथवा उच्च मंगलगान (मंगलीक जिनेन्द्रस्तवन पूजनादि) के शब्दोंसे गुंजायमान इस जिनमंदिरमें जिनेन्द्र देवका

जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल तथा अर्घके द्वारा पूजन करता हूँ ।

आ ह्रीं श्रीभगवज्जिनसहस्रनामभ्यांऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अनंत चतुष्टय तथा समवसरण, आठ प्रतिहार्य आदि लक्ष्मी से महित जिनेन्द्रभगवानके एक हजार आठ नामोंके लिये मैं अर्घ चढ़ाता हूँ ।

श्रीमज्जिनेन्द्रमभिवन्द्य जगत्त्रयेशं, स्याद्वादनायकमनंत-
चतुष्टयार्हम् । श्रीमूलसंघसुदृशां सुकृतैकहेतुर्जनेन्द्रयज्ञविधिरेष
मयाऽभ्यधायि ॥ ८ ॥

स्वस्ति त्रिलाकगुरवे जिनपुंगवाय, स्वस्ति स्वभावमहि-
मोदयसुस्थिताय । स्वस्ति प्रकाशसहजोजितदृङ् मयाय, स्वस्ति
प्रमन्नललिताद्भुतवैभवाय ॥ ९ ॥

स्वस्त्युच्छ्रलद्विमलबाधसुधाप्लवाय, स्वस्ति स्वभावपर-
भावविभासकाय । स्वस्ति त्रिलोकविततेकचिदुद्रमाय, स्वस्ति
त्रिकालसकलायतविस्तृताय ॥ १० ॥

द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं, भावस्य शुद्धिमधिका-
मधिगंतुकामः । आलंबनानि विधिधान्यवलंब्यवल्गन्,
भूतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम् ॥ ११ ॥

अर्हन् पुराणपुरुषोत्तम पावनानि वस्तून्यनूनमखिलान्यय-
मेक एव । अस्मिन् ज्वलद्विमलकेवलबोधवन्दौ, पुण्यं
समग्रमहमेकमना जुहोमि ॥ १२ ॥

मैं तीन लोकके स्वामी, स्याद्वाद विद्याके नायक—पदार्थोंके अनेकान्तको प्रकट करनेमें अप्रेसर, अनंतदर्शन, अनंतज्ञान, अनंतसुख और अनंतवीर्य धारक तथा अनंतचतुष्टयादि अंतरंग एवं प्रातिहाय्ये समवशरणादि बहिरंग लक्ष्मीसे युक्त, जिनेन्द्र भगवानको नमस्कार करके जिनेश देवकी पूजनकी विधिको कहता हूँ जो कि पूजन मूलसंघ (कुन्दकुन्दस्वामीकी परम्परा अथवा जैनसंघ) के सम्यग्दृष्टी पुरुषोंके लिये पुण्यबंधका प्रधान कारण है ॥ ८ ॥

तीन लोकके गुरु (प्रधान-गौरवशाली) तथा जिनप्रधान (कृपायोंको जीतनेवाले मुनीश्वरोंके स्वामी) के लिये कल्याण होवे । स्वाभाविक महिमा (अनंतज्ञानादि) के उदयमें भले प्रकार ठहरे हुए भगवानके लिये मंगल होवे । स्वाभाविक प्रकाशसे (केवलज्ञानसे) बढ़े हुए, केवल दर्शनसे सहित जिनेन्द्रके लिये क्षेम होवे । उज्ज्वल, सुन्दर, तथा अद्भुत समवशरणादि वैभवके लिये कुशल होवे ॥ ९ ॥

विशेष—नमस्कार तीन प्रकारका होता है । एक स्तवनात्मक जैसे विनती स्तुति आदि रीतिसे नमस्कार । दूसरा आशीर्वादात्मक जैसे तुम्हारी जय होय, आपकी वृद्धि होय आदि । तीसरा स्वरूप-कथनात्मक जैसे तत्त्वार्थसूत्र, परीक्षामुखका मंगलाचरण । इन तीनोंमेंसे यहां मध्यका आशीर्वादात्मक नमस्कार है ।

उद्भलते हुये निर्मल केवलज्ञानरूपी अमृतके प्रवाहवाले एवं स्वभाव और परभावके प्रकाशक और तीन लोकको जाननेवाले केवलज्ञानके स्वामी तथा त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों में ज्ञानके द्वारा फैले हुए जिनेन्द्र भगवानके लिये मंगल होवे ॥ १० ॥

अपने भावोंकी परमशुद्धताको पानेका अथवा जाननेका अभिलाषी मैं देश कालके अनुकूल जलचन्दनादि द्रव्योंकी शुद्धताको

पाकर अथवा जानकर जिनस्तवन, जिनविम्बदर्शन, ध्यान, आदि अनेक अवलंबनोंका आश्रय लेकर पूज्यपुरुष अरहंतादिका पूजन करता हूँ ॥ ११ ॥

हे अहंन ! हे पुरातन प्राचीन पुरुष ! हे उत्तमपुरुष ! यह असहाय दीन एक मनुष्य (पूजा करनेवाला) मैं इन पवित्र समस्त जलादि द्रव्योंको, दैदीप्यमान, निर्मल केवलज्ञानरूपी इस अग्निमें सम्पूर्णा पुण्यरूप जैसे बन सके तैसे एकाग्रचित्त होकर हवन करता हूँ । भावार्थ—घृत, कपूर, धूप आदि द्रव्योंसे अग्नि-कुण्डमें हवन किया जाता है उसीके अनुसार यहां केवलज्ञानको अग्निकुण्ड कल्पित करके जलादि द्रव्य द्वारा हवनरूपसे अरहंतके पूजनकी प्रतिज्ञा बतलाई है ॥ १२ ॥

आं ह्रीं विधियज्ञप्रतिज्ञानाय जिनप्रतिमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपेत् ।

इस प्रकार पुजारी अरहंत प्रतिमाके सन्मुख विधिपूर्वक पूजन की प्रतिज्ञाके निर्मात्त पुष्पोंकी अंजलि क्षेपण करै ।

श्रीवृषभो नः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअजितः । श्रीसंभवः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअभिनन्दनः । श्रीसुमतिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीपद्मप्रभः । श्रीसुपार्श्वः स्वस्ति, स्वांस्ति श्रीचन्द्रप्रभः । श्रीपुष्पदंतः स्वस्ति, स्वांस्ति श्रीशीतलः । श्रीश्रेयान्स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवासुपूज्यः । श्रीविमलः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअनंतः । श्री धर्मः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशांतिः, श्रीकुन्धुः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अरनाथः । श्रीमल्लिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीमुनि-सुव्रतः । श्रीनमिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीनेमिनाथः । श्रीपार्श्वः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवर्द्धमानः ॥

(पुष्पांजलि क्षिपेत्)

अनंतचतुष्टयादि अंतरंग तथा आठ प्रातिहार्य और अति-शय, समवशरणादि बाह्य लक्ष्मीसं युक्त श्रीऋषभनाथजी प्रथम तीर्थंकर हमारे कल्याणके लिये होओ। इसी रीतिसं प्रत्येक तीर्थंकरके लिये नमस्कार है।

स्वस्ति शब्दके कल्याण, क्षेम, मंगल, कुशल आदि अनेक शुभ अर्थ हैं। प्रत्येक नमस्कारके अंतमें पृष्पांजलि क्षेपण करनी चाहिये।

अब मुनीश्वरों का स्तवन किया जाता है।

नित्याप्रकम्पाद्भुतकेवर्लाघाः स्फुरन्मनःपर्ययशुद्धबोधाः ।

दिव्यावधिज्ञानबलप्रबोधाः स्वस्तिक्रियासुः परमर्पयो नः ॥

भाषा—अब ऋद्धिधारी महाऋषीश्वरोंको नमस्कार करते हैं— कोई मुनीश्वर अविनाशी, अचल, अद्भुत केवलज्ञानके धारक हैं। किन्हीं यतीश्वरोंके दैदीप्यमान मनःपर्ययज्ञान है तथा कोई ऋषीश्वर दिव्य अवधिज्ञानके बलसे प्रबुद्ध (जागृत) हैं ऐसे महाऋषि हमारे लिये कल्याण करें ॥ १ ॥

विशेष—ऋद्धिका अर्थ शक्ति है। ये शक्तियां आत्मामें अनन्त हैं। उनमेंसे मुनीश्वरोंमें तपके बलसे कर्मोंका क्षयोपशम होनेके कारण ये ऋद्धियां प्रगट होती है। उनमेंसे बुद्धिसंबंधी ऋद्धियां अठारह प्रकारकी हैं जिनमेंमें इस श्लोकमें तीन ऋद्धियोंको बतलाया है

कोष्ठस्थधान्योपममेकवीजं संभिन्नसंश्रोतृपदानुसारि ।

चतुर्विधं बुद्धिबलं दधानाः स्वस्तिक्रियासुः परमर्पयो नः ॥

कोष्ठस्थधान्योपम, एकवीज, संभिन्नसंश्रोतृत्व पदानुसारत्व इन चार प्रकारकी बुद्धि ऋद्धिको धारण करनेवाले ऋषिराज हमारे लिये मंगल करें ॥ २ ॥

विशेष—जिस प्रकार भंडारमें हीरा, पन्ना, पुखराज, चांदी, सोना, धान्य आदि अनेक पदार्थ जहां जैसे रख दिए जावें पश्चात् बहुत समय बीत जानेपर यदि वे निकाले जाय तो जैसेके तैसे (न तो कम, न अधिक) भिन्न २ उसी स्थानपर रखे हुए मिलते हैं । तैसे ही सिद्धांत, न्याय व्याकरणादिके सूत्र, गद्य, पद्य ग्रन्थ जिस प्रकार पढ़े थे, सुने थे, पढ़ाये अथवा मनन किये थे, बहुत समय बीत जानेपर भी यदि पूछा जावे तो न तो एक भी अक्षर घटकर न बढ़कर तथा न पलटकर भिन्न २ ग्रंथोंको सुना दें । ऐसी शक्तिका नाम कोष्ठस्थधान्योपम ऋद्धि है । ग्रंथोंके एक बीज (मूल) पदके द्वारा उसके अनेक प्रकारके अनेक अर्थोंको जान लेना एक-बीज ऋद्धि है । बारह योजन लंबे, नौ योजन चौड़े क्षेत्रमें ठहरने वाली चक्रवर्तीकी सेनाके हाथी, ऊँट, घोड़े, बैल, पत्नी, मनुष्य आदि सभीके अक्षर तथा अनक्षररूप नाना प्रकारके शब्दोंको एक साथ अलग २ सुननेकी शक्तिको संभिन्नसंश्रोतृत्व ऋद्धि कहते हैं । ग्रंथकी आदिके अथवा मध्यके या अंतके केवल पदको सुनकर सम्पूर्ण ग्रंथको कह देनेकी शक्तिको पदानुसारित्व ऋद्धि कहते हैं ॥ २ ॥

संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरादास्वादनघ्राणविलोकनानि ।

दिव्यान्मतिज्ञानबलाद्बहन्तः स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥

यद्यपि मनुष्योंमें स्पर्शन, रसना, घ्राण इन तीन इन्द्रियोंका उत्कृष्ट विषय नौ योजन है । अर्थात् मनुष्य यदि दूरसे स्पर्श करना चाहें तो अधिकसे अधिक नौ योजन दूरीके पदार्थोंका स्पर्श जान सकते हैं । इसी प्रकार अधिकसे अधिक दूर-स्थित पदार्थके रस तथा गंधको जाननेकी शक्ति होय तो नौ योजन दूरवाले पदार्थका रस तथा गंध जान सकते हैं । अधिक नहीं । इसी प्रकार यदि

अधिकसे अधिक दूरवाले पदार्थको याद देखनेकी शक्ति होवे तो सैंतालिस हजार दोसौ त्रैसठ ४७२६३ योजन दूर स्थित पदार्थको देख सकते हैं और यदि अधिकसे अधिक दूरवर्ती शब्दको सुन सके तो बारह योजनके दूरवर्ती शब्दको सुन सकते हैं इससे अधिक नहीं। किन्तु दिव्य मतिज्ञानके बलसे मुनिराज सैकड़ों योजन दूरवर्ती पदार्थोंके स्पर्श, रस तथा रूपको स्पष्ट जान लेते हैं तथा शब्दको सुन लेते हैं। नेत्रके उत्कृष्ट विषयसे बहुत अधिक दूरवर्ती पदार्थोंको देख लेते हैं। ऐसे १ दूर संस्पर्शन, २ दूर संश्रवण, ३ दूर आस्वादन, ४ दूर आघ्राण तथा ५ दूर विलासन ऋद्धिधारी मुनि हमारे लिये ज्ञेय करें ॥ ३ ॥

प्रज्ञाप्रधानाः श्रवणाः समृद्धाः प्रत्येकबुद्धा दशसर्वपूर्वैः ।

प्रवादिनोऽष्टांगनिमित्तविज्ञाः स्वस्तिक्रियासुः परमर्षया नः ॥

प्रज्ञाश्रमणत्व, प्रत्येकबुद्धता, दशपूर्वित्व, चतुर्दशपूर्वित्व, प्रवादित्व और अष्टांगमहानिमित्तज्ञता ऋद्धियोंको धारण करने वाले मुनिवर हमारी कुशलता करें। विशेष—पदार्थोंके अत्यन्त सूक्ष्म तत्वोंको जिनको कि केवली श्रुतकेवली ही बतला सकते हैं। द्वादशांग चौदह पूर्व विना पढ़े ही प्रज्ञा ऋद्धिके प्रभाव से निःसंशय बतला देना प्रज्ञाश्रमणत्व ऋद्धि है। अन्य किसीके उपदेशके बिना ही केवल अपनी शक्तिमें ही ज्ञान संयम विधान निरूपण करना प्रत्येकबुद्धिता ऋद्धि है। अपने-अपने नाना स्वरूप तथा अनेक सामर्थ्य प्रकट करनेवाली महावेगवाली महा-रोहिणी आदि आई हुई अनेक विद्याओंके द्वारा भी चारित्रसे चलायमान न होना अर्थात् दश-पूर्वरूपी दुस्तर समुद्रको पार कर जाना दशपूर्वित्व ऋद्धि है। संपूर्ण श्रुतज्ञानका प्राप्त हो जाना चतुर्दशपूर्वित्व ऋद्धि है। अन्य बुद्धवादियोंकी तो क्या ? यदि इन्द्र भी आकर शास्त्रार्थ करे तो उसको भी निरुत्तर कर दें यह

प्रवादित्व ऋद्धि है ॥ १ अन्तरिक्ष २ भौम ३ अंग ४ स्वर ५ व्यंजन ६ लक्षण ७ छिन्न ८ स्वप्न इन आठ महा निमित्तोंके जानने को अष्टांगनिमित्तज्ञता ऋद्धि कहते हैं । सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादिके उदय, अस्तादि द्वारा भूत, भविष्यत् वर्तमान काल-सम्बन्धी होने वाले हानि लाभको जानना अन्तरीक्ष निमित्तज्ञता है । पृथ्वीकी कठिनता, चिक्कणता, छिद्र आदिको देखनेसे ही होनेवाले हानि, लाभ, जय, पराजय तथा गढ़े हुये सोने चांदी आदि वस्तुओंको जान लेना भौम निमित्तज्ञता है । शरीर के अंग, प्रत्यंगादिको देवकर त्रिकाल सम्बन्धी शुभ, अशुभ जान लेना अंगनिमित्तज्ञता है । अक्षरात्मक तथा अनक्षरात्मक, शब्दको सुन लेनेसे ही होनेवाले हानि लाभको जान लेना स्वरनिमित्तज्ञता है । शिर, मुख, कंठादि स्थानोंमें तिल, मशो आदिको देख लेनेसे त्रिकालवर्ती हित, अहितको जान लेना व्यंजननिमित्तज्ञता है । श्रीवृक्ष, ध्वजा, कलश, सांधिया आदि चिन्होंको शरीरमें देख लेनेसे त्रिकालसम्बन्धी इष्ट, अनिष्टादिको जान लेना लक्षणनिमित्तज्ञता है । वस्त्र, शस्त्र, छत्र, जता, आसन आदि पदार्थोंके शस्त्र, कांटे, चूहे आदिके द्वारा कटे हुए अंशको देखकर होनेवाले सुख, दुःख, हानि, लाभ आदिको जान लेना छिन्ननिमित्तज्ञता है । वात पित्त कफके आधिक्यसे रहित पुरुषके रात्रिके पिछले भागमें देखे स्वप्न द्वारा सूर्य, चन्द्र, समुद्र, गधा, ऊँट आदिको देखकर आगामी जीवन, मरण, सुख, दुःखादिको मालूम कर लेना स्वप्न निमित्तज्ञता है । इन आठों महानिमित्तोंको जानना अष्ट महानिमित्तज्ञता ऋद्धि है । इस प्रकार बुद्धि ऋद्धिके १८ भेद चार श्लोकों में बतला दिये हैं । अब यतीश्वरोंकी क्रिया ऋद्धिको बतलाते हैं:—

जड्धावलिश्रेणिफलाम्बुतन्तुप्रसूनबीजाङ् कुरचारणाह्लाः ।

नमोऽङ्गणस्वैरविहारिणश्च स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥

जंघा, श्रेणी, फल, जल, तन्तु, पुष्प, बीज, अंकुर, अग्नि-शिखा पर चलनेवाले चारण ऋद्धिके धारक ऋषिवर तथा आकाशगामिनी ऋद्धिके बलसे आकाशरूपी आंगनमें विहार करनेवाले मुनिवर हमको आनन्द प्रदान करें ॥ ५ ॥

विशेष—पृथ्वीसे चार अंगुल ऊंचे आकाशमें जंघाको शीघ्र उठाने रखनेसे सैकड़ों योजन गमन करनेकी शक्तिको जंघाचारण ऋद्धि कहते हैं। आकाश श्रेणीमें, वृत्तोंके फल, फूल, अंकुर, बीज आदि पर तथा जल पर एवं अग्निकी शिखा पर गमन करें किन्तु फूल, अंकुर आदि न टूटें और न उनके सूक्ष्म जीवों का ही घात हो ऐसी जलचारण, अग्निचारण, फूलचारणादि ऋद्धियां हैं। पद्मासन, खडगासन आदि आसनोंमें ठहरे हुए पैरोंको बिना उठाये, रखे ही आकाशमें विहार करना आकाशगामित्व ऋद्धि है। इस प्रकार मुनीश्वरोंकी दो प्रकारकी (चारण, आकाशगामित्व) क्रिया ऋद्धियोंको बतलाया है ॥ ५ ॥

**अणिमन् दक्षाः कुशला महिम्नि लधिम्नि शक्ताः कृतिनो गरिम्णि
मनावपूर्वाग्बलिनश्च नित्यं स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥६॥**

अणिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा ऋद्धिमें पूर्णतया कुशल तथा मनोबल, वचनबल और कायबल ऋद्धिके धारक योगीश्वर हमारे लिये मंगल करें ॥ ६ ॥

विशेष—विक्रिया ऋद्धि जैसे तो अनेक प्रकार है किन्तु उसके प्रधान चार ही भेद हैं। उनमेंसे परमाणुके समान अपने शरीरको छोटा बनाकर कमल नल सूक्ष्म छिद्रमें भी घुसकर वहां बैठने आदिके योग्य शरीरको सूक्ष्म कर लेना अणिमा ऋद्धि है। सुमेरु पर्वतसे भी बड़ा शरीर बना लेना महिमा ऋद्धि है। वायुसे भी हलकी अपनी देहको कर लेना लधिमा ऋद्धि है। वज्रसे भी

भारी अपने शरीरको कर लेना गरिमा ऋद्धि है। बल ऋद्धि तीन प्रकार है। १-अंतर्मुहूर्तमें समस्त द्वादशांगके पदार्थोंको विचार लेना मनोबल ऋद्धि है। २-सम्पूर्ण श्रुतज्ञानका अंतर्मुहूर्तमें ही पाठ कर जाना फिर भी जिह्वा कंठ आदिमें कुछ भी शुष्कता तथा थकावट न होना और न पसीनेका आना वचन बल ऋद्धि है। ३-छह मास, एक वर्ष, आदि बहुत समय तक उपवास करने पर भी शरीरका बल, कांति आदि थोड़ा भी कम न होना, शरीरमें किसी प्रकार भी स्वेद न होना कायबल ऋद्धि है ॥ ६ ॥

विक्रिया ऋद्धिके चार प्रकार ऊपर बतला दिये हैं उनके सिवा सात भेदोंको अब और बतलाते हैं—

सकामरूपित्ववशित्वमैश्यं प्राकाम्यमन्तर्दिग्मथाग्निमाप्ताः ।

तथाऽप्रतीघातगुणप्रधानाः स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥

सकामरूपित्व, वशित्व, ईशित्व, प्राकाम्य, अन्तर्धान, आप्ति और अप्रतिघात ऋद्धियोंमें प्रधानता रखनेवाले ऋषिपुंगव हमारे लिये क्षेम करें ॥ ७ ॥

विशेष—एक साथ अनेक आकारवाले अनेक शरीरोंको बना लेनेकी शक्ति सकामरूपित्व ऋद्धि है। सभी जीवोंको अपने वशमें कर लेना वशित्व ऋद्धिका कार्य है। तीन लोककी प्रभुता (ऐश्वर्य) करनेकी शक्ति ईशित्व ऋद्धि है। जलमें पृथ्वीके समान चलना तथा पृथ्वी पर जलके समान निमज्जन (डूबना) उन्मज्जन (डूबनेके पश्चात् ऊपर आनेके लिये उछलना) करनेकी सामर्थ्य को प्राकाम्य ऋद्धि कहते हैं। तुरंत ही अदृश्य (नहीं दिखाई देना) होनेकी शक्तिको अंतर्धान ऋद्धि कहते हैं। भूमिपर बैठे हुए ही अंगुलीसे सुमेरु पर्वतकी चोटी, सूर्य, चन्द्रादिको छू लेना आप्ति ऋद्धि है। पर्वतोंके बीचमेंसे किसी गुफा आदिके बिना ही

खुले मैदानके समान जाना आना और किसी प्रकार भी रुकावट न आना अप्रतिघात ऋद्धिकी महिमा है ॥ ७ ॥

तपकी अतिशय रूप सात ऋद्धियां है। उनका अब वर्णन करते हैं—

दीप्तं च तप्तं च तथा महोम्रं घोरं तपोघोरपराक्रमस्थाः ।

ब्रह्मापरं घोरगुणाश्चरन्तः स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥

१ दीप्ति, २ तप्त, ३ महोम्र, ४ महाघोर, ५ तपोघोर, ६ परा-
क्रमघोर और ७ ब्रह्मचर्य ऋद्धिधारी मुनिराज हमको मंगल
प्रदान करें ।

विशेष—बड़े २ उपवास करते हुए भी, मनोबल, वचनबल तथा कायबलका बढ़ना, शरीरमें सुगंधि आना, कमलकी सुगंधि वाली वायुके समान निःश्वासका निकलना तथा शरीरमें म्लानता न होकर महाकांतिका होना दीप्त ऋद्धि है। तपी हुई लोहेकी कड़ाहीमें जलके समान किये हुए भोजनका तुरंत सूख जाना अर्थात् उस भोजनमे मल, मूत्र, रक्त, मांस आदिका न बनना तप्त ऋद्धि है। एक उपवास, दो, चार, छह, दश, पक्ष, मास आदिके उपवासोंमेंसे किसी एको धारण करके मरणपर्यंत उसको न छोड़ना महोम्र तप ऋद्धि है। सिंहनिःक्रीडित आदि महाउपवासों को करते रहना महाघोर नामक तप ऋद्धि है। वात, पित्त, कफ, संनिपातसे उत्पन्न ज्वर, कास, श्वास शूल आदि रोगोंसे पीड़ित होने पर भी उपवास, कायक्लेश आदिसे नहीं हटनेवाले तथा दुष्ट यक्ष, राक्षस, पिशाचके निवास स्थान, सिंह, हाथी, गीदड़, भेड़िया, सर्प आदिके शब्दोंसे व्याप्त भयानक, पर्वत, गुफा, श्मशान, सूने गांव आदिमें निवास करनेवाले मुनीश्वर तपोघोर ऋद्धिके धारक होते हैं। अत्यन्त पीड़ाकारक रोग सहित

होते हुए भी भयानक स्थानोंमें उपवासको बढ़ाते ही जाय ऐसे परम ऋषि पराक्रमघोर नामक ऋद्धिधारी होते हैं। चिरकालके तपश्चरण करनेके कारण स्वप्नमेंभी ब्रह्मचर्यसे नहीं डिगना, अति-विकारकारिणी परिस्थिति मिलने पर भी ब्रह्मचर्यमें दृढ़ बने रहना ब्रह्मचर्य नामक ऋद्धि है ॥ ८ ॥

आमर्षसर्वौषधयस्तथाशीर्विषंविषा दृष्टिविषंविषाश्च ।

सखिल्लविड्जल्लमलौषधीशाः स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥

१ आमर्षौषधि, २ सर्वौषधि, ३ आशीर्विषंविष, ४ दृष्टिविषंविष
५ ख्वेलौषधि, ६ विडौषधि, ७ जल्लौषधि, ८ मलौषधि ऋद्धिधारी
परमऋषि हमारा कल्याण करें ॥ ९ ॥

विशेष—जिनके हाथ, पैर आदिको छूनेमें ही सब रोग दूर हो जाय वे मुनिवर आमर्षौषधि ऋद्धिधारी हैं। जिनके शरीरका अंग प्रत्यंग तथा नख, केश आदिका छूना ही अथवा उन समस्त अवयवोंसे स्पर्श करनेवाली वायु ही सनस्त रागोंका दूर कर देती है, उन मुनीश्वरोंके सर्वौषधि ऋद्धि होती है। महाविषमयी भोजन भी जिनके मुखमें जाते ही अमृत समान हो जाय तथा जिनके आशीर्वाद (शब्द सुनने) से ही महाविषव्याप पुरुष भी नीरोग हो जाय वे मुनीश्वर आशीर्विष या आशीर्विषंविष ऋद्धिके धारक हैं। जिनके देखनेसे ही विषप्रस्त पुरुष भी सन्मथ हो जाते हैं उन ऋषिवरोंके दृष्टिविष या दृष्टिविषंविष ऋद्धि होती है। जिनके निष्ठीवन (थूक) कफ आदिसे लगी हुई हवाके स्पर्शसे ही रोग दूर हो जाय उनके ख्वेल ऋद्धि होती है। जिनके मल (विष्ठा) की वायु ही रोगनाशक होती है वे मुनीश्वर विडौषधि ऋद्धिधारी होते हैं। जिनके शरीरका मैल (पसीनेमें लगी हुई धूलि) महा-रोगोंको दूर कर दे उनके जल्लौषधि समझनी चाहिये। जिनके

दांत, कान, नाक, नेत्र आदिका मूल सर्वरोगोंको नष्ट कर दे उन ऋषीश्वरोंके मलौषधि होती है। इस प्रकार औषधि ऋद्धिके आठ भेद हैं ॥ ६ ॥

क्षीरं स्रवन्ताऽत्र घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः ।
अक्षीणसंवासमहानसाश्च स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥

क्षीरस्रावी, घृतस्रावी, मधुस्रावी, अमृतस्रावी, तथा अक्षीण-संवास और अक्षीणमहानस ऋद्धिधारी मुनिवर हमको मंगल प्रदान करें ॥ १० ॥

विशेष—नीरस भोजन भी जिनके पाणिपात्र (हाथों) में आते ही दूधके समान गुणकारी हो जाय अथवा जिनके वचन सुननेसे क्षीण पुरुष भी दूधके समान बलको प्राप्त करें उन मुनीश्वरोंके क्षीरस्राविणी ऋद्धि होती है। जिनके पाणिपुटमें आते ही रुखा भोजन भी घीके समान बलबद्धक हो जाय अथवा जिनके वचन घृतके समान तृप्ति करें वे यतीश्वर घृतस्राविणी ऋद्धिके धारक हैं जिनके हाथमें आया हुआ नीरस भोजन भी मधुर हो जाय अथवा जिनके वचन सुनते ही दुःखित, पीड़ित पुरुष भी साता लाभ करें वं योगीश्वर मधुस्राविणी ऋद्धिके धारक होते हैं। जिनके लिये दिया गया सामान्य आहार भी अमृतके समान पुष्टिकारी होय अथवा जिनके वचन अमृतके समान आरोग्यकारी होंय उन ऋषीश्वरोंके अमृतस्राविणी ऋद्धि होती है। इस प्रकार रसऋद्धि चार प्रकारकी है।

अक्षीण ऋद्धिके दो भेद हैं एक संवास, दूसरी महानस।

जिन मुनीश्वरोंके अक्षीण संवास नामक ऋद्धि होती है उनके निवासस्थानमें समस्त देव, मनुष्य आदि बिना किसी पारस्परिक बाधाके ठहर सकते हैं। एवं जिन ऋषीश्वरोंके अक्षीणमहानस

ऋद्धि होती है उन मुनीश्वरोंको जिस भोजनपात्रसे भोजन दिया जाता है उस दिन वह पात्र खाली नहीं होता है। अर्थात् उस दिन यदि चक्रवर्तीका समस्त कटक भी भोजन करे तब भी वह पात्र खाली न होगा—भरा ही रहेगा। इस प्रकार अक्षीण ऋद्धिके दो भेद हैं ॥ १० ॥

ये ऋद्धियां यतीश्वरोंको तपके प्रभावसे प्राप्त होती हैं ।

इति स्वस्ति-मंगलविधानं ।

इसप्रकार स्वस्तिमंगलका विधान समाप्त हुआ ।

अथ देवशास्त्रगुरुपूजा ।

००

सर्वः सर्वज्ञनाथः सकलतनुभृतां पापमंतापहर्ता,
त्रैलोक्याक्रान्तकीर्तिः क्षतमदनरिपुर्धातिकर्मप्रणाशः ।
श्रीमाचिर्वाणसम्पद्वरयुवतिकरालाढकण्ठः सुकंठ-
द्वेन्द्रैर्वन्द्यपादो जयति जिनपतिः प्राप्तकल्याणपूजः ॥

जो जिनेंद्रदेव सब जीवोंके लिये कल्याणरूप हैं, त्रिलोकवर्ती समस्तपदार्थोंको जाननेवाले तथा समस्तप्राणियोंके पापरूपी संतापके नाशक हैं, जिनका निर्मल यश तीन लोकमें फैला हुआ है, जिनने कामदेवको नष्ट कर दिया है एवं जिनने चार घातिया-कर्मोंका नाश कर दिया है और जो अचिनश्वर अनुपम विभूतिसे सहित हैं, मुक्तिरूपी सुन्दरीने अपनी बाहुओंसे जिनके कंठका आलिंगन किया है तथा जिनके चरण कमल सुन्दरकंठवाले

इंद्रोने पूजे हैं और जो जन्म, दीक्षा आदि कल्याणकोंमें देवोंद्वारा पूजित हैं वे भगवान सर्वदा जयवंत हैं ॥ १ ॥

जय जय जय श्रीसत्कान्तिप्रभो ! जगतां पते !

जय जय भवानेव स्वामा भवाम्भसि मज्जताम् ।

जय जय महामोहध्वांतप्रभाकर तेऽर्चनम्

जय जय जिनेश ! त्वं नाथ ! प्रसीद करोम्यहम् ॥२॥

असाधारण लक्ष्मी तथा कांतिके धारक हे जिनेश्वर ! भो संसारके स्वामी ! आपकी जय होय, जय होय, क्योंकि संसार-सागरमें डूबनेवाले जीवोंके आप ही रक्षक है इसलिये आप जयशाली हों, जयशाली हों। हे भगवन् ! आप जयशील होओ, जयशील होओ। हे मोहरूपी गाढ़ अंधकारके नाशक सूर्य ! मैं आपकी पूजा करता हूँ। हे जिनेश ! मुझपर प्रसन्न होवो ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं श्रीभगवज्जिनेंद्र ! अत्र अवतर अवतर संवौ-
षट् (इत्याह्वानं)

हे जिनेंद्र भगवन् ! यहां (वेदीपर) आइये !! आइये !!!

(इस प्रकार आह्वान अर्थात् जिनेंद्रदेवको बुलानेकी प्रार्थना है)

ॐ ह्रीं श्रीभगवज्जिनेंद्र ! अत्र तिष्ठ ठः ठः (इति स्थापनम्)

हे जिनेंद्रभगवन् ! यहां तिष्ठिये !! तिष्ठिये !!! (ठहरिये)

(इस प्रकार उनकी स्थापना करना है)

ॐ ह्रीं श्रीभगवज्जिनेंद्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्

(इति मन्निधीकरणम्)

हे जिनेंद्र भगवन् ! यहां मेरे समीप हूजिये !! हूजिये !!!

(इस प्रकार जिनवरदेवको अपने समीप बुलानेका मंत्र है)

देवि ! श्राश्रुतदेवते ! भगवति ! त्वत्पादपंकेरुद्-

द्वन्द्वे यामि शिलीमुखत्वमपरं भक्त्या मया प्रार्थ्यते ।

मातश्चेतसि तिष्ठ मे जिनमुखोद्भूते सदा त्राहि मां

दृग्दानेन मयि प्रसीद भवतीं संपूजयामांऽधुना ॥३॥

हे देवि ! हे श्रुतदेवते ! (श्रुतज्ञान या शास्त्ररूपिणी सरस्वती) भो भगवति ! आपके युगल (दो) चरणकमलोंका मैं भ्रमर (भोंरा) हूँ । भक्तिपूर्वक मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि जिनेंद्रमुखकमलसे उत्पन्न होनेवाली हे माता ! मेरे चित्तमें आप सदा निवास करो तथा सम्यग्दर्शन देकर मेरी रक्षा करो एवं मुझपर प्रसन्न होवो । मैं अब आपका पूजन करता हूँ ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं जिनेंद्रमुखोद्भूतद्वादशांगश्रुतज्ञान !

अत्र अवतरावतर संवोषट्

जिनेंद्रदेवके मुखकमलसे उत्पन्न हे द्वादशांगरूप श्रुतज्ञान !
यहां आइये !! आइये !!!

ॐ ह्रीं जिनमुखोद्भूतद्वादशाङ्गश्रुतज्ञान !

अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः

जिनेंद्रदेवके मुखकमलसे उत्पन्न हे द्वादशांग श्रुतज्ञान !
यहां ठहरिये !! ठहरिये !!!

ॐ ह्रीं जिनमुखोद्भूतद्वादशाङ्गश्रुतज्ञान ! अत्र

मम सन्निहितं भव भव वषट् ।

जिनेन्द्रदेवके मुखकमलसे उत्पन्न हे द्वादशांगरूप श्रुतज्ञान !
यहां मेरे समीप हूजिये !! हूजिये !!!

विशेष—आचारांग १, सूत्रकृतांग २, स्थानांग ३, समवायांग ४, व्याख्याप्रज्ञप्ति ५, ज्ञातृकथांग ६, उपासकाध्ययनांग ७, अंतः-कृतदशांग ८, अनुत्तरोत्पाददशांग ९, प्रश्नव्याकरणांग १०, विपाकसूत्रांग ११ तथा पूर्व १२, ये श्रुतज्ञानके बारह अंग हैं अर्थात् ये बारह अंग ही पूर्णश्रुतज्ञान है। अन्तका पूर्वनामक जो अंग है उसके चौदह भेद हैं। इसलिये श्रुतज्ञानको ग्यारह अंग, चौदह पूर्व स्वरूप भी कहते हैं।

संपूजयामि पूज्यभ्य पादपद्मयुगं गुरोः ।

तपःप्राप्तप्रतिष्ठस्य गरिष्ठस्य महात्मनः ॥ ४ ॥

अर्थ—जो महापुरुष पवित्र चारित्रिका धारक होनेसे समस्त जीवोंका पूज्य है तथा जिसने अपने निर्दोष घोर तपश्चरणसे संसारमें प्रतिष्ठा पाई है, एवं निःसंगता, समता, अखण्ड ब्रह्म-चर्यादि असाधारण गुणोंके कारण जो समस्त जीवोंमें गुरु (गौरवशाली) है। ऐसे परमपावन गुरुके चरण कमल युगलका मैं भले प्रकार पूजन करता हूँ ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं आचार्योपाध्यायसर्वसाधुसमूह ! अत्र

अष्टरावतर संवोषट् ।

हे आचार्य, उपाध्याय सर्वसाधुके समूह ! यहां आइये !
आइये !!

ॐ ह्रीं आचार्योपाध्यायसर्वसाधुसमूह ! अत्र

तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।

हे आचार्य उपाध्याय सर्वसाधुके समूह ! यहां तिष्ठिये !
निष्ठिये !!

ॐ ह्रीं आचार्योपाध्यायसर्वसाधुसमूह ! अत्र
मम सन्निहितो भव भव वषट् ।

हे आचार्ये उपाध्याय सर्वसाधुसमूह ! यहां मेरे समीप
हृजिये !! हृजिये !!!

देवेन्द्रनागेन्द्रनरेन्द्रवन्द्यान् शुम्भत्पदान् शोभितसारवर्णान् ।
दुग्धाब्धिसम्पर्धिगुणैर्जलौघैर्जिनेन्द्रसिद्धान्तयतीन् यजेऽहम् ॥

अर्थ—देवेन्द्र, धरणेन्द्र तथा नरेन्द्रों (चक्रवर्ती) द्वारा वन्दनीय तथा शोभनीय पदवीको धारण करनेवाले (अर्थात् संसारी जीवोंको कल्याण मार्गके असाधारणरूपसे उपदेशक होनेके कारण और समस्तदोषोंसे रहित होनेके कारण जिनेन्द्रभगवान, साक्षान् उपदेशकके अभावमें मोक्षमार्गका उपदेश देनेसे तथा अखण्डनीय सत्यसिद्धान्तमयी होनेसे शास्त्र एवं परम पवित्र चारित्रिका प्रचार करनेसे और पूज्य गुणोंके धारण करनेसे गुरु शोभित पदके धारक हैं) एवं शोभित उत्तम वर्णवाले (अर्थात्—करोड़ों सूर्य, चन्द्रोंसे भी बढकर संसारमें अन्धकारको नाश करके वास्तविक प्रकाश करने वाला, संसारकी सर्वोत्तम परमाणुओंसे बना हुआ परमौदारिकस्वरूप अरहंतदेवका शरीर उत्तम वर्णवाला है और शास्त्र भी उत्तम वर्णमयी यानी अक्षरमयी है अथवा एकान्तरूपी अन्धकारको नाश करके पदार्थोंका वास्तविकस्वरूप बतलानेके कारण और प्रकाशमयी स्याद्वादस्वरूप होनेसे उत्कृष्टवर्णवाला है । एवं पट्कायके जीवोंको अभयदान देनेवाला, परमशांति वरसानेवाला गुरुका शरीर तो सारवर्णका धारक है ही) जिनेन्द्रभगवान, तथा शास्त्र और गुरुओंका, क्षीरसागरके

समान निर्मलता पवित्रता आदि गुणोंको रखनेवाले जलसमूहके द्वारा मैं पूजन करता हूँ ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं परब्रह्मणेऽनन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टादशदोष-
रहिताय षट्चत्वारिंशद्गुणसहिताय अहैत्परमेष्ठिने जन्म-
जरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्यके धारक और जन्ममरणादि अठारह दोषोंसे रहित, तथा चौतीस अतिशय, आठ प्रातिहार्य और चार अनन्तचतुष्टय इसप्रकार ४६ गुणोंसे सहित परमब्रह्म श्री-अरहंत परमेष्ठीके लिये मैं जन्म जरा तथा मरणको नष्ट करनेके लिये जलको समर्पण करता हूँ ।

ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्भूतस्याद्वादनयगभितद्वादशांग-
श्रुतज्ञानाय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति
स्वाहा ।

जिनेन्द्रभगवानके मुखकमलसे उत्पन्न, स्याद्वादनयसे (अनेकान्तवादसे) भरे हुए तथा आचारादि बारह अंगोंस्वरूप श्रुतज्ञानको जन्म जरा और मरणको विनाश करनेके लिये जल समर्पण करता हूँ ।

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रादिगुणविराजमानाचा-
र्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्रादि अनेक गुणोंसे शोभायमान आचार्य उपाध्याय और समस्त साधुवर्गको मैं जन्म, जरा, मरणको नाश करनेके लिये जल समर्पण करता हूँ ।

ताम्यत्त्रिलोकोदरमध्यवर्तिसमस्तसत्त्वाहितहारिवाक्यान् ।
 आचंदनेर्गन्धविलुब्धभृर्गर्जिनेन्द्रसिद्धान्तयतीन् यजेऽहं ॥२॥

अनेक प्रकारके सांसारिक संतापसे पीड़ित त्रिलोकवर्ती समस्त जीवोंके दुःखको दूर करनेवाले जिनके वाक्य (उपदेश) हैं ऐसे जिनेश्वरदेव तथा शास्त्र और गुरुओंका चंदनके द्वारा अर्चन करता हूँ । जिस चंदनकी सुगंधतासे भ्रमर लोभी होगये हैं अर्थात् गंधको प्रहण करनेकेलिये जिस चंदन पर भौरे आ गये हैं ।

ॐ ह्रीं परब्रह्मणेऽनन्तानन्तज्ञानशक्तये अष्टादशदोष-
 रहिताय षट्चत्वारिंशद्गुणसहिताय अर्हत्परमेष्ठिने संसार-
 तापविनाशनाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

ॐ ह्रीं जिनमुखोद्भूतस्याद्वादनयगभितद्वादशांगश्रुत-
 ज्ञानाय संसारतापविनाशनाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानसम्यक्चारित्रादिगुण-
 विराजमानाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः संसारतापविनाशनाय
 चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

संसारके दुःखमयी संतापको विनष्ट करनेकेलिये मैं चन्दन अर्पण करता हूँ । (शेष सभी अर्थ पहलेके समान हैं)

अपारसंसारमहासमुद्रप्रोत्तारणे प्राज्यतरीन् सुभक्त्या ।
 दीर्घाक्षतागैर्धत्रलाक्षतौर्धैर्जिनेन्द्रसिद्धान्तयतीन् यजेऽहम् ॥३॥

अर्थ—अपार संसाररूपी महासागरसे जीवोंको पार करनेके लिये बड़ी नौकाके समान श्रीजिनेन्द्रदेव, शास्त्र तथा गुरु महाराज

क्षुभ्यद्विलुभ्यन्मनसामगम्यान् कुवादिवादाऽस्खलितप्रभावान् ।
फलैरल मोक्षफलाभसारं जिनेन्द्रसिद्धांतयतीन् यजेऽहम् ॥८॥

क्षुब्ध (क्षोभसहित-उद्वेगवाले) तथा लुब्ध (लोभी) जीवों को अगम्य (नहीं जानने योग्य) तथा कुवादियोंके साथ वाद (शास्त्रार्थ) करनेमें अस्खलित प्रभावशाली (अर्थात् वाद करनेमें किसी प्रकार भी हीनशक्ति नहीं हैं) ऐसे जिनेन्द्र भगवान, शास्त्र तथा गुरुको मोक्षरूपी फल देनेके कारण सारभूत (उत्तम) फलों से पूजता हूँ ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यः मोक्षफलप्राप्तये फलं नि० ।

मोक्ष फल पानेके लिये मैं फलको समर्पण करता हूँ । (शेष पूर्ववत्)

सद्वागिगंधाक्षतपुष्पजातैर्नैवेद्यदीपामलधूपधूम्रैः ।

फलैर्विचित्रैर्घनपुण्ययोगान् जिनेन्द्रसिद्धांतयतीत् यजेऽहम् ॥

निर्मल जल, चंदन अक्षत और पुष्पोंद्वारा तथा नैवेद्य, दीप, सुगंध धुआं छोड़नेवाली निर्मल धूप तथा अनेक प्रकारके फलों द्वारा पुण्यबंध करानेवाले जिनेन्द्रदेव, शास्त्र तथा गुरुका मैं पूजन करता हूँ ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यः अनर्घ्यपदप्राप्तयेऽर्घं नि० ।

मैं मुक्तिपद पानेके लिये अर्घ्य समर्पण करता हूँ । (शेष प्रथमके समान है ।)

विशेष—गृहस्थ अष्टद्रव्य द्वारा पूजन करता है । किन्तु मुनि-वर केवल भाव-पूजन करते हैं । उसके दो कारण हैं मुनि एक तो निष्परिग्रह हैं इसलिये पूजनके लिये द्रव्य कहाँसे लावें । इसके

सिवाय दूसरा कारण यह भी है कि भावोंकी उत्कृष्ट निर्मलताके कारण मुनियोंको पूजनीय—अरहंतदेवादिके साथ एक प्रकारसे साक्षान् सम्बन्ध है क्योंकि उन्होंने जब प्रतिसमय जप, ध्यान द्वारा प्रतिदिनके स्तवनादि द्वारा अरहंतदेवको अपने हृदयमें विराजमान कर लिया है फिर जलादि द्रव्योंके आश्रयसे सम्बन्ध करनेकी क्या आवश्यकता ? जिन पुरुषों (मन्त्री आदि) का राजासे साक्षान् सम्बन्ध है उनको यह आवश्यकता नहीं रहती कि वह कुछ द्रव्य भेट करके राजासे मिलें किन्तु साधारण पुरुष कुछ न कुछ द्रव्य भेट करके राजासे मिल सकेगा । यही बात गृहस्थके लिये है अभी तक उसने इतनी योग्यता प्राप्त नहीं की है कि वह अपने मनको अरहंतादि देवोंके पास बिना किसी सहारेके पहुँचा सके उसके लिये मन्दिर होना चाहिये, उसमें अरहंत प्रतिमाका होना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त अन्य भी कारण उसको चाहिये तब अरहंतदेवसे मिल सकेगा । इसी प्रकार पूजन करते समय भी केवल प्रतिबिम्ब दर्शनसे ही उस ऊँचे ध्येय पर नहीं पहुँच सकता है किन्तु यहां भी उसको कुछ अन्य आलम्बन चाहिये । इसलिये उसके पास इन अष्टद्रव्योंका होना आवश्यक है इसलिये पूजनमें गृहस्थ कहता है कि मैं जलके द्वारा, फल आदिके द्वारा आपका पूजन करता हूँ । अर्थात् साक्षान् (बिना किसी सहारेके) पूजन करनेमें असमर्थ हूँ ।

ये पूजां जिननाथशास्त्रयमिनां भक्त्या सदा कुर्वते ।

त्रैसंध्यं सुविचित्रकाव्यरचनामुच्चारयंतो नराः ॥

पुण्याढ्या मुनिराजकीर्तिसहिता भूत्वा तपोभूषणाः ।

ते भव्याः सकलावबोधरुचिरां सिद्धिं लभन्ते परां ॥१॥

इत्याशीर्वादः ।

भाषा—जो पुरुष जिनेन्द्रदेव, शास्त्र तथा गुरुओंकी सर्वदा भक्तिपूर्वक अनेक प्रकारके छन्द, अलंकारादि परिपूर्ण वाक्योंका उच्चारण करते हुए तीन समय—प्रातःकाल, मध्याह्न काल तथा सांयकाल पूजन करते हैं वे पुण्यशाली भव्य जीव स्वर्गादिगतियोंसे आकर तपरूपी भूषणसे भूषित होकर मुनीश्वरोंकी निर्मल कीतिको धारण करके केवल-ज्ञानमे रमणीय उत्कृष्ट सिद्धिको (मुक्तिको) पाते हैं ।

(ये आशीर्वाद वाक्य हैं। यहां पर पुष्पांजलिक्षेपण करना चाहिये)

अथ चौबीस तीर्थंकरोंका स्तवन करते हैं—

वृषभोऽजितनामा च संभवश्चाभिनंदनः ।

सुमतिः पद्मभासश्च सुपार्श्वो जिनसत्तमः ॥ १ ॥

चन्द्राभः पुष्पदंतश्च शीतलो भगवान्मुनिः ।

श्रेयांश्च वासुपूज्यश्च विमलो विमलद्युतिः ॥ २ ॥

अनंतो धर्मनामा च शांतिः कुंथुजिनोत्तमः ।

अरश्च मल्लिनाथश्च सुव्रतो नमित्तोर्थकृत् ॥ ३ ॥

हरिवंशसमुद्भूतोऽरिष्टनेमिर्जिनेश्वरः ।

ध्वस्तोपसर्गदंत्याग्निः पार्श्वो नागेन्द्रपूजितः ॥ ४ ॥

कर्मान्तकृन्महावीरः सिद्धार्थकुलसम्भवः ।

एते सुरासुरौघेण पूजिता विमलत्विषः ॥ ५ ॥

पूजिता भरताद्यैश्च भूपेन्द्रैर्भूरिभूतिभिः ।

चर्वितुधस्य संघस्य शांतिं कुर्वन्तु शाश्वतीम् ॥ ६ ॥

जिने भक्तिजिने भक्तिजिने भक्तिः सदास्तु मे ।

सम्यक्त्वमेव संसारवारणं मोक्षकारणम् । ७ ॥

अर्थ— श्री ऋषभनाथजी, अजितनाथजी, सम्भवनाथजी, अभिनन्दननाथजी, सुमतिनाथजी, पद्मप्रभजी, सुगर्श्वनाथजी, चन्द्रप्रभजी, पुष्पदंतजी, शीतलनाथजी, श्रेयांसनाथजी, वासुपूज्यजी, निर्मलकांतिके धारक विमलनाथजी, अनन्तनाथजी, धर्मनाथजी, शांतिनाथजी, कंधुनाथजी, अरनाथजी, मल्लिनाथजी, मुनिमुव्रतनाथजी, नमिनाथजी, हरिवंशमें उत्पन्न अरिष्टनेमिनाथजी तथा धरणेन्द्र द्वारा पूजित और यज्ञ शरीरके धारक कमठके द्वारा किये हुए उपसर्गको अचल आत्मध्यानके द्वारा नष्ट करनेवाले श्रीपार्श्वनाथ एवं सिद्धार्थराजाके यहां जन्म लेनेवाले तथा कर्म जंजालका अन्त (नाश) करनेवाले श्रीमहावीर जिनेश्वर इसप्रकार मनोहर कांतिके धारक देवों तथा असुरों के समूह द्वारा पूजित तथा अपार विभूतिके धारक भरत, श्रेणिकादि अनेक सम्राटों (राजाओंके राजा) द्वारा पूजित ये चौबीस तीर्थंकर चार प्रकारके संघ (आवक, श्राविका, मुनि, आर्थिका) के लिये अविनश्वर शांतिको करें ॥ ६ ॥

जिनेन्द्रभगवानमें सर्वदा मेरी परमभक्ति हो । क्योंकि जिनेन्द्रदेवकी वास्तविक भक्ति (श्रद्धा) रूप सम्यग्दर्शन ही वास्तवमें संसारको निवारण करनेवाला एवं मोक्षको करनेवाला है ॥ ७ ॥

(यहां पुष्पांजलि क्षेपण करना चाहिये)

श्रुते भक्तिः श्रुते भक्तिः श्रुते भक्तिः सदास्तु मे ।

सम्यग्ज्ञानमेव संसारवारणं मोक्षकारणं ॥ ८ ॥

अर्थ—सर्वज्ञकथित शास्त्रमें मेरी सर्वदा भक्ति होवे क्योंकि

संसारको नाश करनेवाला तथा मोक्षको देनेवाला सम्यग्ज्ञान ही है अर्थात् सम्यग्ज्ञान मोक्षका कारण है, और वह शास्त्रों द्वारा उत्पन्न होता है। इसलिये ज्ञान उत्पन्न करनेके लिये शास्त्रमें पूज्य-भावका होना परम आवश्यक है जो कि मुझमें सर्वदा विद्यमान रहो।

यहां पुष्पोंकी अंजलि चढ़ाना चाहिये।

गुरौ भक्तिगुरौ भक्तिगुरौ भक्तिः सदाऽस्तु मे ।

चारित्रमेव संसारवारणं मोक्षकारणं ॥ ६ ॥

अर्थ—निर्दोष तपश्चरणको करनेवाले गुरुओं—आचार्य, उपाध्याय तथा साधुवर्गमें मेरा सर्वदा भक्तिभाव उत्पन्न होवे, क्योंकि संसारको नष्ट करनेवाला तथा मोक्षको करनेवाला सम्यक्चारित्र ही है अर्थात् ज्ञायिकसम्यक्त्व तथा ज्ञायिकज्ञानके होजाने पर भी ज्ञायिकचारित्रके बिना कर्मोंसे मुक्ति नहीं होती है इसलिये सम्यक्चारित्र इस अपेक्षा मोक्षका प्रधान कारण है वह चारित्र मुख्यतया निःसंग मुनीश्वरोंको प्राप्त होता है इसलिये गुरुओंमें विनीत पूज्यभावोंका होना आवश्यक है। अतः मुझको गुरु भक्ति प्राप्त हो।

यहां पुष्पांजलि चढ़ाना चाहिये।

अथ देवजयमाला ।

०(१)०

वत्ताणुट्ठाणे जणधणुदाणे पइपांसिउ तुहु खत्तधरु ।

तव चरणविहाणे केवलखाणे तुहु परमप्पउ परमपरु ॥१॥

अर्थ—हे भगवन् ! आपो सांसारिक प्रजाको (संसारी जीवोंको) ब्रह्मानुष्ठान तथा परममुखको करनेवाले रत्नत्रयको देकर पुष्ट किया इसलिये आप ही वास्तवमें क्षत्रिय (क्षत्रधर) हैं क्योंकि क्षत्र-दुःखित जीवका रक्षक ही क्षत्रिय कहलाता है और तपश्चरण करने पर आप केवलज्ञानधारी हुए इसलिये आप मुनी-श्वर, गणधरादिक उत्तम पुरुषोंमें भी उत्तम हो गये ॥ १ ॥

पद्वरी छंद ।

जय रिसह रिसीसरखमियपाय, जय श्रजिय जियंगमरोसराय ।
जय संभवसंभवकयविश्रोय, जय अद्विशंदखण्णं दियपश्राय ॥

अर्थ—ऋषीश्वरों (गणधरादिकों) द्वारा जिनके चरणकमल नमित (पूजित) हैं ऐसे हे ऋषभनाथ ! आप जयवंते हों । कामदेव, तथा रागको जीतनेवाले हे अजितनाथ जिनेश्वर ! आप जयशाली हों । जिन्होंने दुःखमयी सांसारिक दुःखको हटा दिया है ऐसे हे सम्भवनाथ ! आप जयवान हों । दर्शनोपयोग तथा ज्ञानोपयोगके बढ़ानेवाले, हे अभिनंदननाथ ! आपकी जय होय ॥ २ ॥

जय सुमइ सुमइसम्मयपयास, जय पउमप्पउ पउमाण्णिवास ।
जय जयहि सुपास सुपासगत्ते, जय चंदप्पह चंदाहवत्ते ॥३॥

अर्थ—सत्यमतका प्रकाश करनेवाले, केवलज्ञानधारी हे सुमतिनाथ भगवन् ! आप जयशालि हों । केवलज्ञान, केवल-दर्शनादिक तथा कीर्ति कांत आदि लक्ष्मीके निवासालय हे पद्मप्रभ जिनेश ! आप जयधारी हों । समचतुरस्रसंस्थान तथा वज्रवृषभनाराचसंहननके कारण असाधारण सुन्दरता युक्त हैं पार्श्वभाग (पसबाड़े) जिसमें, ऐसे सुन्दर शरीरवाले अथवा

कमरूपी जालमे ऋद्ध बंधे हुए संसारी जीवोंकी रक्षा करनेवाले (सुद्रुतया पार्श्वगान आ समन्तान् त्रायते) हे सुपार्श्वनाथ भगवन् ! आपकी सदा जय हो । चन्द्रप्रभा (चांदनी) के समान जीवोंको सुख, शांति, तथा आल्हादका देनेवाला एवं अज्ञानान्धकारको भगानेवाला है मुख जिनका, ऐसे हे चन्द्रप्रभ जिनेश ! आप सर्वदा जयवंत हों ।

जयपुष्पयंत दंतंतरंग, जय सीयल सीयल वयणभंग ।

जय सेय सेयकिरणोद्भसुज्ज, जय वासुपुज्ज पुज्जाणपुज्ज ॥४॥

अर्थ—जिन्होंने अन्तरंगको दमन किया है अर्थात् मनका अथवा उसके सम्बन्धसे होनेवाले क्रोध, मान लोभादि विकारोंका क्षय करनेवाले हे पुष्पदंत जिन ! आप जयशील हों । संसारके असह्य संतापमे तड़फड़ाते हुए जीवोंके लिये शीतल-बचनशैलीके धारक अथवा एकान्तवादोंके अज्ञानतापसे इधर उधर छटपटाने वाले जीवोंके लिये शीतल, सप्रभंगी (स्याद्वाद) के धारक हे शीतलनाथ भगवन् ! आप सदा जयवंत हों । सूर्यके समान कल्याण स्वरूप किरणोंके धारण करनेवाले (अर्थात् जिस प्रकार लोकमें प्रकाश करनेवाली सूर्यकी किरणें हैं उसी प्रकार संसारका कल्याण करनेवाली आपकी किरणें हैं) हे श्रेयांसनाथ स्वामिन ! आप सर्वदा जयवान हों । देव मनुष्य तिर्यचोंसे पूज्य इन्द्र, अहमिन्द्र, नरेन्द्र चक्रवर्ती, गणधर, मुनीश्वर तथा सिंहादिकोंके द्वारा पूजनीय हे वासुपूज्य जिनपते ! आप सर्वदा जयधारक हों ॥ ४ ॥

जय विमल विमलगुणसेढिठाण, जय जयहि अणंताणंतणाण ।

जय धम्म धम्मतिथयर संत, जय सांति सांति विद्वियायपत्त ॥

अर्थ—बुधादिक दोषोंमे रहित निर्मल गुणोंको पानेके लिये

श्रेणीके समान (अर्थात्—मरण क्षुधादिक मैलसे रहित निर्मल गुण आपके आश्रयसे मिलते हैं इसलिये उच्च मोक्ष महलमें रक्खे हुए केवलज्ञान आदि निर्मल गुणोंके प्राप्त करानेके लिये आप श्रेणी—जीनाके समान हो) हे विमलनाथ देव ! आप सदा जयशील रहो । त्रिलोकवर्ती जीव, पुद्गलादि ब्रह्म द्रव्योंके अनन्तानन्त भेदोंको तथा उनकी अनन्तानन्त पर्यायोंको एक साथ प्रत्यक्ष जाननेवाले अनन्तज्ञानधारी श्रीअनन्तनाथ जिनेश्वर ! आप बारम्बार जयशाली हों । नरक निगोद तथा तिर्यञ्चादि योनियोंमें दुःखमें व्याकुल संसारसागरके कायिक, मानसिक दुःखरूपी भवरोंके चक्रमें पड़े हुए तथा जन्म, मरणादिरूपी कुम्भीर, मगरादि दुष्ट जीवोंसे रोड़े हुए एवं पार करनेकेलिये भुजबल, नौका घाट आदि आश्रयोंसे रहित जीवोंका उद्धार करनेके लिये सम्यग्दर्शनादिरूपी अथवा क्षमा, शौच, दया आदि स्वरूप धर्मतीर्थके (धर्मरूपी घाट) करनेवाले श्रीधर्मनाथ तीर्थंकर सर्वदा जयवंत हों । आहारादिक संज्ञाओंके अथवा ज्ञानावरणादि कर्मोंके प्रचण्ड संतापको दूर करनेकेलिये छत्रके धारक अथवा दुष्कर्मोंके असह्य-संतापमें संतप्त जीवोंकी रक्षा करनेके लिये सदुपदेशरूपी छत्रको (छातेको) प्रदान करनेवाले श्रीशानिनाथ महाराज हमारे हृदय में जयशाली रहें ।

जय कुन्धु कुन्धुपहुश्रंगि सदय, जय अर अग्माहर विहियसमय ।

जय मल्लि मल्लि आदामगंध, जय मुणिसुध्वय सुध्वयशिवंध ॥

अर्थ—कुन्धु आदिक समस्त संसारवर्ती जीवों पर परमदयालु श्रीकुन्धुनाथ जिनवर जयकारको प्राप्त हों । तृप्तिकारक अपार अलौकिक निराकुल सुखको प्रदान करनेवाली मुक्ति सुन्दरीके वर, दरिद्र जीवोंकी दरिद्रता नष्ट करनेके लिये (अर्थात् मुक्ति प्राप्त करानेके लिये) अनुकूल शासनके बनानेवाले श्रीअरनाथ-

तीर्थकर ! आपकी सर्वदा जय हो । रोग शोकादिरूपी दुर्गधिके नष्ट करनेवाले तथा मालती पुष्पोंकी मालाके समान आनन्दकारिणी धार्मिक सुगन्धिके फैलानेवाले अथवा मालती पुष्पमालाके समान प्रमोदकारी यश अथवा सुगन्धिके धारक श्रीमल्लिनाथ भगवन् ! आपका सर्वदा जयकार जयकार हो । ऋषीश्वरोंके पवित्र चारित्र को उत्पन्न करनेवाले हे मुनिमुब्रतनाथ तीर्थेश्वर ! आप जयवन्त हों ।

जय णमि णमियाभरणियरसामि, जय णमि धम्मरहचक्रणेमि
जय पास पासञ्चिःणादि बाण, जय बड्ढमाण जसबड्ढमाण ॥

अर्थ—देव समूहके स्वामी—इन्द्रों द्वारा पूजित हे नमिनाथ जिनवर ! आप जयशाली रहो । धर्मरूपी रथको चलानेके लिये चक्रनेमि (पहियोंके धुरा) के समान हे नमिनाथ जिनेश्वर ! आप जयशील हों । संसार जालको काटनेके लिये खड्गके समान श्रीपारश्वनाथ जिनराज ! आप जयवन्त हों । एवं तीन लोकमें निर्मलकीर्तिसे बड़े हुए श्रीवर्द्धमान तीर्थेश्वर ! आपका सर्वदा जय हो ॥ ७ ॥

घत्ता ।

इह जाणिय णामहिं दुरियावरामहिं, परहिंवि णमिय सुरावलिहिं ।
अण्हणहिं अणाइहिं समियहुवाइहिं, पणविवि अरंहतावलिहिं ॥

अर्थ—इस प्रकार दुष्कर्मोंको नश करनेवाले, देवसमूह द्वारा परिपूजित, अनिधन (ऋविनशी) तथा अनादि (आदिदेह) परं कुवादियोंको शान्त करनेवाले, प्रसिद्ध नामधारक ऋषभ आदि अरहंतोंके समूहको नमस्कार करता हूं ।

ॐ ह्रीं श्रीवृषभादिवीरांतभ्यां महार्घं निर्दपामीति स्वाहा ।

अर्थ—श्रीऋषभनाथ जिनेश्वरसे लेकर श्रीवीरनाथ जिनवर पर्यंत चौबीस तीर्थकरोंको महार्घ अर्पण करता हूँ ।

(पूजनके तथा जयमालाके अन्तिम अर्घको ही प्रायः महार्घ कहते हैं ।)

अथ शास्त्र जयमाला ।

संपद्सुहकारण कम्मवियारण, भवसदुदात्तरणं ।

जिणवाणि णम्मसमि सत्तिपयासमि, सग्गमोक्खसंगमकरणं ॥

अर्थ—हे जिनेंद्रभगवानके मुखसे विनिर्गत सरस्वती देवी ! सुख सम्पत्तिकी दाता तुम्हीं हो, कर्मोंकी जड़ काटनेवाले सच्चे उपदेशको प्रदान करनेसे वर्तमान समयमें कर्मोंको भेदनेवाली तुम्हीं हो, तथा धर्मतीर्थके चलानेवाले—तीर्थकरोंके अभावमें असारसंसार सागरसे जीवोंको पार लगानेके लिये तुम्हीं नौका हो, एवं स्वर्ग तथा मोक्षका संगम करानेवाली तुम ही हो । इसलिये जिनवाणी ! तुमको नमस्कार करता हूँ तथा तुम्हारी सुखमयी पवित्र आराधनामें अपनी वाचनिक, शारीरिक तथा मानसिक शक्तिको प्रकट करता हूँ ॥ १ ॥

जिणंदमुहाओ विणिग्गयतार, गणिंदधिगुंफिय गंथपयार ।

तिलोयाहंढण्ण धम्महखाणि, सया पणमामि जिणिंदहवाणि ।

अर्थ—जिनेंद्रके मुखकमलसे जिसका जन्म हुआ और फिर गणधरदेवने जिसकी शास्त्र रूपमें (द्वादशांग रूपमें) रचना की ऐसी सत्य संयम, शौचादि धर्मरत्नोंको उत्पन्न करनेवाली खानि तथा तीन लोककी भूषणस्वरूप हे जिनवरवाणि ! आपको सदा नमस्कार करता हूँ ।

अवग्रह ईह अवाय जुएहि, सुधारणभेयहिं तिण्णिसएहिं ।
मई छत्तीस बहुप्पमुहाणि, सया पणमामि जिण्णिदहवाणि ॥

अर्थ—अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा तथा बहु बहुविधादिक भेदोंमें मतिज्ञानके ३३६ तीनसौ छत्तीस भेद हैं। उस मतिज्ञान-स्वरूप हे जिनवाणि ! तुमहो सदा प्रणाम है ॥ ३ ॥

सुदं पुण दोण्ण अण्णययार, सुवारहभेय जगत्तयसार ।
सुरिंदणरिंदसमुच्चिओ जाणि, सया पणमामि जिण्णिदहवाणि ॥

अर्थ—तीन लोकमें सर्वोत्तम श्रुतज्ञानके अंगवाह्य तथा अंग-प्रविष्ट ये दो भेद हैं इनमें से अंगप्रविष्टके बारह भेद हैं और अंगवाह्य अनेक प्रकारका है। ऐसी श्रुतज्ञानस्वरूप, इन्द्र तथा चक्रवर्तियोंमें पूजित हे जिनभारती ! तुमको मेरा सदा नमस्कार है ॥ ४ ॥

जिण्णिदग एदणरिदह रिद्धि, पयासइ पुण्ण पुराकिउलद्धि ।
णिउग्गु पहिल्लउ एह्हु वियाणि, सया पणमामि जिण्णिदहवाणि

अर्थ—तीर्थकर, गणधर तथा चक्रवर्त्यादिक महापुरुषोंकी ऋद्धिका तथा पूर्वभवमें तीर्थकरादिक होनेके लिये उपार्जन किये हुए पुण्यकर्मको प्रकट करनेवाले प्रथमानुयोगस्वरूप तुमको जानकर हे जिनेंद्रवाणि ! तुम्हारे लिये सदा नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥

जु लायअलोयह जुत्ति जणेइ, जु तिण्णि वि कालसरुव भणेइ ।
चउग्गइ लक्खण दुज्जउ जाणि, सया पणमामि जिण्णिदहवाणि

अर्थ—जो लोक तथा अलोककी रचना विस्तार आदिको प्रगट करता है तथा जो भूत, भविष्यत, वर्तमान कालोंका स्वरूप बतलाता है और मनुष्य, देव, नरक, तिर्यच गतियोंका चित्र

स्पष्ट दिखलाता है ऐसे दूसरे करणानुयोगस्वरूप हे बाणि ! तुमको मेरा नमस्कार है ॥ ६ ॥

जिण्णिदचरिच्चिविच्चि मुण्णेइ, सुसावइधम्मह जुत्ति जण्णेइ ।
णिउग्गु वि तिज्जउ इत्थु वियाणि, सया पणमामि जिण्णिदहवाणि

अर्थ—जिसके द्वारा मुनीश्वरोंका विचित्र चरित्र जाना जाता है तथा जो श्रावक धर्मका प्रगट करनेवाला है ऐसे तीसरे करणानुयोगस्वरूप हे जिनभारती ! तुमको मैं सदा प्रणाम करता हूँ ॥ ७ ॥

सुजीवअजीवहतच्चह चक्खु, सुपुण्णविपायविबंधविमुक्खु ।
चउत्थुणिउग्गुविभासिय जाणि, सया पणमामि जिण्णिदहवाणि

अर्थ—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, बंध, मोक्षार्थक तत्त्वोंको यथार्थ प्रगट करनेवाले चौथे द्रव्यानुयोगको प्रकाशित करनेवाली हे जिनवाणि ! तुमको मेरा नमस्कार है ॥ ८ ॥

तिभेयहिं ओहिविणाणविच्चित्तु, चउत्थु रिजाविउलं मइउत्तु ।
सुखाइय केवलणाण वियाणि, सया पणमामि जिण्णिदहवाणि

अर्थ—देशावधि, परमावधि तथा सर्वावधि ऐसे तीन भेद रूप और अनुगामी, अननुगामी आदि अनेक भेदस्वरूप अवधि-ज्ञान है तथा अजुमति और विपुलमति भेदरूप चौथा मनःपर्यय-ज्ञान है एवं ज्ञानावरण कर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेवाला केवलज्ञान है । इन तीन ज्ञान स्वरूप हे जिनवरवाणि ! तुमको सदा प्रणाम करता हूँ ॥ ९ ॥

जिण्णिदहणाणु जगत्तयभाणु, महातमणासिय सुक्खणिहाणु ।
पयच्चउ भत्तिभरेण वियाणि, सया पणमामि जिण्णिदहवाणि ॥

वै. अर्थ—जिनेद्र भगवानका ज्ञान महामे हांधकारको नाश करनेवाला तथा समस्त चराचर पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला तीन लोकमें सूर्यके समान है और अनंतसुखका निधान (भंडार) है। ऐसा निश्चय करके हे जिनवाणी ! तुमको मैं बड़े भक्तिके भारसे नत्र होकर सदा नमस्कार करता हूं ॥ १० ॥

पयाणि सुवारहकोडि सयेण, सुलक्खतिरासिय जुत्तिभरेण ।
सहसअट्ठावण पंच वियाणि, सया पणमामि जिण्हिदहवाणि

अर्थ—इस सकल द्वादशांगरूप श्रुतज्ञान के एकसौ बारह करोड़, तिरासी लाख, षट्ठावन हजार पांच (११२८३५८००५) पद हैं। ऐसी जिनेद्रभारतीको मैं सदा नमस्कार करता हूं।

विशेष—श्रुतज्ञानके अक्षर एक कम एकट्टी (१८४४६७४४०२-७३७०६५५१६१५ संख्या द्विरूप वर्गधारामें छठवें स्थान पर होती है) प्रमाण हैं। एक पदमें सोलहसौ चौतीस करोड़ तिरासी लाख सात हजार आठसौ अठासी १६३४८३०७८८८ अक्षर होते हैं। इन एक पदके अक्षरोंका श्रुतज्ञानके सम्पूर्ण अक्षरोंमें भाग देनेसे ११२८३५८००५ पूर्णपद बनते हैं। इसके सिवाय आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एकसौ पचहत्तर ८०१०८१७५ अक्षर शेष बचते हैं। सो इनमें सामायिकादि चौदह प्रकीर्णक हैं जिनको अंगवाह्य कहते हैं। इस प्रकार श्रुतज्ञानमें पदोंकी संख्या है ॥ ११ ॥

इक्कावण कोडिउ लक्ख अठेव, सहसचुलसीदिसया छक्केव ।
सटाइग्गीसह गंधपयाणि, सया पणमामि जिण्हिदह वाणि ॥

अर्थ—यदि इस सम्पूर्ण श्रुतज्ञानके बत्तीस अक्षरवाले अनु-ष्टुप श्लोक बनाये जाय तो इक्यावन करोड़ आठलाख चौरासी

हजार छहसौ अट्ठाईस अपुनरुक्त श्लोक होते हैं। ऐसी जिन-
भारतीको मैं सदा प्रणाम करता हूँ ॥ १२ ॥

घत्ता ।

इह जिणवरवाणि विमुद्धमई, जो भवियण णियमण धरई ।
सो सुरणरिंद संपइ लहई, केवलणाण वि उत्तरई ॥ १३ ॥

अर्थ—जो निर्मलबुद्धिधारी भव्यपुरुष ऐसी पवित्र जिन-
वाणीको अपने मनमें धारण करता है वह महापुरुष देवोंकी तथा
चक्रवर्ती नारायण आदिकी बड़ी विभूतिको प्राप्त करता है और
फिर केवलज्ञानको पाकर संसार महासागरके पार होजाताहै ॥१३॥

ॐ ह्रीं श्रींजिनमुखोद्भूतस्याद्वादनयगर्भितद्वादशांग-
श्रुतज्ञानाय महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्थ—अरहंतभगवानके मुख कमलसे उत्पन्न, स्याद्वादनयसे
युक्त द्वादशांगरूप श्रुतज्ञानके लिये महार्घ समर्पण करता हूँ ।

अथ गुरुजयमाला ।

भवियह भवतारण, सोलहकारण, अज्जवि तित्थयग्त्तणहं ।
तव करइ असंगइ दयधम्मंगइ, पालवि पंच महव्वयहं ॥ १ ॥

अर्थ—जो भव्य जीवोंको संसारसे पार लगानेवाने हैं, तीर्थ-
कर पद पानेके लिये सोलह कारण भावनाओंको भाते हैं, तपस्या
करते हैं, निःसंग (परिग्रह रहित) हैं, दयाधर्मके अंग स्वरूप
पांच महाव्रतोंको पालते हैं, ऐसे पूज्य गुरु हैं ॥ १ ॥

वंदामि महारिसि सीलवंत, पंचेदिदसंजम जोगजुत्त ।

जे भ्यारह अंगह अणुसरंति, जे चउदह पुव्वह मुण्णि थुणंति

अर्थ—जो १८००० प्रकारके शीलके धारक हैं तथा पांच इन्द्रियोंके दमनरूप संयमसे विभूषित हैं और ग्यारह अंगके पाठी हैं एवं चौदह पूर्वको जानकरके जो ऋषीश्वर जिनेन्द्र भगवान का प्रतिदिन स्वतन करते हैं, मैं उन महाऋषियोंको बंदना करता हूँ ॥ २ ॥

पादाणुसारवर कुड्बुद्धि, उत्पणु जाह आयासरिद्धि ।
जे पाणाहारी तोरणीय, जे रुक्खमूल आतावणीय ॥ ३ ॥

अर्थ—जिन मुनीश्वरोंको पादानुसारिणी, कोष्ठस्थधान्योपमा तथा आकाशगामिनी ऋद्धि उत्पन्न हुई है तथा जो ऋषिवर अपने पाणिपात्रमें (हाथोंमें) रक्खे हुए भोजनको लेते हैं और नदी किनारे, वृक्षके नीचे और धूपमें तपते हैं ॥ ३ ॥

जे मोणिधाय चन्दाहणीय, जे जत्थत्थवणि शिवासणीय ।
जे पंचमहव्वय धरणधोर, जे समिदिगुत्तिपालणदि वीर ॥४॥

अर्थ—जे मुनीश्वर मौन धारण करके चन्द्रमाके समान धनिक और दरिद्र गृहस्थके यहां भोजन करते हैं। अर्थात् चन्द्रमा जिसप्रकार प्रकाश करनेकेलिये दरिद्र तथा धनाढ्यकी अपेक्षासे अधिकता और अल्पता नहीं करता है इसी प्रकार मुनीश्वर भी झियालीस दोष रहित शुद्ध; गृहस्थके यहां वह चाहे धनाढ्य हो अथवा दरिद्र हो, आहार लेते हैं और जो जहां कहीं भी जीव-जन्तुरहित पवित्र वन प्रदेशमें निवास करते हैं तथा जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, निष्परिग्रह इन पांच महाव्रतोंको धारण करनेमें बड़े धीर हैं एवं ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण, प्रतिष्ठापन इन पांच समितियोंको तथा मनोगुप्ति वचनगुप्ति, कायगुप्ति इन तीन गुप्तियोंको पालनेमें बड़े वीर हैं ॥ ४ ॥

जे वड्डहिं देह विरत्तचित्त, जे गयगोसभयमाहचत्त ।

जे कुगडाह संवरु विगयलोह, जे दुग्गियविणामणकामकाह ॥

अर्थ—जो शरीरको आत्माका कारावाम (जेलखाना) सम-
भकर उसमें विरक्त रहते हैं तथा जो राग, द्वेष, भय मोहसे रहित
है । जो नरकादि दुर्गतियोंका संवर करते हैं और लोभसे सदा
अलग रहते हैं एवं जो योगीश्वर पापमय काम क्रोधादिकको नष्ट
करनेवाले हैं ॥ ५ ॥

जे जल्लमल्लतणालत्तगत्त, आरम्भपग्गिग्गह जे विरत्त ।

जे तिण्णकाल बाहर गमंति, छट्ठम दसमउ तउ चरंति ॥

अर्थ—पट्कायिक जीवोंके परमरक्षक होनेके कारण तथा
विकारकारी इन्द्रियविलाससे बचनेके लिये स्नान न करनेके
कारण जिन मुनियोंका शरीर; कर्ण, नेत्र आदि अंगोंके मैलसे
तथा पसीना, तृण आदिसे साहृत है और आरम्भसे तथा परिग्रह
में जो सर्वथा विरक्त हैं, जो इन्द्रियसंयमको दृढ़ रखनेकेलिये
तथा निर्विघ्न आत्मध्यान करनेके लिये सर्वदा ग्राम नगरादिकसे
बाहर ही विहार करते हैं, तथा जो मुनीश्वर बेला, तेला, चौला
आदिक दुद्धर तपोंको तपते हैं ॥ ६ ॥

जे इक्कगास दुइगाम लिति, जे शीरसभोयण रइ करंति ।

ते मुणिवरे दंदउं ठियमसाण, जे कम्मडहइवरसुक्कभाण ॥

अर्थ—जे यतीश्वर कभी आहारका एक प्रास ही लेते हैं, कभी
दो कवल ही ग्रहण करते हैं अर्थात्—अपने आहारको एक प्रास-
पर्यंत करके अवमौदर्य तपको पूर्णतया करते हैं जो योगिराज
रसना इन्द्रियको बशमें रखनेके लिये सदा मधुर आदि स्वादिष्ट
रसोंसे रहित नीरस भोजन रुचिसे करते हैं तथा जो तपस्वी

रमशानभूमिमें धर्मध्यान तथा शुक्लध्यान द्वारा कर्मोंको नष्ट करते हैं उन मुनिवरोंके लिये मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ७ ॥

बारहविह संजम जे धरंति, जे चारिउ विकहा परिहरंति ।

बाबीस परीसह जे सहंति, संसारमहणणउ ते तरंति ॥ ८ ॥

अर्थ—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति तथा त्रस इन छह कायके जीवोंकी रक्षा तथा स्पर्शन, रसना, घ्राण, नेत्र, कर्ण तथा मन इन छह इन्द्रियोंको वशमें करना इस तरह बारह प्रकारके संयमको जो यतिराज धारण करते हैं तथा जो मुनिराज स्त्रीकथा, भोजनकथा, देशकथा तथा राजकथा इन चारों विकथाओंको छोड़ते हैं और केवल आत्मध्यानमें ही मनको लगाकर जो ऋषिराज जुधा तृषा आदि बार्हस परिषदोंको सहन करते हैं वे मुनिवर संसार महासागरको पार कर जाते हैं ॥ ८ ॥

जे धम्मबुद्धि महियलि थुणंति, जे काउस्सग्गो शिय गभंति ।

जे सिद्धिविलासणि अहिलसंति, जे पक्खमास आहार लंति ॥

अर्थ—ममस्त मनुष्य देवादिक जिनकी धर्मबुद्धिका सर्वदा स्तवन करते हैं, जो मुनीन्द्र कायोत्सर्ग द्वारा रात्रिको व्यतीत करते हैं तथा जो सर्वदा मुक्तिरूपी मुन्दरीकी ही अभिलाषा रखते हैं और तप बढ़ानेके लिये तथा शरीरको कृश करनेके लिये पक्षोपवास, मासोपवास आदि उपवासोंको करते हैं ॥ ९ ॥

गोदूहण जे बीरासणीय, जे धणुहसेज वज्जासणीय ।

जे तत्रवलेण आयास जंति, जे गिरिगुहकंदर विवर थंति ॥

अर्थ—जो ऋषिवर गोदोहन आसन, बीरासन, धनुषासन, शय्यासन तथा वज्रासन धारण करते हैं, तपके प्रभावसे जो

मुनिराज आकाशमें निराधार होते हुए गमन करते हैं तथा पर्वतों की गुफा कंदरा आदिमें ठहरते हैं ॥ १० ॥

जे सत्तुमित्त समभावचित्त, ते मुनिवर वंदउ दिठचरित्त ।

चउवीसह गंथह जे विरित्त, ते मुनिवर वंदउ जगपवित्त ॥११॥

अर्थ—जो यतीश्वर नाना उपसर्ग करनेवाले शत्रुमें तथा वैयावृत्य करनेवाले भव्य पुरुषमें समान भाव रखते हैं, उन चारित्रधारी मुनीश्वरोंके लिये मैं प्रणाम करता हूँ। जो ऋषीश्वर चौदह अन्तरंग तथा दश बहिरंग परिग्रहोंसे विरक्त हैं उन संसार को पवित्र करनेवाले अथवा संसारमें परम पवित्र मुनीश्वरोंके लिये प्रणाम करता हूँ ॥ ११ ॥

जे सृज्भाणिज्भा एकचित्त, वंदामि महारिसि मोखपत्त ।

रयणत्तरंजिय सुद्धभाव, ते मुणिवर वंदउं ठिदिसठाव ॥

अर्थ—जो परम ऋषीश्वर धर्म्य, शुक्लरूप शुभध्यानमें एकाग्रचित्त हैं अर्थात् जिनका चित्त केवल धर्म्यध्यान अथवा शुक्लध्यानमें ही है, उन मोक्षके पात्र ऋषीश्वरोंको नमस्कार करता हूँ। जिन मुनीश्वरोंके पवित्र भाव रत्नत्रयसे सुशोभित हैं उन मुनिवरों की मैं सर्वदा वंदना करता हूँ ॥ १२ ॥

घत्ता ।

जे तपसूरा, संजमधीरा, सिद्धवधु अणुराईया ।

रयणत्तरंजिय, कम्मह गंजिय, ते ऋषिवर मइ भाईया ॥

अर्थ—जो ऋषिनाथ दुर्द्धर तपश्चरण करनेमें शूरवीर हैं, दुर्लभ संयमको पालनेमें धीरवीर हैं, सिद्धरूपी स्त्रीमें अनुराग

करनेवाले हैं; रत्नत्रयसे विभूषित हैं तथा कर्मोंका विनाश करने वाले हैं उन मुनीश्वरोंका मैं सदा ध्यान करता हूँ ॥ १३ ॥

ॐ हीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रादिगुणविराजमानाचार्या-
पाध्यायसर्वसाधुभ्यो महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र आदि पावित्र गुणोंसे विभूषित आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधुके लिये महार्घ समर्पण करता हूँ ।

विशेष—‘सर्व आचार्य तथा सर्व उपाध्याय’ न कहकर ‘सर्व’ पद केवल साधुके साथ ही क्यों लगाया गया है ? इस शंकाका समाधान बट्टकेरस्वामीविरचित मूलाचारमें यों किया है—

णिन्वाणसाधए योगे सदा युञ्जंति साधवः ।

समा सव्वेसु भूदेसु तम्हा ते सव्वसाधवः ॥ १ ॥

क्योंकि मोक्षके साधक योगमें सदा रहते हैं इसलिये साधु कहलाते हैं (मुक्ति साध्नोतीति साधुः) तथा समस्त छोटे, बड़े, शत्रु, मित्र आदि सर्व जीवोंमें समान परिणाम रखते हैं इसलिये ‘सर्व’ पदसे विभूषित हैं अर्थान् ‘सर्वसाधु’ कहलाते हैं (सर्व-जीवानां हितं साध्नोतीति सर्वसाधुः) इसके सिवाय प्रश्नके समाधानमें एक यह भी हेतु है कि साधुओंके पुलाक, वकुशादि तथा गण, कुल, तपस्वी, आदि अनेक भेद हैं । उन सबको प्रहण करनेके लिये साधुके साथ ‘सर्व’ पद लगाया गया है ।

इति देवशास्त्रगुरु पूजा समाप्त ।

विद्यमान तीर्थङ्कर पूजा ।



श्रीमज्जंबूधानकिपुष्करार्द्धद्वीपेषूच्यैर्ये विदेहाः शराः स्युः ।

वेदा वेदा विद्यमाना जिनेन्द्राः प्रत्येकं तांस्तेषु नित्यं यजामि ॥

अर्थ—जम्बूद्वीपमें १, धानकीखण्डमें २ और पुष्करार्द्ध द्वीपमें २, ऐसे पांच विदेह हैं, प्रत्येक विदेहमें चार २ तीर्थकर हैं उन प्रत्येक तीर्थकरकी मैं नित्य पूजा करता हूं ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरा अत्र अवतरत अवतरत सर्वौषट् ।

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरा अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः ।

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरा अत्र मम सन्निहिता भवत

भवत वषट्

अष्टकं ।

सुरनदीजलनिर्मलधारया, प्रवरकुंकुमचन्द्रसुसारया ।

सकलमङ्गलवाञ्छितदायकान्, परमविंशतितीर्थपतीन् यजे ॥२॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्यो जन्ममृत्युविनाश-
नाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्थ—मैं केशर और कपूरसं सुगन्धित गंगाके जलकी निर्मल धारासे सम्पूर्ण मंगल और इच्छित पदार्थको देनेवाले महान बीस तीर्थकरोंकी पूजा करता हूं ॥ २ ॥

मलयचन्दनकेशरवारिणा निखिलजाड्यरुजातपहारिणा ।
सकलमंगलवाञ्छितदायकान्, परमविंशततीर्थपतीन् यजे ॥

ॐ हा विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्यः संसारतापविनाश-
नाय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्थ—मैं संपूणे जड़तारोग और आत्तापको दूर करनेवाले
मलयाचलके चन्दन और केशरके जलसे सभी मंगल और इच्छित
पदार्थके दाता महान बीस तीर्थकरोंकी पूजा करता हूँ ॥ ३ ॥

सरलतंदुलकैरतिनिर्मलैः प्रवरमौक्तिकपुञ्जबहृज्ज्वलैः ।
सकलमंगलवाञ्छितदायकान् परमविंशतितीर्थपतीन् यजे ॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्योऽक्षयपदप्राप्तये अक्ष-
तान् निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्थ—उत्तम मोतियोंके समान उज्वल तथा सुदीर्घ चावलोंके
द्वारा सभी मंगल और इच्छित पदार्थके दाता महान् बीस तीर्थ-
करोंकी पूजा करता हूँ ॥ ४ ॥

बकुलकेतकिचंपकपुष्पकैः परिमलागतपट्पदवृन्दकैः ।
सकलमंगलवाञ्छितदायकान् परमविंशतितीर्थपतीन् यजे ॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्यः कामवाणविध्वंस-
नाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्थ—जिन पर सुगंधसे भ्रमर गुञ्जार रहे हैं ऐसे मौलश्री,
केतकी, और चम्पाके फूलोंसे सभी मंगल और अभीष्टके दाता
महान बीस तीर्थकरोंकी मैं पूजा करता हूँ ॥ ५ ॥

प्रवरमादक खज्जकूपकैः वरसुमंडकसूपशुभौदनैः ।
सकलमंगलवाञ्छितदायकान् परमविंशतितीर्थपतीन् यजे ॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरभ्यः क्षुधारोगविनाश-
नाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्थ—श्रेष्ठ लड्डू, खाज, पूये, पूरी, दाल, भात आदिसे
सुख और सिद्धिके दाता महान बीस तीर्थकरोंकी पूजा करता
हूँ ॥ ६ ॥

अतिसुदीप्तिमयैर्वरदीपकैर्विमलकांचनभाजनसंस्थितैः ।
सकलमंगलवाञ्छितदायकान्, परमविंशतितीर्थपतीन् यजे ॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्यो मोहांधकारविनाश-
नाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्थ—स्वच्छ सोनेके पात्रमें रक्त्वे हुये अत्यन्त प्रकाशमान
सुन्दर दीपकोंके द्वारा सभी सुख और सिद्धिके दाता महान बीस
तीर्थकरों की मैं पूजा करता हूँ ॥ ७ ॥

अगरुचन्दनमुख्यसुधूपकैः प्रचुरधूपततामलगंधकैः ।
सकलमंगलवाञ्छितदायकान् परमविंशतितीर्थपतीन् यजे ॥८॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्यः कर्माष्टदहनाय
धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्थ—जिनके धुयेसे सब जगत में निर्मल सुगंधि फैल रही
हैं ऐसी अगरु, चंदन आदिकी स्वास धूपोंके द्वारा सभी सुख और
सिद्धियोंके दाता महान बीस तीर्थकरोंकी मैं पूजा करता हूँ ॥८॥

प्रवरपूगलवंगसदाभ्रकैः प्रचुरदाडिममोचसुचोचकैः ।

सकलमंगलवाञ्छितदाय हान् परमविंशतितीर्थपतीन् यजे ॥६॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं
निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्थ—मैं उत्तम सुपारी, लौंग, आम, बहुतसे दाडिम, केला
और नारियलोंके द्वारा सुख सिद्धिके दाता महान बीस तीर्थकरों
की पूजा करता हूँ ॥ ६ ॥

जलसुगन्धप्रसूनसुतन्दुलै, चरुप्रदीपकधूपफलादिभिः ।

सकलमंगलवाञ्छितदायकान् परमविंशतितीर्थपतीन् यजे ॥१०॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्योऽनर्घपदप्राप्तये अर्घ्यं
निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्थ— मैं जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप धूप और
फल आदिके द्वारा सुखसिद्धिके दाता महान बीस तीर्थकरोंकी
पूजा करता हूँ ॥ १० ॥

जयमाला ।

श्रीबीसजिणोसरविहरमाण, पणमामिपंचसयधणुपमाण ।

जे भवियकमलपडिचोहयंत, विहरंति विदेहे तमहरंत ॥ १ ॥

सीमंधर प्रणवों जिणवरिंद, जुगमंधर वंदों दुहदलिंद ।

हों वंदों बाहुसुबाहुसामि, जंबूविदेह जे सिद्धिगामि ॥ २ ॥

संजाइसयंपहुजिण जरंति, ऋषभानन धम्मपयासयंति ।
 तइ नंतवीर सूरप्पहोइ, वंदों विसालवज्जरधरोइ ॥ ३ ॥
 वंदानन अट्टमदीववीर, हों पनऊं पत्त जे भवहतीर ।
 तहं पुहकरार्थ जिणचन्दबाहु, भुयंगमईसरजगइनाहु ॥ ४ ॥
 शेमिप्पह प्रणवों वीरसेण, महाभद् भवंबुहितरिउ जेण ।
 में प्रणवों देवजससुभाव, जिण अजियवीर जियमुक्कपाव ॥५॥
 घत्ता ।

ए बीसजिणोसर शमिय सुरेसर, विहरमाण मइ संशु-
 शियं । जे भणहिं भणावहिं, अरु मन भावहिं, ते णर पावहिं
 परमपदं ॥ ६ ॥

ॐ हीं विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्यो महाधै निर्घपा-
 मीति स्वाहा ।

अर्थ—पांचसौ धनुष ऊँचा जिनका शरीर है जो विदेहक्षेत्रमें
 भव्यरूपी कमलोंको विकसित करते हुए अज्ञानान्धकारको दूर कर
 रहे हैं ऐसे बीस विहरमान तीर्थकरोंको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥

मैं सीमन्धर स्वामीको नमस्कार करता हूँ, दुःखको दूर करने-
 वाले युष्मन्धर स्वामीको नमस्कार करता हूँ । बाहु और सुबाहु
 स्वामीको नमस्कार करता हूँ । ये सब जम्बूद्वीपके विदेहक्षेत्रमें
 मोक्ष जाने वाले हैं ॥ २ ॥

संजात और स्वयंप्रभ जिनेन्द्र जयवन्त रहें । धर्मका प्रकाश
 करनेवाले ऋषभानन, अनन्तवीर्य, सूरप्रभ विशालकीर्ति वज्रधर
 तथा आठवें चन्द्राननको मैं प्रणाम करता हूँ । जो धातकी म्वडके

विदेहक्षेत्रसे मोक्षगामी हैं। पुष्करार्द्ध द्वीपके विदेहसे मोक्ष जाने वाले भी चन्द्रबाहु भुजंगम और जगतके नाथ ईश्वर जिनेन्द्र नेमि-प्रभ तथा संसार समुद्रसे तारनेवाले श्रीमहाभद्र जिनेन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ, मैं देवयश तथा पापसे मुक्त श्रीअजितवीर्य जिनेन्द्रके चरणोंको प्रणाम करता हूँ ॥ ३, ४, ५ ॥

इसप्रकार मुर असुरोंसे नमस्कृत इन विहरमान बीस तीर्थ-करोंकी मैंने स्तुति की है। इस जयमालाको जो पढ़ते पढ़ाते हैं अथवा मनमें स्मरण करते हैं वे मनुष्य परम पद मोक्ष प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥

विद्यमान बीस तीर्थकरोंका अर्घ ।

उदकचन्दनतंदुलपुष्पकैश्वरुसुदीपसुधूपफलार्घकैः ।

धवलमंगलगानरवाकुले जिनगृहे जिनराजमहं यजे ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं सीमंधरयुग्मंधरबाहुसुबाहुसंजातस्वयंप्रभञ्जपमानन-अनन्तवीर्यसूरप्रभविशालकीर्तिवज्रधरचन्द्राननभद्रबाहुभुजंगमई-श्वरनेमिप्रभवीरसेनमहाभद्रदेवयशाजितवीर्येति विशतिविद्यमान-तीर्थकरेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

अकृत्रिम चैत्यालयोंके अर्घ ।

कृत्याकृत्रिमचारुचैत्यनिलयान् नित्यं त्रिलोकींगतान्,

वंदे भावनव्यंतरद्युतिवरस्वर्गामरावासगान् ।

सद्गंधाक्षतपुष्पदामचरुकैः सद्दीपधूपैः फलैः,

द्रव्यैर्नीरमुखैर्यजामि सततं दुष्कर्मणां शांतये ॥ १ ॥

अर्थ—मैं दुष्ट कर्मोंको शांत करनेके लिये भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी तथा कल्पवासी देवोंके भवनवर्ती, विमानवर्ती अकृत्रिम चैत्यालयोंको एवं तीन लोकवर्ती कृत्रिम तथा आकृत्रिम मनोहर चैत्यालयोंको नमस्कार करता हूं और जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल द्वारा सदा पूजन करता हूं ॥ १ ॥

ॐ हां कृत्रिमाकृत्रिमचैत्यालयसंबंधिजेनविम्बेभ्यांऽर्घं
निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्थ—मैं कृत्रिम—मनुष्यद्वारा बने हुए तथा अकृत्रिम (नहीं बनाये हुए)—अनादि कालीन चैत्यालयवर्ती जिनप्रतिमाओंके लिये अर्घ्य समर्पण करता हूं ।

वर्षेषु वर्षान्तरपर्वतेषु नन्दीश्वरे यानि च मन्दरेषु ।

यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाण्ये दंदे जिनपुंगवानां ॥

अर्थ—जंबूद्वीपवर्ती भरत, हैमवत, विदेहादिक क्षेत्रोंमें, तथा धातकी खण्ड और पुष्कराद्वद्वीपवर्ती क्षेत्रोंमें तथा सर्व कुलाचलों में और सुदर्शनादिक पांचों मन्दराचलोंमें इनके सिवाय मध्यलोकमें जितने भी जिनेन्द्रदेवके अकृत्रिम चैत्यालय हैं मैं उन सभीको नमस्कार करता हूं ॥ २ ॥

अवनितलगतानां कृत्रिमाकृत्रिमाणां,

वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानां ।

इह मनुजकृतानां देवराजार्चितानां,

जिनवरनिलयानां भावतोऽहं स्मरामि ॥ ३ ॥

अर्थ—पृथ्वीतलमें (पातालमें) व्यंतर तथा भवनवासी-देवोंके दिव्यविमानोंमें (विमान—भवन) जो कृत्रिम तथा अकृ-

त्रिम चैत्यालय हैं और इस लोकमें इन्द्रोंसे पूजित मनुष्योंके बनाये हुये जिनेन्द्र चैत्यालयोंका शुद्धभावोंसे स्मरण करता हूँ।

विशेष—रत्नप्रभा पृथ्वी एकलाख अस्सी हजार योजन मोटी है उसके तीन भाग हैं। १ खरभाग, २ पंकभाग, ३ अश्वहुल-भाग। खरभाग सोलह हजार योजन मोटा है। पंकभागकी मोटाई चौरासी हजार योजनकी है तथा अश्वहुलभाग अस्सी हजार योजन मोटा है। उनसे पहले खरभागमें एक हजार योजन नीचे तथा एक हजार योजन ऊपरी भागको छोड़कर बीचकी चौदह हजार योजनकी मोटाईमें नागकुमार, विद्युत्कुमार, सुपर्णकुसार, अग्निकुमार, वातकुमार, स्तनितकुमार, उदधिबुमार, द्वीपकुमार और दिक्कुमार ये नौ प्रकारके भवनवासी देव तथा किरर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व, दक्ष, भूा, पिराच ये सात प्रकारके व्यंतर देव अपने २ भवनोंमें रहते हैं। दूसरे पंकभागमें अमुर-कुमार जातिके भवनवासी तथा राक्षस जातिके व्यंतरदेव अपने २ भवनोंमें रहते हैं। तीसरे अश्वहुल भागमें नारकी रहते हैं। इस प्रकार पातालमें व्यंतरोंका तथा भवनवासियोंका निवास है। उनके भवनोंमें ही जिनचैत्यालय हैं।

जम्बूधातक्रिपुष्करार्द्धवसुधाक्षेत्रत्रये ये भवा—

श्चन्द्राम्भोजशिखंडिकंठकनकः। वृद्धनाभा जिनाः ।

सम्यग्ज्ञानचरित्रलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मन्धनाः,

भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः ॥४॥

अर्थ—जंबूद्वीप, धातकीखंड तथा पुष्करार्द्ध द्वीपवर्ती भरत-क्षेत्रोंमें विदेहक्षेत्रोंमें तथा ऐरावतक्षेत्रोंमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्रके धारक तथा आठ कर्मरूपी ईधनको जलाने

वाले निर्वाण सागरादिक भूतकालीन, ऋषभादिक वर्तमानकालीन तथा भविष्यत्कालवर्ती महापद्मादिक तीर्थकरोंके लिये मैं नमस्कार करता हूँ। जिनमेंसे किन्हीं तीर्थकरोंके शरीरका वर्ण चंद्रमाके समान श्वेत है। किन्हींका शरीर रक्त कपलके समान लाल वर्णवाला है। कोई तीर्थकर मोरके कंठके समान वर्णवाले हैं तथा कुछ तीर्थकर वर्षाकालीन बादलोंके समान नील कानिवाले शरीरके धारक हैं।

विशेष—जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्र, ऐरावतक्षेत्र तथा देवकुरु और उत्तरकुरुके सिवाय शेष विदेहक्षेत्रमें कर्मभूमि हैं और शेष क्षेत्रोंमें भोगभूमि हैं। जम्बूद्वीपके इन क्षेत्रोंकी दूरी २ (संख्यामें) रचना धातकी खंड तथा पुष्करार्द्धमें है। जम्बूद्वीपकी भरतादिक तीन कर्मभूमियोंमें तथा धातकीखंडकी छह तथैव पुष्करार्द्धकी छह कर्मभूमियोंमें चौथे कालके होने पर चौबीस तीर्थकर उत्पन्न होकर धर्मका उद्धार करके मोक्ष जाते हैं (विदेह क्षेत्रमें चौथा काल सदा रहता है तथा भरत, ऐरावतमें छह काल क्रमसे हुआ करते हैं) ॥ ४ ॥

श्रीमन्मेरौ कुलाद्रौ रजतगिरिवरे शाल्मलौ जम्बुवृक्षे,

वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकररुचिके कुडले मानुषांके ।

इष्वाकारेऽजनाद्रौ दधिमुखशिखरे व्यंतरे स्वर्गलोके,

ज्योतिर्लोकेऽभिधंदे भुवनमहितले यानि चैत्यालयानि ॥

अर्थ—अनेक रत्न, सुवर्ण, वनादिककी शोभासे शोभित सुदर्शनादिक पांच मेरुपर्वतों पर, हैमवतादि क्षेत्रवर्ती कुलपर्वतों पर, भरत ऐरावत क्षेत्रवर्ती रजताचलों पर, जम्बूवृक्षवर्ती, शाल्मलीवृक्षवर्ती, विदेहक्षेत्रस्थ वक्षारपर्वतों पर, चैत्यवृक्षोंमें नंदीश्वर

द्वीपके रतिकर, अंजन, दधिमुख नामक पर्वतों पर, रुचिकवरद्वीप में, कुण्डलवरद्वीपमें, मानुषोत्तरपर्वत पर, धातकीग्वंड तथा पुष्करा-
द्धद्वीपवर्ती इष्वाकारपर्वतो पर तथा व्यंतरोके यहा और स्वर्गोंमें
अर्थात् कल्प तथा कल्पातीत स्वर्गवासीदेवोंके विमानोंमें एवं
ज्योतिषी देवोंके विमानोंमें तथा पाताल लोकमें जो जिनालय है
उनके लिये मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥

द्वौ कुन्देदुतुषारहारधवलौ द्वाविद्रनीलप्रभौ,

द्वौ बंधकसमप्रभौ जिनवृषौ द्वौ च प्रियंगुप्रभौ ।

शेषाः षोडश जन्ममृत्युरहिताः संतप्तहेमप्रभाः,

ते संज्ञानदिवाकराः सुरनुताः सिद्धिप्रयच्छंतु नः ॥६॥

अर्थ—भरतक्षेत्रमें वर्तमानकालके चौबीस तीर्थंकर हैं । उनमें
से चन्द्रप्रभ तथा पुष्पदन्त ये दो तीर्थंकर कुन्दपुष्पके समान
अथवा चन्द्रप्रभाके समान या बर्फके तुल्य अथवा हीराके हारके
समान श्वेतशरीरवाले हैं और मुनिसुव्रत तथा नेमिनाथ ये जिन-
वर नीलमणिके समान नीलकातिवाले हैं और पद्मप्रभ तथा
वामुपूज्य इन दो तीर्थंकरोंके शरीरका रंग बंधुकपुष्प (सजनाका
फल) के समान लाल है । एवं सुपार्श्वनाथ तथा पार्श्वनाथ
तीर्थंकरोंका शरीर प्रियंगुमणि (पन्ना) के समान हरितवर्ण है
इनके सिवाय सोलह तीर्थंकरोंके शरीरकी कांति तपे हुए सुवर्णके
समान है । ऐसे जन्म, मरणमें रहित, तथा ज्ञानके सूर्य और
देवोंसे बंदित समस्त (चौबीस) तीर्थंकर हमको मुक्ति प्रदान
करें ।

ॐ ह्रीं त्रिलोक संबंधि—अकृत्रिमचैत्यालयेभ्योऽर्घं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

अर्थ—मैं तीनलोकवर्ती अकृत्रिम चैत्यालयोंको अर्घ समर्पण करता हूँ ।

इच्छामि भंते—चेइयभक्ति काओसग्गो कओ तस्सालो-
चेओ । अहलोय तिरियलोय उड्ढलोयम्मि किट्टिमाकिट्टि-
माणि जाणि जिणचेयाणि ताणि सव्वाणि, तीसुवि लाएसु
भवणवासियवाणवितरजोयमियकप्पवासयत्ति चउविहा देवा
सपरिवारा दिव्वेण गंधेण दिव्वेण पुप्फेण दिव्वेण धुव्वेण
दिव्वेण चुण्णेण दिव्वेण वासेण दिव्वेण ह्हाणेण शिच्चकालं
अच्छंति पुज्जंति वंदंति णमस्सति । अहमवि इह संतो
तत्थसंताइ शिच्चकालं अच्छेमि पुज्जेमि वंदामि णमस्सामि
दुक्खक्खओ कम्मक्खओ बाहिलाहो सुगइगमणं समाहि-
मरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्झं ।

(इत्याशीर्वादः । परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्)

हे परमात्मन् ! मैं अब चैत्यभक्तिका कायोत्सर्ग करना चाहता हूँ । तथा उसकी आलोचना (वर्तमान दोषोंका निराकरण—प्रकट) करनेके लिये तत्पर हूँ । अधोलोकसम्बन्धी मध्यलोकसम्बन्धी तथा ऊर्ध्वलोकसम्बन्धी इसप्रकार त्रिलोकवर्ती कृत्रिम तथा अकृत्रिम जितने जिनालय हैं उनको भवनवासी, वनमें उत्पन्न व्यंतर, ज्योतिषी तथा कल्पवासी देव—इसप्रकार चारों प्रकारके देव अपने २ परिवारसहित दिव्य (स्वर्गमें होनेवाली—कल्पवृक्षसे प्राप्त) गन्धसे, दिव्य पुष्पोंसे, दिव्य धूपसे, पंचप्रकारके दिव्य रत्नोंके चूणसे, दिव्य सुगन्धवासना द्वारा तथा दिव्य स्नानसे सर्वदा सेवन करते हैं, पूजते हैं, वंदना करते हैं, तथा नमस्कार

करते हैं। मैं भी यहां पर (इस स्थानपर) उनकी नित्य ही अर्चना करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ तथा नमस्कार करता हूँ, मेरे दुःखका क्षय हो, बर्म नष्ट हों, मुझे ज्ञान-अथवा रत्नत्रय मिलें, शुभगतिमें मेरा गमन हो, मुझे समाधिमरण (शुद्ध शान्त भावों द्वारा मरण) तथा अद्वैतके गुणरूपी संपत्ति मिले ।

(इसप्रकार आशीवाद है। यहां पुष्प क्षेपण करना चाहिये)

अथ पौर्वाहिक—माध्याह्निक-आपराह्निकदेववन्दनायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भवपूजावन्दनास्तवसमेतं श्रोपंचमहागुरुभक्ति.कायात्सर्गं कराम्यहम् ।

अर्थ—सकल कर्मोंका क्षय करनेकेलिये मैं प्रातःकालीन, मध्याह्नकालीन तथा सांयकालीन देव वंदनामें पूर्व-आचार्योंके अनुसार भावपूजा, वंदना तथा स्तवनसे संयुक्त श्रीपंचपरमोष्ठियोंकी भक्ति तथा कायात्सर्ग (परिमाणोंकी शुद्धताके लिये शरीरको एक आसन, निश्चलता से खड़ाना) करता हूँ ।

शमो अरहंताणं शमो सिद्धाणं शमो आइरीयाणं ।

शमो उवज्झायाणं शमो लोए सव्वसाहूणं ।

तावकायं पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि ।

अर्थ—मैं जितने समय तक पंच नमस्कार मन्त्रका जाप्य करता हूँ तब तक शरीरसे ममत्व भाव (प्रीति), पापकर्म तथा दुष्ट आचरणका त्याग करता हूँ ।

विशेष—प्रत्येक जाप्यमन्त्रका जाप कमसे कम नौ बार बतलाया है, अधिकसे अधिक १०८ बार कहा है। जाप इतनेमें ही पूर्ण हो जाता है। जाप कमसे कम नौ बार ही क्यों कहा ? और

अधिकसे अधिक एकसौ आठ वार ही क्यों कहा ? इसका कारण यह है कि मन्त्र जपते समय पुरुषको अपना चित्त एकाग्र रखनेके लिये अपने हृदयमें एक कमलकी कल्पना करना चाहिये उस कमलके बीचमें कर्णिका और आठ दिशाओंमें फैली हुई आठ पांगुरीं होनी चाहिये । उस जापमन्त्रको उस कमलकी कर्णिका तथा पांगुरियों पर लिखा हुआ कल्पित करना चाहिये । फिर प्रथम उस कमलकी कर्णिका पर उस मन्त्रका जाप करके पीछे उन आठ पांगुरियों पर उस मन्त्रको जपना चाहिये इस प्रकार मन्त्रका जाप कमसे कम नौ वार होगा । शक्त्यनुसार उस कर्णिका तथा कमलपत्रों पर तीन, पांच, सात आदि वार मन्त्र जपना चाहिये अधिकसे अधिक बारह वार उस कमल पर उस मन्त्रका आराधन करना चाहिये । इस प्रकार अधिकसे अधिक एक पूरे जापमें १०८ वार ही मन्त्रका उच्चारण हो सकता है । इसका भी यह कारण है कि आरम्भ परिग्रहसे अथवा अन्य प्रकारसे पापकार्य १०८ दरवाजोंके द्वारा होता है उन प्रत्येकके निवारणार्थ जाप भी १०८ ही वार होना चाहिये । वे १०८ द्वार इसप्रकार हैं—संरंभ, समारंभ, आरम्भ ये तीन क्रियाएं प्रत्येक योगके द्वारा होती हैं इस कारण मन, वचन, कायरूप तीन योगोंको उनसे गुणा करने पर नौ भेद होते हैं और ये नव प्रकारकी क्रियाएं कृत, कारित, अनुमोदनाके ढंगसे हुआ करती है इसलिये प्रत्येक भेदके तीन प्रकार होनेसे सत्तावीस भेद हुए फिर इन भेदोंमेंसे प्रत्येक प्रकार का भेद क्रोध, भान, माया, लोभ इन चार कपायोंके द्वारा ही होता है इसलिये उन सत्तावीस भेदोंको चारसे गुणा कर देनेपर (२७+४=१०८) १०८ भेद हो जाते हैं ।

पंचनमस्कार मंत्रको तीन श्वासोच्छ्वासोंमें उच्चारण करना चाहिये । प्रथम श्वासमें 'णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं' ये दो

पद तथा द्वितीय श्वासमें 'णमो आइरीयाणं णमो उवञ्जायाणं' ये दो पद तथा तीसरे श्वासमें 'णमो लोप सव्वसाहूणं' इतना उच्चारण करना चाहिये इस प्रकार इस मंत्रका नौ बार उच्चारण करनेमें सत्ताईस श्वासोच्छ्वास लगते हैं।

इति अकृत्रिमचैत्यालय पूजाका अर्ध समाप्त ।

अथ सिद्धपूजा (द्रव्याष्टक)

CIGU

ऊर्ध्वाधां रयुतं सविंदु सपरं ब्रह्मस्वरावेष्टितं

वर्गापूरितदिग्गताम्बुजदलं तत्संधितत्वान्वितं ।

अंतःपत्रतटेष्वाहृतयुतं हींकारसंवेष्टितं

देवं ध्यायति यः स मुक्तिसुभगो वैरीभकंठीरवः ॥

अर्थ—आठ पांगुरीवाले कमलकी कर्णिकामें (मध्य भागमें) ॐ कारसे वेष्टित तथा ऊपर और नीचे रेफ (र्) से युक्त और विंदुसहित हकार (ह्) हैं। आठ दिशाओंमें फैली हुई वे आठ कमलकी पांखुड़ियां 'अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अं अः, क ख ग घ ङ, च छ ज झ व, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ष स ह' इन आठ वर्गोंसे पूरित हैं और उस कमलके आठ संधिस्थानोंमें (पत्रोंके जुड़ावके स्थान पर) 'णमो अरहंताणं' है तथा उन कमलपत्रोंको 'हीं' से वेष्टित करना। ऐसे अक्षरात्मक सिद्धपरमेष्ठीका जो पुरुष ध्यान करता है वह पुरुष मुक्तिसुन्दरीका पति तथा कर्मरूपी द्वाधीको सिद्धके समान हो जाता है ॥ १ ॥

विशेष—अरहंत परमेष्ठी परम औदारिक शरीरके धारक होते हैं इसलिये बीतराग रूपमें उनकी प्रतिमाका निर्माण हो जाता है जिसका कि पूजन ध्यान आदि करते हैं जो कि अपने अभीष्टको देनेवाला है। किन्तु सिद्धपरमेष्ठी निकल परमात्मा हैं उनके शरीर नहीं है इसलिये उनको अशरीरी कहते हैं। अतएव उनकी प्रतिमा नहीं बन सकती है जिसका कि पूजन, प्रक्षालन, ध्यान आदि कर सकें, इसी कारण उनका पूजन यंत्र रूपमें किया जाता है अर्थात् उपर्युक्त रीतसे अष्ट पत्रवाले कमलके रूपमें सिद्धयंत्र बनाकर उसकी पूजा की जाती है।

ॐ ह्रीं श्रीसिद्धचक्राधिपते ! सिद्धपरमेष्ठिन् ! अत्र
अवतर अवतर संवौषट् ।

ॐ ह्रीं श्रीसिद्धचक्राधिपते ! सिद्धपरमेष्ठिन् अत्र तिष्ठ
तिष्ठ ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीसिद्धचक्राधिपते ! सिद्धपरमेष्ठिन् ! अत्र मम
सन्निहितो भव भव वषट् ।

अर्थ—सिद्धचक्रके स्वामिन् भो सिद्धपरमेष्ठी ! यहां आइये !!
आइये !!!

हे सिद्धचक्रके स्वामिन् सिद्धपरमेष्ठी ! यहां तिष्ठिये !! तिष्ठिये !!!

भो सिद्धचक्रके स्वामिन् सिद्धपरमेष्ठी ! यहां मेरे समीप
हूजिये !! हूजिये !!!

निरस्तकर्मसंबंधं, सूक्ष्मं नित्यं निरामयम् ।

बंदेऽहं परमात्मानममूर्तमनुपद्रवम् ॥ १ ॥

अर्थ—मैं कर्मबंधनमें रहित, अशरीरी होनेके कारण सूक्ष्म, जन्म मरणादिक रहित होनेसे नित्य, शारीरिक तथा मानसिक आधि व्याधियोंसे रहित होनेके कारण निरामय (नीरोग), पुद्गलका संबंध न होनेके कारण अमूर्त तथा सांसारिक संबंध न होनेसे उद्भवरहित सिद्ध परमात्माको नमस्कार करता हूं ॥१॥

(सिद्धयंत्रकी स्थापना)

सिद्धौ निवासमनुगं परमात्मगम्यं हान्यादिभावगतिं भववीतकायं
रेचापगावरसरायमुनोद्भवानां नीरैर्यजे कलशगेर्वरसिद्धचक्रं ॥१॥

अर्थ—लोकके अंत भागमें विराजमान, निरन्तर सिद्ध होने वाले, सर्वज्ञ देवके ही गोचर, शरीरकी हानि वृद्धि अथवा आत्माकी हानि वृद्धि आदि विकारोंसे रहित तथा जन्मरहित शरीरवाले अर्थात् जन्म मरणसे रहित अथवा संसारातीत शरीर वाले सिद्धोंके समूहको मैं कलशोंमें भरे हुए रेवानदी, यमुनानदी तथा स्वच्छ सरोवरके जलसे पूजता हूं ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने जन्ममृत्यु-
विनाशनाय जलं निर्वपामाति स्वाहा ।

अर्थ—मैं सिद्धयंत्रके स्वामी सिद्धपरमेष्ठीको अथवा सिद्ध-समूहको जन्म मरण नाश करनेके लिये जलको समर्पण करता हूं ॥ १ ॥

आनंदकंदजनकं धनकर्ममुक्तं सम्यक्त्वशर्मगरिभं जननातिवीतं ।
सौरभ्यवाप्तितुष्टुं हरिचंदनानां गंधैर्यजे परिमलैर्वरसिद्धचक्रं ॥

अर्थ—आनंदके अंकुरको उत्पन्न करनेवाले, कर्म पटलसे रहित, चायिक सम्यक्त्व तथा अनंत सुखधारी होनेसे परम

गौरवशाली, जन्मकी पीड़ासे रहित, निर्मलकीर्तिरूपी सुगंधताके निवासस्थान (ऐसे) सर्वोत्तम सिद्धसमूहको मलयगिरिके चंदन की मनोहर सुगंधसे पूजता हूँ ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने संसारताप-
विनाशनाय चंदनं निर्धपामीति स्वाहा ।

अर्थ—मैं सिद्धयंत्रके स्वामी सिद्धपरमेष्ठीको संसारका संताप भेटनेके लिये चंदन अर्पण करता हूँ ।

सर्वावगाहनगुणं सुसमाधिनिष्ठं,

सिद्धं स्वरूपनिपुणं कमलं विशालं ।

सौगंध्यशालिवनशानिवरःक्षतानां,

पुञ्जैर्यजे शशिभिर्ऋसिद्धचक्रं ॥

अर्थ—आयु कर्मके नष्ट हो जानेसे अवगाहन गुणके धारक, आत्मीय अनंत गुणोंमें मग्न, संपूर्ण जगतमें प्रसिद्ध, अपने वास्तविक निष्कलंक स्वरूपको प्राप्त, परमब्रह्म और ज्ञानसे सर्व लोकमें व्याप्त सिद्ध भगवानको सुगंधित श्रेष्ठ, चंद्रमाके समान निर्मल अक्षतोंके पुञ्जोंसे मैं पूजता हूँ ।

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अक्षयपदप्राप्तये
अक्षतान् निर्धपामीति स्वाहा ।

अर्थ—सिद्धचक्रके स्वामी सिद्ध परमेष्ठीको मैं अक्षयपद पानेके लिये अक्षत भेट करता हूँ ।

नित्यं स्वदेहपरिमाणमनादिसंज्ञं,

द्रव्यानपेक्षममृतं मरणाद्यतीतम् ।

मंदारकुंदकमलादिवनस्पतीनां,

पुष्पैर्यजे शुभतमैर्वरसिद्धचक्रम् ॥ ४ ॥

अर्थ—कर्मोंके द्वारा होनेवाली जन्म मरणादि अनेक अनित्य पर्यायोंसे रहित होनेके कारण नित्य, चरम शरीरसे कुछ कम अपने शरीरके परिमाणमे अवस्थित, अनादिकालीन (सामान्य सिद्धराशिकी अपेक्षा) पुद्गलादिक अन्य द्रव्योंसे निरपेक्ष (अपेक्षा न रखनेवाले) अपनी सिद्ध पर्यायसे अच्युत (अचल, न हटनेवाले) अथवा जीवोंको ध्यान करने पर अमृतके समान सुख प्रदान करनेवाले तथा मरण, शोक, रोगादिकसे रहित सिद्ध-समूहकी मंदार, कुन्द तथा कमल आदिक वृत्तोंके अत्यंत सुन्दर पुष्पोंसे मैं पूजन करता हूं ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने कामवाण-
विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्थ—सिद्धचक्रके स्वामी सिद्धपरमेष्ठीको मैं कामदेवको नष्ट करनेके लिये पुष्प समर्पण करता हूं ।

ऊर्ध्वस्वभावगमनं सुमनोऽप्यपेतं,

ब्रह्मादिबीजसहितं गगनावभासम् ।

क्षीरान्नसाज्यवटकै रसपूर्णागर्भै-

नित्यं यजे चरुवरैर्वरसिद्धचक्रम् ॥ ५ ॥

अर्थ—कर्म बंधके टूट जानेके कारण स्वभावसे ही उर्ध्वगमन करनेवाले, नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होनेवाले भावमन तथा द्रव्यमनसे रहित और जिसका मूल कारण अरहंत दशा है तथा आकाशके समान जो अमूर्तिक है अथवा निर्मल है या आकाशके समान जिसका ज्ञान व्यापक है उस परमपूज्य सिद्ध चक्रको दूध, अन्न तथा घृतसे बने हुए एवं जिनके भीतर मधुर, खट्टा आदि रस परिपूर्ण है ऐसे नाना व्यंजनोंसे (अनेक प्रकारके पकवानों द्वारा) सर्वदा पूजा करता हूं ॥५॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमैष्ठिने क्षुद्रोगविध्वंस-
नाय नेवेद्यं नि० ।

अर्थ—सिद्धयंत्रके स्वामी सिद्धपरमैष्ठीके लिये क्षुधा (भूख) रूपी रोगको नाश करनेके लिये मैं नैवेद्य (पकवान) समर्पण करता हूं ।

आतंकशोकभयरोगमदप्रशांतं, निद्राद्विभावधरणं महिमानिवेशं ।
कपूरवर्तिबहुभिः कनकावदातैर्दापैर्यजे रुचिवरेर्वरसिद्धचक्रम् ॥

अर्थ—संताप अथवा उदासी, शोक, भय, रोग, मानसे रहित, निद्राद्विभाके धारक अर्थात् कलहकारी परिणामोसे रहित या दुविधा से रहित (निश्चल) तथा सर्वात्तम महिमा (बड़प्पन) के घर स्वरूप सिद्ध समूहको मैं सुवर्णके वन हुए अनेक कपूरकी बत्तियोंसे सहित दैदीप्यमान दीपकों द्वारा अर्चन करता हूं ॥६॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमैष्ठिने मोहांधकार-
विनाशनाय दीपं निर्घपामीति स्वाहा ।

अर्थ—सिद्धचक्रके अधिपति सिद्धपरमात्माको मोहरूपी अंध-कारको नष्ट करनेके लिये मैं दीपक अर्पण करता हूँ ।

पश्यन्समस्तभुवनं घुगपञ्चितांतं,

त्रैकान्यवस्तुविषये निविडप्रदीपम् ।

सद्द्रव्यगन्धघनसारविमिश्रितानां,

धूपर्यजेपरिमलैर्वरसिद्धचक्रम् ॥ ७ ॥

अर्थ—केवल-ज्ञानद्वारा समस्त संसारको अच्छी तरह एक साथ देखनेवाले तथैव भूत, भविष्यत और वर्तमान कालवर्ती पदार्थोंको तथा उनकी पर्यायोंको प्रकाशित करनेमें दैदीप्यमान दीपकके समान, सर्वोत्तम सिद्धसंघको मैं कपूरसे सहित चन्दन, अगर आदि उत्तम तथा सुगन्धित पदार्थोंकी सुगन्धित धूपद्वारा पूजता हूँ ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं सिद्धिचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अष्टकर्मदह-
नाय धूपं नि० ।

अर्थ—सिद्धचक्रके अधिपति सिद्धमहाराजको आठ कर्मोंको जलानेके लिये धूप चढ़ाता हूँ ।

सिद्धासुरादिपतियक्ष्णरेन्द्रचक्रै-

र्ध्येयं शिवं सकलभव्यजनैः सुबंधं ।

नारिङ्गपूगकदलीफलनारिकेलैः,

सोऽहं यजे वरफलैर्वरसिद्धचक्रं ॥ ८ ॥

अर्थ—सिद्ध (व्यंतर देवविशेष) असुर कुमार आदि देवों के इन्द्रोंद्वारा तथा यक्ष, नरपतियोंके समूहद्वारा ध्यातव्य (ध्यान

करने योग्य) कल्याण स्वरूप तथा समस्त भव्यपुरुषों द्वारा चन्दनीय सिद्धोंके संधकी नारंगी, सुपारी, केला तथा नारियल आदि उत्तम फलोंके द्वारा पूजन करता हूँ ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने मोक्षफल-
प्राप्तये फलं नि० ।

अर्थ—सिद्धयंत्रके अधिपति श्रीसिद्धभगवानको मोक्षरूपी फल पानेके लिये फल समर्पण करता हूँ ।

गन्धाढ्यं सुपयो मधुम्रतगणैः संगं वरं चन्दनं,
पुष्पौघं विमलं सदक्षतचयं रम्यं चरुं दीपकं ।
धूपं गंधयुतं ददामि विविधं श्रेष्ठं फलं लब्धये,
सिद्धानां युगपत्क्रमाय विमलं सेनोत्तरं वाञ्छितं ॥६॥

अर्थ—सुगन्धित निर्मल जल, जिसकी सुगन्धिसे भौंरे आगये हैं ऐसा चन्दन, उज्ज्वल अक्षतका पुंज, पुष्प, मनोहर नैवेद्य, दीपक तथा सुगन्धित धूप और अनेक उत्तम फलोंको एक साथ (अर्घ) जन्म, राग, द्वेषादि दोषोंसे रहित निर्मल, कर्म बन्धनरहित अथवा चक्रवर्ती इन्द्रादि पदसे भी उत्तम, अभीष्ट फल पानेके लिये सिद्धोंके चरणोंमें समर्पण करता हूँ ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अनर्घ्यपद-
प्राप्तये अर्घ्यं नि० ।

अर्थ—मैं सिद्धयंत्रके स्वामी श्रीसिद्धपरमात्माको अमूल्यपद (मोक्ष) पानेके लिये अर्घ अर्पण करता हूँ ।

ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपं सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनंतवीर्यं
कर्मोघकृत्तदहनं सुखशस्यबीजं वंदे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रं

अर्थ—कषायोंके क्षय हो जानेसे जिसका ज्ञानोपयोग निर्मल है, समस्त कर्ममलके नष्ट हो जानेसे जिसका आत्मस्वरूप परम निर्मल है, जो औदारिक कार्माणादि शरीरोंसे रहित होनेके कारण परमसूक्ष्म है, वीर्यघातक अन्तराय कर्मके नाश हो जानेसे अनन्त बलका धारक है, कर्मसमूह्रूपी वनको जलानेवाला तथा सुखरूपी धान्यको उत्पन्न करनेमें बीजके समान है ऐसे अनुपमगुणधारी सिद्धोंके समूहको मैं सर्वदा नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिनं महार्घ्यं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥

अर्थ—सिद्धयंत्रके अधिपति श्रीसिद्धपरमेष्ठीको मोक्षपद पानेके लिये मैं महार्घ्य समर्पण करता हूँ ।

त्रैलोक्येश्वरवंदनीयचरणाः प्रापुः श्रियं शाश्वतीं,

यानाराध्य निरुद्धचङ्गमनसः संतोषि तीर्थकराः ।

सत्सम्यक्त्वविबोधवीर्यविशदाद्याबाधताद्यै गुणै-

युक्तांस्तानिह तोष्टवीमि सततं सिद्धान् विशुद्धोदयान् ॥

अर्थ—देवेन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवर्ती आदिसे जिनके चरण पूजनीय हैं ऐसे, प्रचण्ड मनको रोकने वाले तीर्थकर भी जिनको आराधन करके नित्य लक्ष्मीको पा चुके हैं तथा जो ज्ञायिक, सम्यक्त्व, अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्य, अव्याबाध आदि अनन्त-

गुणोंसे विभूषित हैं और जिनमें परम विशुद्धताका उदय हो गया है ऐसे सिद्धोंका मैं सर्वदा बारम्बार स्तवन करता हूँ ॥ ११ ॥

(पुष्पांजलि क्षेपण करना चाहिये)

अथ सिद्धपूजा (भावाष्टक)

(द्रव्यपूजा और भावपूजा, इसतरह सिद्धपूजा दो प्रकारकी होती है । ऊपर द्रव्यपूजाके अष्टक हैं नीचे भावपूजाके अष्टक हैं ! दोनोंमेंसे एक करनी चाहिये)

निजमनोमणिभाजनभारया, शमरसैकसुधारसधारया ।

सकलबोधकलारमणीयकं, सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥ १ ॥

अर्थ—मैं अपने मनरूपी रत्नमयी पात्रमें भरी हुई, शांति रसरूपी अमृत रसकी धारा द्वारा केवलज्ञानकी किरणोंसे रमणीय, स्वाभाविक अर्थात् स्वभावसे होनेवाले सिद्धपरमात्माको पूजता हूँ ॥ १ ॥

ॐ हीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने जन्ममृत्यु-
विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

विशेष—सकल आरम्भ तथा परिग्रहको त्यागनेवाले मुनीश्वर तथा आरम्भ परिग्रहत्यागी श्रावक एवं पूजनकी सामिग्रीसे रहित पूजन करनेके अभिलाषी पुरुष जब कि सिद्धोंकी पूजन करते हैं तब वे ऐसे भावाष्टकों द्वारा ही पूजन करते हैं क्योंकि चन्दन, अक्षत पुष्प, नैवेद्यादिक द्रव्यें न तो उनके पास ही होते हैं न वे इनकी योजना ही करते हैं । इसका कारण भी यह है कि—मनको

वशीभूत करनेके कारण वे विना जलादिक द्रव्योंके भी पूज्य पदार्थ के साथ अपने भावोंका सम्बन्ध कर सकते हैं। अत एव उन महापुरुषोंका पूजन केवल भावोंसे होता है इसीलिये ऐसे पूजनको 'भाव पूजन' कहते हैं।

सहजकर्मकलङ्कविनाशनैरमलभावसुभाषितचन्दनैः ।

अनुषमानगुणावलिनायकं सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥ २ ॥

अर्थ—अनुपम गुण समूहके स्वामी सिद्धपरमेष्ठीकी मैं अनादि कालसे आत्माके साथ रहने वाले कर्मरूपी कलंकका नाश करनेवाले निर्मल मानसिक भाव तथा भक्तिपूरत सुन्दर वचनरूपी चन्दनसे पूजन करता हूँ ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने संसारताप-
विनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

सहजभावसुनिर्मलतंदुलैः सकलदोषविशालविशोधनैः ।

अनुपरोधसुबोधनिधानकं सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥ ३ ॥

अर्थ—समस्त महा दोषोको नष्ट करनेवाले, स्वाभाविक निर्मल परिणामरूपी अक्षतोंसे अनुपरोध (किसीसे न रुकनेवाले) केवल-ज्ञानके स्वामी सिद्धभगवानकी पूजा करता हूँ ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अक्षयपदप्राप्तये
अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

समयसारसुपुष्पसुमालया सहजकर्मकरेण विशोधया ।

परमयोगबलेन वशीकृतं सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥ ४ ॥

अर्थ—स्वाभाविक क्रियारूपी (शुद्ध चारित्ररूपी) हाथके द्वारा सोधी हुई आत्माके शुद्ध परिणामरूपी फूलोंसे गुथी हुई पुष्पमाला द्वारा, शुक्लध्यानसे अपने असली स्वभाबको पानेवाले सिद्ध परमात्माकी अर्चना करता हूँ ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने कामवासु-
विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

अकृतबोधमुदिव्यनिवेद्यकैर्विहितं वा तज्जरा मरणांतकैः ।

निरवधिप्रचुरात्मगुणालयं सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥ ५ ॥

अर्थ—जन्म, जरा तथा मरणको नष्ट करनेवाले, अकृत्रिम ज्ञानरूपी मनोहर नैवेद्योंसे मैं आत्माके अनन्त महागुणोंके धारक सिद्ध महाराजका अर्चन करता हूँ ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने द्वादशविध्वंस-
नाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

सहजरत्नरुचिप्रातिदीपकैः, रुचिविभूतितमःप्रविनाशनैः ।

निरवधिस्वविकाशविकाशनः, सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥६॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्ररूपी रत्नत्रय की कांतिको चमकानेवाले तथा सम्यक्त्वकी ज्योतिको छिपानेवाले-मोहरूपी अन्धकारको नाश करनेवाले एवं आत्माके अनन्त विकाशको प्रकाशित करनेवाले भाव दीपकोंसे सिद्धपरमेष्ठीको मैं पूजता हूँ ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने मोहांधकार-
विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

निजगुणाक्षयरूपसुभूपनैः, स्वगुणघातिमलप्रविनाशनैः ।

विशदबोधसुदीर्घसुखान्तमक, सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥ ७ ॥

अर्थ—अपने गुणोंके घातक ज्ञानावरणादिक मैलका नाश करनेवाले, अपने ज्ञान, दर्शन आदि अविनाशी गुणरूपी धूपके द्वारा निर्मल अनन्तज्ञान तथा अनन्तसुखके धारक सिद्ध परमात्मा का मैं पूजन करता हूँ ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अष्टकर्मदह-
नाय धूपं निवेपामीति स्वाहा ।

परमभावफलावलिसम्पदा महजभावकुभावविशाधया ।

निजगुणास्फुरणात्मनिरंजन सहजसिद्धमहं परिपूजये ॥ ८ ॥

अर्थ—स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन आदि भावोंसे मिथ्याज्ञान, मोह आदि खोटे भावोंको हटानेवाली उत्तम भावोंकी समूहरूपी फल-संपदाद्वारा अपने स्फुरायमान गुण प्रकट होनेसे निष्कलंक-कर्मादि मैलसे रहित सिद्ध भगवानकी मैं पूजा करता हूँ ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने मोक्षफलप्राप्तये
फलं निवेपामीति स्वाहा ।

नेत्रान्मीलिविकाशभावनिवहैरत्यंतबोधाय वै,

वागंधाक्षतपुष्पदामचरुं कः सदीपधूपैः फलैः ।

यश्चिंतामणिशुद्धभावपरमज्ञानात्मकर्चयेत्

सिद्धं स्वादुमवाधबोधमचलं संचर्चयामो वयं ॥ ९ ॥

अर्थ—नेत्रोंके खोलनेवाले प्रकाशके समान भावोंकेसमूहद्वारा

जो पुरुष चिंतामणिके समान शुद्ध भाव और उत्तम ज्ञानस्वरूप जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल द्वारा अर्चन करता है उसको बहू पूजन अनन्त ज्ञानके लिये होता है अतः हम भी आत्मसुखके अनुभवी, बाधारहित ज्ञानके धारी, निश्चल, सिद्ध परमात्माका पूजन करते हैं ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं सिद्धचक्राधिपतये सिद्धपरमेष्ठिने अनर्घ्यपद-
प्राप्तये अर्घ्यं निर्बपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

विराग सनातन शांत निरंश, निरामय निर्भय निर्मल हंस ।
सुधाम विबोधनिधान विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥१॥

अर्थ—रागरहित हे वीतराग ! हे सनातन ! (बहुत पुरातन) उद्वेग, द्वेष, क्रोधादि रहित होनेसे वास्तविक शांतिको प्राप्ति करनेवाले हे शांत, अंशकल्पनासे रहित होनेके कारण हे निरंश ! शारीरिक मानसिक रोगोंसे रहित हे निरामय, मरणादिक भयोंसे रहित होनेके कारण हे निर्भय, हे निर्मल तेजके निवास स्थान, हे निर्मल ज्ञानके धारक, मोहरहित होनेसे विमोह (ऐसे) हे परमपवित्र, सिद्धोंके समूह मुझपर प्रसन्न हो ॥ १ ॥

विदूरितसंस्मृतिभाव निरंग, समामृतपूरित देव विसंग ।
अबंध कषायविहीन विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥२॥

अर्थ—हे सांसारिक भावोंके दूर करनेवाले, हे अशरीर, हे सम-
तारूपी अमृतसे परिपूर्ण देव, हे अन्तरंग बहिरंग संगरहित विसंग,

हे कर्मबन्धनसे विनिर्मुक्त, हे कषायरहित, हे विमोह, विशुद्ध, सिद्धोंके समूह हमपर प्रसन्न हो ॥ २ ॥

निवारितदुष्कृतकर्मविपाश, सदा मलकेवलकेलनिवास ।
भवादधिपारग शांत विमाह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥३॥

अर्थ—हे दुष्कर्मके नाशक, हे कर्म जंजालमें रहित, हे निर्मल केवल ज्ञानके क्रीड़ास्थल, संसारके पारगामी, हे परमशांत, हे निर्मोह, पवित्र सिद्धोंके समूह हमपर प्रसन्न हो ॥ ३ ॥

अनंतसुखामृतमागरधीर, कलकरजामलभूरिसमीर ।
विखंडितकाम विराम विमाह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥

अर्थ—हे अनन्त सुखरूपी अमृतके समुद्र ! हे धीर ! कलंकरूपी धूलिको उड़ानेके लिये प्रवलवायु ! हे कामविकारको खंडित करनेवाले ! हे कर्मोंके विरामस्थल ! हे निर्मोह पवित्र सिद्धोंके समूह ! प्रसन्न हो ॥ ४ ॥

विकारविवर्जित तर्जितशोक, विबोधसुनेत्रविलोकितलोक ।
विहार विराव विरङ्ग विमाह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥

अर्थ—हे कर्मजन्य शुभ, अशुभ विकारोंसे रहित ! हे शोक रहित ! हे केवलज्ञानरूपी नेत्रसे सम्पूर्ण लोकको देखनेवाले ! कर्मादिकद्वारा हरणसे रहित, शब्द रहित तथा रङ्गसे (दूसरेको रिझाना) रहित ऐसे हे मोहरहित परमविशुद्ध सिद्धोंके समूह हमपर प्रसन्नता लाओ ॥ ५ ॥

रजोमलखेदविमुक्त विगात्र, निरन्तर नित्य सुखामृतपात्र ।
सुदर्शनराजित नाथ विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥

अर्थ—दोष, आवरण तथा खेद रहित, हे अशरीर ! हे निरन्तर (समयके अन्तरसे रहित), हे सुखरूपी अमृतके पात्र, हे सम्यदर्शनसे या केवलदर्शनसे शोभायमान ! हे संसारके स्वामी ! हे मोहरहित परमपवित्रतायुक्त सिद्धोंके समूह ! हमपर प्रसन्नता धारण करो ॥ ६ ॥

नरामरवन्दित निर्मलभाव, अनन्तमुनीश्वरपूज्य विहाव ।
सहोदय विश्व महेश विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥

अर्थ—हे मनुष्य देवोंसे पूजनीय ! हे समस्त दोषोंसे युक्त होनेके कारण निर्मल भाववाले, हे अनन्त मुनीश्वरोंसे पूज्य, हे विकाररहित, हे सर्वदा उदयस्वरूप, हे समस्त संसारके महा-स्वामिन्, हे मोहरहित, परमपवित्र सिद्धोंके समूह ! मुझपर प्रसाद धारण करो ॥ ७ ॥

विदंभ वितृष्ण विदोष विनिद्र, परापर शङ्कर सार वितंद्र ।
विकोप विरूप विशङ्क विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥

अर्थ—हे कपटरहित, हे तृष्णारहित, हे द्वेषादिक दोषरहित, हे निद्रारहित, हे पर तथा अपर शंकर अर्थात् भूतकालीन सिद्धों की अपेक्षा पर तथा आगामी सिद्धोंकी अपेक्षा अपर (शं करो-तीति शंकरः अर्थात् महा अशांतिकारक अधर्मका नाशकर धर्मरूपी शांतिको करनेवाले) हे आलस्यरहित, हे कोपरहित, हे रूपरहित, हे शंकारहित, हे मोहरहित विशुद्ध सिद्धोंके समूह ! हम पर प्रसन्न हो ॥ ८ ॥

जरामरणोज्झित वीतविहार, विचिंतित निर्मल निरहंकार ।
अचित्यचरित्र विदर्ष विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्धसमूह ॥

अर्थ—हे वृद्धावस्था तथा मरणदशाको नाश करनेवाले ! हे

गमनरहित, हे चिंतारहित, भो अज्ञानादिक आत्मीय मैलसे रहित, हे अहंकार (घमंड) रहित, हे अचित्य चारित्रके धारक, हे दर्पे अहंकाररहित, हे मोहरहित परम पवित्र सिद्धोंके संघ ! मुझ पर प्रसन्नता धारण करो ॥ ६ ॥

विवर्ण विगंध विमान विनांभ, विमाय विक्राय विशब्द विशोभ ।
अनाकुल केवल मार्थ ।वमाह, प्रमीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह ॥

अर्थ—हे श्वेत, पीत आदिक वर्णरहित, हे गंधरहित, हे छोटे, बड़े, हलके, भारी आदि परिमाणसे रहित, हे मानरहित, हे लोभरहित, हे मायारहित, हे अशरीर, हे शब्दरहित, हे कृत्रिम शोभा रहित, हे निराकुल, हे केवल (असहाय), हे समस्त परवस्तुमें मोहरहित परमपवित्र सिद्धोंके संघ ! हम पर प्रसन्नता धारण करो ॥ १० ॥

घत्ता ।

असमसमयमारं चारुचैतन्यचिह्नं,

परपरिणतिमुक्त पद्मनदींद्रवद्यं ।

निखिलगुणनिकेतं सिद्धचक्रं विशुद्धं,

स्मरति नमति यो वा स्तौति सोऽभ्येति मुक्तिम् ॥

अर्थ—असाधारण तथा परमोत्कृष्ट जिसका आत्मा है, निर्मल चेतनता जिसका चिन्ह है, जड़द्रव्यके परिणामनसे रहित तथा पद्मनन्दी देव, (मुनि) द्वारा वंदनीय एवं समस्त गुणोंके धररूप सिद्ध-चक्रको (सिद्धके समूहको) जो पुरुष स्मरण करता है नमस्कार करता है तथा उसका स्तवन करता है वह पुरुष मोक्षको पा लेता है ॥ ११ ॥

ॐ ह्रीं सिद्धपरमेष्ठिभ्यो महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।
अर्थ—मैं सिद्धपरमेष्ठी महाराजकेलिये महार्घ्य समर्पण करता हूँ।

अबिल्ल छंद ।

अविनाशी अविकार परमरसधाम हो,
समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम हो ।
शुद्धबोध अविरुद्ध अनादि अनन्त हो,
जगतशिरामणि सिद्ध सदा जयवन्त हो ॥१॥

अर्थ—आप अविनाशी, अविकार, अनुपमसुखके स्थान, मोक्षस्थानमें रहनेवाले, सर्वज्ञ, तथा स्वाभाविक रमणीय हो और निर्मलज्ञानधारी, आत्मिक गुणोंके अनुकूल तथा अनादि और अनन्त हैं। हे संसारके शिरोमणि सर्वोत्तम सिद्ध भगवन ! आपकी सदा जय होवे ॥ १ ॥

ध्यान अग्निकर कर्मककङ्क सबै दहे,
नित्य निरंजनदेवसरूपी हूँ रहे ।

ज्ञायकके आकार ममत्व निवारिकै,
सो परमात्म सिद्ध नमूँ शिर नायकै ॥२॥

अर्थ—जिन्होंने शुक्लध्यानरूपी अग्निसे समस्तकर्मरूपी कलंक को जला दिया है तथा जो नित्य निर्दोष देव स्वरूप हो रहे हैं एवं जो मोहभावको त्यागकर ज्ञानस्वरूप हैं उन सिद्ध परमात्माको शिर भुकाकर नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

दोहा ।

अविचल ज्ञान प्रकाशने गुण अनन्तकी खान ।
ध्यान धरे सो पाइये परम सिद्ध भगवान ॥

इत्याशीर्वादः । (पुष्पांजलि चिपेत्)

अर्थ—जो निश्चल केवल ज्ञानसे प्रकाशमान हैं तथा अनन्त गुणोंके ग्वानस्वरूप है ऐसे पूजनीय सिद्ध भगवानको केवल ध्यान द्वारा ही पुरुष पा सकते है ॥ ३ ॥

(आशीर्वाद)

अथ पंचपरमेष्ठिजयमाला ।

मणुयणाइन्दसुरधरियद्वत्ततया, पंचकलाणसुबस्वावली पत्तया
दंसर्णं शाण्य भाण्यं अण्यंतं बलं, ते जिष्णा दितु अमहं वरं मंगलं

अर्थ—जिनके ऊपर नरेन्द्र, तथा सुरेन्द्रने तीन छत्रोंको लगाया तथा जिन्होंने गर्भ, जन्म, वप, केवलज्ञान, मोक्ष इन पांच कल्याणकोंके सुखोंको पाया और जिनके पास अनन्त दर्शन, अनन्तज्ञान, शुक्लध्यान तथा अनन्तबल विद्यमान है । वे जिनेन्द्र भगवान हमको परम मंगल प्रदान करें ॥ १ ॥

जेहिं भाण्यनिगवाणेहिं अइथद्वयं, जम्मजरमरण्यरत्तयं दडुद्वयं
जेहिं पत्तं सिवं सासयं ठाण्यं, ते महादितु सिद्धा वरं शाण्यं

अर्थ—जिन्होंने अपने ध्यानरूपी अग्निबाणोंसे अत्यन्त कठोर जन्म, जरा तथा मरणरूपी तीन नगरोंको जला दिया है तथा

जिन्होंने अविनाशी मोक्षस्थानको पा लिया है वे सिद्धभगवान
हमको केवलज्ञान दें २ ॥

पंचहाचारपंचगिगसंसाहया,

वारसंगाइसुयजलहिं अवगाहया ।

मोक्षस्वल्छ्छीं महंती महं ते सया,

स्वरिणो दिंतु मोक्षं गया संगया ॥ ३ ॥

अर्थ—कर्मोंको जलानेवाली दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार
वीर्याचार और चारित्राचार इन पंचाचाररूपी अग्निको साधने
वाले तथा द्वादशांगरूपी शास्त्रसागरमें अवगाहन करनेवाले और
आशारहित (दुर्लभ) मोक्षको पानेवाले आचार्य महाराज हमको
मोक्षरूपी महालक्ष्मी प्रदान करें ॥ ३ ॥

घोरसंसारभीमाडवीकाण्ये, तिक्रववियरालणहपावपंचाण्ये ।

णद्वमग्गाण जीवाण पहदेसया, बंदिमो ते उवज्झाय अम्हे सया

अर्थ—घोर संसाररूपी भयानक वनमें महा विकराल नखों
वाला पापरूपी सिंह रहता है उस वनमें मिथ्यात्व कुधर्मादिक
द्वारा सुमार्गको भूलकर इधर उधर भटकते हुए जीवको मोक्षरूप
कल्याणकारी सुमार्गको बतलानेवाले उपाध्याय परमेष्ठीको मैं
सर्वदा नमस्कार करता हूँ ॥ ४ ॥

उग्गतवयरणकरणेहिं छीणं गया,

धम्मवरणाणक्कस्वेक्कभाणं गया ।

खिट्ठभरं तवसिरीए समालिगया,

साहओ ते महामोक्षपहमग्गया ॥ ५ ॥

अर्थ—जिनका शरीर धोर तपश्चरणसे क्षीण हो गया है और जो धर्मध्यान तथा शुक्लध्यानमें लीन हो गये हैं तथा तपरूपी लक्ष्मीने जिनका गाढ आलिंगन किया है वे साधु महाराज हमको मोक्षमार्गमें लगावें ॥ ५ ॥

एष थोत्तेषु जो पंचगुरु वंदए,

गुरुयसंसारघणवेद्भि सो छिंदए ।

लहइ सां सिद्धसुखवाइ वरमाणणं,

कुणइ कम्मिधणं पुंजपज्जालणं ॥ ६ ॥

अर्थ—इस स्तोत्रसे जो पुरुष पंचपरमेष्ठियोंकी वंदना करता है वह पुरुष संसारकी बड़ी लताको (वेलिको) काट डालता है तथा परमोत्तम सिद्धसुखको पालेता है और कर्मरूपी ईधनको जला डालता है ॥ ६ ॥

अग्निहा सिद्धाइरिया उवक्काया साहु पंचपरमेष्ठौ ।

एयाण सुमुक्कारो भवे भवे मम सुहं दित्तु ॥ ७ ॥

अर्थ—अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु ये पांच परमेष्ठी (उत्कृष्टपदमें स्थित) हैं । इन परमेष्ठियोंका नमस्कार मुझे प्रत्येक भवमें कल्याण प्रदान करे ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुपंचपरमेष्ठि-
भ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्थ—मैं अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्वसाधु इन पांच परमेष्ठियोंके लिये अर्घ्य समर्पण करता हूं ।

(पुष्पांजलि क्षिपेत्)

इच्छामि भंते पंचगुरुभक्तिकाञ्चोसग्गो कञ्चो, तस्सालोचेञ्चो अट्ठमहापाडिहेरसंजुत्ताणं अरहंताणं, अट्ठगुणसंपण्णाणं उड्ढल्लोयम्मि पइट्ठियाणं सिद्धाणं, अट्ठपवयणमाउसंजुत्ताणं आइरियाणं, आयारादिसुदणाणोवदेसयाणं उवज्झायाणं, तिरयणगुणपालणरयाणं सब्ब-साहूणं, शिच्चकालं अञ्चेमि पूजेमि बंदामि खमस्सामि, दुक्खक्खआ कम्मक्खञ्चो बांहिलाञ्चो सुगइगमणं सभाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति हाउ मज्झं । इत्याशीर्वादः ।

पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।

अर्थ—भो भगवन् ! पंचपरमेष्ठीकी भक्तिमें होनेवाले दोषोंको हटानेके लिये मैं कायोत्सर्ग तथा उसकी आलोचना करना चाहता हूं । चम्बर, छत्र, सिंहासन, अशोकवृक्ष, भामंडल, दिव्यध्वनि, दिव्यपुष्पवृष्टि, दुन्दुभिबाजोंका वज्रना इन आठ महाप्रातिहार्योंसे विभूषित अरहंतभगवानकी, अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, सम्यक्त्व, अनन्तबल, अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, सृष्टमत्व, अगुरुलघुत्व इन आठ गुणोंसे संयुक्त तथा लोकाकाशके ऊपर तनुवातबलयमें रहनेवाले सिद्धपरमेष्ठीकी, आठ प्रवचन मानृकासे सहित आचार्य महाराजकी, आचारांग आदि द्वादशांगका उपदेश देनेवाले उपाध्याय मुनीश्वरकी तथा रत्नत्रय एवं अन्य अनेक गुणोंमें लवलीन श्रीसर्वसाधुओंकी मैं सर्वदा अर्चना करता हूं, पूजता हूं, वंदना करता हूं तथा उनको नमस्कार करता हूं । मेरे दुःखका क्षय होय, कर्मोंका नाश होवे, मुझे समाधिमरण मिले, रत्नत्रय

प्राप्त हो तथा शुभगति मिले एवं मैं अरहंतकी आध्यात्मिक महा-
विभूतिको पाऊं ।

(यह आशीर्वाद है । यहां पुष्पांजलि क्षेपण करना चाहिये)

—*—

अथ शांतिपाठः ।

दोषकवृत्तं ।

शांतिजिनं शशिनर्मलवक्त्रं, शीलगुणव्रतसंयमपात्रं ।

अष्टशताक्षितलक्षणगात्रं, नौमि जिनोत्तममंबुजनेत्रं ॥ १ ॥

अर्थ—चन्द्रमाके समान जिनका मुख निर्मल है, तथा जिनका शरीर एकसौ आठ शुभ लक्षणोंमें मशोभित है और जो अठारह-हजार शील, केवलज्ञान, दर्शन आदि गुणोंके तथा व्रत, संयमके धारक हैं, उन जिनोत्तम (कदाच जीवनेवाले यतीश्वरोंमें प्रधान) श्रीशानिनाथ भगवानको मैं नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥

पंचममीप्सितचक्रधराणां, पूजितमिन्द्रनरेन्द्रगणैश्च ।

शांतिकरं गणशांति रभी पुः, षोडशतीर्थकरं प्रणमामि ॥२॥

अर्थ—जो वर्तमानकालीन बारह चक्रवर्तियोंमें पांचवें चक्र-वर्ती है, इंद्र, नरेन्द्र, मूर्त्तानादिके समूहसे जो पूजित हैं उन परमशांतिदाताओंके से लहवें शांतिनाथ तीर्थकरको मुनि-आर्थिका, श्रावक, श्रानिका इन चारों गणोंकी शांतिकी इच्छासे मैं नमस्कार करता हूं ॥ २ ॥

दिव्यतरुः सुगुष्पसुवृष्टिदुन्दुभिरासनयोजनघोषौ ।

आतपवारणचामरयुग्मे यस्य विभाति च मंडलतेजः ॥ ३ ॥

अर्थ—अशोकवृक्ष, दिव्यगुष्पोंकी वर्षा, दुन्दुभि बाजा, सिंहासन, दिव्यध्वनि, तीन छत्र, चौसठ चम्बर तथा भामंडल इन आठ प्रातिह,योंसे जो भगवान शोभायमान है ॥ ३ ॥

तं जगदचित्शान्तिजिनेन्द्रं शान्तिकरं शिरसा प्रणमामि ।

सर्दगणाय तु यच्छतु शान्तिमह्यमरं पठते परमां च ॥ ४ ॥

अर्थ—अपूर्व शान्तिको करनेवाले उस जगतपूज्य श्रीशान्तिनाथ जिनवरको मैं मस्तक नवाकर नमस्कार करता हूँ । हे भगवान ! चारों संघको, हमको तथा आपके स्तवन पूजन आदि पढ़ने वाले पुरुषको शीघ्र ही परम शान्ति (मुक्ति) प्रदान कीजिये ॥४॥

येऽभ्यर्चिता मुकुटकुण्डलहाररत्नैः,

शक्रादिभिः सुरगणैः स्तुतपादपद्माः ।

ते मे जिनाः प्रवरवंशजगत्प्रदीपा-

स्तीर्थकराः सततशान्तिकरा भवन्तु ॥५॥

अर्थ—मुकुट, कुण्डल, हार, रत्न आदि धारक इन्द्रादिकोंने जिनका मनोहर पूजन किया है तथा जिनके चरण कमल चारों प्रकारके देवोंसे पजित है एवं दीपकके समान संसारको प्रकाशित करनेवाले जिन जिनेश्वरोंने इक्ष्वाकु, सूर्ये, चन्द्र, हरि आदि उत्तम वंशोंमें जन्म लिया है वे तीर्थकर संसारमें सर्वदा शान्तिका विस्तार करें ॥ ५ ॥

संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां ।

देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्रः ॥

अर्थ—अपने पूजक पुरुषोंको (पूजा करने वालोंको) धर्मके रक्षकोंको अथवा छोटे २ राजाओंको, यतीश्वरोंको तथा सामान्य संयमियोंको, देशको, राज्यको तथा नगरको एवं राजाओंको भोजिनेन्द्र भगवन् ! शांति प्रदान करो ॥ ६ ॥

क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपालः,
काले काले च सम्यग्वर्षतु मघवा व्याधयो यांतु नाशं ।
दुर्भिक्षं चौरमारी क्षणमपि जगतां मा स्म भृञ्जीवल्लोके,
जेनेन्द्र धर्मचक्रं प्रभवतु सततं सर्वसौख्यप्रदायि ॥ ७ ॥

अर्थ—हे स्वामिन् ! सकल प्रजाको कल्याण मिले तथा प्रजा रक्षक राजा धार्मिक और बलवान होवे, समय समय पर (योग्य समय पर) मेघवर्षा (बादलोंका बरसना) अच्छी तरह हुआ करे, सभी शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां नष्ट हो जावें, इस लोकमें दुर्भिक्ष (समय पर पानीका न बरसना तथा अधिक बरस जाना) चोरी, मारी (प्लेग, हैजा आदि बड़ी बीमारियां) जीवों के लिये क्षणभर भी न हों तथा प्राणीमात्रके लिये सुखदायक जैनधर्मका सर्वदा विस्तार हो ॥ ७ ॥

प्रध्वस्तघातिकर्माणः केवलज्ञानभास्कराः ।

कुर्वतु जगतः शांतिं वृषभाद्या जिनेश्वराः ॥ ८ ॥

प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं नमः ।

अर्थ—जिन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा अन्तराय इन चार घातिया कर्मोंको नष्ट कर दिया है और जो केवलज्ञानसे दैदीप्यमान हैं वे ऋषभ, अजित आदि तीर्थंकर इस संसारमें शांति करें ॥ ८ ॥

अर्थ—मैं प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग तथा द्रव्यानुयोग शास्त्रको नमस्कार करता हूँ ।

अथेष्टप्रार्थना ।

शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुतिः संगतिः सर्वदार्यैः,
सद्बृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनं ।
सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतच्चे
सम्पद्यन्तां मम भवभवे यावदेतेऽपवर्गः ॥ ६ ॥

अर्थ—हे प्रभो ! जब तक मुझे मुक्ति न मिले तब तक मुझे भव भवमें (प्रत्येक जन्ममें) शास्त्रोंका पढ़ना, पढ़ाना, मनन करना आदि, जिनेन्द्रदेवकी भक्ति, निरन्तर सज्जन पुरुषोंकी संगति तथा उत्तम सच्चरित्र पुरुषोंके गुणोंकी प्रशंसा करना और किसी भी पुरुषके दोष कहनेमें मौन धारण करना, एवं सभी पुरुषोंके लिये प्रिय तथा हितकारी वचन और केवल आत्मस्वरूप में ही भावना (बार बार चिंतवन) करना प्राप्त होवे ॥ ६ ॥

आर्यावृत्तं ।

तव पादौ मम हृदये मम हृदयं तव पदद्वये लीनं ।

तिष्ठतु जिनेन्द्र ! तावद्यावन्निर्वाणसंप्राप्तिः ॥ १० ॥

अर्थ—भो जिनवरदेव ! जब तक मुझे कर्मोंसे मुक्ति न मिले तब तक आपके चरणयुगल मेरे हृदयमें विराजौ तथा मेरा हृदय भी आपके चरणकमलमें लवलीन रहा आवे ॥ १० ॥

अक्षरपयत्यहीणं मत्ताहीणं च जं मए भणियं ।

तं स्वमउ णाणदेव य मज्झवि दुःक्खक्खयं दिंतु ॥११॥

अर्थ—हे अनन्तज्ञानके धररु भगवन् ! मैंने आपके पूजन स्तवनमें अक्षर, पद, अर्थ तथा मात्रामे हीन (कम) जो कुछ उच्चारण किया हो उसको क्षमा कीजिये और मेरे सांसारिक दुःख का नाश कर दीजिये ॥ ११ ॥

दुःखस्वप्नो कर्मवस्वप्नो समाहिमरणं च बोहिलाहो य ।
मम होउ जगन्ध्रुव तव जिणवर चरणसरणो ॥ १२ ॥

अर्थ—हे संसारके बन्धु ! हे जिनेश्वर ! आपके चरणोंकी शरणमे मेरे दुःखका तथा कर्मोंका नाश होवे और मुझे समाधि-मरण तथा ज्ञानकी प्राप्ति होवे ॥ १२ ॥

त्रिभुवनगुरां ! जिनेश्वर ! परमानंदैककारण कुरुष्व ।
मयि किकरेऽत्र करुणां यथा तथा जायते मुक्तिः ॥ १३ ॥

अर्थ—हे तीन लोकके स्वामिन ! हे जिनराज, हे उत्तम निरा-कुल मुन्वके एक असाधारण कारण ! मुझे जिसप्रकार मोक्ष मि-सके इस सेवक पर (मुझपर) वैसी ही दया कीजिये ॥ १३ ॥

निर्विण्योहं नितरामर्हन् ! बहुदुःखया भवस्थित्या ।
अपुनर्भवाय भवहर ! कुरु करुणामत्र मयि दाने ॥ १४ ॥

अर्थ—भो अर्हन् देव ! महादुःखकारी इस संसारके निवाससे मैं बहुत ही उदासीन हू । इसीलिये हे संसारके नाशक ! मुझ पर दया करो और मुझे ऐसा कर दो जिससे मैं दूसरा जन्म धारण न करूं ॥ १४ ॥

उद्धर मां पतितमतो विषमाद् भवकूपतः कृपां कृत्वा ।
अर्हन्नलमुद्धरणे त्वमसीति पुनः पुनर्वचि ॥ १५ ॥

अथ—हे जिनन्द्र ! झूबते हुए मुझे कृपा करके इस विषम संसारकूपसे निकालिये । मेरा उद्धार करनेमें केवल आप ही समर्थ हैं इसीलिये यह बार बार निवेदन मैं आपसे करता हूँ ।

त्वं कारुणिकः स्वामी त्वमेव शरणं जिनेश ! तेनाहं ।

माहरिपुदलितमानं फूटररणं तव पुरः कुर्वे ॥ १६ ॥

अर्थ—हे जिनेश ! आप ही दयालु हो तथा आप ही मेरे स्वामी हो और मेरे आश्रयभूत भी आप ही हो इसलिये मैं आपके सामने मोहरूपी शत्रुसे अपमानित होकर विलाप करता हूँ ॥ १६ ॥

ग्रामपतेर्गप करुणा, परेण केनाप्युपद्रुते पुंसि ।

जगतां प्रभो ! न किं तव, जिन मयि खलु कर्मभिः प्रदत्ते ॥

अर्थ—हे जिनदेव ! किसी दुष्ट मनुष्य द्वारा पीड़ित हुए दुखी पुरुष पर जब कि गांवके स्वामी एक छोटे राजाकी भी दया होती है तब क्या भो संसारके स्वामी ! कर्मोंसे पीड़ित किये गये मुझपर आपकी दया नहीं होगी ? ॥ १७ ॥

अपहर मम जन्म दयां कृत्वेत्येकवचसि वक्तव्ये ।

तेनातिदग्ध इति मे देव ! बभूव प्रलापित्वं ॥ १८ ॥

अर्थ—हे देव ! यद्यपि “दया करके मेरा संसार नष्ट कर दीजिये” मेरा वक्तव्य (कहना) केवल इसी एक वाक्यमें है तथापि मैं कर्मोंके संतापसे बहुत जला हुआ हूँ इस कारण यह सब आपके सामने प्रलाप किया है ॥ १८ ॥

तव जिनवर ! चरणाब्जयुगं करुणा।मृतशीतलं यावत् ।

संसारतापतप्तः करोमि हृदि तावदेव सुखी ॥ १९ ॥

अर्थ—हे जिनोत्तम ! संसारके संतापसे तपा हुआ मैं दयारूपी अमृतसे शीतल (ठंडे) आपके चरण कमलोंको जब तक अपने हृदयमें धारण किये रहता हूं तभी तक मैं सुखी रहता हूं ।
जगदेकशरण ! भगवन् नौमि श्रीपद्मर्नदितगुणौघ ।

किं बहुना कुरु करुणामत्र जनं शरणमापन्ने ॥ २० ॥

अर्थ—भो संसारके एक असाधारण आश्रय ! जिनके गुण बलभद्र द्वारा बढ़ाये गए हैं ऐसे हे भगवन् ! आपके लिये मैं नमस्कार करता हूं । मैं अपने दुःखोंका बहुत क्या निवेदन करूं शरणमें आये हुए मुझ पर करुणा करो ॥ २० ॥

(परिपुष्पांजलि क्षिपेत्)

अथ विसर्जनं ।

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि शास्त्रोक्तं न कृतं मया ।

तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु त्वत्प्रसादाजिनेश्वर ॥ १ ॥

अर्थ—मैं यह पूजन बुद्धिपूर्वक (जान करके) अथवा अबुद्धपूर्वक (बिना जाने) शास्त्रके अनुसार नहीं कर सका हूं । तो भी हे जिनेश ! आपके प्रसादसे (कृपादृष्टिसे) वह सभी त्रुटि (टूट-भूल) पूर्ण हो जाओ ॥ १ ॥

आह्वानं नैव जानामि नैव जानामि पूजनं ।

विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ २ ॥

अर्थ—मैं न तो आह्वान (पूज्य देवको अपने समीप बुलाना)

ही जानता हूं, न पूजन करना ही मुझे आता है तथा विसर्जन (पूजनको समाप्त करना) की विधि भी मुझे मालूम नहीं है। इसलिये हे परमेश्वर ! मेरी यह सभी त्रुटि क्षमा कीजिये ॥ २ ॥

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च ।

तत्सर्वं क्षम्यतां देव रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥ ३ ॥

यद्यपि मेरा यह पूजन मन्त्र, क्रिया तथा द्रव्यसे हीन है (कमी रखता है) तथापि हे जिनराज ! वह सभी त्रुटि (भूलि) क्षमा कीजिये और मेरी बारम्बार रक्षा कीजिये ॥ ३ ॥

आहूता ये पुरा देवा लब्धभागा यथाक्रमं ।

ते मयाभ्यर्चिता भक्त्या सर्वे यांतु यथास्थितिं ॥४॥

अर्थ—मैंने पहले पूजनके लिये जिन जिन देवोंको बुलाया था उनकी मैंने क्रमानुसार पूजाकी है यथाक्रम उनको पूजनका भाग भी प्राप्त हो चुका है अब वे सभी देव कृपा करके अपने २ स्थानको चले जाय ॥ ४ ॥

इति नित्यपूजाविधानं समाप्तं ।

इसप्रकार संस्कृत नित्यनियम पूजाविधान समाप्त हुआ ।

भाषा नित्यनियमपूजा ।

0000

ॐ जय जय जय । नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु ।

आर्या ।

शमो अरहताणं शमो सिद्धाणं शमो आइरीयाणं ॥

शमो उवज्जायाणं शमो लोए सव्वसाहूणं ॥

ॐ अनादिमूलमंत्रेभ्यो नमः ।

(यहां पुष्पांजलि क्षेपण करना)

चत्वारि मंगलं—अरहंतामंगलं सिद्धामंगलं, साहुमंगलं
केवलपणणत्तो धम्मो मंगलं । चत्वारि लोगुत्तमा—अरहंता
लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहुल'गुत्तमा, केवलपणणत्तो
धम्मो लोगुत्तमा । चत्वारि सरणं पव्वज्जामि—अरहंतसरणं
पव्वज्जामि, सिद्धसरणं पव्वज्जामि साहुसरणं पव्वज्जामि,
केवलपणणत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि ।

अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा ।

ध्यायेत्पंचनमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१॥

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ।

यः स्मरेत्परमात्मानं स बाह्याभ्यंतरे शुचिः ॥२॥

अपराजितमंत्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशनः ।

मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः ॥३॥

एसो पंचणमोयारो सब्रपापपणासणो ।

मंगलाणं च सर्वसि पढमं होइ मंगलं ॥४॥

अहेमित्यक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेष्ठिनः ।

सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम् ॥५॥

कर्माष्टकविनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनम् ।

सम्यक्त्वादिगुणापेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहम् ॥६॥

विघ्नोघाः प्रलथं यान्ति शाकिनीभूतिपन्नगाः ।

विषो निविषतां याति रतूयमान जिनेश्वरे ॥७॥

(यहां पुष्पांजलि चढ़ाना चाहिये)

उदकचंदनतंदुलपुष्पकैश्वरुसुदीपसुधूपफलार्घकैः ।

धवलमङ्गलगानरवाकुले जिनगृहे जिननाथमहं यजे ॥७॥

ॐ ह्रीं श्रीभगवज्जिनसहस्रनामभ्योऽर्घं निवेपामीति स्वाहा ।

श्रीमज्जिनेन्द्रमाभिवन्द्य जगत्त्रयेशं,

स्याद्वादनायकमनंतचतुष्टयार्हम् ।

श्रीमूलसंघसुदरां सुकृतैकहेतुजैनेन्द्र-

यज्ञविधिरेष मयाऽभ्यधायि ॥ ८ ॥

स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिनपुंगवाय,

स्वस्ति स्वभावमहिमोदयसुस्थिताय ।

स्वस्ति प्रकाशसहजाजितदृढमयाय,
 स्वस्ति प्रसन्नललिताद्भुतवैभवाय ॥
 स्वरसुच्छलिद्विमलबोधसुधाप्लवाय,
 स्वस्ति स्वभावपरभावविभासकाय ।
 स्वस्ति त्रिलोकविततैकचिदुद्गमाय,
 स्वस्ति त्रिकालसकलायतविस्तृताय ॥
 द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपं,
 भावस्य शुद्धिमधिकामधिगंतुकामः ।
 आलंबनानि विविधान्यवलंब्य बल्गन्,
 भूतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञम् ॥
 अर्हन् पुराणपुरुषोत्तम पावनानि,
 वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेक एव ।
 अस्मिन् ज्वद्विमलकेवलबोधवह्नौ,
 पुण्यं समग्रमहमेकमना जुहामि ॥

ॐ ह्रीं विधियज्ञप्रतिज्ञानाय जिनप्रतिमाग्रे पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।

श्रीवृषभो नः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअजितः । श्रीसंभवः
 स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअभिनन्दनः । श्रीसुमतिः स्वस्ति, स्वस्ति
 श्री पद्मप्रभः । श्रीसुपार्श्वः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीचन्द्रप्रभः ।
 श्रीपुष्पदंतः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशीतलः । श्रीश्रेयान्स्वस्ति,
 स्वस्ति श्रीवासुपूज्यः । श्रीविमलः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीअनंतः ।

शोधर्मः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीशांतिः । श्रीकुन्धुः स्वस्ति,
स्वस्ति श्रीअरनाथः । श्रीमल्लिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीमुनि-
सुव्रतः । श्रीनमिः स्वस्ति, स्वस्ति श्रीनेमिनाथः, श्रीपार्श्वः
स्वस्ति, स्वस्ति श्रीवर्द्धमानः ।

(पुष्पांजलिं क्षिपेत्)

नित्याप्रकम्पाद्भुतकेवलौघाः स्फुरन्मनःपर्ययशुद्धबोधाः ।
दिव्यावधिज्ञानबलप्रबोधाः स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥
काष्ठस्थधान्योपममेकबीजं संभिन्नसंश्रोतृपदानुसारि ।
चतुर्विधं बुद्धिबलं दधानाः स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥
संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरादास्वादनघ्राणविलोकनानि ।
दिव्यान्मतिज्ञानबलाद्बहन्तः स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥
प्रज्ञाप्रधानाः श्रमणाः समृद्धाः प्रत्येकबुद्ध्या दशसर्वपूर्वैः ।
प्रवादिनोऽष्टांगनिमित्तविज्ञाः स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥
जङ्घावलिश्रेणिफलाम्बुतन्तुप्रसूनबीजाङ्कुरचारणाह्वाः ।
नभोऽङ्गणस्वैरविहारिणश्च स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥
अग्निमि न दक्षाः कुशला महिमि न लघिमि न शक्ताः कृतिनो गरिमि न
मनोवपुर्वाग्वलिनश्च नित्यं स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥
सकामरूपित्ववशित्वमैश्वर्यं प्राकाम्यमन्तद्विमथाप्तिमाप्ताः ।
तथाऽप्रतीघातगुणप्रधानाः स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥

दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपोघोरपराक्रमस्थाः ॥
 ब्रह्मावरं घोग्गुणाश्चरन्तः स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥
 आमर्षसर्वोपधयस्तथाशीविषंविषा दृष्टिविषंविषाश्च ।
 सखिल्लविड्जल्लमलौपधीशाः स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥
 क्षीरं स्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्तः ।
 अक्षीणसंवासमहानसाश्च स्वस्तिक्रियासुः परमर्षयो नः ॥
 इति स्वस्तिमंगलविधानं ।

देवशास्त्रगुरुकी भाषापूजा ।

अडिल्ल छंद ।

प्रथमदेव अग्रहंत सुश्रुतसिद्धांत जू ।

गुरु निरग्रंथ महंत मुकतिपुरपंथ जू ॥

तीन रतन जगमाहिं सो ये भवि ध्याइये ।

तिनकी भक्ति प्रसाद परमपद पाइये ॥१॥

दोहा ।

पूजों पद अरहंतके, पूजों गुरुपदसार ।

पूजों देवी सरस्वती, नितप्रति अष्टप्रकार ॥२॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुसमूह ! अत्र अवतर अवतर । संबौषट् ।

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुसमूह ! अत्र निष्ठ तिष्ठ ! ठः ठः ।

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुसमूह ! अत्र मम सन्निहितो भव भव ।

वषट् ।

गीता छंद ।

सुरपति उरगनरनाथ तिनकर, बंदनीक सुपदप्रभा ।
अति शोभनीक सुवरण उज्जल, देख छवि मोहि-सभा
वर नीर क्षीरसमुद्रघटभरि, अग्र तसु बहुविधि नचूं ।
अरहंत श्रुतसिद्धांतगुरुनिरग्रंथ नितपूजा रचूं ॥ १ ॥

दोहा ।

मलिनववस्तु हर लेत सब, जलस्वभाव मलछीन ।
जासौं पूजौं परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ १ ॥

जे त्रिजग उदरमभार प्रानी, तपत अति दुद्धर खरे ।
तिन अहितहृग्न सुवचन जिनके, परम शीतलता भरे ॥
तसु अमरलोभित द्वाणपावन, सरस चंदन घिसि सचूं ।
अरहंत श्रुतसिद्धांत गुरुनिरग्रंथ नितपूजा रचूं ॥ २ ॥

दोहा ।

चंदन शीतलता करै, तपतवस्तु परवीन ।
जासौं पूजौं परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥२॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यः संसारतापविनाशनाय चंदनं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ २ ॥

यह भवसमुद्र अपार तारण, -के निमित्त सुविधि ठई ।
अति दृढ़ परमपावन जथारथ, भक्तिवर नौका सही ॥

उज्जल अखंडित सालि तंदुल, पुञ्ज धरिं त्रयगुण जचूं ।
अरहंत श्रुतसिद्धांतगुरुनिरग्रंथ नितपूजा रचूं ॥ ३ ॥

दोहा ।

तंदुल सालि सुगधि अति, परम अखंडित चीन ।
जासों पूजों परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥३॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यः अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

जे विनयवंत सुभव्यउरअम्बुजप्रकाशन भान हैं ।
जे एकमुखचारित्र भाषत, त्रिजगमाहिं प्रधान हैं ॥
लहि कुंदकमलादिक पहुप, भव भव कुवेदनसों बचूं ।
अरहंत श्रुतसिद्धांत गुरुनिरग्रंथ नितपूजा रचूं ॥ ४ ॥

दोहा ।

विविधभांति परिमल सुमन, अमर जास आधीन ।
जासों पूजों परमपद, देवशास्त्र गुरु तीन ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यः कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

अति सबल मदकंदर्प जाको, जुधा उरग अमान है ।
दुस्सह भयानक तासु नाशनको सु गरुडसमान है ॥
उत्तम छहों रसयुक्त नित नैवेद्य करि घृतमें पचूं ।
अरहंत श्रुतसिद्धांत गुरुनिरग्रंथ नितपूजा रचूं ॥५॥

दोहा ।

नानाविध संयुक्तरस, व्यंजन सरस नवीन ।
जासों पूजों परमपद, देवशास्त्र गुरु तीन ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यः क्षुधारोगविनाशनाय चक्रं निर्वपा-
मीति स्वाहा ॥ ५ ॥

जे त्रिजग उद्यम नाश कीने मोहतिमिर महाबला ।
तिहिकर्मघाती ज्ञानदीपप्रकाशजोति प्रभावली ॥
इह भांति दीप प्रजाल कंचनके सुभाजनमें खचूं ।
अरहंत श्रुतसिद्धांतगुरुनिरग्रंथ नितपूजा रचूं ॥६॥

दोहा ।

स्वपरप्रकाशक जोति अति, दीपक तमकरि हीन ।
जासों पूजों परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो मोहांधकारविनाशनाय दीपं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ ६ ॥

जां कर्म-ईंधन दहन अग्निसमूह सम उद्धत लसै ।
वर धूप तासु सुगंधिताकरि सकलपरिमलता हंसै ॥
इह भांति धूप चढाय नित भवज्वलनमाहिं नहीं पचू ।
अरहंत श्रुतसिद्धांत गुरुनिरग्रंथ नितपूजा रचूं ॥ ७ ॥

दोहा ।

अग्निमाहिं परिमल दहन, चंदनादि गुणुलीन ।
जासों पूजों परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्योऽष्टकर्मविध्वंसनाय धूपं निर्वपामीति
स्वाहा ॥ ७ ॥

लोचन सुरसना घ्रान उर, उत्साहके करतार हैं ।
मोप न उपमा जाय वरणी, सकलफलगुणसार हैं ॥
सो फल चढावत अर्धपूरन, परम अमृतरस सचूं ।
अरहंत श्रुतसिद्धांत गुरुनिरग्रंथ नितपूजा रचूं ॥ ८ ॥
दोहा ।

जे प्रधान फल फलविपै, पंचकरणा-रसलीन ।
जासों पूजों परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति
स्वाहा ॥ ८ ॥

जल परम उज्ज्वल गंध अक्षत, पुष्प चरु दीपक धरूं ।
वर धूप निर्मल फल विविध, बहुजनमके पातक हरूं ॥
इहभांति अर्घ चढाय नित भवि, करत शिवपंकतिमचूं ।
अरहंत श्रुतसिद्धांत गुरुनिरग्रंथ नितपूजा रचूं ॥ ९ ॥
दोहा ।

वसुविधि अर्घ संजोयकै, अति उछाह मन कीन ।
जासों पूजों परमपद, देव शास्त्र गुरु तीन ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्योऽनर्घपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति
स्वाहा ॥ ९ ॥

जयमाला ।

देवशास्त्रगुरु रत्न शुभ, तीनरतनकरतार ।

भिन्न भिन्न कहुं आरती, अल्प सुगुणविस्तार ॥ १ ॥

पद्धरी छंद ।

कर्मनिकी त्रेसठ प्रकृति नाशि, जीते अष्टादश दोषराशि ।
 जे परम सुगुण हैं अनंत धीर, कइवतके छबालिस गुण गंभीर ॥
 शुभ समवसरणशोभा अपार, शत इंद्र नमत कर सीस धार ।
 देवाधिदेव अरहंत देव, बंदों मनबचतनकरि सु सेव ॥३॥
 जिनकी धुनि हूँ ओंकाररूप, निरअक्षयमय महिमा अनूप ।
 दश-अष्ट महाभाषा समेत, लघुभाषा सात शतक सुचेत ॥४॥
 सो स्यादवादमय सप्तभंग, गणधर गूँथे बारह सु अंग ।
 रवि शशि न हरै सो तम हराय, सो शास्त्र नमों बहुप्रीति न्याय
 गुरु आचारज उवभाय साध, तन नगन रतनत्रयनिधि अगाध
 संसारदेहवैराग धार, निरवांछि तपै शिवपद निहार ॥ ६ ॥
 गुण छत्तिस पचिम आठवीस, भवतारनतरन जिहाज ईस ।
 गुरुकी महिमा वरनी न जाय, गुरु नाम जपों मनबचनकाय ॥

सोरठा ।

कीजे शक्ति प्रमान, शक्ति विना सरधा धरै ।

“द्यानत” सरधावान, अजर अमरपद भोगवै ॥८॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो महाधर्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

बीस तीर्थङ्करपूजा भाषा ।

दीप अढाई मेरु पन, अब तीर्थकर बीस ।

तिन सबकी पूजा करूँ, मनवचतन धरि सीस ॥१॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकराः ! अत्र अवतरत अवतरत संवोषट्

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकराः ! अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः ।

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकराः ! अत्र मम सन्निहिता भवत
भवत वषट् ।

इन्द्र फर्षांद्र नरेंद्र-बंध, पद निर्मल-धारी ।

शाभनीक संसार, सारगुण हैं अविकारी ॥

शीरोदधि सम नीरसों (हों), पूजों तृषा निवार ।

सीमंधर जिन आदि दे, बीम विदेह मंभार ॥

श्रीजिनराज हां भव, तारणतरण जहाज ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्यो जन्ममृत्युविनाशनाय
जलं निर्वापामीति स्वाहा ॥

(इस पूजामे बीस पुंज करना हो, तो इस प्रकार मंत्र बोलना चाहिये)

ॐ ह्रीं सीमन्धर-युग्मन्धर-बाहु-सुबाहु-संजात-स्वयंप्रभ-
शुभमानन-अनंतवीर्य-सूरप्रभ-बिशालकीर्ति-वज्रधर-चंद्रानन-
भद्रबाहु-भुजंगम-ईश्वर-नेमिप्रभ-वीरपेण-महाभद्र-देवयशोऽजि-
तवीर्येतिविंशतिविद्यमानतीर्थकरेभ्यो जन्ममृत्युविनाशनाय जलं
निर्वापामीति स्वाहा ।

तीनलोकके जीव, पाप आताप सताये ।

तिनकों साता दाता, शीतल बचन मुहाये ॥

बाधन चंदनसौ जजूं (हो), भ्रमनतपन निरवार । सीमं०

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्यो भवतापविनाशनाय चंदनं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

(इसके स्थानमे यदि इच्छा हो, तो बड़ा मंत्र पढ़े)

यह संसार अपार, महासागर जिनस्वामी ।

तातै तारे बड़ी भक्ति-नोका जगनामी ॥

तंदुल अमलसुगंधसौं (हो) पूजों तुम गुणसार । सीमं० ॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्योऽक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्
निर्वपामीति स्वाहा ।

भविक-सरोज-विकाश, निधतमहर रविसे हो ।

जति-श्रावक आचार, कथनको तुम्ही बड़े हो ॥

फूलसुवास अनेकसौं (हो), पूजों मदन प्रहार । सीमं० ॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्यः कामवाणविध्वंसनाय
पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

कामनाग विषधाम,—नाशको गरुड कहे हो ।

छुधा महादवज्वाल, तासुको मेघ लहे हो ॥

नेवज बहुघृत मिष्टसौं (हो), पूजों भूखविडार । सीमं० ॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्यः क्षुधारोगविनाशनाय
नैवेद्यं निर्व० ॥ ५ ॥

उद्यम होन न देत, सर्व जगमाहि भर्यो है ।

मोह महातमघोर, नाश परकाश कर्यो है ॥

पूजों दीपप्रकाशसों (हो) ज्ञानज्योतिकरतार ॥
 सीमन्धर जिन आदि दे, वीस विदेह मफ्फार ।
 श्रीजिनराज हां भव तारण तरण जहाज ॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविशतितीर्थकरेभ्यः मोहांधकारविनाशनाय
 दीपं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥

कर्म आठ सब काठ,—मार विस्तार निहारा ।
 ध्यान अगनिकर प्रगट, सरव कीनो निरवारा ॥
 धूप अनूपम खेवतें (हो), दुःख जलैं निरधार । सीमं०

ॐ ह्रीं विद्यमानविशतितीर्थकरेभ्योऽष्टकर्मविध्वंसनाय धूपं
 निर्वपामीति स्वाहा ।

मिथ्यावादी दुष्ट, लोभऽहंकार मरे हैं ।
 सबको छिनमें जीत, जैनके मेर खरे हैं ॥
 फल अति उत्तमसो जजों (हो) वांछितफलदातार । सीमं०

ॐ ह्रीं विद्यमानविशतितीर्थकरेभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं
 निर्वपामीति स्वाहा ।

जल फल आठों दर्व, अरघ कर प्रीति धरी है ।
 गणधर इन्द्रनिहूतैं, धुति पूरी न करी है ॥
 “दानत” सेवक जानके (हो) जगतैं लेहु निकार । सीमं०

ॐ ह्रीं विद्यमानविशतितीर्थकरेभ्योऽनर्घपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्व-
 पामीति स्वाहा ।

अथ जयमाला ।

सोरठा ।

ज्ञानसुधाकर चन्द, भविकखेतहित मेघ हो ।

अमतमभान अमन्द, तीर्थकर बीसों नमों ॥ १ ॥

चौपाई ।

सीमंधर सीमंधर स्वामी, जुगमन्धर जुगमन्धर नामी ।
 बाहु-बाहु जिन जगजन तारे, करम सुबाहु बाहुबल दारे ॥
 जात सुजातं केवलज्ञानं, स्वयंप्रभु प्रभु स्वयं प्रधानं ।
 ऋषभानन ऋषि भानन दोषं, अनंतवीरज वीरजकोषं ॥२॥
 सौरीप्रभ सौरीगुणमालं, सुगुण विशाल विशाल दयालं ।
 वज्रधार भवगिरिवज्रर हैं, चन्द्रानन चन्द्रानन वर हैं ॥३॥
 भद्रबाहु भद्रनिके करता, श्रीभुजंग भुजंगम हरता ।
 ईश्वर सबके ईश्वर छाजें, नेमिप्रभु जस नेमि विराजें ॥४॥
 वीरसेन वीरं जग जानै, महाभद्र महाभद्र बखाने ।
 नमों जसोधर जसधरकारी, नमों अजितवीरज बलकारी ॥५॥
 धनुष पांचसै काय विराजं, आव काडिपूरव सब छाजै ।
 समवसरण शोभित जिनराजा, भवजलतारनतरन जिहाजा ॥
 सम्यक इत्नत्रयनिधिदानी, लोकालोक प्रकाशक ज्ञानी ।
 शत इन्द्रनिकरि बंदित सोहैं, सुरनर पशु सबके मन मोहैं ॥

[१०४]

दोहा ।

तुमको पूजै बंदना, करै धन्य नर सोय ।

‘द्यानत’ सरधा मन धरै, सो भी धरमी होय ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं विद्यमानविंशतितीर्थकरेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

विद्यमान बीस तीर्थकरोंका अर्घ ।

उदकचन्दनतंदुलपुष्पकैश्वरुमुदीपसुधूपफलार्घकैः ।

धवलमंगलगानरवाकुले जिनगृहे जिनराजमहं यजे ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं सीमंधरयुग्मंधरबाहुसुबाहुसंजातस्वर्यप्रभञ्जपभानन-
अनन्तवीर्यसूरप्रभविशालकीर्तिवअधरचन्द्राननभद्रबाहुभुजंगमई-
श्वरनेमिप्रभवीरसेनमहाभद्रदेवयशअजितवीर्येति विंशतिविद्यमान-
तीर्थकरेभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

अथ तीनलोकसम्बन्धिअकृत्रिमचैत्यालयपूजा ।

चौपाई ।

आठ किरौड़ रु छप्पन लाख,

सहस सत्याणव चतुशत भाख ।

जोड़ इक्यासी जिनवर थान,

तीनलोक आह्वान करान ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटिपट्पञ्चाशत्सप्तनवतिसहस्र-
चतुःशतैकाशीतिअकृत्रिमजिनचैत्यालयानि अत्राबतरतावतरत ।
संवैपट् ।

ॐ ह्रीं त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटिषट्पञ्चाशत्सप्तनवतिसहस्र-
चतुःशतैकाशीतिअकृत्रिमजिनचैत्यालयानि अत्र तिष्ठत तिष्ठत ।
ठः ठः

ॐ ह्रीं त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटिषट्पञ्चाशत्सप्तनवतिसहस्र-
चतुःशतैकाशीतिअकृत्रिमजिनचैत्यालयानि अत्र मम सन्निहितानि
भवत भवत । वषट् ।

अथाष्टक ।

छंद त्रिभंगी ।

छीरोदधिनीरं, उज्जलसीरं,
छान सुचीरं, मरि भारी ।
अति मधुरलखावन, परम सुपावन,
तृषा बुभावन गुणभारी ॥
वसुकोटि सु छप्पन लाख सताणव,
सहस चारसत इक्यासी ।
जिनगेह अकीर्तिम तिहुंजगभीतर,
पूजत पद ले अविनासी ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटिषट्पञ्चाशत्सप्तनवतिसहस्र-
चतुःशतैकाशीतिअकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्यो जलं निर्बपामि ॥१॥

मलयागिरपावन, चन्दनबावन,
तापबुभावन, घसि लीनो ।

धरि कनककटोरी, ड़ैकर जोरी,
 तुमपद ओरी चित दीनी ॥
 वसुकोटि सु छप्पनलाख सताखव,
 सहस चारसत इक्यासी ।
 जिनगेह अकीर्तिम तिहुंजगभीतर,
 पूजत पद ले अविनासी ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं त्रैलोक्यसम्बन्धयष्टकोटिषट्पञ्चाशलक्षसप्तनवतिसहस्र-
 चतुःशतैकाशीतिअकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्यः चंदनं निर्वपामि ॥२॥

बहुभांति अनांखे, तंदुल चोखे,
 लखि निरदोखे हम लीने ।
 धरि कंचनथाली, तुम गुणमाली,
 पुञ्जविशाली, कर दीने ॥
 वसुकोटि सु छप्पनलाख सताखव,
 सहस चारसत इवयासी ।
 जिनगेह अकीर्तिम तिहुंजगभीतर,
 पूजत पद ले अविनासी ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं त्रैलोक्यसम्बन्धयष्टकोटिषट्पञ्चाशलक्षसप्तनवतिसहस्र-
 चतुःशतैकाशीतिअकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्यो अक्षतान्निर्वपामि ॥३॥

शुभ पुष्प सुजाती, है बहु भांती,
 अलि लिपटाती लेय बर ।

धरि कनकरकेपी, कर गहलेवी,
 तुमपद जुगकी भेट धरं ॥
 वसुकोटि सु छप्पनलाख सताणव,
 सहस चारसत इक्यासी ।
 जिनगेह अकीर्तिम तिहुंजगभीतर,
 पूजत पद ले अविनासी ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटिषट्पञ्चाशल्लक्षसप्तनवतिसहस्र-
 चतुःशतैकाशीतिअकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्यः पुष्पं निर्वपामि ॥४॥

सुरमा जु गिंदौड़ा बरफी पेड़ा,
 घेवर मोदक भरि थारी ।
 विधिपूर्वक काने, घृतपय भीने,
 खँड में लीने सुखकारी ॥

वसुकोटि सु छप्पनलाख सताणव,
 सहस चारशत इक्यासी ।
 जिनगेह अकीर्तिम तिहुंजगभीतर,
 पूजत पद ले अविनासी ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटिषट्पञ्चाशल्लक्षसप्तनवतिसहस्र-
 चतुःशतैकाशीतिअकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामि ॥५॥

मिथ्यात महातम, छाया रह्यो हम,
 निबभब परशति नहिं छजै ।

इहकारण पाकें, दीप सजाकें,
 थाल धराकें हम पूजें ॥
 बसुकोटि सु छप्पनलाख सताणव,
 सहस चारशत इक्यासा ।
 जिनगेह अकीर्तिम तिहुंजगभीतर,
 पूजत पद ले अविनासी ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं त्रैलोक्यसम्बन्धयष्टकोटिषट्पञ्चाशत्सप्तनवतिसहस्र-
 चतुःशतैकाशीति अकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्यो दीपं निर्वपामि ॥६॥

दशगंध कुटाकें, धूप बनाकें,
 निजकर लेकें, धरि ज्वाला ।
 तस धूम उड़ाई, दशदिश छाई,
 बहु महकाई, अति आला ॥

बसुकोटि सु छप्पनलाख सताणव,
 सहस चारसत इक्यासी ।
 जिनगेह अकीर्तिम तिहुंजगभीतर,
 पूजत पद ले अविनासी ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं त्रैलोक्यसम्बन्धयष्टकोटिषट्पञ्चाशत्सप्तनवतिसहस्र-
 चतुःशतैकाशीति अकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्यो धूपं निर्वपामि ॥७॥

बादाम छुहारे, श्रीफल धारे,
 पिस्ता प्यारे, द्राखवरं ।

इन आदि अनोखे, लखि निरदोखे,
थाल पजोखे, भेट धरं ॥

बसुकोटि सु छप्पनलाख सताणव,
सहस चारसत इक्यासी ।

जिनगेह अकीर्तिम तिहुंजगभीतर,
पूजत पद ले अविनासी ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटिपट्पञ्चाशल्लक्षसप्तनवतिसहस्र-
चतुःशतैकाशीति अकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्यः फलं निर्वपामि ॥८॥

जल चन्दन तन्दुल, कुसुम रु नेवज,
दीप धूप फल, थाल रचौं ।

जयघोष कराऊं, बीन बजाऊं,
अर्घ चढ़ाऊं, खूब नचाँ ॥

बसुकोटि सु छप्पनलाख सताणव,
सहस चारसत इक्यासी ।

जिनगेह अकीर्तिम तिहुंजगभीतर,
पूजत पद ले अविनासी ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटिपट्पञ्चाशल्लक्षसप्तनवतिसहस्र-
चतुःशतैकाशीति अकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि ॥९॥

अथ प्रत्येक अर्घ ।

चौपाई ।

अधोलोक जिनआगमसाख, सात कोटि अरु बहतरलाख ।
श्री जिनभवनमहा छवि देइ, ते सब पूजों वसुविध लेइ ॥१॥

ॐ ह्रीं अधोलोकसम्बन्धिसप्तकोटिद्विसप्ततिलक्षाकृत्रिमश्रीजिन-
चैत्यालयभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि ॥ १ ॥

मध्यलोकजिनमन्दिरठाठ, साढेचारशतक अरु आठ ।
ते सब पूजों अर्घ चढ़ाय, मनवचतन त्रय जोगमिलाय ॥२॥

ॐ ह्रीं मध्यलोकसम्बन्धितुःशताष्टपञ्चशत्श्रीजिनचैत्यालये-
भ्यो अर्घ्यं निर्वपामि ॥ २ ॥

अडिल्ल ।

ऊर्द्धलोकके माहिं भवनजिन जानिये
लाख चौरासी सहस सत्याणव मानिये ॥
ताप धरि तेईस जर्जां शिरनायकें
कंचनथालमभार जलादिक लायकें ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं ऊर्द्धलोकसम्बन्धितुरशीतिसप्तनवतिसहस्रत्रयोविं-
शतिश्रीजिनचैत्यालयेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि ॥ ३ ॥

गीताछंद ।

वसुकोटि छपनलाख ऊपर, सहससत्याणव मानिये ।
शतचारपै गिनले इक्यासी, भवनजिनवर जानिये ॥

तिहुँलोकभीतर सासते, सुर असुर नर पूजा करें ।
तिन भवनको हम अर्घलेके, पूजिहैं जगदुख हरेँ ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटिषट्पञ्चशलक्षसप्तनवतिसहस्र-
चतुःशतैकाशीतिअकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्यो पूर्णार्घ्यं निर्वपामि ॥४॥

अथ जयमाला ।

बोहा ।

अब वरणों जयमालिका, सुनो भव्य चितल्याय ।
जिनमंदिर तिहुँलोकके, लेहुँ सकल दरसाय ॥ १ ॥

पद्धरीछंद ।

जय अमल अनादि अनन्त जान,
अनमित जु अर्कातेम अचल मान ।

जय अजय अखण्ड अरूप धार,
षट्द्रव्य नहीं दीसें लगार ॥ २ ॥

जय निराकार अतिकार होय,
राजत अनन्त परदेश सोय ।

जय शुद्ध सगुण अवगाह पाय,
दशदिशामांहि इहविधि लखाय ॥ ३ ॥

यह भेद अलोकाकाश जान,
तामध्य लोकनभ तीन मान ।

स्वयमेव बन्यो अविचल अनन्त,
अविनाशी अनादि जु कठत संत ॥ ४ ॥

पुरुषाअकार ठाढ़ा निहार,
कटि हाथ धारि द्वै पग पसार ।
दच्छिन उत्तरदिशि सर्व ठौर,
राजू जु सात भाख्यो निचोर ॥ ५ ॥

जय पूर्व' अपर दिश घाटबाधि,
सुन कथन कहूँ ताको जु साधि ।
लखि श्वअतले राजू जु सात,
मधिलोक एक राजू रहात ॥ ६ ॥

फिर ब्रह्म सुरग राजू जु पांच,
भू सिद्ध एक राजू जु सांच ।
दश चार ऊंच राजू गिनाय,
षट्द्रव्य लये चतुकोण पाय ॥ ७ ॥

तस वातवलय लपटाय तीन,
इस निराधार लखियो प्रबीन ।
त्रसनाड़ी तामधि जान खास,
चतुकोन एक राजू जु व्यास ॥ ८ ॥

राजू उत्तंग चौदह प्रमान,
लखि स्वयंसिद्ध रचना सयान ।

तामध्य जीव त्रस आदि देय,
 निज थान पाय तिष्ठे भलेय ॥ ९ ॥
 लखि अधोभागमें श्वभ्रथान,
 गिण सात कहे आगम प्रवान ।
 षटथानमांहि नारकि वसेय,
 इक श्वभ्रभाग फिर तीन भेय ॥ १० ॥
 तस अधोभाग नारकि रहाय,
 फुनि उरधभाग द्वयथान पाय ।
 बस रहे भवन व्यंतर जु देव,
 पुर हर्म्य छजे रचना स्वमेव ॥ ११ ॥
 तिह थान गेह जितराज भाख,
 गिन सातकोटि बहतारि जु लाख ।
 ते भवन नमो मन्वचनकाय,
 गति श्वभ्र हरनहारे लखाय ॥ १२ ॥
 फुनि मध्यलाक गालाअकार,
 लखि द्वीप उदधि रचना विचार ।
 गिण असंख्यात भाखे जु संत,
 लखि संभ्रमन सबके जु अन्त ॥ १३ ॥
 इक राजुव्यासमें सर्व जान,
 मधिलोकतणो इह कथन मान ।

सधमध्य द्वीप जंबू गिनेय,
 त्रयदशम रुचिकवर नाम लेय ॥ १४ ॥
 इन तेरहमें जिनधाम जान,
 सतचार अठावन हैं प्रमान ।
 खग देव असुरनर आय आय,
 पद पूज जाय शिर नाव-नाय ॥ १५ ॥
 जय उर्द्ध्वलोक सुर कल्पवास,
 तिहँ धान छजे जिनभवन खास ।
 जय लाख चौरासीप लखेय,
 जय सहस सत्याणव और ठेय ॥ १६ ॥
 जय बीसतीन फुनि जोड़ देय,
 जिनभवन अकीरतम जान लेय ।
 प्रतिभवन एक रचना कहाय,
 जिनबिंब एकशत आठ पाय ॥ १७ ॥
 शतपंच धनुष उन्नत लसाय,
 पदमासनजुत वर ध्यान लाय !
 शिर तीनछत्र शोभित विशाल
 त्रय पादपीठ मणिजड़ित लाल ॥ १८ ॥
 भामण्डलकी छवि कौन गाय,
 फुनि चँवर दुरत चौसठि लखाय ।

जय दुन्दभिरव अदभुत सुनाय,
जय पुष्पवृष्टि गंधोदकाय ॥ १९ ॥

अय तरु अशाक शाभा भलेय
मंगल विभूति राजत अमेय ।

घटतूप छजे मण्णिमाल पाय,
घटधूपधूम दिग सर्व छाया ॥ २० ॥

जय केतुपंक्ति सोई महान,
गंधर्वदेव गुन करत गान ।

सुर जनम लेत लखि अवधि पाय,
तिस थान प्रथम पूजन कराय ॥ २१ ॥

जिनगोहतण्णौ वरनन अपार,
हम तुच्छबुद्धि किम लहत पार ।

जय देव जिनेसुर जगत भूप,
नमि 'जेम' मँगै निज देहु रूप ॥ २२ ॥
दोहा ।

तीनलोकमें सासते, श्रीजिनभवन विचार ॥

मनवचतन करि शुद्धता, पूजाँ अरघ उतार ॥ २३ ॥

ॐ ह्रीं त्रैलोक्यसम्बन्ध्यष्टकोटिषट्पञ्चाशत्सप्तमनवतिसहस्र-
चतुःशतैकाशीति अकृत्रिमश्रीजिनचैत्यालयेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि ॥

कवित्त ।

तिहुं जगर्भातर श्रीजिनमंदिर, बने अकीर्त्तम अति सुखदाय ।
नर सुर खग करि वंदनीक जे, तिनको भविजन पाठ कराय ॥
धनधान्यादिक संपति तिनके, पुत्रपौत्र सुख होत भलाय ।
चत्रा सुर खग इंद्र होयकें, करम नाश सिवपुर सुख थाय ॥२४॥

इत्याशीर्वादाय पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।

तीनलोकसम्बन्धी कृत्रिम-अकृत्रिम चैत्यालयोका अघ ।
सातकरोड़ बहत्तरलाख पाताल विषै जिन मन्दिर जानो ।
मध्य लोकमें चारसौ अट्टावन व्यंतर ज्यातिषके अधिकानो ॥
लाखचौरासी हजारसत्तानवे तेईस ऊरध लोक बखानो ।
इक-इकमें प्रतिभा शतआठ नमों कर जोड़ त्रिकाल सयानो ॥
ॐ ह्रीं तीनलोकसम्बन्धि-कृत्रिमअकृत्रिमजिनचैत्यालयेभ्यो अर्घ ।
इति तीनलोकसम्बन्धिअकृत्रिमचैत्यालयपूजा ।

अथ सिद्धचक्रपूजा ।

अडिल्ल ।

अष्ट करमकरि नष्ट अष्ट गुण पायकें,
अष्टमवसुधामाहिं विराजे जायकें ।
एसे सिद्ध अनन्त महन्त मनायकें,
संवैषट् आह्वान करूँ हरषायकें ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं एमोसिद्धाणं सिद्धपरमेष्ठिन् अत्र अवतर अवतरं । संवौषट्

ॐ ह्रीं एमोसिद्धाणं सिद्धपरमेष्ठिन् अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।

ॐ ह्रीं एमोसिद्धाणं सिद्धपरमेष्ठिन् अत्र मम सन्निहितो भव भव ।

त्रिभंगी ।

हिमवनगत गंगा आदि अभंगा, तीर्थ उतंगा सरवंगा ।

आनिय सुरसंगा सलिल सुरंगा, करि मन चंगा भरि भ्रङ्गा ॥

त्रिभुवनके स्वामी त्रिभुवनकामी, अन्तरजामी अभिरामी ।

शिवपुरविश्रामी निजनिधिपामी, सिद्धजजामी शिरनामी ॥१॥

ॐ ह्रीं अनाहतपराक्रमाय सकलकर्मविनिर्मुक्ताय श्रीसिद्ध-
चक्राधिपतये जलं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

हरिचन्दन लायो कपूर मिलायो, बहु महकायो मनभायो ।

जलसंग घसायो रंग सुहायो, चरन चढ़ायो हरषायो ॥

त्रिभुवनके स्वामी त्रिभुवनकामी, अन्तरजामी अभिरामी ।

शिवपुरविश्रामी निजनिधिपामी, सिद्धजजामी शिरनामी ॥२॥

ॐ ह्रीं अनाहतपराक्रमाय सकलकर्मविनिर्मुक्ताय श्रीसिद्ध-
चक्राधिपतये चन्दनं निर्वपामि ॥ २ ॥

तंदुल उजियारे शशिशुति टारे, कोमल प्यारे अनियारे ।

तुषखण्ड निकारे जलसुपस्वारे, पुंज तुम्हारे ढिंग धारे ॥

त्रिभुवन स्वामी त्रिभुवनकामी, अन्तरजामी अभिरामी ।

शिवपुरविश्रामी निजनिधिपामी, सिद्धजजामी शिरनामी ॥३॥

ॐ ह्रीं अनाहतपराक्रमाय सकलकर्मविनिर्मुक्ताय श्रीसिद्धच-
क्राधिपतये अक्षतान् निर्वपामि ॥ ३ ॥

सुरतकृकी बारी प्रीतिविहारी, करि या प्यारी गुलजारी ।
भरि कंचनथारी मालसँवारी, तुमपदधारी अतिसारी ॥
त्रिभुवनके स्वामी त्रिभुवनकामी, अन्तरजामी अभिरामी ।
शिवपुरविश्रामी निजनिधिपामी, सिद्धजजामी शिरनामी । ४ ॥

ॐ ह्रीं अनाहतपराक्रमाय सकलकर्मविनिर्मुक्ताय श्रीसिद्धच-
क्राधिपतये पुष्पं निर्वपामि ॥ ४ ॥

पकवान निवाजे स्वाद विराजे, अमृत लाजे क्षुत भाजे ।
बहु मोदक छाजे घेवर खाजे, पूजनकाजे करि ताजे ॥
त्रिभुवनके स्वामी त्रिभुवनकामी, अन्तरजामी अभिरामी ।
शिवपुरविश्रामी निजनिधिपामी, सिद्धजजामी शिरनामी ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं अनाहतपराक्रमाय सकलकर्मविनिर्मुक्ताय श्रीसिद्धच-
क्राधिपतये नैवेद्यं निर्वपामि ॥ ५ ॥

आपापर भासै ज्ञानप्रकासै, चित्तविकासै तम नासै ।
ऐसे विधत्वासे दोष उजासे, धरि तुमपासे उद्धासे ॥
त्रिभुवनके स्वामी त्रिभुवनकामी, अन्तरजामी अभिरामी ।
शिवपुरविश्रामी निजनिधिपामी, सिद्धजजामी शिरनामी ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं अनाहतपराक्रमाय सकलकर्मविनिर्मुक्ताय श्रीसिद्धच-
क्राधिपतये दीपं निर्वपामि ॥ ६ ॥

चुम्बत अलिमाला, गधविशाला, चन्दनकाल, गरुडाला ।
 तस चूर्ण रसाला, करि ततकाला, अगनीज्वालामें डाला ॥
 त्रिभुवनके स्वामी त्रिभुवनकामी, अन्तरजामी अभिरामी ।
 शिवपुरविश्रामी निजनिधिपामी सिद्धजजामी शिरनामी ॥७॥

ॐ ह्रीं अनाहतपराक्रमाय सकलकर्मविनिमुक्ताय श्रीसिद्धच-
 काधिपतये धूपं निर्वपामि ॥ ७ ॥

श्रीफल अतिभारा, पिस्ता प्यारा, दाख छुहारा सहकारा ।
 ऋतुऋतुका न्यारा, सत्फलसारा, अपरम्पारा लौ धारा ॥
 त्रिभुवनके स्वामी त्रिभुवनकामी, अन्तरजामी अभिरामी ॥
 शिवपुरविश्रामी निजनिधिपामी, सिद्धजजामी शिरनामी ॥८॥

ॐ ह्रीं अनाहतपराक्रमाय सकलकर्मविनिमुक्ताय श्रीसिद्धच-
 काधिपतये फल निर्वपामि ॥ ८ ॥

जलफलबसुवृन्दा अरघ अमंदा, जजत अनंदाके कंदा ।
 मेटो भवफंदा, सब दुखदंदा, हीराचंदा, तुम बंदा ॥
 त्रिभुवनके स्वामी त्रिभुवनकामी, अन्तरजामी अभिरामी ।
 शिवपुरविश्रामी निजनिधिपामी, सिद्धजजामी शिरनामी ॥९॥

ॐ ह्रीं अनाहतपराक्रमाय सकलकर्मविनिमुक्ताय श्रीसिद्धच-
 काधिपतये अर्घ्यं निर्वपामि ॥ ९ ॥

अथ जयमाला ।

दोहा ।

ध्यानदहन विधिदारु दहि, पायो पद निरवान ।
पंचभावजुत थिर थये, नमौ सिद्ध भगवान ॥ १ ॥

त्रोटक छंद ।

सुखसम्यक दर्शन ज्ञान लहा,
अगुरुलघु सूक्ष्म वीर्य महा ।
अवगाह अबाध अघायक हो,
सब सिद्ध नमौ सुखदायक हो ॥ २ ॥

असुरेंद्र सुरेंद्र नरेंद्र जजैं,
भुचरेंद्र खगेंद्र गणेंद्र भजैं ।
जरजामनमर्णामिटायक हो,
सब सिद्ध नमौ सुखदायक हो ॥ ३ ॥

अमलं अचलं अकलं अकुलं,
अल्ललं असलं अरलं अतुलं ।
अरलं सरलं शिवनायक हो,
सबसिद्ध नमौ सुखदायक हो ॥ ४ ॥

अजरं अमरं अधरं सुधरं,
अडरं अहरं अमरं अधरं ।

अपरं असरं सबलायक हो,
सबसिद्ध नमौ सुखदायक हो ॥ ५ ॥

वृषवृन्द अमन्द न निंद लहै,
निरदंद अफंद सुछंद रहै ।

नित आनन्दवृन्द बधायक हो,
सबसिद्ध नमौ सुखदायक हो ॥ ६ ॥

भगवंत सुसंत अनंतगुनी,
जयवंत महंत नमंत मुनी ।

जगजंतुतर्णो अघघायक हो,
सबसिद्ध नमौ सुखदायक हो ॥ ७ ॥

अकलंक अटंक शुभंकर हो,
निरडंक निशंक शिवंकर हो ।

अभयंकर शंकर चायक हो,
सबसिद्ध नमौ सुखदायक हो ॥ ८ ॥

अतरंग अरंग असंग सदा,
भवभंग अभंग उत्तंग सदा ।

सरदंग अनंगनसायक हो,
सबसिद्ध नमौ सुखदायक हो ॥ ९ ॥

ब्रह्मंड जु मंडलमंडन हो,
तिहुं दंड प्रचंड विहंडन हो ।

चिदपिंड अखंड अकायक हो,
 सबसिद्ध नमों सुखदायक हो ॥१०॥
 निरभोग सुभोग वियोग हरै,
 निरजोग अरोग अशोग धरै ।
 अमभंजन तीक्ष्ण सायक हो,
 सबसिद्ध नमों सुखदायक हो ॥११॥
 जय लक्ष्य अलक्ष्य सुलक्षक हो,
 जय दक्षक पक्षक रक्षक हो ।
 पण अक्ष प्रतक्ष खपायक हो,
 सबसिद्ध नमों सुखदायक हो ॥१२॥
 अप्रमाद अनाद सुस्वादरता,
 उनमाद विवाद विषादहता ।
 समता रमता अकषायक हो,
 सबसिद्ध नमों सुखदायक हो ॥१३॥
 निरभेद अखेद अछेद सही,
 निरवेदनिवेदन वेद नहीं ।
 सब लोकअलोकके ज्ञायक हो,
 सबसिद्ध नमों सुखदायक हो ॥ १४ ॥
 अमलीन अदीन अरीन हने,
 निजलीन अधीन अछीन बने ।

जमको घनघात बचायक हो,
 सबसिद्ध नमौ सुखदायक हो ॥१५॥
 न अहार निहार विहार कबै,
 अविकार अपार उदार सबै ।
 जगजीवनके मनभायक हो,
 सबसिद्ध नमौ सुखदायक हो ॥१६॥
 असमंघ अर्धद अरंघ भये,
 निरबंध अखंड अगंध ठये ।
 अमन अतनं निरवायक हो,
 सबसिद्ध नमौ सुखदायक हो ॥१७॥
 निरवर्ण अकर्ण उधर्ण बली,
 दुखहर्ण अशर्ण सुशर्ण भली ।
 बलि मोहकी फौज भगायक हो,
 सबसिद्ध नमौ सुखदायक हो ॥ १८ ॥
 अविरुद्ध अक्रुद्ध अजुद्ध प्रभू,
 अतिशुद्ध प्रबुद्ध समृद्ध विभू ।
 परमातम पूरन पायक हो,
 सबसिद्ध नमौ सुखदायक हो ॥१९॥
 विरूप चिद्रूपस्वरूप धुती,
 जसकूप अनूपमभूप भुती ।

[१२४]

कृतकृत्य जगत्त्रयनायक हो,

सबमिद्ध नमौ सुखदायक हो ॥ २० ॥

सब इष्ट अभीष्ट विशिष्टहितू,

उत्कृष्ट वरिष्ट गरिष्ट मितू ।

शिवतिष्ठत सर्व सहायक हो,

सबमिद्ध नमौ सुखदायक हो ॥ २१ ॥

जय श्रीधर श्रीघर श्रीवर हो,

जय श्रीकर श्रीभर श्रीभर हो ।

जय ऋद्धि सुसिद्धि बढायक हो,

सबांसद्ध नमौ सुखदायक हो ॥ २२ ॥

दोहा ।

सिद्ध सुगुण को कहि सकै, ज्यों विलस्त नभ मान ।

हिराचंद ताँतें जजै, करहु सकल कल्याण ॥ २३ ॥

ॐ ह्रीं अनाहतपराक्रमाय सकलकर्मविनिमुक्त्याय श्रीसिद्ध-
चक्राधिपतये अर्घ्यं निर्वपामि ॥ २४ ॥

अडिङ्ग ।

सिद्ध जजै तिनको नहिं आवै आपदा,

पुत्र पौत्र धन धान्य लहै सुख संपदा ।

इंद्रचंद्र धरणेंद्र जु होय कै,
 जावै मुकतिमभार करम सब खायकै ॥२४॥
 इत्याशीर्वादाय पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।
 इति सिद्धपूजा समाप्ता ।

समुच्चय चौबीसी पूजा ।

ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपासं जिनराय
 चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांस नेमि, वामुपूज्य पूजित सुरराय ॥
 विमल अनत धरम जस उज्जल, शांतिकुंधु अर मल्लि मनाय
 मुनिसुव्रत नर्मि नेमि पार्श्वप्रभु, वर्द्धमानपद पुष्प चढ़ाय ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभादिवीरान्तचतुर्विंशतिजिनसमूह ! अत्र अवतर
 अवतर । संबौषट् ।

ॐ ह्रीं श्रीवृषभादिवीरान्तचतुर्विंशतिजिनसमूह ! अत्र तिष्ठ
 तिष्ठ ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीवृषभादिवीरान्तचतुर्विंशतिजिनसमूह ! अत्र मम
 सन्निहितो भव भव वषट् ।

(चाल-ज्ञानतराय हत नन्दीश्वरद्वीपाष्टककी तथा गर्भाराग
 आदि अनेक चालामे)

मुनिमनसम उज्जल नीर, प्रासुक गंध भरा ।
 भरि कनक कटोरी धीर, दीनी धार धरा ॥
 चौबीसों श्रीजिनचन्द, आनंदकंद सही ।
 पदजगत हरत भवफंद, पावत मोक्षमहा ॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभादिवीरान्तेभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं
निर्वपामीति स्वाहा ।

गोशीर कपूर मिलाय, केशर रङ्गभरी ।

जिनचरनन देत चढ़ाय, भवआताप हरी ।

चाबीसों श्रीजिनचन्द, आनंदकंद सही ।

पदजजत हरत भवफंद, पावत मोक्षमही ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभादिवीरान्तेभ्यो भवातापविनाशनाय चंदनं
निर्वपामीति स्वाहा ।

तंदुल सित सोमसमान, सुन्दर अनियारे ।

मुक्ताफलकी उनमान, पुंज धरों प्यारे । चौबीसों० ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभादिवीरान्तेभ्योऽक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निर्व-
पामीति स्वाहा ।

वरकंज कदंब कुरंड, सुमन सुगंध भरे ।

जिन अग्रधरों गुनमंड, कामकलङ्क हरे । चौबीसों० ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभादिवीरान्तेभ्यः कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं
निर्वपामीति स्वाहा ।

मनमोहनमोदक आदि, सुन्दर सद्य बने ।

रसपूरित प्रासुक स्वाद, जजत बुधादि हने । चौबीसों० ॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभादिवीरान्तेभ्यः बुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ।

तमखण्डन दीप जगाय, धारों तुम आगे ।

सब तिमिरमोह छय जाय, ज्ञानकला जागै । चौबीसों० ॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभादिवीरान्तेभ्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीप
निर्वपामीति स्वाहा ।

दशगंध हुताशनमांहिं, हे प्रभु खेवत हों ।
मिस धूम करम जरि जाहिं, तुमपद सेवत हों । चौबीसों० ॥७॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभादिवीरान्तेभ्योऽष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामीति
स्वाहा ।

शुचि पक्व सुरस फल सार, सब ऋतुके न्यासे ।
देखत दृग मनको प्यार, पूजत सुख पायो । चौबीसों० ॥८॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभादिवीरान्तेभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपा-
मीति स्वाहा ।

जलफल आठों शुचि सार, ताको अर्घ्य करो करों ।
तुमको अरपों भवतार, भव तरि मोक्ष वरों ॥
चौबीसों श्रीजिनचन्द, आनंद कंद सही ।
पद जजत हरत भवफंद, पावत मोक्ष मही ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभादिवीरान्तचतुर्विंशतितीर्थकरेभ्यः अर्घ्यपद-
प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

दोहा ।

श्रीमत् तीरथनाथपद, माथ नाय हितहेत ।
गाऊं गुणमाला अबै, अजर अमरपद देत ॥ १ ॥

छन्द घत्तानन्द ।

जय भवतमभंजन जनमन्कंजन रञ्जन दिनमनि स्वच्छकरा ।
शिवमगपरकाशक अरिगननाशक चौबीसों जिनराज बरा ॥

छन्द पद्धरी ।

जय ऋषभदेव ऋषिगन नमंत, जय अजित जीत वसुअरि तुरन्त
जय संभव भवभय करत चूर, जय अभिनंदन आनंदपूर ॥

जय सुमति सुमतिदायक दयाल, जय पद्म पद्मदुति तनरसाल
जय जय सुपास भवपामनाश, जय चंद्र चंद्रतनदुतिप्रकाश ॥

जय पुष्पदंत दुतिदंत सेत, जय शीतल शीतल गुननिकेत ।
जय श्रेयनाथ नुनसहसभुज्ज, जय वासवपूजित वासुपुज्ज ॥

जय विमल विमलपद देन्हार, जय जय अनंत गुनगन अपार
जय धर्म धर्म शिवशर्मदेत, जय शांति शांतिपुष्टी करेत । ६ ।

जय कुंथ कुंथवादिक् रखेय, जय अर जिन वसुअरि लय करेय
जय माल्ल मल्ल हतमोहमल्ल, जय मुनिसुव्रत व्रतशल्लदल्ल ॥७॥

जय नमि नित वासवनुत सपेम, जय नेमिनाथ वृषचक्रनेम ।
जय पारगनाथ अनाथ नाथ, जय वर्द्धमान शिवन्गरमाथ ॥

घता छन्द ।

चौबीस जिनंदा आनंदकंदा पापनिकंदा सुखकारी ।

तिन पदजुगचंदा उदय अमंदा, वासववंदा हितकारी ॥६॥

ॐ ह्री श्रीवृषभादिचतुर्विंशतिजिनेभ्यो महाद्यैर्न निर्वपामीति
स्वाहा ।

[१०६]

मोरटा ।

भुक्तिमुक्तिदातार, चौबीसो जिनराज वर ।

तिनपद मनवचधार, जो पूजै सो शिव लहै ॥ १० ॥

(इत्याशीर्वादः पुष्पाञ्जलि क्षिपेत्) ।

श्रीआदिनाथ पूजा ।

नाभिराय मरुदेविके नंदन, आदिनाथ स्वामी महाराज ।
मर्वारथसिद्धते आप पधारे, मध्यम लोकमांहि जिनराज ॥
इन्द्रदेव सब मिलकर आये, जन्म-महांत्सव करने काज ।
आह्वानन सब विधि मिलकरके, अपने कर पूजे प्रभु पांय ॥

ॐ ह्रीं श्रीआदिनाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर संवौषट्
आह्वानम् ।

ॐ ह्रीं श्रीआदिनाथजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठ स्थापनम् ।

ॐ ह्रीं श्रीआदिनाथजिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव
वषट् सन्निधीकरणम् ।

अष्टक ।

चीरोदधिको उज्जल जल ले, श्रीजिनवर-पद पूजन जाय ।
जन्म जरा दुख मेटन कारन, ज्याय चढ़ाऊं प्रभुजीके पांय ॥
श्रीआदिनाथके चरणकमलपर, बलिवलि जाऊं मनवचकाय ।
हो करुणानिधि भव दुख मेटो, यात मैं पूजो प्रभु पांय ॥

ॐ ह्रीं श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय वन्मजरासृत्युविनाशनाथ जल
निर्वपामीति स्वाहा ।

मलियागिरि चंदन दाहनिकंदन, कंचन झारीमें भर व्याय ।
श्रीजीके चरण चढ़ावो भविजन, भवआताप तुरत मिटिजय ॥
श्रीआदिनाथके चरणकमल पर, बलिवलि जाऊं मनवचक्राय ।
हो करुणानिधि भव दुख मेटां, यातैं मैं पूजों प्रभु पांय ॥

ॐ ह्रीं श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय संसारतापविनाशनाथ चंदनं
निर्वपामीति स्वाहा ।

शुभशालि अखंडित सौरभमंडित, प्रासुकजलसों धोकर न्याय ।
श्रीजीके चरण चढ़ावो भविजन, अक्षयपदको तुरत उपाय ॥
श्रीआदिनाथके० ।

ॐ ह्रीं श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निर्व-
पामीति स्वाहा ।

कमल केतुकी वेल चमेली, श्रीगुलाबके पुष्प मंगाय ।
श्रीजीके चरण चढ़ावो भविजन, कामवाण तुरत नसिजाय ॥
श्रीआदिनाथके० ।

ॐ ह्रीं श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

नेवज लीला तुरत रस भीना, श्रीजिनवर आगे धरवाय ।
धाल भराऊं चुधा नसाऊं, ल्याऊं प्रभुके मंगल माय ॥
श्रीआदिनाथके० ।

ॐ ह्रीं श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय लुभ्ररोगविनाशनाथ नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ।

जगमग जगमग होत दसोदिस, ज्योति रही मंदिरमें ज्ञाय ।
श्रीजीके सन्मुख करत आरती, माह तिमिरं नासै दुखदाय ॥
श्रीआदिनाथके० ।

ॐ ह्रीं श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय शोहान्धकारविनाशनम्य दीपं
निर्वपामीति स्वाहा ।

अगर कपूर सुगंध मनोहर, चंदन कूट सुगंध मिलाय ।
श्रीजीके सन्मुख खेय धुपायन, कर्म जरे चहुंगति मिटिजाय ॥
श्रीआदिनाथके० ।

ॐ ह्रीं श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामीति
स्वाहा ।

श्रीफल और बदाम सुपारी, केला आदि छुहारा न्याय ।
महामोक्षफल पावन कारन, न्याय चड़ाऊं प्रभुजीके पांय ॥
श्रीआदिनाथके० ।

ॐ ह्रीं श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति
स्वाहा ।

शुचि निरमल नीरा गंध सुअक्षत, पुष्प चरु ले मन्त्र हस्ताय ।
दीप धूप फल अर्घ्य सु लेकर, नाचत ताल मृदङ्ग बजाय ॥
श्रीआदिनाथके० ।

ॐ ह्रीं श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपत्रप्रप्तये अर्घ्यं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

पंचकल्याणक ।

दोहा ।

मर्यादसिद्धिर्त्त चये, मरुदेवी उर आय ।

दाज अमित आषाढरुी, जजूं तिहारे पाय ॥

ॐ ह्रीं श्रीआषाढकृष्णद्वितीयाया गर्भकल्याणप्राप्ताय श्रीआदि
नाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

चैतवदी नौमी दिना, जन्म्या श्रीभगवान ।

सुरपति उत्सव अति करा, मं पूजा धरि ध्यान ॥

ॐ ह्रीं चैत्रकृष्णनवम्या जन्मकल्याणकप्राप्ताय श्रीआदिजिनाय
अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

तृणवजु अर्धि सब छाडिक, तप धारा बन जाय ।

नामी चत्र अमतकी जजू तिहारे पांय ॥

ॐ ह्रीं चैत्रकृष्णनवम्या तप कल्याणकप्राप्ताय श्रीआदिजिनाय
अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

फाल्गुन वदि एकादशी, उपज्या रुवलज्ञान ।

इन्द्र आय पूजा करा, म पूजों यह थान ॥

ॐ ह्रीं फाल्गुणकृष्णएकादश्या ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय श्रीआ
दिजिनाय अर्घं ।

माघ चतुर्दशि कृष्णकी, माघ गय भगवान ।

भवि जीवोंको बोधिके पहुचे शिवपुर थान ॥

ॐ ह्रीं माघकृष्णचतुर्दश्या मोक्षकल्याणकप्राप्ताय श्रीआदिजि-
नाय अर्घं ।

जयमाला ।

आदीश्वर महाराज, मैं बिनती तुमसे करूँ,
 चारो गतिके मांहि, मैं दुख पाया सो सुना ।
 अष्ट कर्म मैं छुँ इकलौ यह दुष्ट महादुख देत हो,
 कबहूँ इतर निगादमें मोकं पटकत करत अचेत हो ॥
 म्हारी दीनतनी सुना वीनती ॥ १ ॥

प्रभु कबहूँक पटकयो नरकमें, जठे जीव महादुख पाय हो ।
 नित उठ निरदर्ई नारकी, जठे करत परस्पर घात हो ॥म्हा० ॥
 प्रभु नरकतणा दुख अब कहूँ, जठे करत परस्पर घात हो ।
 कैइक बांध्यो खंभस्यो, पापी दे मुद्गरकी मार हो ॥म्हा०॥
 कोइक काटें करोतसो पापी अङ्गतणी दोष फाड हो ।
 प्रभु इहविधि दुखभुगत्याधणा, फिर गतिपाई तिरिजंच हो ॥म्हा०
 हिरण बकरा वाछला, पशु दीन गरीब अनाथ हो ।
 प्रभु मैं उंटबलद भैंसाभयो, जठेलादियो भारअपार हो ॥म्हा०
 नहीं चाली जब गिर पर्यो, पापी दे सोटनकी मार हो ।
 प्रभु कोइक पुण्यसू मैं तो पायो स्वर्गनिवाम हो ॥म्हारी०॥
 देवांगना संग रम रहौ, जठे भोगनि परताप हो ।
 प्रभु संगअपसरा मैं रह्यो, जासो कर अतिअनुराग हो ॥म्हा०
 कबहूँक नंदन वनविषैं, प्रभु कबहूँक वनगृह मांहि हो ।
 प्रभु यहिविधि काल गमाइके, फिर माला मुग्भाय हो ॥म्हा०

देव धिती सब घट बई, फिर उपज्यो सोच अपार हो ।
 सोच करत तनखिरपड्यो, फिरउपज्यो गरभमें जाइ हो ॥म्हा०
 प्रभु गर्भतणा दुख भव कहू, जठे सकबाई ठौर हो ।
 हलनचलन नहिं करसक्यो, जठे सघनकीच घनघोर हो ॥म्हा०
 माता खाधे चरपरो, फिर लागे तन संताप हो ।
 प्रभु जो जननी तातो भस्वे, फेर उपजे तन संताप हो ॥म्हा०॥
 ओंधे मुख भूलो रह्यो, फेर निकसन कौन उपाय हो ।
 कठिन कठिन कर नीसरो, जैसे निसरै जंतीमें तार हो ॥म्हा०
 प्रभु फिर निकसही धरत्यापड्यो, फिरउपज्यो दुःखअपार हो ।
 रोय रोय विलग्यो घनो, दुख वेदनको नहिं पार हो ॥म्हारी०
 प्रभु दुख मेटन समरथ धनी, यातैं लागू तिहारे पांय हो ।
 सेवक अरज करै प्रभू, मोकू भवोदधि पार हो । म्हारी०॥

दोहा ।

श्रीजीकी महिमा अगम है, कोई न पावे पार ।
 मैं मति अल्प अज्ञान हों, होइ नहीं विस्तार ॥
 ॐ ह्रीं श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।
 विनती ऋषभ जिनेशकी, जो पढसी मन न्याय ।
 स्वर्गोंमें संशय नहीं, निश्चय शिवपुर जाब ॥

इत्याशीर्वादः ।

श्री शान्तिनाथ पूजा ।

रोडक छंद ।

सर्वारथ सुविमान स्वाव गजपुर में आवे,
विश्वसेन भूपाल तास के नंद कहाये ।

पंचम चक्री मये दर्प द्वादशमे राजे,

मैं सेऊं तुम चरण तिष्ठिये ज्यों दुख भाजे ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेंद्र अत्रावतरावतर संवौषट् आह्वानम् ।

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेंद्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्वप्नम् ।

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेंद्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्
सन्निधीकरणम् ।

कोशमालती छंद ।

पंचम उदधि तनो जल निरमल, कंचन कलश भरे हरषाय ।

धार देत ही श्रीजिन सन्मुख, जन्म जरामृतु दूर भगाय ॥

शान्तिनाथ पंचम चक्रेश्वर, द्वादश मदन तनो षट् पाय ।

तिनके चरण कमल के पूजे, रोग शोक दुख दारिद जाय ॥

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेंद्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
कल्याणकप्राप्ताय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

मलयागिर चंदन कदलीनंदन, कुंकुम जलके संग घसाय ।

भव आताप विनाशन कारण, चरचूं चरण सब सुखदाय ॥

शान्तिनाथ पंचम चक्रेश्वर० ॥

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेंद्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
कल्याणकप्राप्ताय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

पुण्यराशिसम उज्ज्वल अक्षत, शशिमरीचि तिस देख लजाय
पुञ्ज किये तुम आगे श्रीजिन, अक्षयपदके हेतु बनाय ॥
शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर, द्वादश मदन तनो पद पाय ।
तिनके चरण कमल के पूजे, रोग शोक दुख दारिद जाय ॥

ॐ ह्रीं श्रीशांतिनाथजिनेद्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
कल्याणकप्राप्ताय अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा ।

सुरपुनीत अथवा अवनीकं, कुसुम मनोहर लिये मंगाय ।
भेटधरत तुमचरणनके टिग, ततक्षिन कामबाण नस जाय ॥

शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर० ॥

ॐ ह्रीं श्रीशांतिनाथजिनेद्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
कल्याणकप्राप्ताय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ।

भाति भांति के सद्य मनोहर, कीने मैं पकवान संवार ।
भरथारी तुम सन्मुख लाया, लुधावेदनी वेग निवार ॥

शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर० ॥

ॐ ह्रीं श्रीशांतिनाथजिनेद्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
कल्याणकप्राप्ताय नैवेद्य निर्वपामीति स्वाहा ।

घृत मनेह करपूर लायकर, दीपक ताके धरे प्रजाग ।

जगमग जात हांत मंदिरमे, मोहअंधको देत सुटार ॥

शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर० ॥

ॐ ह्रीं श्रीशांतिनाथजिनेद्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
कल्याणकप्राप्ताय त्रीप निर्वपामीति स्वाहा ।

देवदार कृष्णागर चंदन, तगर कपूर सुगंध अपार ।

खेऊं अष्टकरम जारनको, धूप धनंजयमांहि सुडार ॥

शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर० ॥

ॐ ह्रीं श्रीशांतिनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
कल्याणकप्राप्ताय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

नारंगी बादाम सुकेला, एला दाडिम फल सहकार ।

कंचनथालमाहिं धरलायो, अरचतही पाऊं शिवनार ॥

शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर० ॥

ॐ ह्रीं श्रीशांतिनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
कल्याणकप्राप्ताय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जल फलादि वसुद्रव्य संवारे, अर्घ चढ़ाये मंगल गाय ।

‘बखत रतन’ के तुमही साहिब, दीजे शिवपुर राज कराय ॥

शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर, द्वादश मदन तनो पद पाय ।

तिनके चरण कमल के पूजे रोग शोक दुख दारिद जाय ॥

ॐ ह्रीं श्रीशांतिनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
कल्याणकप्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

छंद उपगीत ।

भादव सप्तमिश्यामा, सर्वार्थ त्याग नागपूर आये ।

माता ऐरा नामा, मैं पूजूं अर्घ शुभलाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीशांतिनाथजिनेन्द्राय भाद्रपदकृष्णसप्तम्यां गर्भ-
कल्याणकप्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जन्मे भीजिनराजा, जेठ अंगित चतुर्दशी सांहे ।

हरिगण नावें माथा, में पूजूं शान्ति चरणपुत्रा जोहे ॥

ॐ ह्रीं श्रीशांतिनाथजिनेन्द्राय ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां जन्मकल्याण-
प्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

चौदश जेठ अंधारी, काननमें जाय योग प्रभु लीन्हा ।

नवनिधिरत्न सुहारी, में बंदूं आत्मसार जिन चीन्हा ॥

ॐ ह्रीं श्रीशांतिनाथजिनेन्द्राय ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां तपःकल्याण-
प्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

पौष दसैं उजियारा, अरि घाति ज्ञानमानु जिन पाया ।

प्रातिहार्य वसु धारा, में सेऊं सुरनर जास यश गाथा ॥

ॐ ह्रीं श्रीशांतिनाथजिनेन्द्राय पौषशुक्लदशम्यां ज्ञानकल्याण-
प्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सम्मेद शैल भारी, हनकर अघाति मोक्ष जिन पाई ।

जेठ चतुर्दश कारी, में पूजूं सिद्धथान सुखदाई ॥

ॐ ह्रीं श्रीशांतिनाथजिनेन्द्राय ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां मोक्ष-
कल्याणप्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

छप्पय छंद ।

भये आप जिनदेव जगत में सुख विस्तारे,

तारे भव्य अनेक तिन्हों के संकट टारे ।

टारे आठों कर्म मोक्ष सुख तिनको भारी,

भारी विरद निहार लक्ष्मी मैं शरण तिहारी ॥

चरखनको सिरनाय हूं, दुखदाग्रि संताप हर ।

हर सकलकर्म छिन एकमें, शान्तिजिनेश्वर शांति कर ॥

दोहा ।

सारंग लक्ष्म्य चरख में, उन्नत धनु चालीस ।

हाटक वर्षा शरीर दुत्ति, नमूँ शांति जगईश ॥२॥

छंद भुजंग प्रयात ।

प्रभो आपने सर्बके फंद सोड़े, गिनाऊं कछू मै तिनों नाम थोड़े
पड़ो अम्बुके बीच थोपाल राई, जपो नाम तेरो मएथे सहाई ।

धरो रायने सेठको खलिका पै, जपी आपके नामकी सार जापै
भयेथे सहाई तबै देव आये, करी फूलवर्षा सुधिष्टर बनाये ॥

जबै लाखकेधाम बन्दि प्रजारी, भयो पांडवोंपै महाकष्ट भारी
जबै नाम तेरतनी टेरकीनी, करीथी विदुरने वही राइ दीनी ।

हरी द्रौपदी घातकी खंडमांही, तुम्हींहोसहाई भला और नाहीं
लियो नामतेरो भलो शीलपालो, बचाई तहांते सबैदुखटालो ।

जबै जानकी रामने जो निकारी, धरे गर्भको भार उद्यान डारी
रटो नामतेरो सबै सौख्यदाई, करी दूर पीडा सुछिनना लगाई
विसन सात सेवे करे तस्कराई, सुअंजन जु तारो घड़ी ना लगाई
सहे अंजनाचंदना दुःख जेते, मयेभाग सारे जरा नामलेते ।

घड़े बीचबे सासने नाग डारो, भलोनामतेसे जु सोमा संभारी
खई कान्ठनेको भई फूलमाला, भई है बिख्यात सबै दुःख टाला

इन्हें आदिदेके कहालों बखानें, सुनो वृद्धमारी तिहुंलाक जानें
अजी नाथ मेरी जराओर हेरो, बड़ीनाव तेरी रतीबोभ मेरो ।
गहो हाथस्वामी करो बेगपारा, कहक्या अबै आपनी मैं पुकारा
सबै ज्ञानकेबीच भासी तुम्हारे, करो देरनाहीं अहो संतप्यारे ।

घत्ता छंद ।

श्री शांति तुम्हारी, कीरति भारो, सुर नरनारी गुणमाला ।
बखतावर ध्यावे, रतन सु गावे, मम दुखदारिद सब टाला ॥

ॐ ह्रीं श्रीशांतिनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
कल्याणप्राप्तय महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

शिखरिणी छंद ।

अजी ऐरानंद छबि लखत हैं आय अरनं,
धरें लज्जा भारी करत थुति सो लाग चरनं ।
करे सेवा कोई लहत सुख सो सार छिन में,
घने दीना तारे हम चहत हैं वास तिन में ॥१३॥

इति आशीर्वादः ।

श्रीपार्श्वनाथ पूजा ।

गीता छन्द ।

वरस्वर्ग प्राणतको विहाय सुमात्र वामासुत भये ।
अश्वसेनके पार्श्वजिनेश्वर चरण तिनके सुर नये ॥

नौ हाथ उन्नत तन विराजै उरग लक्षण अति लसै ।
थापूंतुम्हें जिन आय तिष्ठो कर्म मेरे सब नसैं ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर संवीषट्
आवाहनम् ।

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् ।

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव
वषट् सन्निधीकरणम् ।

चामर छन्द ।

क्षीर सोमके समान अम्बुसार लाइये,
हेम-पात्र धारके सु आपको चढ़ाइये ।
पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा,
दीजिये निवास मांछ भूलिये नहीं कदा ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
कल्याणप्राप्ताय जज्ञं निर्वपामीति स्वाहा ।

चंदनादि केसरादि स्वच्छ गंध लीजिये,
आप चर्न चर्च मोहतापको हनीजिये । पार्श्व०

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
कल्याणप्राप्ताय चदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

फेन चंदके समान अक्षतं मंगाइके,
पादके समीप सार पूजको रचायके । पार्श्व०

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
कल्याणप्राप्ताय अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

केवडा गुलाब और केतकी चुनाइये,
 धार चणके समीप कामको नशाइये ।
 पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूँ सदा,
 दीजिये निवास मोक्ष भूलिये नहीं कदा ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
 कल्याणप्राप्ताय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

घेवरादि बावरादि मिष्ट सर्पिमें सनें,
 आप चर्ण अर्च तें छुधादि रोगको हनें । पार्श्व० ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
 कल्याणप्राप्ताय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

लाय रत्न दीपको सनेह पूरके भरूँ,
 बातिका कपूर वार मोह-ध्वातको हरूँ । पार्श्व० ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
 कल्याणप्राप्ताय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

धूप गंध लेयके सु अग्नि संग जारिये,
 तास धूपके सु संग कर्म अष्ट वारिये । पार्श्व० ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
 कल्याणप्राप्ताय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

स्वारकादि चिर्भटादि रत्नधारमें भरूँ,
 हर्ष धारके जजूं सुमोक्ष सौख्यको वरूँ । पार्श्व० ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
 कल्याणप्राप्ताय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

नीर गंध अक्षतं सुपुष्प चारु लीजिवे,

दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तें जजीविये । पार्श्वे ० ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
कल्याणप्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

पायता छन्द ।

शुभ प्राणत स्वर्ग विहाये, वामा माता उर आए ।

वैशाख तनी दुतकारी, हम पूजे विघ्न निवारी ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय वैशाखकृष्णद्वितीयाम्बा गम्भ-
कल्याणप्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जन्मे त्रिभुवन सुखदाता, कलिकादशि पौष विख्याता ।

श्यामातन अद्भुत राजे, रत्रि कोटिक तेज सु लाजे ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय पौषकृष्णएकादश्या जन्म-
कल्याणप्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

कलि पौष इकादशि आई, तव बारह भावना भाई ।

अपने कर लौंच सुकीना, हम पूजे चर्न जजीना ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय पौषकृष्णएकादश्या तप-
कल्याणप्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

वह कमठ जीव दुखकारी, उपसर्ग कियो अतिभारी ।

प्रभु केवल ज्ञान उपाया, अलि चैत चौथ दिन गाया ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय चैत्रकृष्णचतुर्थ्या ज्ञान-
कल्याणप्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सित मावन साँतै आई, शिवनार तबै जिन पाई ।
सम्पेदाचल हरि माना, हम पूजै मोक्ष कल्याणा ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय श्रावणशुक्लसप्तम्यां मोक्ष-
कल्याणप्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

पारसनाथ जिनेन्द्र तने वच पानभखा जरते सुन पाये,
करो सरधान लहो पद आन भये पञ्चावति शेष कहाये ।
नाम प्रताप टरे संताप सुभव्यनको शिवशर्म दिखाये,
हो विश्वसेनके नंद भले गुण गायत हैं तुमरे दरषाये ॥

केकीकंठ समान छवि, वपु उतंग नव हाथ ।

लक्षण उरग निहार पग, बंदं पारसनाथ ॥

मोतीदाम छन्द ।

रची नगरी षट् मास अगार, बने बहुगोपुर शोभ अपार ।
सु कोटननी रचना छवि देत, कगूरनपै लहकै बहुकेत ॥१॥
बनारसकी रचना जु अपार, करी या भांत धनेश तैयार, ।
तहां विश्वमेन नरेंद्र उदार, करै सुख वाम सु दे पटनार ॥
तजो तुम प्राणत नाम विमान, भये तिनके घर नंदन आन ।
तबै पुर इन्द्र नियोगनि आय, गिरींद्र करी विध न्होन सु जाय

पिता घर सौंप गये निज धाम, कुवेर करे बसु जाम जु काम ।
 बर्षे जिन दूज मर्यक समान, रमें नहु बालक निर्जर आन ॥
 भये जब अष्टम वर्ष कुमार, धरे अणुब्रत महा सुखकार ।
 पिता जब आन करी अरदाम, करो तुम व्याह वरा मम आम
 करो तब नाहिं रहे जगचंद, किय तुम काम कषायक मंद ।
 चढ़े मजराज कुमारन संग, सु देखत गंगतनी सुतरंग ॥६॥
 लख्यो इक रंक करे तप धार, चहुदिस अग्नि बले अतिजोर
 कहे जिननाथ अरे सुन आत, करे बहुजीव तनी मतघात ॥७॥
 भयो तब कोप कहै कित जीव, जले तब नाग दिस्वाय सजीव
 लख्यो यह कारख भावन भाय, नये दिव ब्रह्मऋषी सब आय
 तब सुर चारप्रकार नियाग, धरी शिविका निजकंध मनांग
 करो बन मांहिं निवाम जिनंद, धरे व्रत चारित आनंद कंद ॥
 गहे तहां अष्टमके उपवास, गये धनदत्तनें जु अवाम ।
 दियो पयदान महा सुखकार, भई पणवृष्टि तहां तिहवार ॥
 गये फिर काननमांहिं दयाल, धरो तुम योग सबै अब टाल ।
 तब वह धूम सुकेत अयान, भयो कमठाचरको सुर आन ॥
 करै नभ गौन लखे तुम धीर, जू पूरब वैर विचार गहीर ।
 करो उपसर्ग भयानक घोर, चली बहु तीक्ष्ण पवन भूकोर ॥
 रहो दशहूं दिशमें तम छाया, लगी बहु अग्नि लखी नहिं जाय
 सुरुंडनके बिन मुण्ड दिस्वाय, पड़े जल मूसल धार अथाय ॥

तथै पद्मावति कंत धनंद, नये युग आय तहां जिनचंद ।
 भगौ तब रंक सुदेखत हाल, लहो तब केवल ज्ञान विशाल ॥
 दियो उपदेश महाहितकार, सुभव्यन बोधि मम्मेट पधार ।
 सु सुवर्णभद्र जू कूट प्रसिद्ध, वरी शिवनारि लहीं वसुच्छद्र ॥
 जजूं तुम चर्ख दोऊरु जोर, प्रभू लखिये अबही मम ओर ।
 कहै बखतावर रत्न बनाय, जिनेश हमे भवपार लगाय ॥१६॥

वत्ता छद्र ।

जय पारमदेवं, मुस्कृत मेवं, वंदित चरण सुनागपती ।
 करुणा के धारी पर उपकारी, शिव सुखकारी कर्म हती ॥१७॥

ॐ ह्री श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय गर्भजन्मतपज्ञाननिर्वाणपंच-
 मल्याणप्राय महार्थं निर्वपामीति स्वाहा ।

छद्र मद अवलिप्त ।

जो पूजें मन लाय, भव्य पारम प्रभु नित ही ।
 ताके दुख सब जांय, भीति व्यापे नहि कितही ॥
 सुख सम्पति अधिकाय, पुत्र मित्रादिक सारे ।
 अनुक्रम मो शिव लहे, रत्न इम कहे पुकारे ॥१८॥

इति आशीर्वादः ।

इति श्रीपार्श्वनाथजिनपूजा संपूर्णा ।

शान्तिपाठ भाषा ।

चौपाई ।

शांतिनाथ मुख शशि उनहारी, शीलगुणव्रतसंजमधारी ।
 लखन एकसौ आठ विराजै, निरखत नयनकमलदल लाजै ॥
 पंचमचक्रवर्तिपदधारी, सोलम तीर्थकर सुखकारी ।
 इंद्रनरेंद्रपूज्य जिननायक, नमों शांतिहित शांतिविधायक ॥
 दिव्य विटप पहूपनकी बरसा, दुन्दुभि आसन बाणी सरसा ।
 छत्र चमर भामंडल भारी, ये तुव प्रातिहार्य मनहारी ॥३॥
 शांति जिनेश शांति सुखदाई, जगतपूज्य पूजों मिरनाई ।
 परमशांति दीजे हम सबको, पढ़ें तिनहें पुनि चार संघको ॥

वसन्ततिलका ।

पूजें जिन्हें, मुकुट द्वार किरीट लाके,
 इन्द्रादिदेव, अरु पूज्य पदाब्ज जाके ।
 सो शान्तिनाथ वरवंशजगत्प्रदीप,
 मेरे लिये करहि शांति सदा अन्प ॥ ५ ॥

इन्द्रवज्रा ।

संपूजकोको प्रतिपालकोको, यतीनको श्री यतिनायकोको ।
 राजा प्रजा राष्ट्र सुदेशको ले, कीजे सुखी हे जिन शांतिको दे ॥

स्रग्धरा ।

होवे सारी प्रजाको सुख, बलयुत हो धर्मधारी नरेशा,
 होवै वर्षा गमैपै, तिलधर न रहै ब्याधियोंका अन्देशा ।

होवै चोरी न जारी, सुसमय बरतै, हो न दुष्काल मारी,
सारे ही देश धारै जिनवरवृषको, जो सदा सौख्यकारी ॥७॥

दोहा ।

घातिकर्म जिन नाश करि, पायो केवलराज ।
शांति करै सो जगतमें, वृषभादिक जिनराज ॥ ८ ॥

मन्दाक्रान्ता ।

शास्त्रोंका हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगतीका,
मद्वृत्तोंके सुगुन कहके, दोष ढांकूँ सभीका ।
बोलूँ प्यारे वचन हितके, आपका रूप ध्याऊँ,
तालों सेऊँ चरन जिनके, मोक्ष जौलों न पाऊँ ॥९॥

आर्या ।

तव पद मेरे हियमें, ममहिय तेरे पुनीत चरणोंमें ।
तव लों लीन गहे प्रभु, जबलों पाया न मुक्ति पद मैंने ॥१०॥
अक्षरपद मात्रामे, दूषित जो कछु कहा गया मुझमें ।
क्षमा करो प्रभु सो सब, करुणाकरि पुनि छुड़ाहु भवदुखसे ॥
हे जगबन्धु जिनेश्वर, पाऊँ तव चरणशरणा बलिहारी ।
मरणममाधि सुदुर्लभ, कर्मोंका क्षय सुबोध सुखकारी ॥१२॥

(पुष्पांजलि क्षिपेत्)

विसर्जन । दोहा ।

बिन जाने वा जानके, रही टूट जो कोय ।
तुव प्रसाद तै परमगुरु, सो सब पूरन होय ॥ १ ॥

पूजनविधि जानों नहीं, नहिं जानों आच्छान ।
 और विसर्जन हू नहीं, क्षमा करो भगवान ॥ २ ॥
 मंत्रहीन धनहीन हूं, क्रियाहीन जिनदेव ।
 क्षमा करहु राखहु मुझे, देहु चरणकी सेव ॥ ३ ॥
 आये जां जो देवगन, पूजे भक्तिप्रमान ।
 सो अब जावहु कृपाकर, अपने अपने धान ॥ ४ ॥

भाषा स्तुति पाठ ।

तुम तरनतारन भवनिवारन भविकमन आनंदनो ।
 श्रीनाभिनंदन जगतवंदन, आदिनाथ निरंजनो ॥१॥
 तुम आदिनाथ अनाथ सेऊं, सेय पद पूजा करूं ।
 कैलाशगिरि पर ऋषभजिनवर, पदकमल हिरदै धरूं ॥२॥
 तुम अजितनाथ अजीत जीते, अष्टकर्म महाबली ।
 यह विरद सुनकर शरन आयो, कृपा कीजे नाथजी ॥३॥
 तुम चंद्रवदन सुचंद्र लच्छन, चंद्रपुरि परमेश्वरो ।
 महासेन-नंदन जगत-वंदन, चंद्रनाथ जिनेश्वरो ॥४॥
 तुम शांति पांच कल्याण पूजूं, शुद्धमनवचकाय जू ।
 दुर्मिच्छ चोरी पाप-नाशन, विधन जाय पलाय जू ॥५॥
 तुम बालब्रह्म विवेकसागर, भव्य कमल विनाशनो ।
 श्रीनेमिनाथ पवित्र दिनकर, पाप तिमिर विनाशनो ॥६॥

जिन तञ्जी राजुल राजकन्या, कामसेन्या वश करी ।
 चारित्र्य रथ चढ़ भये दून्हा, जाय शिवरमणी वरी ॥७॥
 कंदर्प दर्प सुसर्प लक्षणा, कमठ शठ निर्मद कियो ।
 अश्वसेननंदन जगतचंदन, सकलसंघ मंगल कियो ॥८॥
 जिन धरी बालकपणे दीक्षा, कमठ मान विदागके ।
 श्रीपार्श्वनाथ जिनेन्द्रके पद, मैं नमूँ चित धारके ॥९॥
 तुम कर्मघाता मोक्षदाता, दीन जान दया करो ।
 सिद्धार्थनंदन जगतचंदन, महावीर जिनेश्वरो ॥१०॥
 त्रय छत्र सोहैं सुर नर मोहैं, वोनतो अवधारिये ।
 कर जाड़ि मेवक वीनव प्रभु, आवागमन निवारिये ॥११॥
 अब होउ भव भव स्वामि मेर, मैं सदा सेवक रहो ।
 कर जोड़ यह वरदान मांगों मोक्षफल जावत लहों ॥१२॥
 जो एक माहीं एक राजै, एकमांहि अनेकनो ।
 इक अर अनेककी नहीं संख्या, नमों सिद्ध निरंजनो ॥१३॥

चौपाई ।

मैं तुम चरणकमल गुणगाय, बहुविधि भक्ति करूँ मन लाय ।
 जनम जनम प्रभु पाऊँ तोहि, यह सेवा फल दीजे मोहि ॥
 कृपा तिहारी ऐसी होय, जामन मरन मिटावो मोय ।
 बार बार मैं विनती करूँ, तुम सेये भवसागर तरूँ ॥१५॥

नाम लेत सब दुख मिट जाय, तुम दर्शन देख्यां प्रभु आय ।
 तुम हो प्रभु देवनके देव, तुम पदकमल करूं नित सेव ॥
 मैं आयो पूजनके काज, मेरो जनम सफल भयो आज ।
 पूजा करके नवाऊं शीस, मुझ अपराध क्षमहु जगदीश ॥१७॥
 दोहा ।

सुख देना दुख भेटना, यहीं तुम्हारी बान ।
 मो गरीबकी, वीनती सुन लीजे भगवान ॥ १८ ॥
 दर्शन करते देवका, आदि मध्य अवसान ।
 स्वर्गनके सुख भोगकर, पावै मोक्ष निदान ॥ १९ ॥
 बिन मतलब बहुते अधम, तार दिये स्वयमेव ।
 त्यों मेरा कारज सफल, कर देवनके देव ॥ २० ॥
 जैसी महिमा तुम विषै, और धरे नहिं कोय ।
 जो छरजमें ज्योति है, तारनमें नहिं सोय ॥ २१ ॥
 नाथ तिहारे नामतैं, अघ खिनमाहि पलाय ।
 ज्यों दिनकर परकाशतैं, अन्धकार विन्शाय ॥ २२ ॥
 बहुत प्रशंसा क्या करूं, मैं प्रभु बहुत अजान ।
 पूजाविधि जानू नहीं, शरन राखि भगवान ॥ २३ ॥
 इस अपार संसारमें, शरण नाहि प्रभु कोय ।
 यातैं तुम पद भक्तको, भक्ति सहाई होय ॥ २४ ॥
 इति भाषानित्यनियम पूजा ।

मैमित्तिक पूजाएँ वर्तमान चौबीसी पूजा ।

(कविवर वृन्दावन कृत)

शोहा

त्र्यंदां पार्चां परमगुरु, सुरगुरु वंदत जाम ।
विघ्नहरन मंगलकरन, पूरन परमप्रकाश ॥ १ ॥
चौबीसों जिनपति नमों, नमों शारदा माय ।
शिवमगसाधक साधु नमि, ग्चों पाठ सुखदाय ॥ २ ॥

नामावली स्तोत्र ।

(छंद नयमालिनी, तथा तामरस व चंडी १६ मात्रा)

जय जिनंद सुखकंद नमस्ते, जय जिनंद जितकंद नमस्ते ।
जय जिनंदवरबोध नमस्ते, जय जिनंद जितक्रोध नमस्ते ॥१॥
पापतापहर इंदु नमस्ते, अर्हवरनजुतबिंदु नमस्ते ।
शिष्टाचारविशिष्ट नमस्ते, इष्ट मिष्ट उतकृष्ट नमस्ते ॥२॥
पर्मधर्म वरशर्म नमस्ते, मर्मभर्मघन-धर्म नमस्ते ।
दृगविशाल वरभाल नमस्ते, हृदिदयाल गुणमाल नमस्ते ॥३॥

शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध नमस्ते, अद्विसिद्धिवरवृद्ध नमस्ते ।
 वीतराग विज्ञान नमस्ते, चिद्विलास धृतध्यान नमस्ते ॥४॥
 स्वच्छगुणांबुधिरत्न नमस्ते, सस्वहितकरयत्न नमस्ते ।
 कुनयकरीमृगराज नमस्ते, मिथ्याखगवरवाज नमस्ते ॥ ५ ॥
 भव्यभवोदधितारं नमस्ते, शर्माभृतसितसार नमस्ते ।
 दरशज्ञानसुखवीर्यं नमस्ते, चतुरानन धरधीर्यं नमस्ते ॥ ६ ॥
 हरि हर ब्रह्मा विष्णु नमस्ते, मोहमर्द्दमनु जिष्णु नमस्ते ।
 महादान महभोग नमस्ते, महाज्ञान महजोग नमस्ते ॥ ७ ॥
 महा-उग्रतपसूर नमस्ते, महा-मौन गुणभूरि नमस्ते ।
 धर्मचक्रि वृषकेतु नमस्ते, भवसमुद्रशतसेतु नमस्ते ॥ ८ ॥
 विद्याईश मुनीश नमस्ते, इंद्रादिकनुतशीम नमस्ते ।
 जय रतनत्रयराय नमस्ते, सकल जीवसुखदाय नमस्ते ॥९॥
 अशरनशरनसहाय नमस्ते, भव्यसुपंथलगाय नमस्ते ।
 निराकार साकार नमस्ते, एकानेकअधार नमस्ते ॥ १० ॥
 लोकालोकविलोक नमस्ते, त्रिधा सर्व गुनथोक नमस्ते ।
 सल्लदल्लदलमल्ल नमस्ते, कल्लमल्ल जितल्ल नमस्ते ॥ ११ ॥
 भुक्तिमृक्तिदातार नमस्ते, उक्तिःसृक्ति शृङ्गार नमस्ते ।
 गुनअनंत भगवंत नमस्ते, जय जय जय जयवंत नमस्ते ॥१२॥

इति पठित्वा जिनचरणाम्बे परिपुष्पांजलिं क्षिपेत् ।

[समुच्चय चौबीसी पूजा पहले आ चुकी है इस कारण यहां पर पुनः नहीं रखी]

श्रीआदिनाथपूजा ।

अद्विल ।

परमपूज्य वृषभेष स्वयंभूदेवि जू,
पितानाभि मरुदेवि करै सुर सेव जू ।
कनकवरण तन तुङ्ग धनुष पनशत तनां,
कृपासिंधु इत आइ तिष्ठ ममदुख हनौ ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीआदिनाथजिन अत्र अवतर अवतर । संवौषट् ।
अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भव भव । वषट् ।

अष्टक ।

छंद द्रुतविलंबित तथा सुन्दरी ।

हिमवनोद्भव वारि सुधारिकें, जजत हों गुनबोध उचारिकें ।
परमभाव सुखोदधि दीजिए, जनममृत्युजरा छय कीजिए ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीऋषभदेवजिनेन्द्राय जन्ममृत्युविनाशनाय जलं
निर्वपामि स्वाहा ।

मलयचंदन दाहनिकंदनं, घसि उभै करमें करि वंदनं ।
जजत हों प्रशमाश्रम दीजिए, तपततापत्रिधा छै कीजिए ॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभदेवजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चंदनं निर्व-
पामि स्वाहा ।

अमल तंदुल खंडविवर्जितं, सित निशेशहिमामियतर्जितं ।
जजत हों तसु पुञ्ज धरायजी, अखय संपति द्यो जिनरायजी ॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभजिनेन्द्रायाऽक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निर्व्वपामि ।

कमल चंपक केतकि लीजिए, मदन-भंजन भेट धरीजिए ।
परमशील महा सुखदाय हैं, समरसूल निमूल नशाय हैं ॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभदेवजिनेन्द्राय कामविध्वंसनाय पुष्पं निर्व्वपामि ।

सरस मोदनमांदक लीजिए, हरनभूख जिनेश जर्जीजिए ।
सकल आकुलअंतकहेतु हैं, अतुल शांतसुधारस देतु हैं ॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभदेवजिनेन्द्राय जुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं
निर्व्वपामि स्वाहा ।

निविड मोहमहातम छाइयो, स्वपरभेद न मोहि लखाइयो ।
हरनकारन दीपक तासक, जजत हों पद केवल भासके ॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभदेवजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं
निर्व्वपामि स्वाहा ।

अगरचन्दन आदिक लेयकें, परम पावन गन्ध सुखेयकें ।
अर्गानसंग जरै मिस धूमके, सकल कर्म उड़े यह धूमके ॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभदेवजिनेन्द्रायाऽष्टकर्मदहनाय धूपं निर्व्वपामि ।

सुरस पक मनोहर पावने, विविध लै फल पूज रचावने ।
त्रिजगनाथ कृपा अब कीजिए, हमहि मोक्ष महाफल दीजिए ॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभदेवजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्व्वपामि ।

जलफलादि समस्त मिलायकें, जजत हों पद मंगल गायकें ।
भगतवत्सल दीनदयालजी, करहु मोहि सुखी लखि हालजी ॥
ॐ ह्रीं श्रीवृषभदेवजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं निर्वपामि ।

पंचकल्याणक ।

छंद द्रुतखिलंचित तथा सुन्दरी ।

असित दोज अषाढ़ सुहावनी, गरभमंगलको दिन पावनी ।
हरि सची पितुमातहिं सेवही, जजत हैं हम श्रीजिनदेवही ॥१॥

ॐ ह्रीं आषाढकृष्णद्वितीयादिने गर्भमंगलप्राप्तये श्रीऋषभ-
देवाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

असित चैत सुनौमि सुहाइयो, जनममंगल तादिन पाइयो ।
हरि महागिरिपै जाजयो तबै, हम जजैं पदपंकजका अबै ॥२॥

ॐ ह्रीं चैत्रकृष्णनवमीदिने जन्ममंगलप्राप्तये श्रीवृषभनाथाय
अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

असित नौमि सुचैत धरे सही, तपत्रिशुद्ध सबै समता गही ।
निज सुधारससों भर लाइयो, हम जजैं पद अर्घ चढ़ाइयो ॥३॥

ॐ ह्रीं चैत्रकृष्णनवमीदिने दीक्षामंगलप्राप्तये श्रीआदिनाथाय
अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

असित फागुन ग्यारसि सोहनों, परम केवलज्ञान जग्यो भनों ।
हरि समूह जजैं तहँ आइकैं, हम जजैं इत मंगल गाइकैं ॥४॥

ॐ ह्रीं फाल्गुनकृष्णैकादश्यां ज्ञानसाम्राज्यमंगलप्राप्तये श्री-
वृषभनाथाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

असित चौदसि माघ विराजई, परम मोक्ष सुमंगल साजई ।
हरि समूह जजे कैलासजी, हम जजै अति धार हुलासजो ॥५॥

ॐ ह्रीं माघकृष्णचतुर्दश्यां मोक्षमंगलप्राप्तये श्रीवृषभनाथाय
अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

जयमाला ।

छंद घत्तानन्द ।

जय जय जिनचन्दा आदिजिनन्दा, हनि भवफंदा कंदा जू ।
वासवशतचंदा धरि आनन्दा, ज्ञान अमंदा नन्दा जू ॥१॥

छंद मोतियदाम ।

त्रिलोऽहितंकर पूरन पर्मे, प्रजापति विष्णु चिदात्म धर्म ।
जतीसुर ब्रह्मविदांवर बुद्ध, वृषंक अशंक क्रियाम्बुधि शुद्ध ॥२॥
जवै गर्भागममंगल जान, तबै हरि हर्ष हिये अति आन ।
पिताजतनीपद सेव करेय, अनेक प्रकार उमंग भरेय ॥३॥
जये जब ही तब ही हरि आय, गिरीन्द्रविषै किय न्हौन सुजाय ।
नियोग समस्त किये तित सार, सुलाय प्रभू पुनि राजअगार
पिताकर सोंपि कियो तित नाट, अमंद अनन्द समेत विराट ।
सुथान पयान कियो फिर इन्द, इहां सुरसेव करै जिनचद ॥
कियो चिरकाल सुखाश्रित राज, प्रजा सब आनन्दको तित साज
सुलिप्त सुभोगनिमें लखि जोग, कियो हरिने यह उत्तम योग ॥
निलंजन नाच रच्यो तुम पास, नवों रसपूरित भाव विलास ।
बजै मिरदंग दम दम जोर, चलै पग झारि झनांझन झोर ॥

घनाघन घंट करे धुनि मिष्ट, बजे मुहचंग सुरान्वितपुष्ट ।
 खड़ी छिनपास छिनहि आकाश, लघू छिन दीरघ आदि विलास
 ततच्छन ताहि विलै अविलोय, भये भवतैं भयभीत बहोय ।
 सुभावत भावन बारह भाय, तहां दिवन्नक्षत्रषीश्वर आय ॥
 प्रबोध प्रभू सुगये निज धाम, तवै हरि आय रची शिवकाम ।
 कियो कचलोंच पिरागअरन्य, चतुर्थम ज्ञान लखो जगधन्य ॥
 धरौ तब योग छमाम प्रमान, दियो शिरियंस तिन्हें इख दान ।
 भयो जब केवलज्ञान जिनेन्द्र, समोसृतठाठ रच्यो सु घनेन्द्र ॥
 तहां वृषतत्व प्रकाशि अशेष, कियो फिर निर्भयथान प्रवेश ।
 अनन्त गुनातम श्रीमुखराश, तुम्हें नित भव्य नमैं शिवआश ॥

छन्द घत्तानन्द ।

यह अरज हमारी, सुनि त्रिपुरारी, जनम जग मृति दूर करो
 शिवसंपति दीजे, ठील न कीजे, निज लख लीजे कृपा धरो ॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभदेवजिनेन्द्राय महार्घं निर्वापामीति स्वाहा ।

छन्द आर्या ।

जो ऋषभेश्वर पजे, मनवचतनभाव शुद्ध कर प्रानी ।
 सो पावै निश्चैसीं, भुक्ती औ मुक्तिसार सुखथानी ॥ १४ ॥

इत्याशीर्वादः ।

पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।

इति श्रीअनादिनाथपूजा समाप्त ।

श्रीअजितजिनेन्द्रपूजा ।

(छंद अशोकपुष्पमंजरी, दण्डक, अर्द्धमंजरी तथा अर्द्धनाराच)

त्याग वैजयंत सार सारधर्मके अधार,

जन्मधार धीर नग्र सुष्टु कौशलापुरी ।

अष्टदृष्ट नष्टकार मातु वैजयाकुमार,

आयु पूर्व लक्ष दक्ष है बहत्तरैपुरी ॥

ते जिनेश श्रीमहेश शत्रुके निकंदनेश,

अत्र हेरिये सुदृष्टि भक्तपै कृपा पुरी ।

आय तिष्ठ इष्टदेव मैं करों पदाब्जसेव,

पर्म शर्मदाय पाय आय शर्म आपुरी ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीअजितनाथजिन अत्रावतारावतर । संबौषट् । अत्र
तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भव भव । वषट् ।

अष्टक ।

छंद त्रिभंगी अनुप्रासक ।

गंगाहृदपानी निर्मल आनी, शौरभसानी सीतानी ।

तसु धारत धारा तृषानिवारा, शांतागारा सुखदानी ॥

श्रीअजितजिनेशं नुतनाकेशं, चक्रधरेशं खगेशं ।

मनवाञ्छितदाता त्रिभुवनत्राता, पूजो ख्याता जग्गेशं ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीअजितजिनेन्द्राय जन्ममृत्युविनाशनाय जल निव-
पामीति स्वाहा ।

शुचि चंदन बावन तापमिटावन, सौरभ पावन घसि ब्यायो ।
 तुम भवतपभंजन हो शिवरंजन, पूजनरंजन में आया ॥
 श्रोत्रजितजिनेशं तुतनाकेशं, चक्रधरेशं खग्गेशं ।
 मनवांछितदाता त्रिभुवनत्राता, पूजो ख्याता जग्गेशं ॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीअजितजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चंदनं निर्व-
 पामीति स्वाहा ।

सितरुंडाविवर्जित निशिपतितर्जित, पुञ्ज विधर्जित तंदलको ।
 भवभावनिखर्जित शिवपदसर्जित, आनंदभर्जित दंदलको ॥श्री०

ॐ ह्रीं अजितजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निर्वपा-
 मीति स्वाहा ।

मनमथमदमंथन धीरजग्रंथन, ग्रंथनिग्रंथन ग्रंथपती ।
 तुमपादकुशसे आदिकुशसे, धारि अशसे अर्चयती ॥श्री०॥

ॐ ह्रीं श्रीअजितजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं निर्व-
 पामीति स्वाहा ।

आकुलकुलवारन थिरताकारन, छुदाविदारन चरु लायो ।
 षटरसकर भीने अन्न नवीने पूजन कीने सुख पायो ॥श्री०॥

ॐ ह्रीं श्रीअजितजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय चरुं निर्व-
 पामीति स्वाहा ।

दीपकमनिमाला जोतउजाला, भरि कनथाला हाथ लिया ।
 तुम अमतमहारी शिवसुखकारी, केवलधारी पूज किया ॥श्री०॥

ॐ ह्रीं श्रीअजितजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं
 निर्वपामीति स्वाहा ।

अमरादिक चूरन षड्मलपूरन, खेवत करन कर्म जरै ।
दशहृदिशि धावत हर्षबदावत, अलिगुह्यावत नृत्यकरै ॥ श्री०

ॐ ह्रीं श्रीअजितजिनेन्द्राय अष्टकर्मवहनाय धूपं निर्वपामि ।

बादाम नरङ्गी श्रीफल चंगी आदि अमंगीसौं अरचौं ।
सब विघनविनाशै सुखपरकाशै, आतम भासै भौविरचौं ॥ श्री० ॥

ॐ ह्रीं श्रीअजितजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामि ।

जलफल सब सज्जे बाजत बज्जे, गुनगनरज्जे मनमज्जे ।
तुअ पदजुगमज्जे सज्जन जज्जे, ते भवभज्जे निजकज्जे ॥
श्रीअजितजिनेशं नुतनाकेशं, चक्रधरेशं, खमोशं
मनत्रांछितदाता त्रिभुवनत्राता, पूजो रूपाता, जमोशं ॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीअजितजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं निर्वपामि ।

पंचकल्याणक ।

छंद द्र तमध्यकं १६ मात्रा ।

जेठ असेत अमावशि सोहै, गर्भदिना नँद सो मनमोहै ।
इंद फनिंद जजें मनलाई, हम पद पूजत अर्घ चढ़ाई ॥१॥

ॐ ह्रीं ज्येष्ठकृष्णामावस्यायां गर्भमंगलप्राप्तय श्रीअजित-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥

माघसुदी दशमी दिन जाये, त्रिभुवनमें अति हरष बढ़ाये ।
इंद फनिंद जजें तित आई, हम नित सेवत हैं हुलसाई ॥२॥

ॐ ह्रीं माघशुक्लदशमीदिने जन्ममंगलमंडिताय श्रीअजित-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥

माघसुदी दशमी तप धारा, भव तन भोग अनित्य विचारा ।
इंद फनिंद जजै तित आई, हम इत सेवत हैं सिरनाई ॥३॥

ॐ ह्रीं माघशुक्लदशमीदिने दीक्षाकल्याणकप्राप्ताय श्रीअजित-
जिनेद्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥

पौषसुदी तिथि चाथ सुहायो, त्रिभुवनमानु सुकेवल जायो ।
इंद फनिंदजजै तित आई, हम पद पूजत प्रीत लगाई ॥४॥

ॐ ह्रीं पौषशुक्लचतुर्थीदिने ज्ञानकल्याणकप्राप्ताय श्रीअजित-
जिनेद्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

पंचमि चैतसुदी निरवाना, निजगुनराज लियो भगवाना ।
इन्द फनिंद जजै तित आई, हम पद पूजत हैं गुनगाई ॥५॥

ॐ ह्रीं चैत्रशुक्लपञ्चमीदिने निर्वाणमंगलप्राप्ताय श्रीअजित-
नाथाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

जयमाला ।

दोहा ।

अष्ट दुष्टको नष्ट करि, इष्ट मिष्ट निज पाय ।
शिष्ट धर्म भारूयो हमें, पुष्ट करो जिनराय ॥ १ ॥

छन्द पदड़ी १६ मात्रा ।

जय अजितदेव तुअ गुन अपार, पै कहुं कहुक लघुबुद्धि धार ।
दशजनमतअतिशय बलअनंत, शुभलच्छन मधुरवचन अनंत
सहनन प्रथम मलरहित देह, तनसौरभ शोणितस्वेत जेह ।
वपु स्वेदविना महरूपधार, समचतुर धरें संठान चार ॥३॥

दश केवल गमनभकाशदेव, सुरभिच रहै योजन सतेव ।
 उपसर्गरहित जिनतन सु होय, सब जीव रहितबाधा सु जोष
 मुखचारि सरबविद्याअधीश, कवलाअहारवर्जित गरीश ।
 आयाविनु नख कच बढे नहिं, उन्मेष टमक नहिं भ्रुकुटिमाहिं
 सुरकृत दशचार करों बखान, सब जीवमित्रताभाव जान ।
 कंटकविन दर्पणवत सुभूम, सब धान वृच्छ फल रहे भूम ॥
 षट्शतुकु फूल फले निहार, दिशि निर्मल जिय आनंदधार ।
 जहँ शीतल मंद सुगंध वाय, पदपंकजतल पंकज रचाय ॥७॥
 मलरहित गगन सुर जय उचार, वरषा गंधोदक होत सार ।
 वर धर्मचक्र आगे चलाय, वसुमंगलजुत यह सुर रचाय ॥८॥
 सिंहासन छत्र चमर सुहात, भामंडलछवि वरनी न जात ।
 तरु उच्चअशोक रु सुमनवृष्टि, धुनिदिव्य और दुन्दभी मिष्ट ॥
 दृगज्ञानशर्मवीरज अनंत, गुण द्वियालीस इम तुम लहत ।
 इन आदि अनंते सुगुनधार, वरनत गनपति नहिं लहत पार
 तव समयशरनमहँ इन्द्र आय, पद पूजत वसुविधि दरब लाय
 अति भगतसिंहित नाटक रचाय, ताथेइ थेइ थेइ पुनि रही छाय
 पग नूपुर भननन भनभनाय, तननननननन तन तान गाय ।
 घननननननन घंटा घनाय, छम छम छम छम छुं बरू बजाय ॥
 दम दम दम दम दम मुरज ध्वान, संसाग्रदि सरंगीसुर भरत तान
 भट्ट भट्ट भट्ट अटपट नटत नाट, इत्यादि रच्यो अद्भुत सुठाट

पुनि बंदि इंद धुति नुति करन्त, तुम हो जममें जयवंत संत ।
फिर तुम विहार करि धर्मवृष्टि, सब जोग निरोप्यो परम इष्ट
सम्मोदधकी लिय मुकति थान, जय सिद्धशिरोमन गुननिधान
वृन्दावन बंदत बारबार, भवसागरतें मो तार तार ॥१५॥

छन्द घत्तानन्द ।

जय अजित कुपाला गुनमणिमाला, संजमशाला बोधपती ।
वर सुजसउजाला हीरहिमाला, ते अधिकाला स्वच्छ अती ॥

ॐ ह्रीं श्रीअजितजिनेन्द्राय पूर्यार्घं निर्वपामि ।

छन्द मदावलिप्तकपोल ।

जो जन अजित जिनेश जजै हैं, मनवचकारै,
ताको होय अनन्द ज्ञान संपति सुखदाई ।
पुत्र मित्र धयधान्य सुजस त्रिभुवनमहँ छावै,
मकल शत्र छय जाय अनुक्रमसों शिव पावै ॥१७॥

इत्याशीर्वादः ।

श्रीशंभवनाथपूजा ।

छंद मदावलिप्तकपोल ।

जय शम्भव जिनचन्द सदा हरिगनचकोरनुत,
जयसेना जसु मातु जैति राजा जितारसुत ।
तजि ग्रीवक लिये जन्मनगर सावित्री आई,
सो भवभजनहेत भगतपर होहु सहस्र ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीशंभवनाथ जिनेन्द्र ! अत्रावतरावतर । संश्लेषत् ।

ॐ ह्रीं श्रीशंभवनाथ जिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीशंभवनाथ जिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो भव
भव । वषट् ।

अष्टक ।

(छंद चौबोला तथा अनेक रागोंमें गाया जाता है ।)

मुनिमनसम उज्ज्वल जल लेकर, कनक कटोरीमें धारा,
जनमजरामृतनाशकरनको, तुमपदतर ढारों धारा ।
शम्भवजिनके चरन चरचरें, सब आकुलता मिट जावै,
निजनिधि ज्ञानदरशसुखवीरज, निरावाध भविजन पावै ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीशंभवजिनेन्द्राय जन्ममृत्युविनाशनाथ जलं निर्व-
पामि० ।

तपतदाहकों कन्दन चन्दन मलयागिरिको घसि लायो ।
जगवन्दन भौफन्दनिकन्दन समरथ लखि शरन आयो । शं०॥

ॐ ह्रीं श्रीशंभवजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाथ चंदनं नि० ।
देवजीर सुखदास कमलवासित सित सुन्दर अनियारे ।
पुञ्ज धरों इन चरनन आगें, लहों अखयपदकों प्यारे ॥शं०॥

ॐ ह्रीं श्रीशंभवजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निर्वपामि ।
कमल केतकी बेल चमेली, चम्पा जूही सुमन वरा ।
तासों पूजत श्रीपति तुमपद, मदनवान विध्वंसकरा ॥शं०॥

ॐ ह्रीं श्रीशंभवजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाथ पुष्पं नि० ।

बेबर बाबर मोदन मोदक, खाजा ताजा सरस बना ।
 तासों पदश्रीपतिको पूजत, छुधारोग ततकाल हना ॥
 शम्भवजिनके चरन चरचर्ते, सब आकुलता मिट जावै ।
 निजनिधि ज्ञानदरशसुखवीरज, निराबाध भविजन पावै ॥५॥
 ॐ ह्रीं श्रीशंभवजिनेन्द्राय छुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि० ।
 घटपटपरकाशक अमतमनाशक, तुमडिंग ऐसो दीप घरों ।
 केवलजोत उदोत होहु मोहि, यही सदा अरदास करों ॥शं०॥
 ॐ ह्रीं श्रीशंभवजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं नि० ।
 अगर तगर कृष्णागर श्रीखंडादिक चूर हुताशन में ।
 खेवत हों तुम चरनजलजडिंग, कर्म छार जरि हूँ छनमें ॥शं०॥
 ॐ ह्रीं श्रीशंभवजिनेन्द्राय अष्टकर्मवहनाय धूपं निर्वपामि ।
 श्रीफल लौंग बदाम छुहाग, एला पिस्ता दाख रमै ।
 लै फल प्रासुक पूजों तुमपद, देहु अस्वयपद नाथ हमैं ॥शं०॥
 ॐ ह्रीं श्रीशंभवजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामि ।
 जल चंदन तन्दुल प्रसून चरु, दीप धूप फल अर्घ किया ।
 तुमको अरपों भावभगतिधर, जय जय जय शिवरमनिपिया ॥
 शम्भवजिनके चरन चरचर्ते, सब आकुलता मिट जावै :
 निजनिधि ज्ञानदरशसुखवीरज, निराबाध भविजन पावै ॥६॥
 ॐ ह्रीं श्रीशंभवजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं निर्वपामि ।

पंचकन्यारण्यक ।

छंद हंसी मात्रा १५ ।

मातागर्भविषै जिन आय, फागुनसित आठै सुखदाय ।

सेयो सुरतिय छप्पनचुन्द, नानाविधि मै अजो जिनन्द ॥१॥

ॐ ह्रीं फाल्गुनशुक्लाष्टम्यां गर्भमंगलप्राप्ताय श्रीशंभवजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

कातिक सित पूनम तिथि जान, तीनज्ञानचतु जनम प्रमान ।

धरि गिरिराज जजे सुरराज, तिन्हें अजो मै निजहित काज ॥

ॐ ह्रीं कार्तिकशुक्लपूर्णिमायां जन्ममंगलप्राप्ताय श्रीशंभवजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

मगसिरसित पून्यो तप धार, सकल संगतजि जिन अनगार ।

ध्यानादिक बल जीते कर्म, चर्चो चरन देहु शिवशर्म ॥३॥

ॐ ह्रीं मार्गशीर्षपूर्णिमायां दीक्षाकल्याणकप्राप्ताय श्रीसंभवजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

कातिक कलितिथि चौथ महान, घातिघात लिय केवलज्ञान ।

समवशरनमहँ तिष्ठे देव, तुरिय चिहन चर्चो बसुभेव ॥४॥

ॐ ह्रीं कार्तिककृष्णचतुर्थीदिने ज्ञानसाम्राज्यमंगलप्राप्ताय श्रीसंभवजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

चैत शुक्ल तिथि षष्ठी घोख, गिरसमेदतैं लीनों मोख ।

चारशतक धनुअवगाहना, अजो तासपद धुति कर घना ॥५॥

ॐ ह्रीं चैत्रशुक्लषष्ठीदिने निर्वाणकल्याणप्राप्ताय श्रीसंभवजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

दोहा ।

श्रीशम्भवके गुन अगम, कहि न सकत सुरराज ।
मैं बशभक्ति सुधीठ हूँ, विनवों निजहितकाज ॥१॥

छंद मोतियदाम ।

जिनेश महेश गुनेश गरिष्ठ, सुरासुरसेवित ३ष्ट वरिष्ठ ।
धरे वृषचक्र करे अघ चूर, अतत्वक्षपातममर्दन सूर ॥ २ ॥
सुतत्वप्रकाशन शासन शुद्ध, विवेक विराग बढ़ावन बुद्ध ।
दयातरुतर्पनमेघ महान, कुनैगिरिभंजन वज्र समान । ३ ॥
सगर्भरु जन्ममहोत्सव मांहि, जगज्जन आनंदकंद लहांहि ।
सुपूरव साठहि लच्छ जु आय, कुमार चतुर्थम अंश रमाय ॥
चवालिस लाख सुपूरव एव, निकटक राज किया जिनदेव ।
तजो कहुकारन पाय सुराज, धरे व्रत संजम आतमकाज ॥५॥
सुरेन्द्र नरेन्द्र दियो पयदान, धरे वनमें निज आतम ध्यान ।
कियौ चवघातिय कर्मविनाश, लयोतष केवलज्ञानप्रकाश ॥६॥
भई समवसृति ठाट अपार, खिरै घुनि भैलहिं श्रीगनधार ।
भने षटद्रव्यतने विसतार, चहू अनुयोग अनेकप्रकार ॥७॥
कहे पुनि त्रेपन भावविशेष, उमै विधि हैं उपशम्य जुभेष ।
सुसम्यकचारितभेदस्वरूप, अबैं इमिछायक नौ सुअनूप ॥८॥

दृगौ बुधि सम्यक चारितदान, सु लाभ रु भोगुपभोगप्रमान ।
 सु वीरज संजुत ए नव जान, अठार छयोपशमं इम मान ॥६॥
 मति श्रुत औधि उभै विधि जान, मनःपरजै चस्तु और प्रमान ।
 अचस्तु तथावधि दान रु लाभ, सुभोगुपभोग रु वीरजसाम ॥
 अताव्रत संजम और सुधार, धरे गुन सम्यक चारित भार ।
 भये वसु एक समापत येह, इकीश उदीक सुनो अब जेह ॥
 चहूं गति चारि कषाय तिवेद, छलेश्यय और अज्ञानविभेद ।
 असंजमभाव लखो इसमाहिं, असिद्धित और अतत्कहांहिं ॥
 भये इक्कीस सुनो अब और, विभेद त्रियं परिनामिक ठौर ।
 सुजीवित भव्यत और अभव्य, तरेपन एम मने जिन सब्ब ॥
 तिन्होंमँह केतक त्यागनजोग, कितेक गहेतँ मिटै भवरोग ।
 कह्यो इनआदि लह्यो फिर मोख, अनंतगुनातममंडित चोख ॥
 जजों तुमपाय जपौं गुनसार, प्रभू हमको भवसागरतार ।
 गही शरनागत दीनदयाल, विलंब करो मति हे गुनमाल ॥

छंद घत्तानन्द ।

जै जै भवभजन जनमनरंजन, दयाधुरंधर कुमतिहरा ।
 घुन्दावन वंदत मनआनन्दित, दीजे आतमज्ञानबरा ॥१६॥
 ॐ ह्रीं श्रीशंभवजिनेन्द्राय महाघ निर्बयामीति स्वाहा ॥

छंद अद्विज ।

जो बाचै यह पाठ सरस शम्भवतनों,
 सो पावै धनधान्य सरस संपति धनो ।
 सकलपाप छै जाय सुजस जगमें बदै,
 पूजत सुरपद होय अनुक्रम शिवचढ़ै ॥१७॥
 इत्यारीर्वादि ।

श्रीअभिनन्दनजिनपूजा ।

छंद मदावलिप्रकपोल ।

अभिनन्दन आनन्दकन्द, सिद्धारथनन्दन,
 संवरपिता दिनन्द चंद, जिहि आवत बंदन ।
 नगर अजोध्या जनम इन्द, नागिंद जु ध्यावै,
 तिन्हें जजनके हेत थापि, हम मंगल गावैं ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीअभिनन्दनजिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर । सर्वौषट् ।

ॐ ह्रीं श्रीअभिनन्दनजिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीअभिनन्दनजिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव ।
 षषट् ।

अष्टक ।

छंद गीता, हरिगीता, तथा रूपमाला ।

पदमद्रहगत गंगचंग, अभंग, धार सुधार है,
 कनकमणिगनजडित भारी, द्वारधार निकार है ।

कलुषतापनिकंद श्रीअभिनन्द, अनुपमचंद्र है,

पदवंद वृन्द जजे प्रहृ, भवदंदफंदनिकन्द है ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीअभिनन्दनजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्यु-विनाशनाय
जलं निर्वपामि ।

शीतचंदन कदलिनंदन, सुजलसंग घसायकें ।

ह्रै सुगंध दशोदिशामें, भमैं मधुकर आयकें ॥क०॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीअभिनन्दनजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चंदनं
निर्वपामि ।

दीरहिमशशिफेनमुक्ता, सरिस तन्दुल सेत हैं ।

तासको ढिंग पुंज धारों, अछय पदके हेत हैं ॥क०॥३॥

ॐ ह्रीं श्रीअभिनन्दनजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय अक्षतान्
निर्वपामीति स्वाहा ।

समरसुभटनिघटनकारन, सुमन सुमनसमान हैं ।

सुरमितैं जापै कर भंकार, मधुकर आन हैं ॥क०॥४॥

ॐ ह्रीं श्रीअभिनन्दनजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं
निर्वपामीति स्वाहा ।

सरस ताजे नव्य गव्य मनोज्ञ, चितहर लेयजी ।

बुधाछेदन छिमाछितपतिके, चरन चरचेयजी ॥क०॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीअभिनन्दनजिनेन्द्राय बुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ।

अतततममर्दनकिरनवर, बोधभानुविकाश है ।

तुम चरनटिंग दीपक धरों, मोहि होहु स्वपरप्रकाश है ॥

कलुषतापनिकंद श्रीअभिनन्द, अनुपमचंद है,

पदवंद वृन्द जजे प्रभु, भवदंदफंदनिकन्द है ॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीअभिनन्दनजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीप
निर्वपामीति स्वाहा ।

भूर अगर कपूर चूर सुगन्ध, अग्नि जराय है ।

सब करमकाष्ठ सुकाष्ठमें मिस, धूमधूम उडाय है ॥क०॥

ॐ ह्रीं श्रीअभिनन्दनजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं नि० ।

आम निंबु सदा फलादिक, पक पावन आनजी ।

मोक्षफलके हेत पूजों, जोरि कै जुगपानजी ॥क०॥८॥

ॐ ह्रीं श्रीअभिनन्दनजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि० ।

अष्टद्रव्य सँवारि सुन्दर, सुजस गाय रसाल ही ।

नचत रचत जजों चरनजुग, नाय नाय सुभाल ही ॥क०॥

ॐ ह्रीं श्रीअभिनन्दनजिनेन्द्राय अनन्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ।

पंचकल्याणक ।

छंद हरिपद ।

शुकलछट्ट वयशाखविषे तजि, आये श्रीजिनदेव,

सिद्धारथमाताके उरमें, करै सची शुचि सेव ।

रतनवृष्टि आदिक वर मंगल, होत अनेकप्रकार,

ऐसे गुननिधिकों मैं पूजों, ध्यावों बारम्बार ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं वैशाखशुक्लपञ्चमीदिने गर्भमंगलमंडिताय श्रीअभिनन्दन-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

माघशुक्लतिथि द्वादशिके दिन, तीनलोकहितकार,
अभिनन्दन आनंदकंद तुम, लीन्हो जगन्नवतार ।
एक मुहूर्त नरकमाहि हू, पायो सब जिय चैन,
कनकवरन कपि चिह्नधरनपद, जजो तुमैं दिनरैन ॥२॥

ॐ ह्रीं माघशुक्लद्वादश्यां जन्ममंगलमंडिताय श्रीअभिनन्दन-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

साढे छत्तिसलाख सुपूरब, राजभोग वर भोग,
कछु कारन लखि माघशुक्ल, द्वादशिकों धारौ जोग ।
षष्ठक नेम समापत करि लिय, इन्द्रदत्त घर छीर,
जय धुनि पुष्प रतन गंधोदक, वृष्टि सुगंध समीर ॥३॥

ॐ ह्रीं माघशुक्लद्वादश्यां दीक्षाकल्याणप्राप्ताय श्रीअभिनन्दन-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

पौष शुक्ल चौदशिकों घाते, घातिकरमदुखदाय,
उपजायो वरबोध जासको, केवल नाम कहाय ।
समवसरन लहि बोधिधरम कहि, भव्यजीवसुखकंद,
मोकों भवसागरतैं तारो, जय जय जय अभिनंद ॥४॥

ॐ ह्रीं पौषशुक्लचतुर्दश्यां केवलज्ञानप्राप्ताय श्रीअभिनन्दन-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

जोगनिरोध अघातिघाति लहि, गिरसमेदतैं मोख,
 माससकल सुखराशि कहे, वैशाखशुक्ल छठ चोख ।
 चतुरनिकाय आय तित कीनो, भगतभाव उमगाय,
 हम पूजैं इत अरघ लेय जिमि, विघनसघन मिट जाय ॥५॥
 ॐ ह्रीं वैशाखशुक्लषष्ठीदिने मोक्षमङ्गलप्राप्तये श्रीअभिनंदन-
 जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपाभीति स्वाहा ।

जयमाला ।

दोहा ।

तुङ्ग सु तन धनु तीनसौ, औ पचास सुखधाम ।
 कनकवरन अवलोकिकैं, पुनि पुनि करूं प्रणाम ॥१॥

छंद लक्ष्मीधरा ।

सच्चिदानंद सद्ज्ञान सदृशनी, सत्स्वरूपा लई सत्सुधासर्सनी ।
 सर्वआनन्दकंदा महादेवता, जास पादाब्ज सेवैं सबै देवता ॥
 गर्भ औ जन्मनिःकर्मकल्पानमें, सत्वको शर्म पूरे सबै थानमें
 वंशइच्चाकुमें आपु ऐसेभये, ज्यों निशाशर्दमें इंदु स्वच्छ ठये ॥

लक्ष्मीवती छंद ।

होत वैराग लाकांत सुर बोधियो,
 फेरि शिविकासु चढ़ि गहन निज साधियो ।
 घाति चौघातिया ज्ञान केवल भयो,
 समवसरनादि धनदेव तब निरमयो ॥ ४ ॥

एक है इन्द्रनीली शिला रत्नकी,
 गोल साढेदशे जोअने जत्नकी ।
 चारदिशपैङ्किका बीस हज्जार है,
 रत्नके चूरका कोट निरधार है ॥ ५ ॥
 कोट चहुँओर चहुँद्वार तोरन खँचे,
 तास आगे चहुँ मानथंभा रचे ।
 मान मानी तजै जास ढिंग जायकै,
 नअताधार सेवै तुम्हें आयकें ॥ ६ ॥

छंद लक्ष्मीधरा ।

बिब सिंहासनोपै जहां सोहहीं,
 इंद्र नागेन्द्र केते मनै मोहहीं ।
 बापिका वारिसों जत्र सोहै भरी,
 जासमें न्हात ही पाप जावै टरी ॥ ७ ॥
 तास आगे भरी खातिका वारसों,
 हंस सूआदि पंखी रमें प्यारसों ।
 पुष्पकी वाटिका बागवृच्छें जहां,
 फूल औ श्रीफलेँ सर्वही हैं तहां ॥ ८ ॥
 कोट सौवर्णका तास आगे खड़ा,
 चार दर्वाज चौओर रत्नों जड़ा ।
 चार उद्यान चारों दिशामें गना,
 है ध्वजापंक्ति औ नटशाला बना ॥ ९ ॥

तासु आगें त्रिती कोट रूपामयी,
 तृप नौ जास चारों दिशामें ठयी ।
 धाम सिद्धांतधारीनके हैं जहां,
 औ सभाभूमि है भव्य तिष्ठै तहां ॥१०॥

तास आगें रची गंधकटी महा,
 तीन है कट्टिनी सारशोभा लहा ।
 एकपै तौ निधे ही घरी ख्यात हैं,
 भव्यप्रानी तहांलौं सबै जात हैं ॥ ११ ॥

दूसरी पीठपै चक्रधारी गमै,
 तीसरे प्रातिहार्ये लशे भागमें ।
 तासपै वेदिका चार धंभानकी,
 है बनी सर्वकन्यानके खानकी ॥ १२ ॥

तासपै है सुसिंहासनं भासनं,
 जासपै पद्म प्राफुल्ल है आसनं ।
 तासु पै अंतरीक्षं विराजै सही,
 तीनछत्र जु फिरें शीसररनै यही ॥ १३ ॥

बृच शाकापहारी अशोकं लसै,
 दुन्दुभीनाद औ पुष्प खंते खसै ।
 देहकी ज्योतिसों मंडलाकार है,
 सात भौ भव्य तामें लखै सार हैं ॥१४॥

दिव्यवानी खिरै सर्वेशंका हरै,
 श्रीगनाधीश भेलै सुशक्ती घरै ।
 धर्मचक्री तुही कर्मचक्री हन,
 सर्वशक्री नमै मोदधारे घने ॥ १५ ॥

भव्यको बोधि सम्मेदतैं शिव गये,
 तत्र इन्द्रादि पूजे सुभक्तीमये ।
 हे कृपासिधु मोपै कृपा धारिये,
 घोरसंसारसो शीघ्र मो तारिये ॥ १६ ॥

छन्द घत्तानन्द ।

जै जै अभिनन्दा आन्दकन्दा, भवसमुद्रवर पोत इवा ।
 भ्रमतमशतखंडा, भानुप्रचंडा, तारि तार जगरै नदिवा ॥ १७ ॥

ॐ ह्रीं श्रीअभिनन्दनजिनेन्द्राय पूर्णार्घिं निर्वपामीति स्वाहा ।

छन्द कवित्त ।

श्रीअभिनन्दन पापनिक्कन्दन तिनपद जो भवि जजै सुधार ।
 ताके पुन्नभानु वर उगै दुरिततिमिर फाटै दुखकार ॥
 पुत्र मित्र धनधान्य कमल यह विकसै सुखद जगतहित प्यार ।
 कछुक कालमें सो शिव पावै, पढ़ै सुने जिन जजै निहार ॥ १८

इत्याशीर्वाद ।

सुमतिनाथपूजा ।

कवित्त रूपक मात्रा ३१ ।

संजमरतनविभूषनभूषित, दूषनदूषन श्रीजिनचन्द ।

सुमतिरमारंजन भवभंजन, संजयन्त तजि मेरुनरिंद ॥

मातुमंगला सकलमंगला, नगर त्रिनीता जये अमन्द ।

सो प्रभुदयासुधारसगमित आय तिष्ठ इत हरि दुखदन्द ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीसुमतिजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर ! संवीपट् ।

ॐ ह्रीं श्रीसुमतिजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीसुमतिजिनेन्द्र ! अत्र मम मन्निहितो भव भव ।
यषट् ।

अष्टक ।

(छन्द कवित्त तथा कुसुमलता भी कहाता है ।)

पंचमउदधितनों सम उञ्जल, जल लीनों वरगन्ध मिलाय ।

कनककटोरीमांहिं धारिकरि, धार देहुं सुचि मनवचकाय ॥

हरिहरवंदित पापनिकंदित, सुमतिनाथ त्रिभुवनके राय ।

तुमपदपद्म सन्नशिवदायक, जजत मृदितमन उदित सुभाय ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीसुमतिनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं
निर्वपामीति स्वाहा ।

मलयागर घनसार घँसौं वर, केशर अर करपूर मिलाय ।

भवतपहरन चरनपर वारों, जनमजरामृतताप पलाय ॥हरि०॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीसुमतिनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चंदनं
निर्वपामीति स्वाहा ।

शशिसमउज्जल सहितगंधतल, दोनों अनी शुद्ध सुखदास ।
सो लै अखुषसंपदाकारन, पुञ्ज धरौ, तुमचरननपास ॥हरि०॥

ॐ ह्रीं श्रीसुमतिनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् नि० ।
कमलकेतुकी बेल चमेली, करना अरु गुलाब महकाय ।
सो लै समरशूलछेकारन, जजों चरन अति प्रीत लगाया ॥हरि०॥४॥

ॐ ह्रीं श्रीसुमतिनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं
निर्वपामीति स्वाहा ।

नव्य गव्य पक्वान बनाउँ, सुरस देखि दृगमन ललचाय ।
सोलै छुधारोगद्वयकारण, धरां चरण्णटिंग मनहरपाय ॥हरि०॥५॥

ॐ ह्रीं सुमतिनाथजिनेन्द्राय छुधारोगविनाशाय नैवेद्यं नि० ।
रत्नजडित अथवा घृतिपूरित, वा कपूरमय जोति जगाय ।
दीप धरौ तुम चरननआगें, जातैं केवलज्ञान लहाय ॥हरि०॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीसुमतिनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं
निर्वपामीति स्वाहा ।

अगर तगर कृष्णागर चंदन, चूरि अग्निमें देत जराय ।
अष्टकरम यह दुष्ट जरतु हैं, धूम धूम यह तासु उडाय ॥हरि०॥७॥

ॐ ह्रीं श्रीसुमतिनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं नि० ।
श्रीफल मातुलिंग वर दाडिम, आम निंबु फल प्रासुकलाय ।
मोक्षमहाफल चाखन कारन, पूजतहो तुमरे जुग पाय ॥हरि०॥८॥

ॐ ह्रीं सुमतिनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामि ।
जल चंदन तंदुल प्रसून चरु, दीप धूप फल सकल मिलाय ।
नाचिराचिशिरनाय समरचों, जयजयजयजयजय जिनराय ।
हरिहरवंदित पापनिकंदित, सुमतिनाथ त्रिभुवनके राय ।
तुमपदपद्म सद्मशिवदायक, जजत मुदितमन उदित सुभाय ॥
ॐ ह्रीं श्रीसुमतिनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ।

पंचकल्याणक

रूप चौपाई ।

संजयंत तजि गरभ पधारे, सावनसेतदुतिय सुखकारे ॥
रहे अलिप्त मुकुर जिम छाया, जजों चरन जयजय जिनराया ॥१॥
ॐ ह्रीं श्रावणशुक्लद्वितीयादिने गर्भमंगलप्राप्ताय श्रीसुमति-
नाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

चैतसुकलग्यारस कहँ जानों, जनमे सुमति सहित त्रयज्ञानों ।
मानों धरद्वौ धरम अवतारा, जजों चरनजुग अष्टप्रकारा ॥२॥

ॐ ह्रीं चैत्रशुक्लैकादश्यां जन्ममङ्गलमण्डिताय श्रीसुमति-
नाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

चैतसुकलग्यारस तिथि भाखा, तादिन तप धरि निजरस चाखा ।
पारन पद्मसद्मपय कीनों, जजत चरन हम समता भीनों ॥३॥

ॐ ह्रीं चैत्रशुक्लैकादश्यां तपमङ्गलमण्डिताय श्रीसुमतिनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

सुकलचैतएकादशि हाने, घाति सकल जे जुगपति जाने ।
समवसरनमहँ कहि वृषसारं, जजहुं अनंतचतुष्टयधारं ॥४॥

ॐ ह्रीं चैत्रशुक्लैकादश्यां ज्ञानसाम्राज्यप्राप्ताय श्रीसुमतिनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

चैतसुकलग्यारस निरवानं, गिरिसमेदतै त्रिभुवनमानं ।

गुनअनंत निज निर्मलधारी, जजों देव सुधि लेहु हमारी ॥५॥

ॐ ह्रीं चैत्रशुक्लैकादश्यां मोक्षमंगलप्राप्ताय श्रीसुमतिनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

जयमाला ।

दोहा ।

सुमति तीनसौ छत्तिसो, सुमतिभेद दरसाय ।

सुमति'देहु विनती करों, सुमति विलम्ब कराय ॥१॥

दयाबेलि तहँ सुगुननिधि, भविक-मोद गम चंद ।

सुमतिसतीपति सुमतिकों, ध्यावों धरि आनंद ॥२॥

पंच परावरतन हरन, पंच समिति सित दैन ॥

पंचलब्धिदातारके, गुन गाऊँ दिन रैन ॥३॥

छंद भुजंगप्रयात ।

पितामेघराजा, सबै सिद्धकाजा, जपें नाम जाकोसबै दुःख भाजा ।

महासूर इच्चाकवंशी विराजै, गुणग्राम जाको सबै ठौर छाजै ॥

तिन्होंके महापुण्यसों आप जाये, तिहंलोकमें जीव आनंदपाये

सुनासीर ताहीघरी मेरुधायो, क्रिया जन्मकी सर्व कीची यथायों

बहुरतातकों सोंपि संगीतकीनों, नमें हाथजोरों भलीभक्तिमीनों

विताई दशैलाखही पूर्वबालै, प्रजा लाखउन्तीसही पूर्वबालै ॥६॥

कञ्चू हेतुतै भावना बार भाये, तहां ब्रह्मलौकांतके देव आये ।
 गये बोधि ताही समे इन्द्र आयो, धरेपालकीमें सुउद्यान न्यायो ॥
 नमैसिद्धको केशलोचे सबैही, धरयो ध्यान शुद्ध जु घाती हनेही
 लह्यो केवलं औ प्रमोसर्न साजं, गणाधीशजु एकसौसोल राजं ॥
 खिरैशब्द तामे छहों द्रव्यधारे, गुनापर्ज उत्पादव्यैध्रौव्य सारे ।
 तथाकर्म आटोंतनी तिरियगाजं, मिलै जासुके नाशतें मोक्षराजं
 धरें मोहनी सत्तरं कोडकोड़ी, सरिन्पत्प्रमाणं थिति दीर्घजोड़ी
 अवर ज्ञानदृग्वेदिनी अन्तरायं, धरें तीसकोडाकुडीसिंधुआयं ॥
 तथा नामगोतं कुडाकोडि बीसं, समुद्रप्रमाणं धरें सत्तईसं ।
 सुतेतोसअब्धिं धरें आयुअब्धिं, कहें सर्वकर्मोतनी वृद्धलब्धि ॥
 जघन्यप्रकारं धरें भेद ये ही, मुहूर्त्तं वसु नामगोतं गनेही ।
 तथा ज्ञानदृग्मोह प्रत्यूहआयं, सुअन्तमुहूर्त्तं धरें थित्त गायं ॥
 तथा वेदिनी बारहेंही मुहूर्त्तं, धरें थित्ति ऐसें मन्या न्यायजुत्तं ।
 इन्हेंआदितत्वार्थं भाख्यो अशेसा, लह्योफेरिनिर्वाणमाहींप्रवेसा ॥
 अनंतं महंतं सुसंतं सुतंतं, अमदं अफदं अनंदं अभंतं ।
 अलक्षं विलक्षं सुलक्षं सुदक्षं, अनक्षं अवक्षं अभक्षं अतक्षं ॥
 अवर्णं अवर्णं अमर्णं अकर्णं, अभर्णं अतर्णं अशर्णं सुशर्णं ।
 अनेकं सदेकं चिदेकं विवेकं, अखंडं सुमंडं प्रचंडं तदेकं ॥१५॥
 सुपर्म सुधर्म सुशर्म अकर्म, अनंतं गुनाराम जैवन्त वर्म ।
 नमै दास वृदावनं शर्नआई, सबैदुःखतें मोहिलीजै छुडाई ॥

छंद घत्तानंद ।

तुव सुगुन अनन्ता ध्यावत संता, भ्रमतमभंजनमार्तण्डा ।
सतमतकरचंडा भवि-कजमंडा, कुमतिकुबल इन गनहंडा ॥

ॐ ह्रीं सुमतिजिनेन्द्राय महार्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

छंद रोड़क ।

सुमतिचरन जो जजै, भविक जन मनवचकाई,
तासु सकलदुखदंद फंद, ततछिन छय जाई ।
पुत्रमित्र धन धान्य, शर्म अनुपम सो पाव,
बृन्दावन निर्वाण, लहै जो निहचै ध्यावै ॥१८॥
इत्याशीर्वाद ।

पुण्यांजलि क्षिपेत् ।

इति सुमतिजिनपूजा समाप्त ।

पद्मप्रभजिनपूजा ।

छंद रोड़क (मदाविलिप्तकपोल)

पदमरागमनिवरनधरन, तनतुङ्ग अड़ाई ।

शतक दंड अघखंड, सकल सुर सेवत आई ।

धरनि तात विख्यात सुसीमाजूके नंदन ।

पदमचरन धरि राग सु थारो इतकरि वन्दन ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर । संशौषट् ।

ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव । वषट् ।

अष्टक ।

चाल होलीकी-ताल जत्त ।

पूजों भावसों, श्रीपदमनाथपद सार, पूजों भावसों ॥टेका॥

गंगाजल अति प्रासुक लीनों, सौरभ सकल मिलाय ॥

मनवचतन त्रयधार देत ही, जनमजरामृत जाय ।

पूजों भावसों, श्रीपदमनाथपद सार, पूजों भावसों ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय जन्ममृत्युविनाशनाय जलं नि० ।

मलयागर कपूर चंदन घँसि, केशररंग मिलाय ।

भवतपहरन चरनपर वारों, मिथ्याताप मिटाय ॥५०॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चन्दनं नि० ।

तंदुल उज्जल गंधअनीजुत, कनकथार भर लाय ।

पुञ्ज धरौं तुव चरनन आगै, मोहि अखयपदपाय ॥५०॥३॥

ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् नि० ।

पारजात मंदार कलपतरुजनित सुमन शुचि लाय ।

समरशुज निरमूलकरनकों, तुम पद पद्म चढ़ाय ॥५०॥४॥

ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं नि० ।

घेवर बावर आदि मनोहर, सद्य सजे शुचि भाय ।

ह्रुधा रोगनिर्नाशन कारन, जजों हरष उर लाय ॥५०॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय ह्रुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि० ।

दीपकजोति जगाय ललित वर, धूमरहित अभिराम ।

तिमिरमोह नाशनके कारन, जजों चरन गुनधाम ॥५०॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय मोहांधकारविनाशनाय दीपं नि० ।
 कृष्णागर मलयागर चंदन चूर सुगंध बनाय ।
 अग्निमाहिं जारों तुम आगों, अष्टकरम जरि जाय ॥पू० १७॥

ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामि ।
 सुरस-वरन रसना मनभावन, पावन फल अधिकार ।
 तासों पूजों जुगम चरन यह, विघन करमनिरवार ॥पू०॥८॥

ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामि ।
 जल फल आदिमिलाय गाय गुन, भगतभाव उमगाय ।
 जजों तुमहिं शिवतियवर जिनवर, आवागमन मिटाय ॥९॥

ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि ।

पंचकल्याणक

छंद द्रुतविलंबित तथा सुन्दरि (मात्रा १६)

असित माघ सु छट्ट बखानिये, गरभमंगल तादिन मानिये ।
 उरधग्रीवकसों चय राजजी, जजत इन्द्र जजैं हम आजजी ॥१॥

ॐ ह्रीं माघकृष्णवृषीदिने गर्भावतरणमंगलप्राप्ताय श्रीपद्म-
 प्रभजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

सुकलकार्तिकतेरसकों जये, त्रिजगजीव सु आनंदकों लये ।
 नगर स्वर्गसमान कुसंबिका, जजतु हैं परिसंजुत अबिका ॥२॥

ॐ ह्रीं कार्तिकशुक्लत्रयोदश्यां जन्ममंगलप्राप्ताय श्रीपद्मप्रभ-
 जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

सुकलतेरसक्रातिक भावनी, तप धरयो वनषष्टम पावनी ।
करत आतमध्यान धुरंधरो, जजत हैं हम पाप सब हरो ॥३॥

ॐ ह्रीं कार्तिकशुक्लत्रयोदश्या निःक्रमणकल्याणकप्रप्ताय
श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

सुकलपूनमचैत सुहावनी, परमकेवल सां दिन पावनी ॥
सुरसुरेश नरेश जजं तहां, हम जजै पदपंकजको इहां ॥४॥

ॐ ह्रीं चैत्रपूर्णिमायां केवलज्ञानप्राप्ताय श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय
अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

असित फागुन चौथ सुजानियो, सकलकर्ममहा अरि हानियो ।
गिरिसमेदथकी शिवको गये, हम जजैपद ध्यानविषे लये ॥५॥

ॐ ह्रीं फाल्गुणकृष्णचतुर्थीदिने मोक्षमंगलमंडिताय श्रीपद्म-
प्रभजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

जयमाला ।

छंद घत्तानंद ।

जय पद्म जिनेशा शिवसद्मेशा, पादपद्म जजि पद्मेशा ।
जय भवतमभंजन मुनिमनकजन,—रंजनको दिवसाधेशा ॥१॥

छंद रूपचौगाई ।

जय जय जिन भविजनहितकारी, जय जय जिन भवसागरतारी ।
जय जय समवसरन धनधारी, जय जय वीतराग हितकारी ॥
जय तुम साततन्त्रविधि भाख्यौ, जय जय नवपदार्थलखि आख्यौ
जय षट्द्रव्य पंच जुतकाया, जय सबभेदसहित दरशाया ॥३॥

जय गुनथान जीव परमानो, जय पहिले अनंत जिय जानो ॥
 जय दूजे सामादनमाहीं, तेरहकोड़ि जीवथित आहीं ॥४॥
 जय तीजे मिश्रित गुणथानं, जीव सु बावनकोड़ि प्रमाने ।
 जय चौथे अविरति गुन जीवा, चारअधिक शतकोड़ि सदीवा ॥
 जय जिय देशवरतमें शेषा, कोड़ि सातसौ हैं थिति वेशा ।
 जय प्रमत्त षटशून्य दाय वसु, पांच तीन नव पांच जीव लसु ॥
 जय जय अपरमत्तगुन कोरं, लच्छ छानवै सहस बहोरं ।
 निन्यानवे एकशत तीना, ऐते मुनि तित रहहिं प्रवीना ॥७॥
 जय जय अष्टममें दइ धारा, आठशतक सत्तानों सारा ।
 उपशममें दुइसो निन्यानों, छपकमाहि तसु दूने जानों । ८॥
 जय इतने इतने हितकारी, नवें दशे जुगश्रेणी धागी ।
 जय ग्यारें उपशममगामी, दुइसैं निन्यानों अध आमी ॥९॥
 जय जय छीनमोह गुनथानों, मुनि शतपांचअधिक अहानो ।
 जय जय तेरहमें अरहंता, जुग नभ पन वसु नव वसुतंता ॥
 एते राजतु हैं चतुरानन, हम बंदै पद थुतिकरि आनन ।
 हैं अजोग गुनमें जे देवा, पनसोठानों करों सुसेवा ॥११॥
 तित थिति अइ उच्छल्लुलघु भाषत, करि थिति फिर शिवआनंदचाखत
 ए उतकृष्ट सकल गुणथानी, तथा जघन मध्यम जे प्राणी ॥
 तीनों लोकसदनके वासी, निज गुनपरजभेदमय राशी ।
 तथा और द्रव्यनके जेते, गुनपरजाय भेद हैं तेते ॥१३॥

तीनों कालतने जु अनंता, सो तुम जानत जुगपत संता ।
 सोई दिव्यवचनके द्वारे, दे उपदेश भविक उद्वारे ॥१४॥
 फेरि अचलथलवासा कीनों, गुन अनन्त निजआनंद भीनों ।
 चरमदेहतें किंचित ऊनों, नरआकृति तिति हैं नित गूनो ॥
 जय जय सिद्धदेव हितकारी, बार बार यह अरज हमारी ।
 मोकों दुखसागरतें काढ़ो, घुन्दावन जाँचतु है ठाढ़ो ॥१६॥

छंद घत्ता ।

जय जय जिनचंदा पद्मानंदा, परमसुमतिपद्माधारी ।
 जय जनहितकारी दया विचारी, जय जय जिनवर अधिकारी
 ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

छंद रोड़क ।

जजत पद्मपदपद्म सद्म ताके सुपद्म अत,
 होत वृद्ध सुतमित्र सकल आनंदकंद शत ॥
 लहत स्वर्गपदराज, तहांतें चय इत आई,
 चक्रीको सुख भोगि, अंत शिवराज कराई । ८॥

इत्याशीर्वाद ।

इतिश्रीपद्मप्रभजिनपूजा समाप्त ।

सुपार्श्वनाथपूजा ।

छंद हरिगीता तथा गीता ।

जय जय जिनिंद गनिंद इंद, नरिंद गुन चिंतन करै,
तन हरीहर मनसम हरत मन, लखत उर आनंद भरै ।
नृप सुपरतिष्ठ वरिष्ठ इष्ट, महिष्ट शिष्ट पृथी प्रिया,
तिन नंदके पद वंद वृन्द, अमंद थापतु जुनक्रिया ॥१॥

ॐ ह्रीं सुपार्श्वनाथजिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर । संवौषट् ॥१॥

ॐ ह्रीं सुपार्श्वनाथजिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं सुपार्श्वनाथजिनेन्द्र अत्र मम सहिन्नतो भव भव ।
वषट् ॥ ३ ॥

चाल ध्यानतरायजीकृत सोलहकारणभाषाष्टककी ।

तुम पद पूजो मनवचकाय, देव सुपारस शिवपुरराय,
दयानिधि हो, जय जगबंधु दयानिधि हो ।

उज्जल जल शुचि गंध मिलाय, कंचनभारी भरकर लाय ।
दयानिधि हो, जयजगबंधु दयानिधि हो । तुम ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीसुपार्श्वनाथजिनेन्द्राय जन्ममृत्युविनाशनाय जलं
निर्वपामीति स्वाहा ।

मलयागिरचंदन घँसि सार, लीनो भवतपभंजनहार ।
दयानिधि हो, जयजगबंधु दयानिधि हो । तुम० ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं श्रीसुपार्श्वनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चंदनं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

देवजीर सुखदास अखंड, उज्जल जलछालित सित मंड ।
 दयानिधि हो, जयजगबंधु दयानिधि हो ॥
 तुम पद पूजो मनवचक्राय, देव सुपारस शिचपुरराय ।
 दयानिधि हो, जय जगबंधु दयानिधि हो ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं श्रीसुपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्
 निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

प्रासुक सुमन सुगंधित सार, गुञ्जत अलि मकरध्वजहार ।
 दयानिधि हो, जयजगबंधु दयानिधि हो । तुम० ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं श्रीसुपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्प
 निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

सुधाहरन नेवज वर लाय, हरो वेदनी तुम्हें चढ़ाय ।
 दयानिधि हो, जयजगबंधु दयानिधि हो । तुम० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीसुपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय सुधारोगविध्वंसनाय चरु
 निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

ज्वलित दीप भरकरि नवनीत, तुमटिंग धारतु हों जगमीत ।
 दयानिधि हो, जयजगबंधु दयानिधि हो । तुम० ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीसुपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीप
 निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥

दशविधि गंध हुताशनमाहिं, खेवत कर करम जरि जाहिं ।
 दयानिधि हो, जयजगबंधु दयानिधि हो । तुम० ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय अष्टकमदहनाय धूपं नि० ।

श्रीफल केला आदि अनूप, लै तुम अग्र धरों शिवभूष ।
दयानिधि हो, जयजगबंधु दयानिधि हो । तुम० ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं श्रीसुपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि० ।
आठों दरबसाजि गुनगाय, नाचत राचत भगति बढाय ।
दयानिधि हो, जयजगबंधु दयानिधि हो । तुम० ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं श्रीसुपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यं नि० ।

पंचकल्याणक ।

छंद द्रुतिविलंबित तथा सुन्दरी (वर्ण १२)

सुकलभादवच्छु सुजानिये, गरभमंगल तादिन मानिये ।
करत सेव सची रचि मातकी, अरघ लेय जजों वसु भांतिकी ॥

ॐ ह्रीं भाद्रपदशुक्लाषष्ठीदिने गर्भमंगलमंडिताय श्रीसुपार्ष्व-
नाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

सुकलजेठदुवादशि जन्मये, सकल जीव सु आनंद तन्मये ।
त्रिदशराज जजें गिरिराजजी, हम जजें पद मंगल साजजी ॥

ॐ ह्रीं ज्येष्ठशुक्लद्वादश्यां जन्ममंगलमंडिताय श्रीसुपार्ष्वनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

जनमके तिथ श्रीधरनें धरी, तप समस्त प्रमादनको हरी ।
नृपमहेन्द्र दियो पय भावसों, हम जजें इत श्रीपद चावसों ॥

ॐ ह्रीं ज्येष्ठशुक्लद्वादश्यां निःक्रमणकल्याणप्राप्ताय श्रीसुपार्ष्व-
नाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

भ्रमरफागुनछट्ट सुहावनों, परमकेवलज्ञान लहावनों ।
समवसर्नविषैं वृष भाखियो, हम जजें पद आनंद चाखियो ॥

ॐ ह्रीं फाल्गुणकृष्णषष्ठीदिने ज्ञानसाम्राज्यवदप्राप्ताय श्रीसुपा-
श्वनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

असितफागुणसाँतय पावनों, सकलकर्म कियो छय भावनों ।
गिरिसमेदथकी शिव जातु हैं, जजत ही सब विघ्न विलातु हैं ॥

ॐ ह्रीं फाल्गुणकृष्णसप्तमीदिने मोक्षमंगलप्राप्ताय श्रीसुपार्व-
नाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

जयमाला ।

दोहा ।

तुङ्ग अंग धनु दोयसौ, शोभा सागरचंद ।

मिथ्यातपहर सुगुनकर, जय सुपास सुखकंद ॥१॥

छंद कामिनीमोहन (२० मात्रा ।)

जयति जिनराज शिवराजहितहेत हो,

परमवैरागआनंद भरि देत हो ।

गर्भके पूर्व षटम स धनदेवने,

नगर निरमापि बाराणसी सेवने ॥ २ ॥

गगनसों रतनकी धार बहु वरषहीं,

कोड़ि त्रैअर्द्ध त्रैवार सब हरषहीं ।

तातके सदन गुनवदन रचना रची,

मातुकी सर्वविधि करत सेवा सची ॥ ३ ॥

भयो जब जनम तब इंद्रआसन चढ्यो,
 होय चक्रित तुरित अवधितै लखि मन्थो ।
 सप्त पग जाय शिर नाथ वंदन करी,
 चलन उमग्यो तबै मानि धनि धनि घरी ॥४॥
 सात विधि सेन गज वृषभ रथ बाज लै,
 गंधरव निरतकारी सबै साज लै ।
 गलितमदगंड ऐरावती साजियो,
 लच्छजोजन सु तन वदन सत सजियो ॥५॥
 चदन वसुदंत प्रतिदंत सरवर भरे,
 तामुमधि शतकपनवीस कमलिन खरे ।
 कमलिनी मध्य पनवीस फुले कमल,
 कमलप्रति कमलमहँ एकसौ आठदल ॥६॥
 सर्वदल कोइशतवीस परमान जू,
 तामुपर अपहरा नचहिँ जुतमान जू ।
 तततता तततता बिततता तार्थई,
 धृगतता धृगतता धृगततामै लई ॥ ७ ॥
 धरत पग सनन नन सनन नन गगनमें,
 नृपुरें भनन नन भनन नन पननमें ।
 नचत इत्यादि कई भौँतिसौं मगनमें,
 केइ तित बजत बाजे मधुर पगनमें ॥ ८ ॥

केइ दम दम सुदम दम मृदंगनि धुनै,
 केइ भङ्गारि भनन भंभनन भंभनै ।
 केइ संसागृदि संसागृदि सारंगि सुर,
 केइ बीनापटह वंसि बाजै मधुर ॥ ६ ॥
 केइ तनननन तनननन तानै पुरै,
 शुद्ध उच्चारि सुर केइ पाठै फुरै ।
 केइ भुकि भुकि फिरै चक्रसी भामनी,
 धृगततां ध्रुगतगत परम शोभा बनी ॥१०॥
 केइ छिन निकट छिन दूर छिन थूल लघु,
 धरत वैक्रियकपरभावसों तन सुभगु ।
 केइ करताल करलालतलमें धुनै,
 तत वितत धन सुखरि जात बाजै मुनै ॥११॥
 इन्हें आदिक सकल माज संग धारिकें,
 आय पुर तीन फेरी कगी प्यारकें ।
 सचिय तब जाय परस्रतथल मोदमें,
 मातु करि नींद लीनों तुम्हें गोदमें ॥१२॥
 आन गिरवाननाथहि दियो हाथमें,
 छत्र अर चमर वर हरि करत माथमें ।
 चढ़े गजराज जिनराज गुन जापियो,
 जाय गिरिराजपांडुकशिला थापियो ॥ १३ ॥

लेय पञ्चमउदधिउदक कर कर सुरनि,
 सुरन कलशनि भरे सहित चर्चित पुरनि ।
 सहस अरु आठ शिर कलश ढारे जवै,
 अघघ घघ घघघघघ भमम भम भौ तवै ॥१४॥

धधध धध धधध धध धुनि मधुर होत है,
 भव्यजनहंसके हरष उद्योत है ।
 भये इमि न्हौन तब सकल गुन रंगमें,
 पोंछि शृङ्गार कीनों सची अंगमें ॥ १५ ॥

आनि पित्तसदन शिशु सौंपि हरि थल गयो,
 बालवय तरुन लहि राजसुख भोगयो ।
 भोग तज जोग गहि चार अरिकों हने,
 धारि केवल परमधरम दुइविधि मने ॥१६॥

नाशि अरि शेष शिवथानवासी भये,
 ज्ञानदृगशर्मवीरजअनन्ते लये ।
 सा जगतराज यह अरज उर धारियो,
 धरमके नंदको भवउदधि तारियो ॥ १७ ॥

छंद घत्तानन्द ।

जय करुणाधारी शिवहितकारी, तारनतरनजिहाजा हो ।
 सेवत नित बंदे मन आनंद, भवभयमेटनकाजा हो ॥१८॥
 ॐ ह्रीं श्रीसुपार्श्वनाथजिनेन्द्राय पूर्णार्घ्यं निर्बपामीति स्वाहा ।

दोहा ।

श्रीसुपार्ष्वपदजुगल जो, जजै पढ़ै यह पाठ ।
अनुमोदे सो चतुर नर, पावै आनंद ठाठ ॥१६॥

इत्याशीर्वादाय पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

इति श्री सुपार्ष्वजिनपूजा समाप्त ॥

श्री चन्द्रप्रभजिन पूजा ।

इष्य—अनौष्ठ्य यमकालंकार तथा शब्दालंकार शान्तरस ।
चारुचरन आचरन, चरन चितहरनचिहनचर ।
चंदचंदतनचरित, चंदथल चहत चतुर नर ॥
चतुक चंड चकचूरि, चारि चिदचक्र गुनाकर ।
चंचल चलितसुरेश, चूलनुत चक्र धनुरहर ॥
चर अचरहितू तारनतरन, सुनत चहकि चिरनंद शुचि ।
जिनचंदचरन चरच्यो चहत, चितचकोर नचि रच्चि रुचि ॥१॥

दोहा ।

धनुष डेटसौ तुङ्ग तन, महासेन नृपनंद ।
मातु लक्ष्मनाउर जये, थापौ चंदजिनन्द ॥ २ ॥
ॐ ह्रीं श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर । संवौषट् ।
ॐ ह्रीं श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।
ॐ ह्रीं श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव । वषट् ॥

अष्टक

(चाल दानतरायकृत नंदीश्वराष्टककी अष्टपदी तथा होलीकी तालमें, तथा गराभा आदि अनेक चालोंमें ।)

गंगाहृदनिरमलनीर, हाटकभृङ्गभरा ।

तुम चरन जजो वरवीर, मेटो जनमजरा ॥

श्रीचंदनाथदति चंद, चरनन चंद लगे ।

मन वच तन जजत अमंद, आतमजोति जगे ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाथ जलं
निर्वपामि ॥ १ ॥

श्रीखंड कपूर सुचंग, केशररंग भरी ।

घँसि प्रासुक जलके संग, भवआताप हरी ॥ श्री० ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाथ चंदनं
निर्वपामि ॥ २ ॥

तंदुल सित सोमसमान, सम लय अनिबारे ।

दिय पुंज मनोहर आन, तुमपदतर प्यारे ॥ श्री० ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्
निर्वपामि ॥ ३ ॥

सुरद्र मके सुमन सुरंग, गंधित अलि आवै ।

तासो पद पूजत चंग, कामविधा जावै ॥४॥

ॐ ह्रीं श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाथ पुष्पं
निर्वपामि ॥ ४ ॥

नेत्रज नानापरकार, इन्द्रियबलकारी ।
सो लै पद पूजों सार, आकुलता हारी ॥
श्रीचंदनाथदुति चंद, चरनन चंद लगे ।

मन वच तन जजत अमंद, आतमजोति जगे ॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ॥५॥

तमभंजन दीप सँवार, तुमढिग धारतु हों ।
मम तिमिरमोह निरवार, यह गुन धारतु हों ॥श्री०॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं
निर्वपामीति स्वाहा ॥६॥

दशगंध हुताशनमाहिं, हे प्रभु खेवतु हों ।
मम करम दुष्ट जरि जाँहि, यातैं सेवतु हों ॥श्री०॥७॥

ॐ ह्रीं श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं
निर्वपामीति स्वाहा ॥७॥

अति उत्तमफल सुमंगाय, तुम गुन गावतु हों ।
पूजों तन मन हरषाय, विघन नशावतु हों ॥ श्री० ॥८॥

ॐ ह्रीं श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं
निर्वपामीति स्वाहा ॥८॥

सजि आठों दरब पुनीत, आठों अंग नमों ।

पूजों अष्टमजिन मीत, अष्टम अवनि गमों ॥ श्री० ॥९॥

ॐ ह्रीं श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥

पंचकन्याणक ।

छंद तोटक (वर्ष १२) ।

कलिपंचमचैत सुहात अली, गरभागममंगल मोद भली ।
हरि हर्षित पूजत मातु पिता, हम ध्यावत पावत शर्मसिता ॥१॥

ॐ ह्रीं चैत्रकृष्णपञ्चम्यां गर्भमंगलप्राप्ताय श्रीचन्द्रप्रभ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

कलि पौषद्वादशि जन्म लयो, तब लोकविषै सुखथोक भयो ।
सुरईश जजे गिरशीश तबै, हम पूजत हैं नुतशीश अबै ॥२॥

ॐ ह्रीं पौषकृष्णैकादश्यां जन्ममङ्गलप्राप्ताय श्रीचन्द्रप्रभजिने-
न्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

तप दुद्धर श्रीधर आप धरा, कलिपौष इग्यारसि पर्व वरा ।
निजध्यानविषै लवलीन भये, धनि सोदिन पूजत विघ्न गये ॥३॥

ॐ ह्रीं पौषकृष्णैकादश्यां निःक्रमणमहोत्सवमण्डिताय श्रीचन्द्र-
प्रभजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

वर केवलभानु उद्योत कियो, तिहुं लोकतर्षो भ्रम मेट दियो ।
कलि फाल्गुनसप्तमि इन्द्र जजे, हम पूजहिं सर्व कलंक भजे ॥४॥

ॐ ह्रीं फाल्गुनकृष्णसप्तम्यां केवलज्ञानमण्डिताय श्रीचन्द्र-
प्रभजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

सित फाल्गुण सप्तमि मुक्तिं गये, गुणवंत अनंत अबाध भये ।
हरि आय जजे तित मोदधरे, हम पूजत ही सब पाप हरे ॥५॥

ॐ ह्रीं फाल्गुनशुक्लसप्तम्यां मोक्षमंगलमण्डिताय श्रीचन्द्र-
प्रभजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

जयमाला ।

दोहा ।

हे मृगांकुशंकितचरण, तुम गुण अगम अपार ।

गणधरसे नहीं पार लहिं, तौ को वरनत सार ॥१॥

पै तुम भगति हिये मम, प्रेरै अति उमगाय ।

तातै गाऊं सुगुण तुम, तुम ही होउ सहाय ॥२॥

छंद पद्धरी (१६ मात्रा)

जय चन्द्र जिनेन्द्र दर्यानिधान, भवकानन हानन द्रवप्रमान ।

जय गरभजनममंगल दिनन्द, भवि जीवविकाशन शर्मकंद ॥३॥

दशलक्षपूर्व की आयु पाय, मनवाञ्छित सुख भोगे जिनाय ।

लखि कारख हूँ जगतै उदास, चित्यो अनुप्रेक्षा सुखनिवास ॥४॥

तित लौकांकित बोध्यो नियोग, हरि शिविका सजि धरियो अभोग

तापै तुम चदि जिनचन्द्राय, ताखिनकी शोभा को कहाय ॥५॥

जिन अंग सेत सित चमर डार, सित छत्र शीस गलगुलकहार ।

सित रतनजड़ित भूषण विचित्र, सित चंद्रचरण चरचै पवित्र ॥६॥

सित तन द्युति नाकाधीश आप, सित शिविका कांधे धरिसुचाप

सित सुजस सुरेश नरेश सर्व, सित चितमें चितत जात पर्व ॥७॥

सित चंदनगरतै निकसि नाथ, सित वनमें पहुंचे सकलसाथ ।

सितशिलाशिरोमखि स्वच्छछांह, सित तपतित धारौ तुमजिनाह

सित पयको पारण परमसार, सित चंद्रदंत दीनों उदार ।
 सित करमें सो पयधार देत, मानो बांधत भवसिन्धुसेत ॥६॥
 मानों सुपुण्यधारा प्रतच्छ, तित अचरज पन सुर किय ततच्छ ।
 फिर जाय गहन सित तपकरंत, सित केवलज्यांति जग्यो अनंत
 लहि समवसरखरचना महान, जाके देखत सब पापदान ।
 जहँ तरु अशोक शोभै उतंग, सब शोकतनो चूरैप्रसंग ॥११॥
 सुर सुमनवृष्टि नभतै सुहात, मनु मन्मथ तज हथियार जात ।
 वानी जिनमुखसौं खिरत सार, मनु तत्वप्रकाशन गुरुरधार ॥
 जहँ चौंसठ चमर अमर दुरंत, मनु मुजस मेघभरि लगिय तंत
 सिंहासन है जहँ कमलजुक्त, मनु शिवसरवरको कमलशुक्त ॥
 दुन्दभि जित बाजत मधुर सार, मनु करमजीतको है नगार ।
 सिर छत्र फिरै त्रय श्वेतवर्ण, मनु रतन तीन द्रयताप दर्श ॥
 तन प्रभातनों मंडल सुहात, भवि देखत निजभव सात सात ।
 मनु दर्पणद्युति यह जगमगाय, भविजन भव मुख देखत सत्राय
 इत्यादि विभूति अनेक जान, बाहिज दीसत महिमा महान ।
 ताको वरखत नहिं लहत पार, तौ अन्तरंग को कहै सार ॥१६॥
 अनअन्त गुणनिजुत करि विहार, धरमोपदेश दे भव्य तार ।
 फिर जोगनिरोधि अघाति हान, सम्मेदथकी लिय मुक्तिथान ॥
 वृन्दावन वन्दत शीश नाय, तम जानत हो भम उर जु भाय ।
 ताते का कहौं सुबार बार, मनबांछित कारज सार सार ॥१८॥

छंद घत्तानंद ।

जय चन्द्रजिनंदा आनंदकंदा, भवभय भंजन राजै है ।
रागादिकद्वंदा हरि सब फंदा, मुक्तिमांदि थिति साजै हैं ॥

ॐ श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय पूणार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥

छंद चौबोला ।

आठों दरब मिलाय गाय गुण, जो भविजन जिनचन्द जजै ।
ताके भव भवके अघ भाजै, मुक्तिसार सुख ताहि सजै ॥२०॥
जम के त्रास मिटै सब ताके, सकल अमंगल दूर भजै ।
बुन्दावन ऐसो लखि पूजत, जातै शिवपुरि राज रजै ॥२१॥

इत्याशीर्वादः परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

इति श्रीचन्द्रप्रभजिनपूजा समाप्त

श्रीपुष्पदन्तजिनपूजा ।

(छंद मदाबलितकपोल तथा रोड़क मात्रा २४)

पुष्पदंत भगवंत संत सुजपंत तंत गुन,

महिमावंत महंत कंत शिवतिय रमंत मुन ।

कार्कंदीपुर जनम पिता सुग्रीवरमासुत,

स्वेतवरन मनहरन तुम्हैं थापो त्रिवार नुत ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर । संवौषट् ।

ॐ ह्रीं श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव । षषट् ।

(चाल हात्ती, ताल जत्त ।)

मेरी अरज सुनीजे, पुष्पदन्त जिनराय, मेरी० ॥ टेक ॥

हिमवनगिरिगतगंगाजल भर, कंचनमृङ्ग भराय ।

करमकलंक निवारनकारन, जजों तुम्हारे पाय ॥मेरी०॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल
निर्वपामीति स्वाहा ।

बावन चंदन कदलीनन्दन, कुंकुमसंग घसाय ।

चरचों चरन हरन मिथ्यातप, बीतराग गुणगाय ॥मेरी०॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चंदनं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ २ ॥

शालि अखंडित सौरभमंडित, शशिसम द्युति दमकाय ।

ताको पुञ्ज धरों चरननटिंग, देहु अखपपद राय ॥मेरी०॥३॥

ॐ ह्रीं श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निव-
पामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

सुमन सुमनसम परिमलमंडित, गुंजतअलिगन आय ।

ब्रह्मपुत्रमदभंजनकारन, जजों तुम्हारे पाय ॥मेरी० ॥४॥

ॐ ह्रीं श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

घेवरबावर फेनी गोभा, मोदन मोदक लाय ।

छुधावेदनीरोगहरनको, भेंट धरों गुणगाय ॥ मेरी० ॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्राय छुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

वाति कपूर दीप कंचनमय, उज्वल ज्योति जगाय ।
तिमिर मोह नाशक तुमको लखि, धरौं निकट उभगाय ॥
मेरी अरज सुनीजे, पुष्पदन्त जिनराय, मेरी० ॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीप
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥

दशवर गंध धनंजयके संग, खेवत हौं गुन गाय ।
अष्टकर्म ये दुष्ट जरैं सो, धूम धूम सु उडाय ॥ मेरी० ॥७॥

ॐ ह्रीं श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूप निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ ७ ॥

श्रीफल मातुलिंग शुचि चिरभट, दाडिम आम मँगाय ।
तासों तुम पदपद्म जजत हों, विघनसघन मिटजाय ॥ मेरी०

ॐ ह्रीं श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ ८ ॥

जल फल सकल मिलाय मनोहर, मनवचतन हुलसाय ।
तुमपद पूजों प्रीति लायकै, जय जय त्रिभुवनराय ॥ मेरी० ॥९॥

ॐ ह्रीं श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ ९ ॥

पंचकन्याणक ।

छंद स्वयंभू (मात्रा ३२) ।

नवमीतिथि कागी फागुन धारी, गरभमाहिं थितिदेवा जी ।
तजि आरखथानं कृपानिधानं, करत सची तित सेवा जी ॥

रतननकी धारा परमउदारा, पर्यो व्योमर्तै सारा जी ।
मैं पूजों ध्यावों भगतिबढावों, करो मोहि भवपारा जी ॥१॥

ॐ ह्रीं फाल्गुनकुष्णवन्म्यां गर्भमंगलप्राप्ताय श्रीपुष्पदन्त-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

मँगसिर सितपच्छं परिवा स्वच्छं, जनमे तीरथनाथा जी ।
तब ही चवभेत्रा निरजर येवा, आय नये निजमाथा जी ॥
सुरगिर नहवाये, मंगल गाये, पूजे प्रीति लगाई जी ।
मैं पूजो ध्यावों भगतिबढावों, निजनिधिहेत सहाई जी ॥२॥

ॐ ह्रीं मार्गशीर्षशुक्रप्रतिपदि जन्ममंगलप्राप्ताय श्रीपुष्पदन्त-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

सित मँगसिरमासा तिथिसुखरासा, एकमके दिन धारा जी ।
तप आतमज्ञाना आकुलहानी, मौनसहित अविकारा जी ॥
सुरमित्र सुदानीके घरआनी, गो-पय-पारन कीना है ।
तिनको मैं बन्दों पापनिकंदों, जो समतारस भीना है ॥३॥

ॐ ह्रीं मार्गशीर्षशुक्रप्रतिपदि तपमङ्गलमण्डिताय श्रीपुष्पदन्त-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

सतकातिक गाये दोइज घाये, घातिकरम परचंडा जी ।
केवल परकाशे भ्रमतम नाशे, सकल सारसुख मंडा जी ॥
गनराज अठासी आनँदभासी, समवसरणवृषदाता जी ।
हरि पूजन आयो शीश नमायो, हम पूजें जगताता जी ॥४॥

ॐ ह्रीं कार्तिकशुक्रद्वितीयायां ज्ञानमङ्गलमण्डिताय श्रीपुष्प-
दन्तजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

आश्विन सित सारा आँटें धारा, गिरिसमेद निरवाना जी ।

गुन अष्टप्रकारा अनुपम धारा, जै जै कृपा निधाना जी ॥

तित इन्द्र सु आयौ पूज रचार्यो, चिन्ह तहां करि दीना है ।

मैं पूजत हों गुन ध्याय महीसैं, तुमरे रसमें भीना है ॥५॥

ॐ ह्रीं आश्विनशुक्लाष्टम्यां मोक्षमङ्गलमण्डिताय श्रीपुष्पदंत-
जिनेन्द्राय अघं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

जयमाला ।

दोहा ।

लच्छन मगर सुश्वेत तन, तुंग धनुष शतएक ।

सुरनरवंदित मुकतिपति, नमों तुम्हें शिरटेक ॥ १ ॥

पुहुपरदन गुनवदन है, सागरतोय समान ।

क्योंकर कर अंजुलिनकर, करिये तासु प्रमान ॥ २ ॥

(छंद तामरस तथा नयमालिनी तथा चंडीमात्रा मात्रा १६)

पुष्पदन्त जयवन्त नमस्ते, पुण्यतीर्थकर संत नमस्ते ।

ज्ञानध्यानअमलान नमस्ते, चिद्विलास सुखज्ञान नमस्ते ॥३॥

भवभयभंजन देव नमस्ते, मुनिगनकृतपदसेव नमस्ते ।

मिथ्यानिशिदिनइन्द्र नमस्ते, ज्ञानपयोदधिचन्द्र नमस्ते ॥४॥

भवदुखतरुनिःकंद नमस्ते, रागदोषमदहंद नमस्ते ।

विश्वेश्वर गुनभूर नमस्ते, धर्मसुधारसपूर नमस्ते ॥ ५ ॥

केवलब्रह्मप्रकाश नमस्ते, सकल चराचरभास नमस्ते ।

विघ्नमहीधर वज्र नमस्ते, जय ऊरधगतिरिज्जु नमस्ते ॥६॥

जय मकराकृतपाद नमस्ते, मकरष्वजमदवाद नमस्ते ।
 कर्मभर्मपरिहार नमस्ते, जय जय अधमउधार नमस्ते ॥७॥
 दयाधुरन्धर धीर नमस्ते, जय जय गुनगंभीर नमस्ते ।
 मुक्तिरमनिपति वीर नमस्ते, हरता भवभयपीर नमस्ते ॥८॥
 व्ययउतपतिथितिधार नमस्ते, निजअधार अविकार नमस्ते ।
 भव्यभवोदधितार नमस्ते, वृन्दावननिसतार नमस्ते ॥ ९ ॥

घत्ता छंद (मात्रा ३२) ।

जय जय जिनदेवं हरिकृतसेवं, परमधरमधनधारी जी ।
 मै पूजौं ध्यावौं गुनगन गावों, मेटो विथा हमारी जी ॥१०॥

ॐ ह्रीं श्रीपुष्पदंतजिनेंद्राय पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥

छंद मदाविलिप्तकपोल ।

पुहुपदंतपद सन्त, जजै जो मन वचकाई,
 नाचै गाव भगति करे, शुभपरनति लाई ।
 सो पावै सुख सर्व, इन्द अहिमिद तनों वर,
 अनुक्रमतै निरवान, लहै निहचै प्रमोदधर ॥ ११ ॥

इत्याशीर्वादः परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

इति श्रीपुष्पदंतजिनपूजा समाप्त ।

श्रीशीतलनाथ जिनपूजा ।

छंद मत्तमातंग तथा मत्तगयंद । (वर्ण २३)

शीतलनाथ नमो धरि हाथ, सुनाथ जिन्हों भवगाथ मिटाये ।
अच्युततै च्युत मातसुनन्दके, नन्द भये पुरभइल भाये ॥
वंश इच्चाक कियौ जिनभूषित, भव्यनको भवपार लगाये ।
ऐसे कृपानिधिके पदपंकज, थापतु हौं हिय हर्ष बढ़ाये ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीशीतलनाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर । संबौषट् ।

ॐ ह्रीं श्रीशीतलनाथजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीशीतलनाथजिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव ।
वषट् ।

अष्टक ।

छंद वसंततिलका (वर्ण १४) ।

देवापगा सुवरवारि विशुद्ध लायौ ।

भृंगार हेम भरि भक्ति हिये बढ़ायौ ॥

रागादिदोषमलमर्दनहेतु येवा ।

चर्चो पदाब्ज तव शीतलनाथ देवा ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाथ
जलं निर्बपामीति स्वाहा ।

श्रीखंड सार वर कुंकुम गारि लीनों ।

कंसंग स्वच्छ घसि भक्ति हिये धरीनों ॥रागादि०॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चंदनं
निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥

मुक्तासमान सित तंदुल सार राजै ।
धारंत पृञ्ज कलिक्वञ्ज समस्त भाजै ॥
रागादिदोषमलमर्दनहेतु येवा,
चर्चो पदाञ्ज तव शीतलनाथ देवा ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्
निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥

श्रीक्रेतकी प्रमुख पुष्प अदोष लायौ ।
नौरंग जंगकरि भृंग सुरंग पायौ ॥रागादि०॥४॥

ॐ ह्रीं श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं
निर्वपामीति स्वाहा ॥४॥

नैवेद्य सार चरु चारु सँवारि लायौ ।
जांबूनदप्रमृतिभाजन शीस नायौ ॥रागादि०॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ॥५॥

स्नेहप्रपूरित सुदीपक जांति राजै ।
स्नेहप्रपरित हिये जजतेऽघ भाजै ॥रागादि०॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय मोहांधकारविनाशनाय दीपं
निर्वपामीति स्वाहा ॥६॥

कृष्णागुरुप्रमुखगंध हुताशमाहीं ।
खेवों तवाग्र वसुकर्म जरन्त जाहीं ॥रागादि०॥७॥

ॐ ह्रीं श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय अष्टकमन्त्रहनाय धूपं
निर्वपामीति स्वाहा ॥७॥

निम्बात्र कर्कटि सु दाडिम आदि धारा ।

सौवर्णं गंध फलसार सुपक्व प्यारा ॥रागादि०॥८॥

ॐ ह्रीं श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं
निर्वपामीति स्वाहा ॥८॥

कंश्रीफलादि वसु प्रासुक द्रव्य साजे ।

नाचे रचे मचत वज्जत सज्ज वाजे ॥रागादि०॥९॥

ॐ ह्रीं श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं
निर्वपामीति स्वाहा ॥९॥

पंचकल्याणक ।

छंद इंद्रवज्रा तथा उपेंद्रवज्रा (वर्ण ११) ।

आठैं वदी चैत सुगर्भ माहीं, आये प्रभू मंगलरूप थाहीं ।

सेवै सची मातु अनेक भेवा, चर्चों सदा शीतलन थ देवा ॥१॥

ॐ ह्रीं चैत्रकृष्णाष्टम्यां गर्भमङ्गलमण्डिताय श्रीशीतलनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

श्रीमाघकी द्वादशि श्याम जायो, भूलोकमें मंगलसार आयो ।

शैलेन्द्रपै इंद्रफनिन्द्र जज्जे, मै ध्यानधारो भवदुःख भज्जे ॥२॥

ॐ ह्रीं माघकृष्णद्वादश्यां जन्ममङ्गलप्राप्ताय श्रीशीतलनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

श्रीमाघकी द्वादशि श्याम जानों, वैराग्य पायो भवभाव हानों

ध्यायो चिदानन्द निवार मोहा, चर्चों सदा चर्न निवारि कोहा

ॐ ह्रीं माघकृष्णद्वादश्या निःकामखमहोत्सवमखिलाय भी-
शीतलनाथजिनेद्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

चतुर्दशी पौषवदी सुहायो, ताही दिना केवललब्धि पायो ।
शोभ समीसुत्य बस्वानि धर्म, चर्चो सदा शीतल पर्म शर्म ।४॥

ॐ ह्रीं पौषकृष्णचतुर्दश्यां केवलज्ञानमखिलाय भीशीतल-
नाथजिनेद्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

कुंवारकी आठयँ शुद्धबुद्धा, भये महामोक्षसरूप शुद्धा ।
सम्पेदतै शीतलनाथस्वामी, गुनाकरं तासु पदं नमामी ॥५॥

ॐ ह्रीं आश्विनशुक्लाष्टम्या मोक्षमङ्गलप्राप्ताय भीशीतलनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

जयमाला ।

छंद लोलतरंग (वर्ण ११) ।

आप अनन्तगुनाकर राजै, वस्तुविकाशन भानु समाजै ।
मै यह जानि गही शरना है, माहमहारिपुको हरना है ॥१॥

दोहा ।

हेमवग्न तन तुंग धनु, नव्वै अति अभिराम ।
सुरतरु अंक निहारि पद, पुन पुन करों प्रणाम ॥२॥

छंद तोटक (वर्ण १२)

जयशीतलनाथ जिनेद्वरं, भवदाघदवानल मेवभ्ररं ।
दुखभ्रूभृतभजन वक्षसमं, भवसागर नागर पोतपमं ॥३॥
कुहमानमयामदलोभहरं, अरि विघ्नमयंद मृगिंद वरं ।
वृषारिदवृष्टन सृष्टिहितू, परदृष्टि विनाशन सुदुषितू ॥४॥

समवमृतसंजुत राजतु हो, उपमा अभिराम विराजतु हो ।
 वर बारहभेद सभाथितको, तित धर्म वखानि कियौ हितको ॥५॥
 पहले में श्रीगनराज रजै, दुतियेमें कल्पसुरी जु सजै ।
 त्रितिये गगनी गुनभूरि धरै, चवथे तियजोतिष जोति भरै ॥६॥
 तिय वितरनी पनमें गनिये, छहमें भुवनेसुर ती भनिये ।
 भुवनेश दशों थित सत्तम हैं, वसुमें वसुवितर उत्तम हैं ॥७॥
 नवमें नभजोतिष पंच भरे, दशमें दिावदेव समस्त खरे ।
 नरवृन्द इकादशमें निवसैं, अरु बारहमें पशु सर्व लसैं ॥८॥
 तजि वैर प्रमोद धरैं सब ही, समतारसमग्न लसैं तब ही ।
 धुनि दिव्य सुनै तजि मोहमलं, गनराज अमी धार ज्ञानबलं ॥
 सबके हित तत्व वखान करैं, करुनामनरंजित शर्म भरै ।
 वरने षटदर्वतने जितने, वर भेद विराजतु हैं तितने ॥९॥
 पुनि ध्यान उभै शिवहेत मुना, इक धर्म दुती सुकलं अधुना ॥
 तित धर्म सुध्यानतखो गनियो, दशभेद लखे भ्रमको हनियो ॥
 पहलो अरि नाश अपाय सही, दुतियो जिनवैन उपाय गही ।
 त्रिति जीवविचै निजध्यावन है, चवथो सु अजीव रमावन है ॥
 पनमों सु उदैबलटारन है, छहमों अरिरागनिवारन है ।
 भवत्यागनचिंतन सप्तम है, वसुमों जितलोभ न आतम है ॥१३॥
 नवमों जिनकी धुनि सीस धरै, दशमो जिनभाषित हेत करै ।
 इमि धर्मतखो दशभेद भन्यो, पुनि शुक्लतखो चहु येम गन्यो ॥

सुपृथक्त वितर्कविचार सही, सुदृक्त्ववितर्कविचार गही ।
 पुनि सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात कही, विपरीतक्रियानिरवृत्त लही ॥१५
 इन आदिक सर्व प्रकाश कियो, भवि जीवनको शिव स्वर्ग दियो
 पुनि मोक्षविहार कियो जिनजी, सुखसागर मभन चिरंगुनजी ॥
 अब मैं शरना पकरी तुमरी, सुधि लेहु दयानिधिजी हमरी ।
 भवव्याधि निवार करो अब ही, मति ढील करो सुख द्यो सबही ॥

छंद घत्तानंद ।

शीतलजिन श्यावों भगति बढ़ावों, ज्यों रतनत्रयनिधि पावों ।
 भवदन्द नशावों शिवथल जावों, फेर न भौवनमें आवों ॥१८॥
 ॐ ह्रीं श्रीशीतलनाथजिनेंद्राय पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥

छन्द मालनी ।

दिङ्करथसुत श्रीमान्, पंचकल्याणधारी ।
 तिनपदजगपद्मं, जो जजै भक्तिधारी ॥
 सक्षुख धनधान्यं, दीर्घ सौभाग्य पावै ।
 अनुक्रम अरि दाहै, मोक्षको सो सिधावै ॥१९॥
 इत्याशीर्वादः पुष्पांजलि क्षिपेत् ।
 इति श्रीशीतलनाथजिनपूजा समाप्त ॥ १० ॥

श्रीश्रेयांसनाथजिनपूजा ।

छंद रूपमाला तथा गीता ।

विमलनृप विमलासुअन, श्रेयांसनाथ जिनन्द ।

सिंघपुर जनमे सकल हरि, पूजि घरी आनन्द ॥

भवबंधर्चसनहेत लखि मैं, शरन आयो येव ।

थापो चरन जुग उर कमलमें, जजनकारन देव ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर ।
संवौषट् ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव ।
वषट् ॥ ३ ॥

छंद गीता तथा हरिगीता । (मात्रा २८)

कलधौतवरन उतंगहिमगिरिपदमद्रहतै आवई ।

सुरसरित प्रासुकउदकसों भरि भृंग धार चड़ावई ॥

श्रेयांसनाथ जिनंद त्रिभुवनवंद आनंदकंद हैं ।

दुखदंददफंदनिकंद पूरनचंद जोति अमंद हैं ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्राय जन्ममृत्युबिनाशनाय जलं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

गोशीर वर करपूर कुंकुम नीरसंग घसों सही ।

भवतापभंजनहेत भवदधिसेत चरन जजों सही ॥ श्रे० ॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चन्दनं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

सितशालि शशिशुक्ति शुक्तिमुन्दरमुक्तिकी उनहार हैं ।
भरि थार पुंज धरत पदतर अखयपद करतार हैं ॥श्रे०॥३॥

ॐ ह्रीं श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

सदसुमन सुमन समान पावन, मलयतै मधुर्भकरैं ।
पदकमलतर धरतैं तुरि ते सो मदन को मद स्वकरैं ॥श्रे०॥४॥

ॐ ह्रीं श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्राय कामवाण्विश्वसनाय पुष्पं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

यह परममोदकआदि सरस संवारि सुन्दर चरु लियौ ।
तुव वेदनीमदहरन लखि, चरचों चरन सुचिकर हियौ ॥श्रे०

ॐ ह्रीं श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्राय जुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

संशयविमोहविभरमतम भंजन दिनंदसमान हो ।
तातैं चरनटिंग दीप जोऊं देहु अविचलज्ञान हो ॥श्रे० ॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥

वर अगर तगर कपूर चूर सुगंध भूर बनाइया ।
दहि अमरजिह्वविषैं चरन टिंग करम भरम जराइया ॥श्रे०॥

ॐ ह्रीं श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहननाय भूपं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ ७ ॥

सुरलोक अरु नरलोकके फल पक्व मधुर सुहावने ।
 ल भगतिसहित जजौं चरन शिव परमपावन पावने ॥ श्रे० । ८
 ॐ ह्रीं श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्व-
 पामीति स्वाहा ॥ ८ ॥

जलमलयतंदुलमुमनचरु अरु दीपधूपफलावली ।
 करि अरघ चरचौं चरनजुगप्रभु मोहि तार उतावली ।
 श्रेयांसनाथ जिनंद त्रिभुवनवंद आनंदकंद हैं,
 दुखदंदफंदनिकंद पूरनचंद जोति अमंद हैं ॥ ९ ॥
 ॐ ह्रीं श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं निर्व-
 पामीति स्वाहा ॥ ९ ॥

पंचकल्याणक ।

छंद आर्या ।

पुष्पोत्तर तजि आये, विमलाउर जेठकृष्ण आठेको ।
 सुरनर मंगल गाये, मैं पूजौं नासि कर्मकाठेको ॥ १ ॥
 ॐ ह्रीं ज्येष्ठकृष्णाष्टम्यां गर्भमङ्गलमण्डिताय श्रीश्रेयांसनाथ-
 जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

जनमे फागुनकारी, एकादशि तीनज्ञानदृग्धारी ।
 इख्वाकवंशतारी, मैं पूजौं घोर विघ्न दुखटारी ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं फाल्गुनकृष्णैकादर्यां जन्ममङ्गलमण्डिताय श्रीश्रेयांस-
 नाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

भवतनभोग असारा, लख त्याग्यो धीर शुद्ध तपधारा ।
 फागुनवदि इग्यारा, मैं पूजौं पाद अष्टपरकारा ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं फाल्गुनकृष्णैकादश्यां निःक्रमणमहोत्सवमण्डिताय
श्रीश्रेयांसनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

केवलज्ञान सुजानन, माघवदी पूर्णतित्थको देवा ।

चतुरानन भवभानन, बँदौं ध्यावौं करौं सुपदसेवा ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं माघकृष्णामावस्यायां केवलज्ञानमण्डिताय श्रीश्रेयांस-
नाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

गिरिसमेदतै पायो, शिवथल तिथि पूर्णमासि सावनको ।

कुलिशायुध गुनगायो, मै पूजो आपनिकट आवनको ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्रावणशुक्लपूर्णिमायां मोक्षमंगलमण्डिताय श्रीश्रेयांस-
नाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

जयमाला ।

छंद लोलतरंग (वर्ण ११) ।

शोभित तुंग शरीर सुजानो, चाप असी शुभलच्छन मानो ।
कंचनवर्ण अनूपम सोहै, देखत रूप सुरासुर मोहै ॥ १ ॥

छन्द पद्वड़ी (मात्रा १६)

जै जै श्रेयांस जिन गुनगरिष्ठ, तुमपदजुग दायक इष्टमिष्ट ।
जै शिष्टशिरोमनि जगतपाल, जै भवसरोजगन प्रातकाल ॥२॥
जै पंचमहाव्रतगजसवार, लै त्यागभावदलबल सु लार ।
जै धीरजको दलपति बनाय, सत्ताछितिमहँ रनको मचाय ॥
धरि रतनतीन तिहुं शक्तिहाथ, दशधरमकवच तपटोप माथ ।
जै शुक्लध्यानकर खड्गधार, ललकारे आठौं अरि प्रचार ॥

तामें सबको पति मोहचंड, ताकों ततछिन करि सहस खंड ।
 फिर ज्ञानदरसप्रत्यूह दान, निजगुनगढ़ लीनों अचलधान ॥५॥
 शुचि ज्ञान दरस सुख वीर्य सागर, हुव समवसरखरचना अपार ।
 तित भाषे तत्व अनेक धार, जाकों मुनि भव्य हिये विचार । ६॥
 निजरूप लखो आनंदकार, भ्रम दूरकरनकों अति उदार ।
 पुनि नयप्रमाननिच्छेपसार, दरसायो करि संशयप्रहार ॥७॥
 तामें प्रमान जुग भेद एव, परतच्छ परोछ रजै सुमेव ।
 तामें प्रतच्छकं भेद दोय, पहिलो है संविवहार सोय ॥८॥
 ताके जुगभेद विराजमान, मति श्रुत सोहै सुंदर महान ।
 है परमारथ दुतियो प्रतच्छ, हैं भेद जुगम तामाहिं दच्छ ॥९॥
 इक एकदेश इक सर्व देश, इकदेश उभैविधि सहित वेश ।
 वर अवधि सुमनपरजै विचार, है सकलदेश केवल अपार ॥१०॥
 चरअचर लखत जुगपत प्रतच्छ, निरद्वंदरहित परपंचपच्छ ।
 पुनि है परोच्छमह पंच भेद, समिरति अरु प्रतिभिज्ञानवेद ॥११॥
 पुनि तरक और अनुमान मान, आगमजत पन अब नय वखान
 नगम संग्रह व्यौहार गूढ़, ऋजुसूत्र शब्द अरु समभिरूढ ॥१२॥
 पुनि एवंभूत सु सप्त एम, नय कहे जिनेसुर गुन जुतेम ।
 पुनि दरवछेत्र अर काल भाव, निच्छेप चार विधि इमि अनाव
 इनको समस्त भाष्यौ विशेष, जा समुक्त भ्रम नहिं रहत लेश
 निज ज्ञानहेत ये मूलमंत्र, तुम भाषे श्रीजिनवर सु तंत्र ॥१४॥

इत्यादि तत्त्वउपदेश देय, हनि शेषकरम निरवान लेय ।
गिरवात्सृजजत वसु दरव ईश, वृन्दावन नितप्रति नमत सीशा॥

घत्तानंद छंद ।

श्रेयांस महेशा सुगुनजिनेशा, वज्र धरेशा भ्यावतु हैं ।
हम निशिदिन वंदे पापनिकंदे, ज्यो सहजानंद पावतु हैं ॥

ॐ ह्रीं श्रीश्रेयांसनाथजिनेंद्राय पूर्णार्घं निवेपामीति स्वाहा ।
सोरठा ।

जो पूजे मनलाय, श्रेयनाथपदपद्मको ।

पार्वे इष्ट अघाय, अनुक्रमसो शिवांतय वरै ॥१॥

इत्याशीर्वादाय पुष्पांजलि क्षिपेत् ।

इति श्रीश्रेयांसनाथजिनपूजा समाप्त ॥

श्रीवासुपूज्य जिनपूजा ।

छन्द रूपकवित्त ।

धीमत्तवासुपूज्य जिनवरपद, पूजनहेत हिये उमगाय ।

थापो मनवचतन शुचि करिकै, जिनकी पाटलदेव्या माय ॥

महिष चिह्न पद लसै मनोहर, लाल वरन तन समतादाय ।

सो करुनानिधि कृपादृष्टिकरि, तिष्ठहु सुपरितिष्ठ यहँ आय ॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यजिनेंद्र ! अत्र अबतर अबतर । संवौषट् ॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यजिनेंद्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यजिनेंद्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव ।

वषट् ॥ ३ ॥

अष्टक

(छन्द जोगीरासा । आंचलीबंध "जिनपदपूजों लबलाई ॥")
 गंगाजल भरि कनककुंभमें, प्रासुक गंध मिलाई ।
 करम कलंक विनाशन कारन, धार देत हरषाई ॥जिनपद०॥
 वासुपूज्य वसुपुत्रतनुजपद, वासव सेवत आई ।
 बालब्रह्मचारी लेखि जिनको, शिवतिय सनमुख धाई ॥जिन०
 ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाथ जलं
 निर्वपामीति स्वाहा ॥॥

कृष्णागरु मलयामिर चन्दन, केशरसंग घसाई ।
 भवआताप विनाशनकारन, पूजों पद चितलाई ॥वा०॥२॥
 ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाथ चंदनं निर्व-
 पामीति स्वाहा ॥२॥

देवजीर सुखदास शुद्ध वर, सुवरनधार भराई ।
 पुञ्जधरत तुम चरननआगें, तुरित अखय पदपाई ॥वा०॥३॥
 ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निव-
 पामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

परिजात संतानकरूपतरु,—जनित सुमन बहु लाई ।
 मीनकेतुमनभंजनकारन, तुम पदपद्म चढ़ाई ॥ वा० ॥ ४ ॥
 ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं
 निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

नव्यगव्यआदिकरसपूरित, नेवज तुरित उपाई ।
 छुधारोग निरवारनकारन, तुम्हें जजों शिरनाई ॥ वा० ॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय जुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

दीपकजोत उदोत होत षर, दशदिशमें छवि छाई ।
तिमिरमोहनाशक तुमको लखि, जजों चरन हरषाई ॥वा०॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥

दशविध गंधमनोहर लेकर, वातहोत्रमें डाई ।

अष्ट करम ये दुष्ट जरतु हैं, धूम सु घूम उड़ाई ॥७॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपा-
मीति स्वाहा ॥ ७ ॥

सुरस सुपक्वसुपावन फल लै, कंचनथार भराई ।

मोक्षमहाफलदायक लखि प्रभु, भेंट धरों गुनगाई ॥वा०॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि० ॥८॥

जलफल दरब मिलाय गाय गुन, आठों अंग नमाई ।

शिवपदराज हेत हे श्रीपति ! निकट धरों यह लाई ॥वा०॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ॥९॥

पंचकल्याणक

छंद पाईता (मात्रा १४) ।

कलि छडु असाढ़ सुहायौ, गरभागम मंगल पायौ ।

दशमें दिवितें इत आये, शतइंद्र जजे सिर नाये ॥१॥

ॐ ह्रीं आषाढकृष्णषष्ठ्यां गर्भमङ्गलमण्डिताय श्रीवासुपूज्य-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

कलि चौदश फागुन जानों, जनमे जगदीश महानों ।
हरि मेर जजे तव जाई, हम पूजत हैं चितलाई ॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीफाल्गुनकृष्णचतुर्दश्यां जन्ममंगलप्राप्ताय श्रीवासु-
पूज्यजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

तिथि चौदस फागुन रयाभा, धरियो तप श्रीअभिरामा ।
नृप सुंदरके पय पायो, हम पूजत अतिसुख थायो ॥३॥

ॐ ह्रीं फाल्गुनकृष्णचतुर्दश्या तपोमंगलप्राप्ताय श्रीवासुपूज्य-
जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

वदि भादव दोइज सोहै, लहि केवल आतम जो है ।
अनअंत गुनाकर स्वामी, नित बंदों त्रिभुवन नामी ॥४॥

ॐ ह्रीं भाद्रपदकृष्णद्वितीयायां केवलज्ञानमण्डिताय श्रीवासु-
पूज्यजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

सितभादव चौदशि लीनों, निरवान सुथान प्रवीनों ।
पुर चंपाथानकसेती, हम पूजत निजहित हेती ॥५॥

ॐ ह्रीं भाद्रपदशुक्लचतुर्दश्यां मोक्षमंगलप्राप्ताय श्रीवासुपूज्य-
जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

दोहा ।

चंपापुरमें पंचवर, कल्याणक तुम पाय ।
सत्तर धनु तन शोभनो, जै जै जै जिनराय ॥१॥

छद् मोक्षियदाम (बखी १२) ।

महासुखसागर आगर ज्ञान, अनंत सुखामृतशुक्त महान ।
 महावलमंडित खंडितकाम, रमाशिवसंग सदा विसराम ॥२॥
 सुरिंद फनिंद खगिंद नरिंद, मुनिंद जजै नित पादरबिंद ।
 प्रभू तुव अन्तरभाव विराग, सुबालहिने व्रतशीलसों राग ॥३॥
 कियो नहिं राज उदाससरूप, सुभावन भावत आनमरूप ।
 अनित्य शरीर प्रपंच समस्त, चिदात्म नित्य सुखाश्रित वस्त ॥
 अशर्न नहीं कोउ शर्न सहाय, जहां जिय भोगत कर्मविपाय ।
 निजातम कै परमेशुर शर्न, नहीं इनके विन आपदहर्न ॥५॥
 जगत्त जथा जलबुदबुद येव, सदा जिय एक लहै फलमेव ।
 अनेकप्रकार धरी यह देह, भमें भवकानन आन न नेह ॥६॥
 अपावन सात कुघात भरीय, चिदात्म शुद्धसुभाव धरीय ।
 धरै इनसों जब नेह तबेव, सुआवत कर्म तबे वसुभेव ॥७॥
 जवै तनभोगजगत्तउदास, धरै तब संवर निर्जरआस ।
 कर जब कर्म कलंक विनाश, लहै तब मोच महासुखराश ॥८॥
 तथा यह लोक नराकृत नित्त, विलोकियते षटद्रव्यविचित्त ।
 सुआतमजानन बांधविहीन, धरै किन तस्वप्रतीत प्रवीन ॥९॥
 जिनागमज्ञानरु संजमभाव, सबै निजज्ञान विना विरसाव ।
 सुदुर्लभ द्रव्य सुचेत्र सुकाल, सुभाव सबै जिहते शिव हाल ॥१०॥
 लयो सब जोग सुपुन्य वशाय, कहो किमि दीजिय ताहि गँवाय
 विचारत यों लक्कांतिक आय, नमें पदपंकज पुष्प चढ़ाय ॥

कक्षो प्रभु धन्य कियो सुविचार, प्रबोधि सु येम कियो जुबिहार
 तवै सवधर्मतनों हरि आय, रच्यौ शिविका चढि आप जिनाय
 धरे तप पाय सुकेवलबोध, दियो उपदेश सुभव्य संबोध ।
 लियो फिर मोक्ष महासुखगश, नमै नित भक्त सोई सुखआश
 घत्तानंद ।

नित वासववन्दत, पापनिकंदत, वासुपूज्य व्रत ब्रह्मपती ।
 भवसंकलखांडेत, आनंदमंडित, जै जै जै जैवंत जती ॥१४॥
 ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय पूणार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥

सोरठा छन्द ।

वासुपूजपद सार, जजौ दरवविधि भावसों ।
 सां पावै सुखसार, भुक्ति मुक्तिको जो परम ॥ १५ ॥
 इत्याशीर्वादः परिपुष्पांजलिं क्षिपेत् ।
 इति श्रीवासुपूज्यजिनपूजा समाप्त ॥

श्रीविमलनाथ जिनपूजा

छन्द मदावलितकपोल (मात्रा २४)

सहस्रार दिवि त्यागि, नगर कम्पिला जनम लिय ।
 कृतधर्मानृपनंद, मातु जयसेन धर्मप्रिय ।
 तीन लोक वरनन्द, विमल जिन विमल विमलकर ।
 थापों चरनसरोज, जजनके हेत भावधर ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीविमलनाथजिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर ।
संवैषट् ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीविमलनाथजिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीविमलनाथजिनेन्द्र अत्र मम सर्वाहितो भव भव ।
वषट् ॥ ३ ॥

ॐ

अष्टक ।

सोरठा छंद ।

कंचनकारी धारि, पदमद्रहको नीर ले ।

तृषा रोग निरवारि, विमल विमलगुन पूजिये ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीविमलनाथजिनेन्द्राय जन्ममृत्युविनाशनाथ जलं
निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥

मलयागर करपूर, देववल्लभा संग घसि ।

हरि मिथ्यातमभूर, विमलविमलगुन जजतु हों ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं श्रीविमलनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाथ चंदनं
निर्वपामीति स्वाहा ॥

वासमतीसुखदास, श्वत्त निशपतिको हंसै ।

पूरै वाञ्छित आस, विमलविमलगुन जजत ही ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं श्रीविमलनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदमस्ये अक्षयान्-निर्व-
पामीति स्वाहा ॥३॥

पारिजात मंदार, सन्तानकसुरवरुजनित्र ।

जजो सुमन भरि धार, विमल विमलगुन मदनहर ॥४॥

ॐ ह्रीं श्रीविमलनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्प
निर्वपामीति स्वाहा ।

नव्यमव्य रसपूर, सुवरनथार भरायकैँ ।

छुधावेदनी चूर, जजों विमलपद विमलगुन ॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीविमलनाथजिनेन्द्राय लुधारोगविनाशनाय नैवेद्य
निर्वपामीति स्वाहा ।

मानिक दीप अखंड, गा छ्छाई वर गो दशों ।

हरो माहतम चंड, विमल विमलमतिके धनी ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीविमलनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीप
निर्वपामीति स्वाहा ॥

अगर तगर घनसार, देवदार कर चूर वर ।

खेवों बसु अरि जार, विमल विमलपदपदुमटिंग ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं श्रीविमलनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धर्प निर्व-
पामीति स्वाहा ॥४॥

श्रीफल सेव अनार, मधुर रसीले पावने ।

जजों विमलपद सार, विघ्न हरै शिवफल करै ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं श्रीविमलनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ ८ ॥

आठों दरव संवार, मनसुखदायक पावने ।

जजों अरध भरधार, विमल विमलशिवतिय-रमन ॥९॥

ॐ ह्रीं श्रीविमलनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्वपा-
मीति स्वाहा ॥ ९ ॥

पंचकल्याणक

छंद द्रुतविलम्बित तथा सुंदरि (वर्ष १२) ।

गरभ जेठबदी दशमी भनों, परम पावन सो दिन शोभनों ।
करत सेव सची जननीतखी, हम जजें पदपद्मशिरोमखी ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीज्येष्ठकृष्णदशम्यां गर्भमङ्गलमण्डिताय श्रीविमल-
नाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

शुक्लमाघ तुरी तिथि जानिये, जनममंगल तादिन मानिये ।
हरि तबै गिरिराज बिषै जजे, हम समर्चत आनंद को सजे ॥

ॐ ह्रीं माघशुक्लचतुर्दश्यां जन्ममङ्गलप्राप्ताय श्रीविमलनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

तप धरे सितमाघ तुरी भली, निज सुधातम ध्यावत हैं रली ।
हरि फनेश नरेश जजें तहां, हम जजें नित आनंदसों इहां ॥

ॐ ह्रीं माघशुक्लचतुर्दश्यां निःक्रममहोत्सवमण्डिताय श्री-
विमलनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

विमल माघरसी हनि धातिया, विमलबोध लयो सब भासिया
विमल अर्घ चढाय जजों अबै, विमल आनंद देहु हमें सबै ॥

ॐ ह्रीं माघशुक्लषष्ठ्यां केवलज्ञानप्राप्ताय श्रीविमलनाथजिने-
न्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

भ्रमरसाढरसी अति पावनों, विमल सिद्ध भये मनभावनों ।
गिरसमेद हरी तित पूजिया, हम जजें इतहर्ष धरें हिया ॥५॥

ॐ ह्रीं आषाढकृष्णषष्ठ्यां मोक्षमङ्गलप्राप्ताय श्रीविमलनाथ-
जिनेन्द्रायार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥

जयमाला

दोहा छन्द । अति उपमालंकार ।

गनन चहत उड़गन गगन, छिति यितिके छँहँ जेम ।

तिमि गुन वरनन वरनन,--माहि होय तव केम ॥ १ ॥

साठधनुष तन तुंग है, हेमवरन अभिराम ।

वर बराह पद अंक लाखि, पुनि पुनि करों प्रनाम ॥ २ ॥

छन्द तोटक । (वर्ण १२) ।

जय केवलब्रह्म अनन्तगुनी, तुव ध्यावत शेष महेश मृनी ।

परमात्म पूरन पापहनी, चितचिततदायक इष्ट धनी ॥३॥

भवआतपध्वंसन इंदुकर, वर साररसायन शर्मभर ।

सब जन्मजरामृतदाघहर, शरनागतपालन नाथ वर ॥४॥

नित संत तुमे इन नामनितें, चितचितत हैं गुनगामनिते ।

अमलं अचलं अटलं अतुलं, अरलं अछलं अथलं अकुल ॥५॥

अजरं अमरं अहरं अडरं, अपरं अभरं अशरं अनरं ।

अमलीन अछीन अरीन हने, अमतं अगतं अरतं अघने ॥६॥

अछुधा अतृषा अभयात्म हो, अमदा अगदा अवदात्म हो ।

अविरुद्ध अक्रुद्ध अमानधुना, अतलं अशलं अनअंत गुना ॥७॥

अरसं सरसं अकलं सकलं, अवचं सवचं अमनं सबलं ।

इन आदि अनेकप्रकार सही, तुमको जिन संत जयें नित ही ॥

अब मैं तुमरी शरणा पकरी, दुख दूर करो प्रभुजी हमरी ।
 हम कष्ट सहे भवकाननमें, कुनिगोद तथा थल आननमें ॥६॥
 तित जामनमर्न सहे जितने, कहि केम सकैं तुमसों तितने ।
 सुमुहूरत अन्तरमार्हि धरे, छह त्रै त्रय छःछहकाय खरे । १०।
 छिति बहि बयारक साधरनं, लघु धूल विभेदनिर्णो मरनं ।
 परतेक वनस्पति भ्यारभये, छहजार दुवादश भेद लये ॥११॥
 सब द्वै त्रय भूषट छःसु भया, इक इन्द्रियकी परजाय लया ।
 जुगइन्द्रिय काय असी गहियो, तिय इन्द्रिय साठनिमें रहियो ॥
 चतुरिद्रिय चालिस देह धरा, पनइद्रियके चबबीस बरा ।
 सब ये तन धार तहां सहियो, दुखबोर चितारित जात हियो ॥
 अब मो अरदास हिये धरिये, दुखदंद सबै अब ही हरिये ।
 मनर्वच्छित कारज, सद्ध करो, सुखसार सबै घर अद्धि भरो । १४।

घत्तानंद छंद ।

जै विमलजिनेशा, नुतनाकेशा, नागेशा नरईश सदा ।
 भवतापअशोषा, हरनानशोशा, दाता चिन्तित शर्म सदा ॥१५॥
 ॐ । श्रीविमलनाथजिनेन्द्राय ॥ पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥

दोहा छंद ।

श्रीमत विमलजिनेशपद, जो पूजौ मनलाय ।
 पूजै बांछित आश तसु, मैं पूजों गुनगाय ॥ १६ ॥
 इत्याशीर्वादाय पुष्पाञ्जलि क्षिपेत् ।
 इति श्री विमलनाथजिनपूजा समाप्त ॥ १३ ॥

श्रीअनन्तनाथजिनपूजा ।

कविस छंद (मात्रा ३१) ।

पुष्पोत्तर तजि नगर अजुध्या, जनम लियो सुर्याउरआय ।
 सिंहसेन नृपके नंदन आनंद अशेष भरे जगराय ॥
 गुन अनंत भगवंत धरे भवदंद हरे तुम हे जिनराय ।
 थापतु हों त्रयवार उचरिकैं, कृपासिन्धु तिष्ठहु इत आय ॥१॥
 ॐ ह्रीं श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर । संबौषट् ।
 ॐ ह्रीं श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।
 ॐ ह्रीं श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्र ! अत्र मम समिहितो भवभव । वषट्

अष्टक

छंद गीता तथा हरिगीता (मात्रा २८)

शुचि नीर निरमल गंगको लै, कनकभृंग भराइया ।
 मलकरम धोवन हेत मन, वचकाय धार ढराइया ॥
 जगपूज परमपुनीत मीत, अनंत संत सुहावनों ।
 शिवकन्तवन्त महन्त ध्यावों, अन्ततन्त नशावनों ॥ १ ॥
 ॐ ह्रीं श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल
 निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥
 हरिचंद कदलीनंद कुंकुम, दंदाप निकंद है ।
 सब पापहुजसंतापभंजन, आपको लखि चंद है ॥ जग०॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाथ चंद्रन
निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

कनशालदुति उजियाल हीर, हिमालगुलकनितै घनी ।
तसु पुंज तुम पदतर धरत, पद लहत स्वच्छ।सुहावनी ॥ ज०

ॐ ह्रीं श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षयान
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

पुष्कर अमरतरुजनित वर, अथवा अवर कर लाइया ।
तुम चरन पुष्करतर धरत, सरशूल सकल नशाइया ॥ ज०

ॐ ह्रीं श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्प
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

पकवान नेना घान रसना, को प्रमोद सु दाय हैं ।
सो न्याय चरन चढ़ाय रोग ह्नुधाय नाश कराय हैं ॥ ज०

ॐ ह्रीं श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय लुधारोगविनाशनाथ नैवेद्य
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

तमसाहभानन जानि आनंद, आनि सरन गही अबै ।
वरदीप धारों बारि तुमढिंग, सुपरज्ञान जु द्यो सबै ॥ ज०

ॐ ह्रीं श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाथ दीप
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥

बह गंध चूरि दशांग सुन्दर, धूम्रध्वजमें खेय हों ।
वसुकर्म भर्म जराय तुम ढिंग, निजसुधातम बेय हों ॥ ज०

ॐ ह्रीं श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मवहनाय धूपं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ ७ ॥

रसथक पक सुभक चक, सुहावनें मृदुपावनें ।

फलसारवृन्द अमन्द ऐसा, न्याय पूज रचावनें ॥ जग० ८

ॐ ह्रीं श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फल
निर्वपामीति स्वाहा ॥८॥

शुचिनीर चंदन शालिशंदन, सुमन चरु दीवा धरों ।

अरु धूप जुत अरघ करि कर जारजुग विनती करों ॥ जग०

ॐ ह्रीं श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय अर्घ्यपदप्राप्तये अघ
निर्वपामीति स्वाहा ॥९॥

पंचकल्याणक ।

छंद-सुन्दरी तथा द्रुतविलंबित ।

असित कातिक एकम भावनो, गरभको दिन सा गिन पावनों
क्रिय सची तित चर्चन चावमों, हम जजें इत आनंद भावसों

ॐ ह्रीं कातिककृष्णप्रतिपदि गभमङ्गलमखिडताय श्रीअनन्त-
नाथजिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

जनम जेठवदी तिथि द्वादशी, सकलमंगल लोकविषे लशी ।

हरि जजे गिरिराज समाजतै, हम जजें इत आतमकाजतै ।२।

ॐ ह्रीं ज्येष्ठकृष्णद्वादश्या जन्ममङ्गलप्राप्त्याय श्रीअनन्तनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घ निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

भवशरीर विनस्वर भाइया, असित जेठदुवादशि गाइयो ।

सकल इंद्र जजे तित आइकै, हम जजें इत मंगल गाइकै ।३।

ॐ ह्रीं ज्येष्ठकृष्णाद्वादश्यां तपोमंगलप्राप्ताय श्रीअनन्तनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

असित चैत अमावसको सही, परम केवलज्ञान जग्यो कही ।
लहि समासृत धर्म धुरंधरा, हम समर्चत विघ्न सब हरो ॥४॥

ॐ ह्रीं चैत्रकृष्णामावस्यायां केवलज्ञानमण्डिताय श्रीअनन्त-
नाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

असित चैततुरी तिथि गाइयो, अघतघाति हने शिव पाइयो ।
गिरि समेद जजे हरि आयकै, हम जजै पद प्रीति लगाइकै ॥

ॐ ह्रीं चैत्रकृष्णचतुर्थ्यां मोक्षमंगलप्राप्ताय श्रीअनन्तनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

दोहा ।

तुम गुनवरनन येम जिम, खंविहाय करमान ।
तथा मेदिनी पदनि कार, कीनों चहत प्रमान ॥ १ ॥
जय अनन्त रवि भव्यमन, जलजवृन्द विहसाय ।
सुमति कोकतियथोक सुख, वृद्ध कियो जिनराय ॥२॥

छंद नयमालनी । तथा चण्डी । तथा तामरस (मात्रा १६)

जै अनन्त गुनवन्त नमस्ते, शुद्धष्येय नितसन्त नमस्ते ।
लोकालोकविलोक नमस्ते, चिन्पूरत गुनथोक नमस्ते ॥३॥

रत्नत्रयधर धीर नमस्ते, करमशत्रुकरिकीर नमस्ते ।
 चार अनन्त महन्त नमस्ते, जै जै शिवतियकन्त नमस्ते ॥४॥
 पंचाचारविचार नमस्ते, पंचकर्णमदहार नमस्ते ।
 पंच-पराव्रत-चूर नमस्ते, पंचमगतिमुखपूर नमस्ते ॥५॥
 पंचलब्धिधरनेश नमस्ते, पंचभावसिद्धेश नमस्ते ।
 छहों दरबगुनजान नमस्ते, छहों काल पहिचान नमस्ते ॥६॥
 छहोंकायरच्छेश नमस्ते, छहसम्यक उपदेश नमस्ते ।
 सप्तविशनवनवह्नि नमस्ते, जय केवलअपरन्धि नमस्ते ॥७॥
 सप्ततत्वगुनभनन नमस्ते, सप्तशुभ्रगतिहनन नमस्ते ।
 सप्तभंगके ईश नमस्ते, सातों नयकथनीश नमस्ते ॥८॥
 अष्टकरममलदल्ल नमस्ते, अष्टजोगनिरशल्ल नमस्ते ।
 अष्टम-धराधिराज नमस्ते, अष्ट-गुननि-सिरताज नमस्ते ॥९॥
 जै नवकेवल-प्राप्त नमस्ते, नवपदार्थथिति आप्त नमस्ते ।
 दशों धरमधरतार नमस्ते, दशों बंधपरिहार नमस्ते ॥१०॥
 विघ्न-महीधर-विज्जु नमस्ते, जै ऊरधगति-रिज्जुनमस्ते ।
 तनकनकंदुति पूर नमस्ते, इल्वाकजगनखर नमस्ते ॥११॥
 धनु पचासतन उच्च नमस्ते, कृपासिंधु गुन शुच नमस्ते ।
 सेही-अंक निशंक नमस्ते, चितचकोर मृगअंक नमस्ते ॥१२॥
 रागदोषमदटार नमस्ते, निजविचारदुखहार नमस्ते ।
 सुर-सुरेश-गन-वंद नमस्ते, 'बृ'द' करो सुखकंद नमस्ते १३

घत्तानंद छंद ।

जय जय जिनदेवं, सुरकृतसेवं, नितकृतचित्त हुझासधरं ।
आपदउद्धारं, समतागारं, वीतरागविज्ञान भरं ॥ १४ ॥

ॐ ह्रीं श्रीअनन्तनाथजिनेन्द्राय पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
मदावल्लिप्तकपोल तथा रोङ्क छंद (मात्रा २४)

जो जन मनबचकायलाय, जिन जजै नेह धर ।
वा अनुमोदन करै करायै पदै पाठ वर ॥
ताके नित नव होय, सुमंगल आनंददाई ।
अनुक्रमतैं निरवान, लहै सामग्री पाई ॥ १ ॥

इत्यारशीर्वादाय पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।
इति श्रीअनन्तनाथजिनपूजा समाप्त ॥

श्री धर्मनाथ जिनपूजा ।

माधवी तथा किरीट छन्द (८ सगण व गुरु)

तजिके सरवारथ सिद्ध विमान, सुमानके आनि अनंद बढ़ाये
जगमातसुव्रतिके नंदन होय, भवोदधि डूबत जंतु कड़ाये ॥
जिनको गुण नामहिं माहि प्रकाश है, दासनिको शिवस्वर्ग मँढ़ाये
तिनके पद पूजनहेत त्रिवार, सुथापतु हों यह फूल चढ़ाये १

ॐ ह्रीं श्रीधर्मनाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर । संबोधत् ॥

ॐ ह्रीं श्रीधर्मनाथजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं श्रीधर्मनाथजिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव ।

वषट् ॥ ३ ॥

अष्टक

छन्द जोगीरासा (मात्रा २८)

मृनि मनसम शुचि शीर नीर अति, मलय मेलि भरि झारी ।
जनमजरामृत तापहरनको, चरचौ चरन तुम्हारी ॥
परमधरम-शम-रमन धरम-जिन, अशरन शरन निहारी ।
पूजो पाय गाय गुन सुन्दर, नाचौ दे दे तारी ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीधर्मनाथजिनेन्द्राय जन्ममृत्युविनाशनाथ जलं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

केशर चदन कदलीनंदन, दाहनिकंदन लीनों ।
जलसंगघस लसि शशिसमशमकर, भवआताप हरीनो ॥ पर०

ॐ ह्रीं श्रीधमनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाथ चदनं
निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥

जलज जीर सुखदास होर हिम, नीर किरनसम लायो ।
पुंज धरत आनंद भरत भव,—दद हरत हरषायो ॥ पर० ३

ॐ ह्रीं श्रीधमनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान
निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥

सुमन सुमनसम सुमनथालरम, सुमनवृन्द विहसाई ।
सु मनमथ-मदमथनके कारन, चरचौ चरन चढ़ाई ॥ पर० ४

ॐ ह्रीं श्रीधर्मनाथजिनेन्द्राय कामवाणविश्वंसनाथ पुषं
निर्वपामीति स्वाहा ॥४॥

धेवर बावर अर्द्धचन्द्र सम, छिद्र सहस्र विराजै ।

सुरस मधुर तासों पद पूजत, रोग असाता भाजै ॥ पर० ५

ॐ ह्रीं श्रीधर्मनाथजिनेन्द्राय बुधारोगविनाशनाथ नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ॥५॥

सुन्दर नेह सहित वर दीपक, तिमिर हरन धरि आगै ।

नेह सहित गाऊ गुन श्रीधर, ज्यों सुबोध उर जागै ॥ पर०

ॐ ह्रीं श्रीधर्मनाथजिनेन्द्राय मोहांधकारविनाशनाथ दीपं
निर्वपामीति स्वाहा ॥६॥

अगर तगर कृष्णागर तरदिव, हरिचंदन करपूर ।

चूर खेय जलजवनमांहिं जिमि, करम जरै वसु कूर ॥ पर०

ॐ ह्रीं श्रीधर्मनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ ७ ॥

आम्र काप्रक अनार सारफल, भार मिष्ट सुखदाई ।

सो लै तुमटिंग धरहुँ कृपानिधि, देहु मोचठकुराई ॥ पर०

ॐ ह्रीं श्रीधर्मनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ ८ ॥

आठों दरब साज शुचि चित्तहर, हरषि हरषि गुनगाई ।

बाजत दमदमदम मृदंन गत, नाचत ता थैई आई ॥ पर० ॥

ॐ ह्रीं श्रीधर्मनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामी-
ति स्वाहा ॥ ९ ॥

पंचकल्याणक ।

राग टप्पाकी चाल 'खोयोरे गंवार तैं सारे दिन यों ही खोयो'
पूजों हो अबार, धरमजिनेसुर पूजों, पूजों हो । टेक ।

आटैं सित वैशाखकी हो, गरभदिवस अविकार ॥

जगजन वंछित पूजों, हो अबार,

धरमजिनेसुर पूजों, पूजों हो० ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं वैशाखशुक्लाष्टम्यां गर्भमंगलप्राप्ताय श्रीधर्मनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

शुक्ल माघ तेरस लयो हो, धरम धरम अवतार ।

सुरपति सुरगिर पूजों, पूजों हो अबार, ॥ धरम० ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं माघशुक्लत्रयोदश्यां जन्ममङ्गलमण्डिताय श्रीधर्मनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

माघशुक्ल तेरस लयो हो, दुद्धर तप अविकार ।

सुरऋषि सुमनन पूज्यो, पूजों हा अबार, ॥ धरम० ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं माघशुक्लत्रयोदश्यां निःक्रममहोत्सवमण्डिताय श्री-
धर्मनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

पौषशुक्ल पूनम हने अरि केवल लहि भवितार ।

गनसुर नरपति पूज्यो, पूजों हो अबार, ॥ धरम० ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं पौषशुक्लपूर्णिमायां केवलज्ञानमण्डिताय श्रीधर्मनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

जेठशुक्ल तिथि चौबकी हो, शिव समेदतैं पाय ।

जगतपूजपद पूजों, पूजों हो अवार ॥ धरम० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं ज्येष्ठशुक्लचतुर्थ्यां, मोक्षमङ्गलप्राप्ताय श्रीधर्मनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्बपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

जयमाला ।

दोहा (विरोषोक्ति) ।

घनाकार करि लोक पट, सकल उदधि मसि तंत ।

लिखै शारटा कलम गहि, तदपि न तुव गुन अंत ॥ १ ॥

छंद पद्वरी (मात्रा १६) ।

जय धरमनाथ जिन गुनमहान, तुम पदको मैं नित धरों ध्यान
जय गरभजनम तप ज्ञानजुक्त, वर मोक्ष सुमंगल शर्मभुक्त ॥२॥

जय चिदानंद आनंदकंद, गुनवृन्द सु ध्यावत मुनि अमंद ।
तुम जीवनिके, विनुहेत मित्त, तुम ही हो जगमें जिन पवित्त ॥३॥

तुम समवसरणमें तस्वसार, उपदेश दियो है अति उदार ।
ताकों जे भवि निजहेत चित्त, धारैं ते पावैं मोक्षवित्त ॥ ४ ॥

मैं तुम मुख देखत आज धर्म, पायो निजआतमरूप धर्म ।
मोक्षों अब भौमयतैं निकार, निरभयपद दीजे परमसार ॥ ५ ॥

तुम समय मेरो जगमें न कोय, तुमहीतैं सब बिधि काज होय ।
तुम दयाधुरन्धर धीर वीर, मेटी जगजनकी सकल पीर ॥६॥

तुम नीतिनिपुन विनरागदोष, शिवमग दरसावतु हो अदोष ।
 तुम्हरे ही नामतने प्रभाव, जगजीव लहें शिव-दिव-सुराव ॥७॥
 तातै मैं तुमरी शरणा आय, यह अरज करतु हों शीस नाय ।
 भवबाधा मेरी मेट मेट, शिवराधासों करि भेट भेट ॥ ८ ॥
 जंजाल जगतको चूर चूर, आनंद अनुपम पूर पूर ।
 मति देर करो मुनि अरज एव, हे दीनदयाल जिनेश देव ॥६॥
 मोकों शरना नहिं और ठार, यह निहचै जानों सुगुन मौर ।
 वृंदावन, बंदत प्रीति लाय, सब विघन मेट हे धरम-नाय ॥१०॥

छंद घत्तानंद (मात्रा ३१) ।

जय श्रीजिनधर्म, शिवहितपर्म श्रीजिनधर्म उपदेशा ।
 तुम दयाधुरंधर विनतपुरंदर, कर उरमंदर परवेशा ॥११॥
 ॐ ह्रीं श्रीधर्मनाथजिनेन्द्राय पूर्णार्घिं निर्वपामीति स्वाहा ।

छंद मदावलितकपोल (मात्रा २४) ।

जा श्रीपतिपद जुगल, उगल मिथ्यात जजै भव ।
 ताके दुख सब मिटहिं, लहै आनंदसमाज सब ॥
 सुर-नर-पति-पद भोग, अनुक्रमतैं शिव जावै ।
 वृन्दावन यह जानि धरम, जिनके गुन ध्यावै ॥१॥

इत्याशीर्वादः परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

इति श्रीधर्मनाथजिनपूजा समाप्त ॥ १५ ॥

श्रीशान्तिनाथ जिनपूजा ।

मत्तर्ग्यदं छंद । (यमकालंकार) ।

या भवकाननमें चतुरानन, पापपनानन घेरि हमेरी ।
आतमजान न मान न ठानन, वान न होन दई सठ मेरी ॥
तामद भानन आपहि हो यह, क्लानन आन न आननटेरी ।
आन गही शरनागतको, अब श्रीपतजी पत राखहु मेरी ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर । संघौषट् ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठतिष्ठ । ठः ठः ॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव । वषट्

अष्टक

छंद त्रिभंगी । अनुप्रयासक । (मात्रा जगण्वजित) ।

हिमगिरिगतगंगा, धार अभंगा, प्रासुक सङ्गा भरि, भृङ्गा ।
जरमरनमृतंगा, नाशि अर्धगा, पूजिपदंगा मृदङ्गिगा ॥
श्रीशान्तिजिनेशं, नुतशकेशं, वृषचक्रेशं, चक्रेशं ।
हनि अरिचक्रेशं, हे गुणधेशं, दयामृतेशं, मक्रेशं ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाथ जल
निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

वर बावनचंदन, कदलीनंदन, धनआनंदन सहित घसों ।
भवतापनिकदंन, ऐरानंदन, वंदि अमंदन चरनवसों ॥श्री०॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाथ चंदन
निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

हिमकरकरि लज्जत, मलयसुसज्जत, अच्छत जज्जत, भारथारी ।
दुखदारिदगज्जत, सदपदसज्जत, भवभयभज्जत, अतिभारी ॥ श्री०

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान्
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

मंदार सरोजं, कदली जोजं, पुञ्जभरोजं, मलयभरं ।

भरि कंचनथारी, तुमडिंग धारी, मदनविदारी, धीरधरं ॥ श्री० ४

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय कामवाणविच्चंसनाय पुष्पं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

पकवान नवीने, पावन कीने, पटरसभीने, सुखदाई ।

मनमोदनहारे, लुधा विदारे, आगे धारे, गुनगाई ॥ श्री० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय लुधारोगविनाशानाय नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

तम ज्ञानप्रकाशे, भ्रमतमनाशे, ज्ञेयविकाशे सुखरासे ।

दीपक उजियारा, यातैं धारा, मोह निवारा, निजमासे ॥ श्री०

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशानाय दीपं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥

चन्दन करपूरं, करिवर चूरं, पावकभूरं, माहिजुरं ।

तसु धूम उडावै, नाचत आवै, अलि गुंजावै मधुरसुरं ॥ श्री०

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं निवपा-
मीति स्वाहा ॥ ७ ॥

बादाम खजूरं, दाढ़िम पूरं, निंबुक भूरं, लै आयो ।

तासों पद जज्जों, शिवफल सज्जों, निजरसरज्जों, उमगायो ॥ श्री०

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय मातृफलप्राप्तये फलं निवेपामीति स्वाहा ॥१८॥

बसु द्रव्य सँवारी, तुमडिग धारी, आनंदकारी, दृगप्यारी ।
तुम हो भवतारी, करुणाधारी, यातँ थारी, शरनारी ॥ श्री ०

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं निवेपामीति स्वाहा ॥१९॥

पंचकल्याणक ।

सुंदरी तथा द्रुतविलंबित छंद ।

असित सातय भादव जानिये, गरभमंगल तादिन मानिये ।
सचि कियो जननी पद चचनं, हम करें इत ये पद अर्चनं ॥

ॐ ह्रीं भाद्रपदकृष्णसप्तम्या गममङ्गलमण्डिताय श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अघ निवेपामीति स्वाहा ॥१०॥

जनम जेठ चतुर्दशि श्याम है, सकलइन्द्र सु आगत धाम है ।
गजपुरै गज साजि सबै तबैं, गिरि जजे इत मै जजि होंअबैं ॥

ॐ ह्रीं ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्या जन्ममङ्गलप्राप्तये श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अर्घं निवेपामीति स्वाहा ॥२॥

भव शरीर सुभोग असार हैं, हमि बिचार तबैं तप धार हैं ।
अमर चौदश जेठ सुहावनी, धरमहेत जजो गुन पावनी ॥३॥

ॐ ह्रीं ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां निःकममहोत्सवमण्डिताय श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अघ निवेपामीति स्वाहा ॥४॥

शुक्लपौष दशैं सुखराश है, परम-केवल-ज्ञान प्रकाश है ॥
भवसमुद्रउधारन देवकी, हम करें नित मंगल सेवकी ॥४॥

ॐ ह्रीं पौषशुक्लदशम्यां केवलज्ञानप्राप्तय श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥४॥

असित चौदश जेठ हने अरी, गिरि समेदथकी शिव-ती वरी ।
सकलइन्द्र जजैं तित आइकैं, हम जजैं इत भस्तक नाइकैं ॥५॥

ॐ ह्रीं ज्येष्ठकृष्णचतुर्दश्यां मोक्षमंगलप्राप्तय श्रीशान्तिनाथ-जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥५॥

जयमाला ।

छंद रथोद्धता, चन्द्रवर्त्म (वर्ण ११-लाटानुप्रास) ।

शान्ति शान्तिगुणमंडिते सदा, जाहि ध्यावत सुपंडिते सदा ।
मैं तिन्हें भगतमंडिते सदा, पूजि हों कलुषहंडिते सदा ॥१॥
मोक्षहेतु तुम ही दयाल हो, हे जिनेश गुनरत्नमाल हो ।
मैं अबै सुगुनदाम ही धरों, ध्यावतें तुरित मुक्ति-ती वरों २

छंद पद्वरी (१६ मात्रा) ।

जय शान्तिनाथ चिद्रू पराज, भवसागरमें अद्भुत जहाज ।
तुम तजि सरवारथसिद्ध धान, सरवारथजुत गजपुर महान १
तित जनम लियौ आनन्द धार, हरि ततछिन आयो राजद्वार ।
इन्द्रानी जाय प्रसूतथान, तुमको करमें लै हरष मान ॥२॥

हरि गोद देय सो मोदघार, सिर चमर अमर द्वारत अपार ।
 गिरिराज जाय तित शिला पांड, तापै थाप्यौ अमिषेक मांड ३
 तित पंचमउदधितनों सु वार, सुरकर कर करि न्याये उदार ।
 तब इन्द्र सहसकरकरि आनंद, तुम सिर धारा ढारी सुनंद ॥
 अबघघघघघ धुनि होत घोर, भभभभभभ धधधध कलशशोर
 दमदम दमदम बाजत मृदंग, अन नन नन नन नन नृपुरंग
 तन नन नन नन नन तनन तान, धन नन नन घंटा करत ध्वान
 ताथेहे थेह थेह थेह थेह मुचाल, जुत नाचत नावत तुमहिं भाल
 चट चट चट अटपट नटतनाट, भट भट भट हट नट शट विराट
 इमि नाचत राचत भगत रंग, सुरलेत जहां आनंद संग ॥७॥
 इत्यादि अतुल मंगल सुठाट, तित बन्यौ जहां सुरगिरि विराट
 पुनि करि नियोग पितुसदन आय, हरि सौंप्यौ तुम तित वृद्ध थाय
 पुनि राजमाहिं लहि चक्ररत्न, भोग्यौ छखंड करि घरम जग्न
 पुनि तप धरि केवलश्रद्धिपाय, भवि जीवनकों शिवमग बताय
 शिवपुर पहुंचे तुम हे जिनेश, गुनमंडित अतुल अनंत भेष ।
 मैं ध्यावतु हों नित शीश नाय, हमरी भववाधा हरि जिनाय
 सेवक अपनों निज जान जान, करुना करि भौमय मान भान
 यह विघनमूल तरु खंडखंड, चितचिन्तित आनंद मंडमंड ॥

घृत्ता छंद (मात्रा ३१)

श्रीशान्ति महंता, शिवतियकंता, सुगुन अनंता भगवन्ता ।
भवभ्रमन हनंता, सौख्य अनंता, दातारं तारनवन्ता ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥

छंद रूपक सवैया (मात्रा ३१)

शांतिनाथजिनके पदपंकज, जो भवि पूजै मनवचकाय ।
जनम जनमके पातक ताके, ततछिन तजिकै जाय पलाय ॥
मनवद्विखत सुख पावै सो नर, वांचै भगतिभाव अति लाय ।
तातैं 'बुन्दावन' नित बंदे, जातैं शिवपुरराज कराय ॥१॥

इत्याशीर्वादः पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।

इति शान्तिनाथजिनपूजा समाप्त ॥ १६ ॥

श्रीकुन्धुनाथजिनपूजा ।

छंद माधवी तथा किरिट (वर्ण २५) ।

अजअंक अजैपद राजै निशंक, हरै भवशंक निशंकित दाता
मतमत्त मतंगके माथै गथे, मतवाले तिन्हें हनें ज्यों हरि हाता
गजनागपुरै लियो जन्म जिन्हों, रविके प्रभनंदन श्रीमतिमाता
सहकुन्धुसुकुन्धुनिके प्रतिपालक, थापों तिन्हें जुतभक्ति विख्याता

ॐ ह्रीं श्रीकुन्धुनाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर । संवौषट् ।

ॐ ह्रीं श्रीकुन्धुनाथजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीकुन्धुनाथजिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव ।

वषट् ।

अष्टक

चाल लावनी मरहठी की

कुंधु सुन अरज दासकेरी, नाथ सुन अरज दासकेरी ।
 भवसिन्धु पर्यो हों नाथ निकारो बांह पकर मेरी ॥
 प्रभू सुन अरज दासकेरी, नाथ सुनि अरज दासकेरी ।
 जगजाल पर्यो हों बेग निकारो बांह पकर मेरी ॥ टेक ॥
 सुरसरिताकौ उज्जल जल भरि, कनकभ्रंग भेरी ।
 मिथ्यावृषा निवारन कारन, धरों धार नेरी ॥ कुन्धु ॥ १॥

ॐ ह्रीं श्रीकुन्धुनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल
 निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥

बावन चंदन कदलीनंदन, घँसिकर गुन टेरी ।
 तपत मोह नाशनके कारन, धरों चरन नेरी ॥ कुन्धु ॥

ॐ ह्रीं श्रीकुन्धुनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चंदन निव-
 पामीति स्वाहा ॥२॥

मुक्ताफलमम उज्जल अच्छत, सहित मलय लेरी ।
 पुञ्ज धरों तुम चरनन आगै, अखय सुपद देरी ॥ कुन्धु ॥ ३॥

ॐ श्रीकुन्धुनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निर्व-
 पामीति स्वाहा ॥३॥

कमल केतकी बेला दौना, सुमन सुमनसेरी ।
 समरशूल निरमूल हेतु प्रभू, भैंट करों तेरी ॥ कुन्धु ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं श्रीकृन्धुनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्प
निर्वपामीति स्वाहा ॥४॥

वेवर बावर मोदन मोदक, मृदु उत्तम पेरी ।

तासों चरन जजों करुनार्निध, हरो ह्रुधा मेरी ॥ कुन्धु ॥५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीकृन्धुनाथजिनेन्द्राय चूद्रोगविनाशनाय नैवेद्य-
निर्वपामीति स्वाहा । ॥५॥

कंचन दीपमई वर दीपक, ललित जाति घेरी ।

सो लै चरन जजों भ्रमतम रवि, निज सुबोध देरी ॥ कुं० ॥६

ॐ ह्रीं श्रीकृन्धुनाथजिनेन्द्राय मौहान्धकारविनाशनाय दीप
निर्वपामीति स्वाहा ॥६॥

देवदारु हरि अगार तगर करि चूर अगनि खेरी ।

अष्ट करम ततकाल जर ज्यों, धूम धनंजेरी कुन्धु० ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं श्रीकृन्धुनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूप निर्वपा-
मीति स्वाहा ॥७॥

लॉग लायची पिस्ता केला, कमरख शुचि लेरी ।

मोक्ष महाफल चाखन कारन, जजों सुकरि देरी ॥ कुं० ॥८॥

ॐ ह्रीं श्रीकृन्धुनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपा-
मीति स्वाहा ॥८॥

जल चंदन तंदुल प्रसून चरु, दीप धूप लेरी ।

फलजुत जजन करो मन सुख धरि, हरो जगत फेरी ॥ कुं० ॥९

ॐ श्रीकृन्धुनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं निर्वपामीति
स्वाहा ॥९॥

पंचकल्याणक ।

मोतीवाम छंद (वर्ण १२) ।

सुसावन की दशमी कलि जान, तज्यो सरवारथसिद्ध विमान
भयो गरभागममंगल सार, जजै हम श्रीपद अष्टप्रकार ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रावणकृष्णदशम्यां गर्भमङ्गलप्राप्ताय श्रीकुन्धुनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥

महा वयशाख सु एकम शुद्ध, भयो तब जन्म तिज्ञान समुद्ध
कियो हरि मंगल मंदरशीस, जजै हम अत्र तुम्हें नुतशीस २

ॐ ह्रीं वैशाखशुक्लप्रतिपदि जन्ममंगलप्राप्ताय श्रीकुन्धुनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥

तज्यो षट्खंडविभौ जिनचंद, विमोहितचित्तचितारि सुछंद ।

धरे तप एकम शुद्ध विशाख, सुमग्न भये निजआनंदचाख ३

ॐ ह्रीं वैशाखशुक्लप्रतिपदि निःक्रममहोत्सवमंडिताय श्रीकुन्धु-
नाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥

सुदी तिय चैत सु चेतन शक्त, चहुँ अरि छै करि तादिन व्यक्त

भई समवसुत भाखि सुधर्म, जजो पद ज्यों पद पाश्यपरम ॥

ॐ ह्रीं चैत्रशुक्लतृतीयायां केवलज्ञानप्राप्ताय श्रीकुन्धुनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥४॥

सुदी वयसाख सु एकम नाम, लियो तिहिं द्यास अभै शिवधाम

जजे हरि हर्षित मंगल गाय, समर्चतु हौं सु हिया वचकाय ॥

ॐ ह्रीं वैशाखशुक्लप्रतिपदि मोक्षमंगलप्राप्ताय श्रीकुन्धुनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

अडिल्ल छंद । (मात्रा २१ रूपकालंकार)

खट खंडनके शत्रु राजपदमे हने ।

धरि दीक्षा खटखंडन पाप तिन्हें दने ॥

त्यागि सुदरशन चक्र धरमचक्री भये ।

करमचक्र चकचूर सिद्ध दिइ पद लये ॥ १ ॥

ऐसे कुन्थजिनेशतने पदपत्रकों ।

गुन अनन्त भंडार महासुखसत्रकों ॥

पूजों अरघ चढ़ाय पूरणानंद हो ।

चिदानंद अभिनंद ईदगनबंध हो ॥ २ ॥

पढरी छन्द (मात्रा १६)

जय जय जय जय श्रीकुंतुदेव, तुम हो ब्रह्मा हरि त्रिबुकेव ।

जय बुद्धि विदांवर विष्णु ईस, जय रमाकंत शिवलोक शास

जय दयाधुरंधर सृष्टिपाल, जय जय जगधंधू सुगुनमाल ।

सरवारथसिद्धविमान छार, उपजे गजपुरमें गुन अपार ॥४॥

सुरराज कियो गिरन्हान जाय, आनन्दसहित जुत-भगत भाय

पुनि पिता सौंपि कर मुदित अंग, हरि तांडव-निरत कियो अभंग

पुनि स्वर्ग गयो तुम इत दयाल, वय पाय मनोहर प्रजापाल

पटखंडविभौ भोग्या समस्त, फिर त्याग जोग धर्यो निरस्त

तव घाति घात केवल उपाय, उपदेश दियो सबहित जिनाय ।
जाके जानत अम-तम विलाय, सम्यकदर्शन निरमल लहाय ॥
तुम धन्य देव किरपा-निधान, अज्ञान-छपा-तमहरन भान ।
जय स्वच्छगुनाकर शुक्तशुक्त, जय स्वच्छसुखामृत भुक्तभुक्त ॥
जय भौमयमंजन कृत्यकृत्य, मैं तुमरो हों निज भृत्य भृत्य ।
प्रभु अशरन शरन अधार धार, मम विघ्नतूलगिरि जार जार ॥
जय कुनय-यामिनी सूर सूर, जय मनवाञ्छित सुख पूर पूर ।
मम करमबंध दिढ़ चूरचूर, निजसम आनंद दे भूरभूर ॥१०॥
अथवा जब लों शिव लहों नाहिं, तबलों ये तो नित ही लहाहिं
भव भव श्रावक-कुलजनमसार, भवभव सतमत सत्संग धार ॥
भवभव निज आतम-तस्व-ज्ञान, भवभव तप संजम शील दान
भवभव अनुभव नित चिदानंद, भवभव तुम आगम हे जिनंद ॥
भवभव समाधिजुत मरनसार, भवभव व्रत चाहों अनागार ।
यह मोकों हे करुणानिधान, सब जोग मिलो आगमप्रमान ॥
जब लों शिव सम्पति लहों नाहिं, तबलों मैं इनको नित लहाहिं
यह अरज हिये अवधारि नाथ, भवसंकट हरि कीजै सनाथ ॥

छन्द घत्तानंद (मात्रा ३१)

जय दीनदयाला, वरगुनमाला, विरदविशाला सुख आला ।
मैं पूजों ध्यावों, शीश नमावों, देहु अचलपदकी चाला ॥१५॥
ॐ हीं कुन्धुनाथजिनेन्द्राय पूर्णाघ निर्बपामीति स्वाहा ।

छंद रोडक मात्रा (२४) ।

कुंथुजिनेसुरपादपदम, जो प्रानी ध्यावै ।

अलि समकर प्रनुराग, सहज सो निजनिधि पावै ॥

जौ बांचै सरद है, करै अनुमादन पूजा ।

वृन्दावन तिह पुरुष सदृश, सुखिया नहिं दूजा ॥१६॥

इत्याशीर्वादः पुरिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

इति श्रीकुन्थुनाथजिनपूजा समाप्त ॥ १७ ॥

श्रीअरनार्थाजनपूजा ।

छप्पय छंद (वीररसरूपकालंकार मात्रा १५२)

तप तुरंग असवार धार, तारन विवेक कर,

ध्यान शुक्ल असिधार, शुद्ध सु विचार सुबखतर ।

भावन सेना धरम, दर्शो सेनापति थापे,

रतन तीन धर सकति, मंत्रि अनुभो निरमापे ॥

सत्तातल सोहं सुभट धुनि, त्याग केतु शत अग्र धरि ।

इहविधि समाज सज राजको, अर्वाजन जीते करम अरि ।१।

ॐ ह्रीं श्रीअरनाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर । संघौषट् ।

ॐ ह्रीं श्रीअरनाथजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीअरनाथजिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव ।

वषट् ।

अष्टक

छंद त्रिभंगी (अनुप्रयासक मात्रा ३२-जगनं वर्जित) ।
 कनमनिमय भ्रारी, दृगसुखकारी, सुगसरितारी नीर भरी ।
 मुनिमनसम उज्जल, जनमजरादल, सो लै पदतल, धार करी
 प्रभु दीनदयालं, अरिकुलकालं, विरदविशालं सुकुमालम् ।
 हनि मम जंजालं, हे जगपालं, अरगुनभालं, वरभालम् । १ ।

ॐ ह्रीं श्रीअरनाथजिनेन्द्राय जन्ममृत्युविनाशनाय जलं निर्ब-
 पामीति स्वाहा ॥ १ ॥

भवताप नशावन, विरद सु पावन, मुनि मनभावन मोद भयो
 त तै घसि वावन, चंदनपावन, तरहि चढ़ावन, उमगि अयो ॥ प्रभु ०

ॐ ह्रीं श्रीअरनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चंदनं निर्ब-
 पामीति स्वाहा ॥ २ ॥

तंदुल अनियारे, श्वेत सँवारे, शशिदुतिटारे, धार भग ।
 पदअखय सुदाता, जगविख्याता, लखि भवताता पुञ्जधरो ॥ प्रभु ०

ॐ ह्रीं श्रीअरनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निर्ब-
 पामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

सुरतरुके शोभित, सुरन मनोभित, सुमन अछोभित, लै आयो ।
 मनमथके छेदन, आप अवेदन, लखि निरवेदन गुनगायौ ॥

ॐ ह्रीं श्रीअरनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं
 निर्बपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

नेवज सज भक्षक, प्रासुक अक्षक, पक्षकरक्षक, स्वच्छ धरी ।
 तुम करमनिकक्षक भस्मकलक्षक दक्षकपक्षक, रक्षकरी ॥ प्रभु ॥

ॐ ह्रीं श्रीअरनाथजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

तुम भ्रमतमभंजन, मुनिमनकंजन, -रंजन गंजन मोहनिशा ।
रविकेवलस्वामी, दीपजगामी, तुमडिंग आमी, पुन्यदशा।प्रभु०

ॐ ह्रीं श्रीअरनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥

दशधूप सुरंगी, गंधअभंगी, वन्दि वरंगी मांहि हवै ।
वसुकर्म जरावै, धूमउड़ावै, ताँडव भावै नृत्य पवै ॥ प्रभु० ॥

ॐ ह्रीं श्रीअरनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामीति
स्वाहा ॥ ७ ॥

श्रुतुफल अति पावन, नयनसुहावन, रसनाभावन कर लीने ।
तुम विघनविदारक, शिवफलकारक, भवदधितारक, चरचीने।प्रभु०

ॐ ह्रीं श्रीअरनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामि ।
सुचि स्वच्छ पटीरं, गंधगहीरं, तंदुल शीरं, पुष्पचरुं ।
वर दीपं धूपं, आनंदरूपं, लै फल भूपं, अर्घकरं ॥ प्रभु० ॥

ॐ ह्रीं श्रीअरनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अघ निर्वपामि ।

पंचकल्याणक

छंद चौपाई (मात्रा १६) ।

फागुन सुदी तीज सुखदाई, गरभ सुमंगल ता दिन पाई ।
मित्रादेवी उदर सु आये, जजे इन्द्र हम पूजन आये ॥१॥

ॐ ह्रीं फाल्गुणशुक्लतृतीयायां गर्भमंगलप्राप्ताय श्रीअरनाथ-
जिनेन्द्राय अघ निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

मंगसिर शुद्ध चतुर्दश सोहै, गजपुर जनम भयौ जग मोहै ।
सुरगुरु जजे मेरुपर जाई, हम इत पूजै मनबचकाई ॥२॥

ॐ ह्रीं मार्गशीर्षशुक्लचतुर्दश्यां जन्ममंगलप्राप्तय श्रीअरनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

मंगसिर सित चौदस दिन राजै, तादिन संजम धरे विराजै ।
अपराजित घर भोजन पाई, हम पूजै इत चिर हरषाई ॥३॥

ॐ ह्रीं मार्गशीर्षशुक्लचतुर्दश्यां निःक्रममंगलमण्डिताय श्री-
अरनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

कार्तिक सित द्वादसि अरि चूरे, केवलज्ञान भयो गुन पूरे ।
समवसरनथिति धरम बखाने, जजत चरन हम पातक माने ॥

ॐ ह्रीं कार्तिकशुक्लद्वादश्यां ज्ञानमङ्गलमण्डिताय श्रीअरना-
थजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

चैत शुक्ल ग्यारस सब कर्म, नाशि वास किय शिव-थल परम ।
निहचल गुन अनंत भंडारी, जजो देव सुधि लेहु हमारी ॥५॥

ॐ ह्रीं चैत्रशुक्लैकादश्यां मोक्षमङ्गलप्राप्तय श्रीअरनाथजिने-
न्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

जयमाला ।

दोहा छंद (जमकपद तथा लाटालुबंधन ।)

बाहर भीतरके जिते, जाहर अर दुखदाय ।

ता हर कर अराजिन भये, साहर शिवपुर राय ॥१॥

राय सुदरशन जासु पितु, मित्रादेवी माय ।

हेसबरन तन वरष वर, नव्वे सहस्र सुआय ॥२॥

छंद तोटक (वर्ण १२) ।

जय श्रीधर श्रीकर श्रीपति जी, जय श्रीवर श्रीमर श्रीमति जी ।
भवमीमभवोदधि तारन हैं, अरनाथ नमों सुखकारन हैं ॥३॥
गरभादिक मंगल सार धरे, जग जीवनिके दुखदंद हरे ।
कुरुवंशशिखामनि तारन हैं, अरनाथ नमों सुखकारन हैं ॥४॥
करि राज छखंडविभूतिमई, तप धारत केवलबोध ठई ।
गण तीस जहां भ्रमवारन हैं, अरनाथ नमों सुखकारन हैं ॥
भविजीवनिकों उपदेश दियौ, शिवहेत सवै जन धारि लियौ ।
जगके सब संकट टारन हैं, अरनाथ नमों सुखकारन हैं ॥६॥
कहि बीस प्ररूपनसार तहां, निजशर्मसुधारस धार जहां ।
गति चार हृषी पन धारन हैं, अरनाथ नमों सुखकारन हैं ॥७॥
षट काय तिजोग तिवेद मथा, पनवीस कषा वसु ज्ञान तथा ।
सुर संजमभेद पसारन हैं, अरनाथ नमों सुखकारन हैं ॥८॥
रस दर्शन लेश्यय भव्य जुगं, षट सम्यक सैनिय भेद युगं ।
जग हार तथा सु अहारन हैं, अरनाथ नमों सुखकारन हैं ॥९॥
गुनथान चतुर्दश मारगना, उपयोग दुवादश भेद बना ।
इमि बीस विभेद उचारन हैं, अरनाथ नमों सुखकारन हैं ॥१०॥
इन आदि समस्त बखान कियौ, भवि जीवनने उरधार लियौ ।
कितने शिववादिन धारन हैं, अरनाथ नमों सुखकारन हैं ॥
फिर आप अघाति विनाश सवै, शिवधामविषै धित कीन तवै ।
कृतकृत्य प्रभू जगतारन हैं, अरनाथ नमों सुखकारन हैं ॥१२॥

अब दीनदयाल दया धरिये, मम कर्म कलंक सबै हरिये ।
तुमरे गुनको कछु पार न हैं, अरनाथ नमो सुखकारन हैं ॥ १३

घत्तानंद छंद (मात्रा ३१)

जय श्रीअरदेव, सुरकृतसेव, समताभेव, दातार ।
अरिकर्मविदारन, शिवसुखकारन, जय जिनवर जगत्रातार ॥
ॐ ह्रीं श्रीअरनाथजिनेन्द्राय पूर्णार्घ्यं निर्बेपामीति स्वाहा ।

छंद आर्या (मात्रा ६०)

अरजिनके पदसारं, जो पूजें द्रव्यभावसों प्रानी ।
सो पावै भवपारं, अजरामर मोक्षथान सुखदानी ॥ १५ ॥

इत्याशीर्वादः परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।
इति श्रीअरनाथजिनपूजा समाप्त ॥ १८ ॥

श्रीमल्लिनाथजिनपूजा ।

छंद रोडक ।

अपराजितते आय नाथ मिथिलापुर जाये ।
कुंभरायके नन्द, प्रजापति मात बताये ॥
कनक वरन तन तुंग, धनुष पञ्चशैल विराजै ।
सो प्रभु तिष्ठहु आय निकट मम ज्यों अम भाजै ॥

ॐ ह्रीं श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर । संक्षीपट् ।
ॐ ह्रीं श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।
ॐ ह्रीं श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव ।

वषट् ।

अष्टक

छंद जोमीरासा (मात्रा २८)

सुर-सरिता-जल उज्जल ल कर, मनिभृङ्गार भराई ।

जनम जरामृत नाशनकारन, जजहु चरन जिनराई ॥

राग-दोष-मद-मोहहरनको, तुम ही हौ बरवीरा ।

यातें शरन गही जगपतिजी, वेग हरौ भवपीरा ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

वावनचंदन कदलीनन्दन, कुकुमसग घसायौ ।

लेकर पूजौ चरनकमलप्रभु, भवआताप नशायो ॥ राग० ॥

ॐ ह्रीं श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चंदनं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

तंदुलशशिसम उज्जल लीने, दीने पुञ्ज सुहाई ।

नाचत राचत भगति करत ही, तुरित अखेंपद पाई । राग०

ॐ ह्रीं श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निव-
पामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

पारिजातमंदार सुमन संतानजनित महकाई ।

मार सुभट मदभंजनकारन, जजहु तुम्हें शिरनाई ॥ राग०

ॐ ह्रीं मल्लिनाथजिनेन्द्राय कामदाणबिध्वंसनाय पुष्पं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

फेनी गोम्हा मोदनमोदक, आदिक सध उपाई ।

सो लै छुधा निवारन कारन, जजहु चरन खवलाई ॥ राग०

ॐ ह्रीं श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय कुधारोगविनाशनाथ नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

तिमिरमोह उरबंदिर मेरे, छाये रखो दुखदाई ।
तासु नाशकारनको दीपक, अद्भुतजाति जगाई ॥ राग० ॥

ॐ ह्रीं श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाथ दीपं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥

अगर तगर कृष्णागर चंदन, चूरि सुगन्ध बनाई ।
अष्टकरम जारनका तुमढिग, खेतु हों जिनराई ॥ राग० ॥

ॐ ह्रीं श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूप निर्वपामीति
स्वाहा ॥ ७ ॥

श्रीफल लौंग बदाम कुहारा, एला केला लाई ।
मोक्षमहाफलदाय जानिक, पूजो मन हरखाई ॥ राग० ॥

ॐ ह्रीं श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति
स्वाहा ॥ ८ ॥

जल फल अरघ मिलाय गाय गुन, पूजो भगति बड़ाई ।
शिवपदराज हेत हे श्रीधर, सरन गहो मे आई ॥ राग० ॥

ॐ ह्रीं श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति
स्वाहा ॥ ९ ॥

पंचकल्याणक

लक्ष्मीधरा छंद (१२ वर्ण)

चैतका शुद्ध एक भली सजई, गर्भकन्यायन कल्याणको सजई
कुम्भसजा प्रजापति माता तने, देवदेवी जूजे शीस जाये घने

ॐ ह्रीं चैत्रशुक्रप्रतिपदि गर्भागममङ्गलमण्डिताय श्रीमल्लिनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

मार्गशीर्षे सुदी ग्यारसी राजई, जन्मकन्यानको थौस सो ऊजई ।
इंद्रनागेंद्र पूजें गिरेंद्रे जिन्हें, मैं जजों ध्यायकें शीस नावों तिन्हें

ॐ ह्रीं मार्गशीर्षशुक्लैकादश्यां जन्ममंगलप्राप्ताय श्रीमल्लि-
नाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

मार्गशीर्षेसुदीग्यारसीके दिना, राजको त्याज दीक्षा धरी है जिना
दान गोधीरको नंदसेने दयो, मैं जजों जासुके पंचचर्जे भयो ॥

ॐ ह्रीं मार्गशीर्षशुक्लैकादश्यां तपोमंगलमंडिताय श्रीमल्लि-
नाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

पौषकी श्यामदूजी इने घातिया, केवलज्ञानसाम्राज्यलक्ष्मी लिया
धर्मचक्री भये सेव शक्री करै, मैं जजों चर्न ज्यों कर्मचक्री टरै ॥

ॐ ह्रीं पौषकृष्णाद्वितीयायां केवलज्ञानप्राप्ताय श्रीमल्लिनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

फाल्गुणी सेत पांचें अघाती हते, सिद्धआले बसे जाय संभेदतें ।
इन्द्रनागेंद्र कीन्हें क्रिया आयकें, मैं जजों सो मही ध्यायकें गायकें

ॐ ह्रीं फाल्गुणशुक्लपञ्चम्यां मोक्षमंगलप्राप्ताय श्रीमल्लिनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

घत्तानंद छंद (मात्रा ३१) ।

तुभ नमित सुरेशा, नरनागेशा, रजतनगेशा, भगतिभरा ।
भवभयहरनेशा, सुखभरनेशा, जै जै जै शिवरामनिभरा ॥१॥

पद्मरी छन्द (मात्रा १६ लक्ष्मण) ।

जय शुद्ध चिदात्म देव एव, निरदोष सुगुण यह सहज टेंब ।
जय अमृतमर्मजन मारतंड, भविभवदधितारनकों तरंड ॥२॥

जय भरभजनमर्मडित जिनेश, जय छायाक समकित बुद्ध भेस ।
चौथै किय सातोंप्रकृति छीन, चौ अनंतानु मिथ्यात तीन ॥३॥

सातैय किय तीनों आयु नाश, फिर नवें अंश नवमे विलाश ।
तिनमाहि प्रकृत कर्त्तास चूर, याभाति कियो तुम ज्ञानपूर ॥४॥

पहिले महँ सोलह कहँ प्रजाल, निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचाल ।
हनि थानगृद्धिकों सकल कुब्ज, नर तिर्यग्गति गस्यानुपुब्ज ॥५॥

इक बे ते चा इन्द्रोय जात, थावर आतप उद्योत घात ।
सूच्छम साधारन एम चूर, पुनि दुतिय अंश वशु करो दूर ॥६॥

चौ प्रत्याप्रत्याख्यान चार, तीजे सु नपुंसकवेद टार ।
चौथे तियवेद विनाश कीन, पाचैँ हास्यादिक छहों छीन ॥७॥

नरवेद छठे छय नियत धीर, सातर्ये संज्वलन क्रोध चीर ।
आठवें संज्वलन मान भान, नवमें माया संज्वलन हान ॥८॥

इमि घात नवें दशमें पधार, संज्वलनलोभ तित हू विदार ।
पुनि द्वादशके द्वयअंशमाहिं, सोरह चकचूर कियो जिनाहिं ॥९॥

निद्रा प्रचला इकभागमाहिं, दुति अंश चतुर्दश प्राण जाहिं ।
ज्ञानावरनी पन दरश चार, अरि अन्तराय पांचों प्रहार ॥१०॥

इमि छय प्रेशठ केवल उपाय, धरमोपदेश दीन्हों जिनाय ।
 नवकेवललब्धि धिराजमान, जय तेरमगुनथिति गुन अमान ॥११॥
 गत चौदहमें द्वै भाग तत्र, छह कीन बहत्तर तेरहत्र ।
 वेदनी असाताको विनाश, औदारि विक्रियाहार नाश ॥१२॥
 तैन्नस्यकारम्पनों मिलाय, तन पञ्चपञ्च बन्धन विलाय ।
 संघात पंच घाते महंत, त्रय आगोपांग सहिते भनंत ॥१३॥
 संठान संहनन छह छहेव, रसवरन पंच वसु फरस भेव ।
 जुगर्गंध देवगति सहित पुब्ब, पुनि अगुरुलघू उस्वास दुब्ब ॥
 परउपघातक सुविहाय नाम, जुत अशुभगमन प्रत्येक स्वाम ।
 अपरज धिर अधिर अशुभसुभेव, दुरभाग सुसुर दुस्सुर अभेव ॥
 अनआदर और अजस्यकित्त, निरमान नीच गोती विचित्त ।
 ये प्रथम बहत्तर दिय स्वपाय, तब दूजेमे तेरह नशाय ॥१६॥
 पहले सातावेदनी जाय, नरआयु मनुषगतिको नशाय ।
 मानुषगत्यानु सु पूरवीय, पंचेंद्रिय जात प्रकृती विधीय ॥१७॥
 त्रसवादर परजापति सुभाग, आदरजुत उच्चम गोत पाग ।
 जसकीरत तीरथ प्रकृति जुक्त, ए तेरह छय करि भये युक्त ॥१८॥
 जय गुन अनंत अविकार धार, वरनत गनधर नहिं लहत पार ।
 ताकों मैं बन्दां बारबार, मेरी आपत उद्धार धार ॥१९॥
 संभेदशैल सुरपति नमंत, तब मुक्तनथान अनुपम लसन्त ।
 बुन्दावन वन्दत प्रीतलाय, मम उरमें तिष्ठहु हे जिनाय ॥२०॥

घत्तानन्द ।

जय जय जिन स्वामी, त्रिभुवन नामी, मल्ल विमलकल्पान करा
मकदन्दविदासुन आनन्दकारन, भविकुमोदनिशिर्हेश बस ॥२१॥

ॐ ह्रीं श्रीमल्लिनाथजिनेन्द्राय महार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

शिखरिणी ।

जजे हैं जो प्राणी दरब अरु भावादि विधिसों,
करै नानाभांती भगति थुति ओ नौति सुधिसों ।
लहै शक्री चक्री सकल सुख सौभाग्य तिनको,
तथा मोक्षं जावै जजत जन जो मल्लिजिनको ॥२२॥

इत्याशीर्वादः पुष्पाञ्जलिं क्षिपंत ।

इति श्रीमल्लिनाथजिनपूजा समाप्त ॥ १६ ॥

श्रीमुनिसुव्रतजिनपूजा ।

मत्तगयन्द ।

प्राणत स्वर्गे विहाय लिया जिन, जन्म सु राजगृहीमहँ आई,
श्रीसुहमित्त पिता ।जनके, गुनवान महापवत्रा जसु माई ।
बीस धनू तनु रयाम छवी, कल-अङ्क हरी वरवंश बतलाई,
सो मुनिसुव्रतनाथ प्रभू यहँ, थापतु हौं अति प्रीति लगाई ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीमुनिसुव्रतजिन ! अत्र अबतर अबतर । संवौषट ।

ॐ ह्रीं श्रीमुनिसुव्रतजिन ! अत्र विष्ट विष्ट । ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीमुनिसुव्रतजिन ! अत्र मम सन्निहितो अय भव । वषट

षष्टक ।

गीतिका ।

अब श्रीमुनिसुब्रत में पायनि परो। सुखदाय लखि पांयनि परो।
उज्जल सुजल जिमि जस तिहारौ, कनक झारीमें भरौ,
जरमरन जामन हरन कारन, धार तुमपदतर करौ।
शिवसाथ करत सनाथ सुब्रतनाथ, मुनि गुनमाल हैं,
तस चरन आनंदभरन तारन, तरन विरद विशाल हैं ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीमुनिसुब्रतजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल
निर्वपामीति स्वाहा ।

भवतापघायक शांतिदायक, मलय हरि षसि टिग धरो ।
गुनगाय शीस नमाय पूजत, विघनताप सबै हरो ॥शि०॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीमुनिसुब्रतजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चंदन
निर्वपामीति स्वाहा ।

तन्दुल अखंडित दमक शशिसम, गमक जुत धारी भरौ ।
पद अखयदायक मुकतिनायक, जानि पदपूजा करौ ॥शि०॥३॥

ॐ ह्रीं श्रीमुनिसुब्रतजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निव-
पामीति स्वाहा ।

बेला चमेली रायबेली, केतकी करना सरो ।
जगजीत मनमथहरन लखि प्रभु, तुम निकट ढेरी करौ ॥शि०॥

ॐ ह्रीं श्रीमुनिसुब्रतजिनेन्द्राय कामवाखविध्वंसनाव पुष्पं
निर्वपामीति स्वाहा ।

पक्कवान विविध मनोज्ञ पावन, सरस मृदुगुण विस्तरों ।
सो लेय तुम पदतर धरत ही, छुधा डाइनको हरीं ॥शि०॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय छुद्रोगनिवारणाय नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ।

दीपक अमोलिक रतन मनिमय, तथा पावनघृत भरीं ।
सो तिमिरमोहविनाश आतमभास कारन ज्वै धरीं ॥शि०॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं
निर्वपामीति स्वाहा ।

करपूर चन्दन चूरभूर, सुगन्ध पावकमें धरीं ।
तसु जरत जरत समस्त पातक सार निजसुखकों भरीं ॥शि०॥

ॐ ह्रीं श्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय अष्टकमंदहनाय धूपं निर्वपामि ।
श्रीफल अनार सु आम आदिक पक्कफल अति विस्तरों ।
सो मोक्षफलके हेतु लेकर, तुम चरन आगे धरीं ॥शि०॥८॥

ॐ ह्रीं श्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामि ।
जलगन्ध आदि मिलाय आठों, दरब अरघ सजों धरीं ।
पूजों धरनरज भगतिजुत, जातें जगत सागर तरों ॥शि०॥९॥

ॐ ह्रीं श्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ।

पंचकल्याणक ।

तोटक ।

तिथि दोजय सावन श्याम भयो, गरभागमर्ममल्ल सोद थयो ।
हरिवृन्द सची पितुमात जजे, हम पूजत ज्यों अक्षय्योष भजे ॥

ॐ ह्रीं वैशाखकृष्णद्वितीयाया गर्भमंगलप्राप्ताय श्रीमुनिसुब्रत-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

वयसाख वदी दशमी वरनी, जनमे तिद्धि द्यौस त्रिलाकधनी ।
सुरमंदिर ध्याय पुरन्दरन, मुनिसुब्रतनाथ हर्मे सरने ॥२॥

ॐ ह्रीं वैशाखकृष्णदशम्या जन्ममंगलप्राप्ताय श्रीमुनिसुब्रत-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

तप दुद्धर श्रीधरन गाहया, वैशाखवदी दशमी कहियो ।
निरूपाधि समाधि सुध्यावत है, हम पूजत भक्ति बड़ावत है ॥३॥

ॐ ह्रीं वैशाखकृष्णदशम्या तपमंगलप्राप्ताय श्रीमुनिसुब्रतजिने-
न्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

वरकेवलज्ञान उद्योत ।कया, नवमी वैशाखवदी सुखिया ।
घनि मादनिशाभनि माखमगा, हम पूजि चहै भवसिधु थगा ॥

ॐ ह्रीं वैशाखकृष्णनवम्या केवलज्ञानमंगलप्राप्ताय श्रीमुनि-
सुब्रतजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

वदि वारस फागुण मोक्ष गये, तिहुलोक शिरोमनि सिद्ध भये ।
सु अनन्त गुणाकर विघ्न हरी, हम पूजत है मनमोद भरी ॥

ॐ ह्रीं फाल्गुणकृष्णद्वादर्या मोक्षमंगलप्राप्ताय श्रीमुनिसुब्रत-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

दोहा ।

मुनिगननाथक मुक्तिपति, सुक्तव्रताकरमुक्त ।

सुक्तसुक्त दातार लखि, वन्दो तबमन उक्त ॥ १ ॥

तोटक ।

जय केवलभान अमान घर, मुनिस्वच्छसरोजविकासकर ।
 भवसंकट भंजन लायक हैं, मुनिसुव्रत सुव्रतदायक हैं ॥२॥
 घनघातक नन्द व दीप्त मन, भविबोधतृषातुरमेघघन ।
 नित मंगलवृन्द बधायक हैं, मुनिसुव्रत सुव्रतदायक हैं ॥३॥
 गरभादिक मंगलसार धरे, जगजीवनके दुखदन्द हरे ।
 सब तत्त्वप्रकाशन वायक हैं, मुनिसुव्रत सुव्रतदायक हैं ॥४॥
 शिवमारगमण्डन तत्त्वकण्ठो, गुनसार जगत्रय शर्म लक्षो ।
 रुज रागरु दोष मिटायक हैं, मुनिसुव्रत सुव्रतदायक हैं ॥५॥
 समवस्रतमें सुरनार सही, गुन गावत नावत भाल मही ।
 अरु नाचत भक्ति बढ़ायक हैं, मुनिसुव्रत सुव्रतदायक हैं ॥६॥
 पगनूपुरकी धुनि होत मन, भननं भननं भननं भननं ।
 सुरलेत अनेक रमायक हैं, मुनिसुव्रत सुव्रतदायक हैं ॥७॥
 घननं घननं घन घंट बजें, तननं तननं तनतान सजें ।
 द्विमद्री मिरदंग बजायक हैं, मुनिसुव्रत सुव्रतदायक हैं ॥८॥
 छिनमें लघु औ छिन थूल बनें, जुत हावविभाव विलासपनें ।
 मुखते पुनि यों गुनगायक हैं, मुनिसुव्रत सुव्रतदायक हैं ॥९॥
 धृगतां धृगतां पम पावत हैं, सननं सन्नं-सुनचावत हैं ।
 अति आनंदको पुनि पायक हैं, मुनिसुव्रत सुव्रतदायक हैं ॥

अपने भवकों फल लेत सही, शुभ भावनितें सब पाप दही ।
 तित ते सुखकों सब पायक हैं, मुनिसुव्रत सुव्रतदायक हैं ॥
 इन आदि समाज अनेक तहां, कहि कौन सके जु विभेद यहां ।
 धन श्रीजिनचंद सुधायक हैं, मुनिसुव्रत सुव्रतदायक हैं ॥१२
 पुनि देशविहार कियौ जिननें, वृष अमृतवृष्टि कियौ तुमनें ।
 हम तो तुम्हरी शरनायक हैं, मुनिसुव्रत सुव्रतदायक हैं ॥१३
 हमपै करुना करि देव अबै, शिवराज समाज सुदेहु सबै ।
 जिमि होहुं सुखाश्रमनायक हैं, मुनिसुव्रत सुव्रतदायक हैं ॥१४
 भविवृन्द तनी विनती जु यही, मुक्त देहु अभेपद राज सही ।
 हम आनि गही शरनायक हैं, मुनिसुव्रत सुव्रतदायक हैं ॥१५

वत्तानंद ।

जय गुनगनधारी, शिवहितकारी, शुद्धबुद्ध चिद्रूपपती ।
 परमानंददायक दासमहायक, मुनिसुव्रत जयवंत जती ॥१६॥
 ॐ ह्रीं श्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय महार्घं निर्बेपाभीति स्वाहा ।

दोहा ।

श्रीमुनिसुव्रतके चरन, जां पूजै अभिनंद ।
 सा सुरनर सुख भोगिकैं, पावै सहजानंद ॥१५॥
 इत्यारीर्वादः परिषुष्पांजलि क्षिपेत् ।
 इति श्रीमुनिसुव्रतनाथपूजा समाप्त ।

श्रीनमिनाथपूजा ।

रोडक ।

श्रीनमिनाथजिनेन्द्र नमो विजयारथनन्दन,
 विख्यादेवी मातु सहज सब पापनिर्हदन ।
 अपराजित तजि जये मिथुलपुर वर आनन्दन,
 तिन्हें सु थापो यहां त्रिधा करिके पदवन्दन ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीनमिनाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर । संवौषट् ।
 ॐ ह्रीं श्रीनमिनाथजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।
 ॐ ह्रीं श्रीनमिनाथजिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव । वषट् ।

अष्टक

द्रुतचिलन्वित ।

सुरनदीजल उज्ज्वल पावनं, कनकमृङ्ग भरो मनभावनं ।
 जजतुहौं नमिके गुनगायकें, जुगपदांबुज प्रीति लगायकें ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीनमिनाथजिनेन्द्राय जन्ममृत्युविनाशनाथ जल निर्बं-
 पामीति स्वाहा ।

हरिमलै मिलि केशरसों घसों, जगतनाथ भवातपको नसों ।
 जजतुहौं नमिके गुनगायकें, जुगपदांबुज प्रीति लगायकें ॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीनमिनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाथ चंदन निबं-
 पामीति स्वाहा ।

गुलकके सम सुन्दर तंदुलं, धरत पुञ्जसु शुञ्जल संकुलं ।
 जजतुहौं नमिके गुनगायकें, जुगपदांबुज प्रीति लगायकें ॥३॥

ॐ ह्रीं श्रीनमिनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निर्ब-
पामीति स्वाहा ।

कमल केतुकि बेलि सुहावनी, समरसूल समस्त नशावनी ।
जजतुहौं नमिके गुनगायकें, जुगपदांबुज प्रीति लगायकें ॥४॥

ॐ ह्रीं श्रीनमिनाथजिनेन्द्राय कामवाणविश्वसनाय पुष्प
निर्बपामीति स्वाहा ।

शशि सुधासम मोदक मोदनं, प्रबल दुष्ट चुधामद स्वादनं ।
जजतु हौं नमिके गुनगायकें, जुगपदांबुज प्रीति लगायकें ॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीनमिनाथजिनेन्द्राय लुद्रोगनिवारणाय नैवेद्यं निर्ब-
शुधि घृताश्रित दीपक जोइया, असममोह महातम खोइया ।
जजतु हौं नमिके गुनगायके, जुगपदांबुज प्रीति लगायकें ॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीनमिनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाथ दीप
निर्बपामीति स्वाहा ।

अमरजिह्वविषे दशगन्धको, दहत दाहत कर्म कबंधकों ।
जजतु हौं नमिके गुनगायकें, जुगपदांबुज प्राति लगायकें ॥७॥

ॐ ह्रीं श्रीनमिनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्बपामि ।
फलसुपक मनोहर पावनं, सकल विघ्नसमूह नशावने ।
जजतु हौं नमिके गुनगायकें, जुगपदांबुज प्रीति लगायकें ॥८॥

ॐ ह्रीं श्रीनमिनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्बपामि ।
जलफलादि मिलाय मनोहरं, अरघ धारत ही भय मौ हरं ।
जजतु हौं नमिके गुनगायकें, जुगपदांबुज प्रीतिलगायकें ॥९॥

ॐ ह्रीं श्रीनमिनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्बपामि ।

पंचकल्याणक

पाइता अंद ।

गरभागम मंगलचारा, जुगआसिन श्याम उदारा ।

हरि हषि जजे पितुमाता, हम पूजे त्रिभुवन-ताता ॥१॥

ॐ ह्रीं आश्विनकृष्णद्वितीयाया गर्भावतरणमंगलप्राप्ताय श्री-
नमिनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

जनमोत्सव श्याम असादा, दशमीदिन आनंद बाढा ।

हरि मन्दर पूजे जाई, हम पूजे मनवचकाई ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं श्रीआषाढकृष्णदशम्या जन्ममंगलप्राप्ताय श्रीनमिनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

तप दुद्धर श्रीधर धारा, दशमीकलि षाढ उदारा ।

निज आतमरसभर लायौ, हम पूजत आनंद पायौ ॥३॥

ॐ ह्रीं आपाढकृष्णदशम्या तपकल्याणप्राप्ताय श्रीनमिनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निवपामीति स्वाहा ॥ ३ ॥

सित मंगसिरभ्यारस चूरे, चवधाति भये गुनपूरे ।

समवसत केवलधारी, तुमको नित नौति हमारी ॥४॥

ॐ ह्रीं श्रीमार्गशीषशुक्लैकादश्या केवलज्ञानमंगलप्राप्ताय श्री-
नमिनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

वैशाख चतुर्दशि श्यामा, हनि शेष वरी शिववामा ।

सम्मेदथकी भगवंता, हम पूजे सुगुन अनन्ता ॥५॥

ॐ ह्रीं वैशाखकृष्णचतुर्वश्या मोक्षकल्याणकप्राप्तये श्रीनमि-
नाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

जयमाला ।

दोहा ।

आयु सहस्र दशवर्षकी, हेमवरन तनसार ।
धनुष पंचदश तुंग तन, महिमा अपरम्पार ॥१॥

चौपाई (मात्रा १६) ।

जै जै जै नमिनाथ कृपाला, अरिकुलगहनदहनदवज्वाला ।
जै जै धरमपयोधर धीरा, जय भवभंजन गुनगंभीरा ॥ २ ॥
जै जै परमानंद गुनकारी, विश्वविलोकन जन हितकारी ।
अशरन शरन उदार जिनेशा, जै जै समवशरन आवेशा ॥३॥
जै जै केवलज्ञानप्रकाशी, जै चतुरानन हनि भवफाँसी ।
जै त्रिशुवनहित उद्यमवन्ता, जै जै जै जै नमि भगवंता ॥४॥
जै तुम सप्ततन्त्र दरशायो, तास सुनत भविनिअरस पायो ।
एक शुद्धअनुभवनिज भाखे, दोविधि राग दोष छे आखे ॥५॥
द्वै श्रेणी द्वै नय द्वै धर्म, दो प्रमाण आगमगुन शर्म ।
तीनलोक त्रयजोग त्रिकालं, सद्ध पन्ल त्रय बात बलालं ॥६॥
चार बंध संज्ञामति ध्यानं, आराधन निछेप चउ दानं ।
पंचलब्धि आचार प्रमादं, बन्धहेतु पैताले सादं ॥ ७ ॥
गोलक पंचभाव शिव भौनें, छहों दरब सम्यक अनुकौनें ।
हानिबृद्धि तप समय समेता, सप्तभंगवानीके नेता ॥ ८ ॥

संजम समुदघात भय सारा, आठ करव मद सिध गुनधारा ।
 नबों लब्धि नवतस्व प्रकाशे, नोकवाध हरि तूप हुलाशे ॥६॥
 दर्शो बन्धके मूल नशाये, यों इन आदि सकल दरशाये ।
 फेर बिहरि जगजन उद्वारे, जै जै ज्ञान दरश अतिकारे ॥१०॥
 जै वीरज जै सुखमवता, जै अवगाहन गुन वरनता ।
 जै जै अगुस्तबू निरवाधा, इन गुनजुत तुम शिवसुख साधा ॥
 ताकौ कहत थके गनधारी, तौ को समरथ कहै प्रचारी ।
 तार्ते मैं अब सरनै आया, भवदुख मेरि देहु शिवसया ॥१२॥
 बारबार यह अरज हमारी, हे त्रिपुरारी हे शिवकारी ।
 परपरिनतिको बेगि मिटावो, सहजानंदसरूप मिटावो ॥१३॥
 घृन्दावन जांचत शिरनाई, तुम मम उर निवसौ जिनराई ।
 जबलौं शिव नहिं पावों सारा, तबलौं यही मनोरथ म्दारा ॥१४॥

षत्तानंद ।

जबजब नमिनाथं, हौ शिवसार्थ, औ अनाथके नाथ सदै ।
 तार्ते शिर नायौ, भगति बदायौ, चिहन चिन्ह शतपत्र पदं ॥

ॐ ह्रीं श्रीनमिनाथजिनेन्द्राय महार्घं निवपामीति स्वाहा ।

दोहा ।

श्रीनमिनाथतने जुमल, चरन जजें जो जीव ।
 सां सुरनरसुख भोगे वर, होवै शिवतिय पीव ॥१६॥

इत्यारशीर्वादः परिपुष्पाक्षजि क्षिप्रेत् ।

इति श्रीनमिनाथविनयूक्त समाप्त ॥ २१ ॥

श्रीनेमिनाथपूजा

छन्द लक्ष्मी, तथा अर्द्धलक्ष्मीधरा ।

जैतिजै जैतिजै जैतिजै नेमकी, धर्म औतार दातार श्याचैनकी,
श्रीशिवानन्द भौफन्द निकन्द घ्यावै जिन्है इन्द्रनागेन्द्र औ मैनकी
परमकल्याणके देनहारे तुम्हीं, देव हो एव तारें करौ ऐनकी,
थापि हों वार त्रै शुद्ध उच्चार त्रै, शुद्धताघार भौपारकूं लेनकी ॥

ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथजिन ! अत्र अवतर अवतर । संवौषट् ।

ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथजिन ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ॥

ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथजिन ! अत्र मम सज्जिहितो भव भव । वषट्

अष्टक

चाल होली, ताल जत्त ।

दाता मोक्षके, श्रीनेमिनाथ जिनराय, दाता० । टक ।

निगमनदी कुश प्रासुक लीनों, कंचनभृंग भराय ।

मनवचतनतें धार देत ही, सकल कलङ्क नशाय ॥

दाता मोक्षके, श्रीनेमिनाथ जिनराय, दाता० ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय जन्ममृत्युविनाशनाय जलं निर्ब-
पामीति स्वाहा ॥

हरिचन्दनजुत कदलीनंदन, कुंकुमसंग ससाय ।

विषनतापनाशनके कारन, जजौं तिहारे पाय ॥ दाता० ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चंदन
निर्बपामीति स्वाहा ।

पुण्यराशि तुमजस सम उज्जल, तंदुल शुद्ध मंगाय ।
अखय सौख्य भोगनके कारन, पुंज धरौं गुनगाय ॥ दाता०

ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतास् निर्बपा-
मीति स्वाहा ॥

पुण्डरीकतृणद्रु मकौ आदिक, सुमन सुगंधित लाय ।
दर्पकमनमथर्भजनकारन, जजहुँ चरन लबलाय ॥ दाता० ॥४

ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्प
निर्बपामीति स्वाहा ॥

धेवर बावर स्वाजे साजे, ताजे तुरत मंगाय ।
क्षुधावेदनी नाश करनकी, जजहुँ चरन उमगाय । दाता० ॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाथ नैवेद्यं
निर्बपामीति स्वाहा ।

कनकदीपनवनीत पूरकर, उज्जल जोति जगय ।
तिमिरमोहनाशक तुमको लखि, जजहुँ चरन हुलसाय ॥ दाता०

ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाथ दीप
निर्बपामीति स्वाहा ॥

दशविध गंध मगाय मनोहर, गुञ्जत अलिगन आय ।
दशों बंध जारनके कारन, स्वों तुमटिंग लाय ॥ दाता० ॥७॥

ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्बपामीति
स्वाहा ॥

सुरसवस्न रसनामनसावन, पावन फल सु मंगाय ।
मोक्षमहाफल कारन पूजों, हे जिनवर तुमसाय ॥ दाता० ॥८॥

ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपा-
मीति स्वाहा ।

जलफलआदि साज शुचि लीने, आठों दरब मिलाय ।
अष्टमक्षितिके राजकरनको, जजो अंग वसु नाय ॥ दाता० ॥

ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं निर्वपा-
मीति स्वाहा ॥ ६ ॥

पंचकल्याणक

पाइता छन्द ।

सित कातिक छह अमंदा, गरभागम आनंदकंदा ।
शचि सेय शिवापद आई, हम पूजत मनवचकार्डे ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं कातिकशुक्लषष्ठ्यां गर्भमङ्गलप्राप्ताय श्रीनेमिनाथजिने-
न्द्राय अघं निर्वपामीति स्वाहा ।

सित सावन छह अमंदा, जनमे त्रिभुवनके चंदा ।
पितु समुद महासुख पाया, हम पूजत विघन नशायो ॥२॥

ॐ ह्रीं श्रावणशुक्लषष्ठ्यां जन्ममङ्गलप्राप्ताय श्रीनेमिनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

तजि राजमती व्रत लीनों, सितसावन छह प्रवीनों ।
शिवनारी तबै हरपाई, हम पूजै पद शिरनाई ॥३॥

ॐ ह्रीं श्रावणशुक्लषष्ठ्या तपःकल्याणकप्राप्ताय श्रीनेमिनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सित आशिन एकम चूरे, चारों घाती अति कूरे ।
लहि केवल महिमा सारा, हम पूजें अष्टप्रकारा ॥४॥

ॐ ह्रीं आश्विनशुक्लप्रतिपदि केवलज्ञानप्राप्ताय श्रीनेमिनाथ-
जिनेन्द्राय अर्थं निबधामीति स्वाहा ।

सितषाढ अष्टमी चूरे, चारों अघातिया कूरे ।
शिव उज्जयंततें पाई, हम पूजें ध्यान लगाई ॥५॥

ॐ ह्रीं आषाढशुक्लाष्टम्या मोक्षमंगलप्राप्ताय श्रीनेमिनाथ-
जिनेन्द्राय अर्थं निबधामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

दोहा ।

श्याम छबी तन चाप दश, उन्नत गुननिधिधाम ।
शङ्ख चिह्न पदमें निरखि, पुनि पुनि करों प्रनाम ॥१॥

ब्रह्म पद्वरी (१६ मात्रा लघ्वन्त) ।

जै जै जै नेमि जिनिंद चंद, पितु समुद देन आनंदकन्द ।
शिवमात कुमुदमनमोददाय, भविवृन्द चकोर सुखी कराय ॥२॥
जय देव अपूरव मारतंड, तम कीन ब्रह्मसुत सहस्र खंड ।
शिवतियमुखजलजविकाशनेश, नहि रहो सृष्टिमें तम अशेष ॥
भवि भीत कोक कीनों अशोक, शिवमग दृश्यायां शर्मशोक ।
जयजयजयजय तुम गुनगँभीर, तुम आगमनिपुत्र पुनीतधीर ॥

तुम केवलजोति विराजमान, जयजयजयजय करुनानिधान ।
 तुम समबसरनमें तत्वभेद, दरशायो जाते नशत खेद ॥५॥
 तित्त तुमकों हरि भानन्दधार, पूजत भगतीजुत बहु प्रकार ।
 पुनि गद्यपद्यमय सुजस गाय, जै बल अनंत गुनवंतराय ॥६॥
 जय शिवशङ्कर ब्रह्मा महेश, जय बुद्धि विधाता विष्णुवेष ।
 जय कुमतिमंतमनको मृगेंद्र, जय मदनध्वांतकों रवि जिनेंद्र ॥
 जय कृपासिधु अविरुद्ध बुद्ध, जय श्रद्धिसिद्धि दाता प्रबुद्ध ।
 जय जगजनमनरंजन महान, जय भवसागरमहँ सुष्टु यान ॥८॥
 तुव भगति करें ते धन्य जीव, ते पावैं दिव शिवपद सदीव ।
 तुमरो गुन देव विविधप्रकार, गावत नित किन्नरकी जु नार ॥९॥
 वर भगतिमांहि लवलीन होय, नाचैं ताथेइ थेइ थेइ बहोय ।
 तुम करुखासागर सृष्टिपाल, अब मांकों बेगि करो निहाल ॥१०॥
 मैं दुख अनन्त वसुकरम जोग, भोमे सदीव नहिँ और रोग ।
 तुमको जगमें जान्यौँ दयाल, हो बीतराग गुनरतनमाल ॥११॥
 तातेँ शरना अब गही आय, प्रभु करो बेगि मेरी सहाय ।
 यह विघन करम मम खंडखंड, मनवांछितकारज मंडमंड ॥१२॥
 संसारकष्ट चकचूर चूर, सहजानन्द मम उर पूर पूर ।
 निज पर प्रकाश बुधि देह देह, तजिके विलंबसुधि लेइ लेइ ॥१३॥
 इम जांचत हैं यह बार बार, भवसागरतेँ मो तार तार ।
 नहिँ सखो जात यह जगत दुःख, तातेँ बिनवों हे सुखुनमुक्ख ॥

[२७६.]

वत्तानद ।

श्रीनेमिकुमारं जितमदभारं, शीलाभारं, सुखकारं ।
भद्रभवहरतारं, शिवकरतारं, दातारं धर्माधारं ॥१५॥
ॐ ह्रीं श्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

मालिनी (१५ वर्ण) ।

सुखधनजसमिद्धी पुत्रपोत्रादि वृद्धी,
सकल मनसि सिद्धी होतु है ताहि श्रद्धी ।
जगत हरषधारी नेमिको जो अगारी,
अनुक्रम अरि जारी सो बरे मोक्षनारी ॥१६॥

इत्याशीर्वादः परिवुष्पाजलिं क्षिपेत् ।
इति श्रीनेमिनाथजिनपूजा समाप्त ॥ २२॥

श्रीपार्श्वनाथपूजा

कवित्त छंद (मात्रा ३१)

प्रानतदेवलोकते आये, वामादे उर जगदाधार,
अश्वसेनसुत नुत हरिहर हरि, अङ्क हरिततन सुखदाधार ।
जरत नाग जुगषोधि दिशे जिहिं, भुवनेसुररुद्र परमउदार,
ऐसे धारसको तजि आरस, थापि सुधारस हेत विचार ॥१७॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्ष्वनाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर । संवीषट् ।

ॐ ह्रीं श्रीपार्ष्वनाथजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीपार्ष्वनाथजिनेन्द्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव ।
वषट् ।

अष्टक ।

प्रमिताक्षर ।

सुरदीरघिकाकनकुम्भ भरो, तव पादपद्मतर धार करो ।
सुखदाय पाय यह सेवत हों, प्रभुपार्ष्व सार्ष्वगुन बेवत हों ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय जन्ममृत्युविनाशनाय जलं
निर्वपामीति स्वाहा

हरिगन्ध कुंकुम कर्पूर घसों, हरिचिह्न हेरि अरचों सुरसों ।
सुखदाय पाय यह सेवत हों, प्रभुपार्ष्व सार्ष्वगुन बेवत हों ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चन्दनं
निर्वपामीति स्वाहा ।

हिमहीरनीरजसमानशुचं, वरपुञ्ज तंदुल तवाग्र मृचं ।
सुखदाय पाय यह सेवत हों, प्रभुपार्ष्व सार्ष्वगुन बेवत हों ॥३॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् ।
निर्वपामीति स्वाहा ।

कमलादिपुष्प धनुपुष्प धरी, मदभञ्जहेतु टिंग पुञ्ज करी ।
सुखदाय पाय यह सेवत हों, प्रभुपार्ष्व सार्ष्वगुन बेवत हों ॥४॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्प
निर्वपामीति स्वाहा ।

चक्रु नव्यगव्य रससार करो, धरि वाद्पद्मतर मोद भरो ।
सुखदाय पाय यह सेवत हौं, प्रभुपार्श्व सारश्वगुन बेवत हौं ॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय लुद्रोगनिवारणाय नैवेद्यं नि-
र्वपामीति स्वाहा ।

मनिदीपजोत जगमग मई, ढिगधारते स्वपरबोध ठई ।
सुखदाय पाय यह सेवत हौं, प्रभुपार्श्व सारश्वगुन बेवत हौं ॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय क्षीप
निर्वपामीति स्वाहा ।

दशगन्ध खेय मन माचत है, वह घूमधूममिसि नाचत है ।
सुखदाय पाय यह सेवत हौं, प्रभुपार्श्व सारश्वगुन बेवत हौं ॥७॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूप निर्वपा-
मीति स्वाहा ।

फलपक शुद्ध रसजुक्त लिया, पदकज पूजत हौं खोलि हिया ।
सुखदाय पाय यह सेवत हौं, प्रभुपार्श्व सारश्वगुन बेवत हौं ॥८॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपा-
मीति स्वाहा ।

जलआदि साजि सब द्रव्य लिया, कनधार धार नुतनृत्य किया ।
सुखदाय पाय यह सेवत हौं, प्रभुपार्श्व सारश्वगुन बेवत हौं ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

पंचकल्याणक ।

लक्ष्मीधरा ।

षष्ठ बैशाखकी श्याम दृजी बनो, गर्भकन्यानको घौस सही गर्नो
देवदेवेंद्र श्रीमातु सेवै सदा, भे जजो नित्य ज्यों विघ्न होवै विदा

ॐ ह्रीं बैशाखकृष्णद्वितीयाया गर्भागममंगलप्राप्ताय श्रीपार्श्व-
नाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

पौषकी श्याम एकादशको स्वजी, जन्म लीनों जगन्नाथ धर्मध्वजी
नाकनागेन्द्र नागेन्द्र पै पूजिया, मै जजो ध्यायके भक्ति धारो हिया

ॐ ह्रीं पौषकृष्णैकादश्या जन्ममंगलप्राप्ताय श्रीपार्श्वनाथजिने-
न्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

कृष्णएकादशा पौषकी पावनी, राजको त्याग बैराग धारो वनी
ध्यानचिद्रूपको ध्याय सातामई, आपको मै जजो भक्ति भावें लई

ॐ ह्रीं पौषकृष्णैकादश्या तपोमंगलमण्डिताय श्रीपार्श्वनाथजि-
नेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

चैतकी चौथिश्यामा महाभावनी, तादिना घातियाघाति शोभावनी
बाह्य अभ्यन्तरे छन्द लक्ष्मीधरा, जैति सर्वज्ञ मै पादसेवा करा

ॐ ह्रीं चैत्रकृष्णचतुर्थ्या केवलज्ञानमंगलप्राप्ताय श्रीपार्श्वनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सप्तमीशुद्ध शोभै महासावनी, तादिना मोक्ष पायो महापावनी ।
शैलसम्मेदते सिद्धराजा भये, आपको पूजते सिद्धकाजा ठये ॥

ॐ ह्रीं श्रावणशुक्लसप्तम्यां मोक्षमंगलमङ्गिताय श्रीपार्श्वनाथ-
जिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

दोहा (जमकालंकार)

पाशपर्मगुनराश हैं, पाशकर्म हरतार ।

पाशशर्म निजवास घो, पाशधर्म धरतार ॥ १ ॥

नगरबनारसि जन्म लिय, वंश इस्वाक महान ।

आयु वरषशत तुङ्गतन, हस्त सु नौ परमान ॥ २ ॥

पदरी छंद ।

जय श्रीधर श्रीकर श्रीजिनेश, तुव गुनगन फणि गावत अशेश

जय जय जय आनदकन्द चन्द, जय जय भविपङ्कजको दिनन्द

जय जय शिवतियवल्लभ महेश । जय ब्रह्मा शिवशंकर गनेश

जय स्वच्छिचिदङ्ग अनङ्गजीत, तुम ध्यावत मुनिगन सुहृदमीत ॥

जय गरभागमर्मडित महंत, जगजनमनमोदन परम संत ।

जय जनममहोच्छ्रव सुखदधार, भविसारंमको जलधर उदारथ

हरिगिरिवरपर अभिषेक क्रीन, भट तांडव निरत अरंभ दीन ।

बाजन बाजत अनहद अपार, को पार लहत वरनत अबार ६

दमदम दमदम दमदम मृदंग, धननन नननन घंटा अर्धध ।

छमछम छमछम छम छुद्रघंट, टमटम टमटम टंकार वंट ॥७॥

भननन भननन नृपूर भँकोर, तननन तननन नन तानशोर ।
 सनननन नननननगगनमाहिं, फिरिफिरिफिरिफिरिफिरिकीलहांइ
 ताथेइ थेइथेइथेइ धरत पांव, चटपट अटपट भट त्रिदशराव ।
 करिके सहस्र करको पसार, बहुभांति दिखावत भाव प्यार ॥
 निजभगति प्रगट जित करत इन्द्र, ताको क्या कहिसकिहैं कविंद्र
 जहँरंगभूमि गिरिराज परम, अरु सभा ईश तुमदेव शर्म ॥१०॥
 अरु नाचत मधवा भगतिरूप, बाजे किअर वज्रत अनूप ।
 सो देखत ही छवि बनत वृंद, मुखसों कैसे बरनै अमंद ११
 धन घड़ी सोय धन देव आप, धन तीर्थकर प्रकृती प्रताप ।
 हम तुमको देखत नयनद्वार, मनु आज भये भवसिंधु पार ॥
 पुनिपिता सौंषि हरि स्वर्ग जाय, तुम मुखसमाज भोग्यौ जिनाय
 फिर तपधरि केवलज्ञान पाय, धरमोपदेश दै शिवसिधाय ॥१३॥
 हम सरनागत आये अबार, हे कृपासिंधु गुन अमलधार ।
 मो मनमें तिष्ठहु सदाकाल, जबलों न लहों शिवपुर रसाल ॥
 निरवानथान सम्मेद जाय, 'वृंदावन' बंदत शीसनाय ।
 तुम ही हौ सब दुखदंद हर्न, तातें पकरी यह चर्नशाने ॥१५॥

वचनानंद ।

जयजय सुखसागर, त्रिशुवन आगर, सुजस उजागर, पार्वपती
 वृन्दावन ध्यावत, पूज रचावत, शिवथल पावत, शर्म अती ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्वनाथजिनेन्द्राय महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥

कवित्त (मात्रा ३१) ।

पारसनाथ अनाथनिके हित, दारिदगिरिकों वज्र समान,
सुखसागरवर्द्धनको शशिसम, दवकषायको मेघ महान ।
तिनकों पूज जो भवि प्राणी, पाठ पढ़ें अति आनन्द आन,
सो पावै मनवाञ्छित सुख सब, और लहै अनुक्रम निरवान ।

इत्याशीर्वाद परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

इति श्रीपार्वनाथजिनपूजा समाप्त ॥२३॥

श्रीवर्द्धमानजिनपूजा

मत्तगयद् ।

श्रावतवीर हरे भवपीर, भरे सुखसीर अनाकुलताई,
कहरिअंक अरीकरदङ्क, नये हरिपंकतिमौलि सुआई ।
मैं तुमको इत थापतु हौं प्रभु, भक्तिसमेत हिये हरषाई,
हे करुणाधनधारक देव, इहां अब तिष्ठहु शोघ्रहि आई ॥

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर । सर्वौषट् ।

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्र ! अत्र मम खभिहितो भव भव ।

४४८ ।

अष्टक

ईदं अष्टपदी (द्यान्तरायकृत नदीश्वराष्टकादिक अनेक रागोंमें भी बने है) ।

शीरोदधिसम शुचि नीर, कंचनभृङ्ग भरों,
प्रभु वेग हरो भवपीर, यातें धार करों ।
श्रीवीर महा आतिवीर सन्मतिनायक हो,
जय वर्द्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल
निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

मलयागिरचंदन सार, केशरसंग घसों ।
प्रभु भव आत्ताप, निवार, पूज्य हिय हुलसा ॥श्री०॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चंदनं निर्व-
पामीति स्वाहा ॥ २ ॥

तंदुलसित शशिसम शुद्ध, लीनों धार भरी ।
तसु पुञ्ज धरों अविर्द्ध, पार्वो शिवनगरी ॥श्री०॥३॥

ॐ ह्रीं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

सुरतरुके सुमन समेत, सुमन सुमन प्यारे ।
सो मनमथर्भजनहेत, पूजो षड् धारे ॥श्री०॥४॥

ॐ ह्रीं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय कामबाणविष्वसनाय पुष्प
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

रसरजत सज्जत सद्य, मज्जत थार मरी ।

पद जज्जत रज्जत अद्य, मज्जत भूस्त अरी ॥श्री०॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय लुघारोगविनाशनाथ नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ५ ॥

तमखंडित मंडितनेह, दीपक जोवत हों ।

तुम पदतर हे सुखगोह, भ्रमतम खोवत हों ॥श्री०॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाथ दीर्घ
निर्वपामीति स्वाहा ॥६॥

हरिचन्दन अमर कपूर, चूर सुगन्ध करा ।

तुम पदतर खेवत भूरि, आठों कर्म जरा ॥श्री०॥७॥

ॐ ह्रीं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय अष्टकर्मविश्वसनाथ धूप निर्वप-
ामीति स्वाहा ॥ ७ ॥

अतुफल कलवर्जित लाय, कंचनधार मरा ।

शिव फलहित हे जिनराय, तुमठिग भेट धरा ॥श्री०॥८॥

ॐ ह्रीं श्रीमहावीरजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामि ।

जलफल वसु सजि हिमधार, तनमनमोद धरों ।

गुण गाऊं भवदधि तार, पूजत पाप हरो ॥श्री०॥९॥

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि-
मीति स्वाहा ॥ ९ ॥

पंचकल्याणक

राग टप्पाचालमें ।

मोहि राखो हो सरना, श्रीवर्द्धमान जिनरायजी, मोहि राखो
गरम साइसित छट्ट लियो यिति, त्रिशला उर अघहरना ।
सुर सुरपति तित सेव करौ नित, मै पूजो भवतरना । मोहि रा॥

ॐ ह्रीं आषाढशुक्लषष्ठ्या गर्भमंगलमंडिताय श्रीमहावीरजिने-
न्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

जनम चेतसित तेरसके दिन, कुण्डलपुर कनवरना ।
सुरगिरि सुरगुरु पूज रचायो, मै पूजो भवहरना । मोहि रा॥२॥

ॐ ह्रीं चैत्रशुक्लत्रयोदश्या जन्ममंगलप्राप्ताय श्रीमहावीर-
जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

मंगसिर असित मनोहर दशमी, ता दिन तप आचरना ।
नृपकुमार घर पारन कीनो, मै पूजो तुम चरना । मोहि रा॥३॥

ॐ ह्रीं मार्गशीर्षकृष्णदशम्या तपोमंगलमंडिताय श्रीमहावीर-
जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

शुक्लदशै वैशाखदिवस अरि, घाति चतुक छयकरना ।
केवल लहि भवि भवसरतारे, जजो चरन सुख भरना । मोहि रा

ॐ ह्रीं वैशाखशुक्लदशम्या ज्ञानकल्याणप्राप्ताय श्रीमहावीर-
जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

कातिक श्याम अभावस शिवतिय, पावापुरते परना ।
 गनफनिवृन्द जजै तित बहुविधि, मै पूजो भयहरना । मोहिरा०
 ॐ ह्रीं कार्तिककृष्णामावस्थायां मोक्षमंगलमयिष्ठताय श्रीमहा-
 बीरजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

छंद हरिगीता २८ मात्रा ।

गनधर असनिधर, चक्रधर, हलधर गदाधर वरवदा,
 अरु चापधर विद्यासुधर, तिरसूलधर सेवहिं सदा ।
 दुखहरन आनंदमग्न तागन, तरन चरन रसाल हैं,
 सुकुमाल गुनमनिमाल उन्नत, भालकी जयमाल हैं ॥१॥

घत्तानंद ।

जय त्रिशलानंदन, हरिकृतचंदन, जगदानंदन, चंदवर ।
 भवतापनिकंदन तनकनमंदन, रहितसर्पदन-नयन धर ॥२॥

छंद तोटक ।

जय केवलभानु कलासदनं, भविकोकविकाशनकंजवनं ।
 जगजीत महारिपु मोहहरं, रजज्ञानदृगावर चूरकरं ॥१॥
 गर्भादिकमंगलमयिष्ठ हो, दुखदारिद्रको नित स्वंडित हो ।
 जगमाहिं तुम्हीं सतपंडित हो, तुम ही भवभावविहंडित हो ॥२॥
 हरिवंशसरोजनको रत्रि हो, बलवंत मईत तुम्हीं कवि हो ।
 लहि केवल धर्मप्रकाश कियौ, अबल्लों सोई वारवराजति औ ॥

पूनि आप तने गुनिमाहिं सही, सुर मग्न रहैं जितनें सबही ।
 तिनकी बनिता गुन गावत हैं, लय माननिसों मनभावत हैं ॥
 पुनि नाचत रंग उमंग भरी, तुअ भक्तिविषै पग येम घरी ।
 झननं झननं झननं झननं, सुर लेत तहाँ तननं तननं ॥५॥
 धननं धननं धनघंट बजै, दमदं दमदं मिरदंग सजै ।
 गगनांगनगर्भगता सुगता, ततता ततता अतता वितता ॥६॥
 धृगतां धृगतां गति बाजत है, सुरताल रसालजु छाजत है ।
 सननं सननं सननं नभमें, इकरूप अनेक जु धारि भमें ॥७॥
 कइ नारि सु बीन बजावति हैं, तुमरो जस उज्जल गावति हैं ।
 करतालविषै करताल धरें, सुरताल विशाल जुनाद करें ॥८॥
 इन आदि अनेक उछाहभरी, सुरभक्ति करें प्रभुजी तुमरी ।
 तुमही जगजीवचिके पितु हा, तुमही चिनकारनते हितु हा ॥
 तुमही सब विघ्नविनाशन हो, तुमही निज आनंदभासन हो ।
 तुमही चितचिंतितदायक हो, जगमाहिं तुम्हों सब लायक हो ॥
 तुमरे धनमंगलमाहिं सही, जिय उत्तम पुत्र लिया सब ही ।
 हृषको तुमरी सरनागत है, तुमरे गुनमें मन पागत है ॥९॥
 प्रभु मोहिय आप सदा बसिये, जबलों वसु कर्म नहीं नसिये ।
 सबलों तुम ध्यान हिये धरतो, तबलों श्रुतचितन चित्त रतो ॥
 तबलों अत चारित चाहतु हो, तबलों शुभ भाव सुगाहतु हो ।
 तबनों सतसंगति निस्त गहो, तबनों मय मंत्रमन्त्रिस्त गहो ॥

अबलों नहिं नाश करों अरिकों, शिवनारि वरों समता धरिकों ।
यह भी संबंधों हमकी जिनकी, हम जांचतु हैं इतकी सुनकी ॥

अन्तानंद ।

श्रीवीरजिनेशा नमितसुरेशा, नागनरेशा मगतिभरा ।
'वृन्दावन' ध्यावै विघन नशाधै, वाञ्छित पाव शर्मवशा ॥१३॥

ॐ ह्रीं श्रीवर्द्धमानजिनेन्द्राय महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

बोहा ।

श्रीमनमतिके जुगलपद, जो पूजै धरि प्रीति ।

वृन्दावन सो चतुरनर, लहै मुक्तिनवनीत ॥१६॥

इत्वाशीर्वाद परिषुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

इति श्रीवर्द्धमानजिनपूजा समाप्त ॥ २४ ॥

समुच्चयअर्घ

सोटक ।

सुनिये जिनराज त्रिलोक धनी,

तुममें जितने गुन हैं तितनी ।

कहि कौन सके मुखसौ सब ही,

तिहि पूजतु हौं गहि अर्घ यही ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभादिवीरान्तेभ्यो चतुर्विराटिचितेभ्यः पूजार्घं
निर्वपामीति स्वाहा ।

कवित्त ।

षष्ठमद्वकों आदि अंत श्रीवर्धमान जिनवर सुखकार,
तिनके चरनकमलकों पूजै, जो प्राणी गुनमाल उचार ।
राके पुत्रमित्र धन जावन, सुखसमाजगुन मिलै अपार,
सुरपदभोगभोगि चक्री हूँ, अनुक्रम लहै मोक्षपद सार ॥२॥

इत्यारशीर्वादः ।

कविनामग्रामादिपरिचय

मनहरन ।

काशीजीमें काशीनाथ नन्हूजी, अनंतराम,
मूलचंद, आढतसुराम आदि जानियो ।
सञ्जन अनेक तहां भर्मचन्दजीको नन्द,
वृन्दावन अग्रवाल गोल गोती बानियो ॥
तानें रचे पाठ पाय मञ्जालालको सहाय,
बालबुद्धि अनुसार सुनो सरधानियो ।
यामें भूलचूक होय ताडि शोध शुद्ध कीज्यो,
मोहि अल्पज्ञ जानि छिमा उर आनियो ॥ १ ॥

इति श्रीकविवरवृन्दावनकृत श्रीवर्तमानजिनचतुर्विंशति विन-
पूजा समाप्त ।

समुच्चय

श्रीतीसचौबीसीजीकी पूजा ।

पांच भरत शुभ क्षेत्र पांच ऐरावते,
 आगत-नागत वर्तमान जिन सास्वते ।
 सो चौबीसी तीस जज् मन लायके,
 आह्वानन विधि करूँ बार प्रय गायके ॥

ॐ ह्रीं श्रीपंचमेरुसंबन्धि - पंचभरत - पंचऐरावत - क्षेत्रस्था
 भूतानागतवर्तमान - सम्बन्धिचतुर्विंशतितीर्थकरा अत्र अवतरत
 अवतरत संबौषट् इति आह्वानं ।

अत्र अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः स्थापनं ।

अत्र मम सन्निहिता भवत वषट सन्निधीकरणं ।

अष्टक

नीर दधि क्षीर सम न्यायो, कनककौ भृङ्ग भरवायो,
 अबै तुम चरख ढिंग आयो, जनम जरा रोग नशवायो ।
 द्वीप अढ़ाई सरस राजे, क्षेत्र दस ता विषे छाजे,
 सात शत बीस जिनराजे, जे पूजतां प्राप सब भाजे ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं पंचभरतपंचैरावतक्षेत्रस्थभूतानागतवर्तमानकालसब-
 न्धिचतुर्विंशतितीर्थकरेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

सुरिभजुत चन्दनं न्यायो, संग करपूर षसवाया,
 धार तुम चरख ढरवायो, भव आताप नक्षवायो ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं पांच भरत पांच ऐरावत क्षेत्र संबन्धी तीस चौबीसी
सात सौ बीस जिनेन्द्रेभ्यः चन्द्रवं नि० ।

चन्द्रसम तन्दुलं सारं, किरण मुक्ता जु उनहारं,
पुञ्ज तुम चरण हिंग धारं, अक्षयपद प्राप्तिके कारं ।
द्वीप अक्षय सरस राजे, क्षेत्र दस ता विषे छाजे,
सात शत बीस जिनराजे, पूजतां पाप सब भाजे ॥

ॐ ह्रीं पांच भरत पांच ऐरावत क्षेत्र संबन्धी तीस चौबीसी
के सात सौ बीस जिनेन्द्रेभ्यो नमः अक्षतं नि० ।

पुष्प शुभ गन्धजुत सोहै, सुगन्धित नास मन मोहै ।
जजत तुम मदन छय हाव, मुकति पर पलकमें जोव ॥द्वीप०॥

ॐ ह्रीं पांच भरत पांच ऐरावत क्षेत्र संबन्धी तीस चौबीसी
के सात सौ बीस जिनेन्द्रेभ्यो नमः पुष्पं नि० ।

सरस व्यंजन लिया ताजा, तुरत बनवायकें खाजा ।
चरन तुम जजों हों महाराजा, बुधादिक पलकमें भाजा ॥द्वीप

ॐ ह्रीं पांच भरत पांच ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी तीस चौबीसी
के सात सौ बीस जिनेन्द्रेभ्यो नमः नैवेद्यं नि० ।

दीप तम नाशकारी है, सरस शुभ जोतिधारी है ।
होंय दशों दिश उजारी है, धूम्र मिस पाप खारी है ॥दीप०॥

ॐ ह्रीं पांच भरत पांच ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी तीसचौबीसीके
सातसौबीस जिनेन्द्रेभ्यो नमः दीपं नि० ।

सरस शुभ धूप दस अंगी, जल्लाऊं अग्निके, संगी ॥
करवाकी नेत्र चतुरंगी, चरन तुम पूजतें अङ्गी ॥दीप०॥

ॐ ह्रीं पांच भरत पांच ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी तीसचौबीसीके सातसौबीस जिनेन्द्रेभ्यो नमः ध्रुपं नि० ।

मिष्ट उत्कृष्ट फल न्यायो, अष्ट अरि दुष्ट नशवार्यो ।
श्रीजिन मेट धरवायो, कार्य मनवाञ्छता पायो ॥दीप०॥

ॐ ह्रीं पांच भरत पांच ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी तीसचौबीसीके सातसौबीस जिनेन्द्रेभ्यो नमः फलं नि० ।

द्रव्य आठों जु लीना है, अर्घ करमें नवीना है ।
पूजते पाप छीना है, 'मानमल' जोर कीना है ॥दीप०॥

ॐ ह्रीं पांच भरत पांच ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी तीसचौबीसीके सातसौबीस जिनेन्द्रेभ्यो नमः अर्घं नि० ।

प्रत्येक अर्घ ।

जम्बूद्वीपको प्रथममेरुकी, दक्षिणदिशा भरत शुभ जान ।
तहां चौबीसी तीन विराजें, आगत नागत औ वर्तमान ॥
तिनके चरणकमलकी निशिदिन, अर्घ चढ़ाई करुं उर ध्यान ।
इस संसारभ्रमणतें तारो, अहो जिनेश्वर ! करुणावान ॥

ॐ ह्रीं सुदर्शन मेरुकी दक्षिण विशा भस्त क्षेत्र सम्बन्धी तीन चौबीसीके बहत्तर जिनेन्द्रेभ्यो नमः । अर्घ ।

सुदर्शन मेरुकी उत्तर दिश में, ऐरावत क्षेत्र शुभ जान ।
आगत नागत वर्तमान जिन, बहत्तर सदा सास्त्रते जान ॥दिप०॥

ॐ ह्रीं सुदर्शन मेरुकी उत्तर दिशा ऐरावतक्षेत्र सम्बन्धी तीन चौबीसीके बहत्तर जिनेन्द्रेभ्यो नमः । अर्घ ।

कुसुमलता छन्द ।

खण्ड धातकी विजय मेरुके, दक्षिण दिशा भरत शुभ जान ।
तहां चौबीसी तीन विराजे, आगत नागत अरु वर्तमान ॥
तिनके चरणकमलको निशिदिन, अर्घ चढ़ाय करूं उर ध्यान ।
इस संसार भ्रमणतैं तारा, अहो जिनेश्वर ! करुणावान ॥

ॐ ह्रीं धातकीखण्ड द्वीपकी पूर्व दिशि विजय मेरुकी दक्षिण
दिशि भरतक्षेत्र सम्बन्धी तीनचौबीसीके बहत्तर जिनेद्रेभ्यो अर्घ ।

इसी द्वीपकी प्रथम शिखरिकौ, उत्तर ऐरावत जु महान ।
आगत नागत वर्तमान जिन, बहत्तरि सदा सासते जान ॥
तिनके चरणकमलको निशिदिन, अर्घ चढ़ाइ करूं उर ध्यान ।
इस संसारभ्रमणतैं तारो, अहो जिनेश्वर ! करुणावान ॥

ॐ ह्रीं धातकी खण्ड द्वीपकी पूर्व दिशि विजय मेरुकी
उत्तर दिशि ऐरावतक्षेत्र सम्बन्धी तीनचौबीसीके बहत्तर जिने-
द्रेभ्यो अर्घ ।

खंड धातकी अचल सुमेर, दक्षिण तास भरत बहु घेर ।
तामें चौबीसी त्रय जान, आगत नागत और वर्तमान ॥

ॐ ह्रीं धातकीखण्ड द्वीपकी परिचम दिशा अचलमेरुकी
दक्षिण दिशा भरतक्षेत्र सम्बन्धी तीनचौबीसीके बहत्तर जिने-
द्रेभ्यो नमः अथ ।

अचल मेरुकी उत्तर दिश जान, ऐरावत शुभ क्षेत्र बस्वान ।
तामें चौबीसीत्रय जान, आगत नागत और वर्तमान ॥

ॐ ह्रीं धातकीखण्डकी पश्चिम दिशा अचलमेरुकी उत्तर दिशा ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी तीनचौबीसीके बहत्तर जिनेशेभ्यो नमः । अर्घ ।

द्वीप पुष्करकी पूरब दिशा, मंदिरमेरुकी दक्षिण भरत-सा ।
ताविषे चौबीसो तीन जू, अर्घ लेय जजूं परवीन जू ॥

ॐ ह्रीं पुष्कर द्वीपकी पूरब दिशा मन्दरमेरुकी दक्षिण दिशा भरत क्षेत्र सम्बन्धी तीनचौबीसीके बहत्तर जिनालयेभ्यो नमः अर्घ ।

गिरि सूं मंदर उत्तर जानिये, ताके पूर्व दिशा बखानिये ।
ताविषे चौबीसी तीन जू, अर्घलेय जजूं परवान जू ॥

ॐ ह्रीं पुष्कर द्वीपकी पूर्व दिशा मन्दरमेरुकी उत्तर दिशा ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी तीन चौबीसीके बहत्तर जिनेन्द्रेभ्यो नमः अर्घ ।

पश्चिमपुष्करगिरि विद्यु तमाल, ताके दक्षिण भरतक्षेत्र
है सुविशाल ।

तामें चौबीसी हैं जु तीन, वसु द्रव्य लेय जजूं पग्वान ॥

ॐ ह्रीं पुष्करार्द्ध द्वीपकी पश्चिम दक्षिण दिशा भरत क्षेत्र सम्बन्धी तीन चौबीसीके बहत्तर जिनेन्द्रेभ्यो नमः अर्घ ।

याही गिरिके उत्तर जु ओर, ऐरावत क्षेत्र बनो निहोर ।
तामें चौबीसी है जु तीन, वसु द्रव्य लेय जजूं परवीन ॥

ॐ ह्रीं श्रीपुष्कर द्वीपकी पश्चिम दिशा विद्यु त माली मेरुकी उत्तर दिशा ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी तीन चौबीसीके बहत्तर जिनेन्द्रेभ्यो नमः अर्घ ।

द्वीप अर्द्धके विषे, पंचमेरु है तांह ।
 दक्षिण उत्तर तासके, भरत ऐरावत भाय ॥
 भरत ऐरावत भाय, एक क्षेत्रके मांही ।
 चौबीसी हैं तीन, दसों दिशि ही के मांही ॥
 दसों क्षेत्रके सातसौ बीस जिनेश्वर ।
 अर्घ न्याय करजोडि, जे ज रविमल सुमनकर ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरु सम्बन्धी भरतैरावत क्षेत्रके विषे तीस
 चौबीसीजीके सातसै बीस जिनेन्द्रेभ्यो नम अर्घ नि० ।

जयमाला ।

दोहा ।

चौबीसों तीसों नमों, पूजा परम रसाल ।

मन, वच तन को शुद्धकर, अब वरखो जयमाल ॥

जय द्वीप अर्द्ध में ज सार, गिरि पाच मेरु उन्नत अपार ।
 तागिरि पूर्व-पश्चिम जु ओर, शुभ क्षेत्र विदेह बसै जु ठौर ॥
 ता दक्षिण क्षेत्र भरत सु जानि, है उत्तर ऐरावत महान ।
 गिरि पांचतने दश क्षेत्र जोय, छवि ताकी वरन नसकै कोष ॥
 ताको वरखूँ वरखन विशाल, तैसा ही ऐरावत है रसाल ।
 इस क्षेत्र बीच विजयार्द्ध एक, वा ऊपर विद्याधर अनेक ॥
 इस क्षेत्र विषे षट खंड जानि, तहां छहोंकाल बरतै महान ।
 जो तान कालमें भाग भूमि, दस जाति कल्पतरु रहे भूमि ॥

जब चौथी काल लगै जु आय, तब कर्मभूमि वरें सुहाय ।
 तब तीर्थकर को जन्म होय, सुरलेख जजें गिरि पर सुजोष ॥
 बहु भक्ति करें सब देव आय, ताथेई धेई की तान न्याय ।
 हरि तांडव नृत्य करे अपार, सब जीवन मन आनन्दकार ॥
 इत्यादि भक्ति करिके सुरेन्द्र, निजथान जाय जुत देव वृन्द ।
 इहविधि पांचों कल्याण होय, हरिभक्ति करै अति हर्ष जोय ॥
 या कालविषे पुण्यदंत जीव, नरजन्मधार शिव लहै अतीव ।
 तब श्रेष्ठ पुरुष परवीन होय, सब याही काल विषे जु होय ॥
 जब पंचम काल करे प्रवेश, मुनिधर्म तयो नही रहे लेश ।
 विरले कोई दक्षिण देश मांदि, जिनधर्मी नर बहुते जु नाहिं ॥
 जब षष्ठम काल करे प्रवेश, तब धर्म रंच नहिं रहे लेश ।
 दश क्षेत्रमें रचन्य समान, जिनवाणी भाष्यो सं प्रमाण ॥
 चौबीसी होइके क्षेत्र तीन, दश क्षेत्रनिमें जानो प्रवीन ।
 आगत व अनागत वर्तमान, सत्सप्तशतक अरु बीसजान ॥
 सबही महाराज नमूँ त्रिकाल, मम भवसागरते लेहु निकाल ।
 यह वचन हिये में धार लेव, मम रक्षा करहु जिनेन्द्र देव ॥
 'विमल' की बिनती सुनहु नाथ, मैं पांय परूँ जुग जोरि हाथ ।
 मम वांछित कारज करौ पूर, यह अरज हृदयमें धरि जरूर ॥

बत्ता ।

शत सात जु बीसं श्रीजगदीशं, आगतनागत अरु वर्ततु हैं ।
मन वच तन पूजै, सुध मन हूजै, सुरग मुक्ति पद पावत हैं ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरु सम्बन्धी दश क्षेत्रनिके विषै तीस चौबीसीके
सातसौबीस जिनेन्द्रेभ्यो नमः अर्घ नि० ।

दोहा ।

सम्बत् सत उन्नीस के, ता ऊपर पुनि आठ ।
पौष कृष्ण तृतीया गुरु, पूरन भयो जु पाठ ॥
अक्षर मात्रा की कसर, बुध जन शुद्ध करेय ।
अरुप बुद्धि मो सोचके, दोष कबहुं नहि देय ॥
पदौ नहीं व्याकरण मै, पिंगल देख्यो नाहिं ।
जिनबाणी परसादते, उमंग भई घट मांहि ॥
मान बढ़ाई ना चहू, चहू धर्मको अंग ।
नित प्रति पूजा कीजियो, मनमें धारि उमंग ॥

इत्यारशीर्वादः ।

— —

पंचबालयति तीर्थंकरपूजा ।

दोहा ।

श्रीजिनर्षच भनगजित, वासुपूज्य मलि नेम ।

पारसनाथ सुवीर अति, पूजो वितधरि प्रेम ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीपंचबालयतितीर्थंकरा । अत्र अवतरत अवतरत
संबोधट् ।

ॐ ह्रीं श्रीपंचबालयतितीर्थंकरा । अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीपंचबालयतितीर्थंकरा । अत्र मम सन्निहिता भवत
भवत वषट् ।

(अथ अष्टक । चाल शानतरायकृत नंदीश्वरद्वीपपूजाकी)

शुचिशीतल सुरभिसुनीर, न्यायो मरि भ्गारी,

दुख जन्मन मरख गहीर, याकों परिहारी ।

श्रीवासुपूज्य मल्लि नेम, पारस वीर अती,

नमुं मनवचतनधरि प्रेम, पांचो बालजती ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यमल्लिनेमिपारर्वनाथमहावीरपंचबालयति-
तीर्थंकरेभ्यः जलं निवपामीति स्वाहा ।

चंदन केशर कपूर, जलमें घसि आने ।

भवतपरमजनसमपूर, तुमको मैं जाने ॥ श्रीवासु० ॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यमल्लिनेमिपारर्वनाथमहावीरपंचबालयति-
तीर्थंकरेभ्यो चंदन मिर्षपामीति स्वाहा ।

वर अक्षत विमल बन्धुप, सुप्ररक्ष बाल भरे ।

बहु देश देशके लाय, तुमरी भेंट करे ॥ श्रीवासु० ॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यमल्लिनेमिपारर्वनाथमहावीरपंचबालयति-
तीर्थकरेभ्यो अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

इह काम सुमट अति शूर, मनमें चोभ करे ।

मैं लाया सुमन हजूर, याको वेग हरे ॥ श्रीवासु० ॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यमल्लिनेमिपारर्वनाथमहावीरपंचबालयति-
तीर्थकरेभ्यः पुष्पं निवेपामीति स्वाहा ।

षट रमपुरित नैवेद्य, रसना सुस्वकारी ।

है कर्मवदनी छेद, आनंद है भारी ॥ श्रीवासु० ॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यमल्लिनेमिपारर्वनाथमहावीरपंचबालयति-
तीर्थकरेभ्यो नैवेद्यं निवेपामीति स्वाहा ।

धरि दीपक जगमग जोत, तुम चरनन आगे ।

बम मोहतिमिर छय हात, आतम गुणजागे ॥ श्रीवासु॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यमल्लिनेमिपारर्वनाथमहावीरपंचबालयति-
तीर्थकरेभ्यो दीपं निवेपामीति स्वाहा ।

यह दशविधि धूप अनूप, स्वेऊं गन्धमई ।

दशबंधदहन जिनभूप, तुम हो कर्म-जई ॥ श्रीवासु ॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यमल्लिनेमिपारर्वनाथमहावीरपंचबालयति-
तीर्थकरेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

ले पिस्ता दाख बदाम, श्रीफल आदि घने ।

तुम चरण जजूं गुणग्राम, धो कल मोचतने ॥ श्रीवासु॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यमल्लिनेमिपारर्चनायमहावीरपंचबालयति-
तीर्थकरेभ्यो फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

सजि वसुविधिदरब मनोग, अर्घ बनावतु हों ।

वसुकर्म अनादि संजोग, ताहि नशावतु हों ॥ श्रीवासु ॥

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यमल्लिनेमिपारर्चनायमहावीरपंचबालयति-
तीर्थकरेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

चौपाई ।

पांचों बालयती तीर्थेश, तिनकी यह जयमाल विशेष ।

मनवचक्राय त्रियोग संभार, जे गावत पावत भव पार ॥१॥

पहरी छंद ।

जय जय जय जय श्रीवासुपूज, तुमसम जगमें नहिं और दूज ।

तुम महाशुक्र सुरलोक छार, जब गर्ममात मांही पधार ॥२॥

पोडश सपने देखे सुमात, बल अवधि जान तुम जन्म तात ।

बहु हर्षधार दंपति सुजान, बहु दान दियो जाचक जनान ॥३॥

छप्पन कुमारिका कियो आन, तुम मात सेव बहु भक्ति ठान

छैमास अगाऊ गर्भ आय, धनपति सुवरख नयसी रचाय ॥४॥

तुम मात महल आमनमंकार, तिहुं काल रतनधाता अपार ।

बरसाई पट नव भास मार, घनि जिन पुरुषन जैनन-निहार ॥

जय मङ्गिनाथ देवन सुदेव, शत इन्द्र करत तुम चरण सेव ।
 त्रय ज्ञानयुक्त तुम जन्म धार, आनंद भयो तिहुंजग अपार ॥
 तब ही ले चहु विधि देव संग, सौधर्म इन्द्र आयो उर्मंग ।
 सजि गज ले तुम हरि गोद आप, वन पांडुकशिल ऊपर सुथाप
 क्षीरोदधितै बहु देव जाय, भरि जल घट हाथों हाथ लाय ।
 करि न्हवन बस्त्र भूषण सजाय, दे मात नृत्य तांडव कराय ॥
 पुनि हर्ष धार हिरदै अपार, सब निर्जर रव जै जै उचार ।
 तिस अवसर आनंद हेजिनेश, हम कहिबे समरथ नाहि लेश ॥
 जय जादोंपति श्रीनेमिनाथ, हम नमन सदा जुग जांड़ि हाथ ।
 तुम व्याहसमय पशुअन पुकार, सुन तुरत छुड़ाये दयाधार ॥
 करकंकण अरु शिरमोरबंद, सो तोड़ भये छिनमें स्वच्छंद ।
 तब ही लौकांतिकदेव आय, वैराग्यवर्द्धिनी धुति कराय ॥११॥
 ततछिन शिविका लायो सुरेन्द्र, आरूढ भये तापर जिनेन्द्र ।
 सो शिविका निजकंधन उठाय, सुन नर स्वग मिल तपवन ठराय
 कचलौच बस्त्र भूषण उतार, भये जती नगनसुद्रा सुधार ।
 हरि केश लिये रतनन पिटार, सो क्षीरउदधि मांही पधार ॥
 जय पारसनाथ अनाथनाथ, सुरअसुर नमत तुमचरण माथ ।
 जुगनाग जरत कीनो सुरच, यह बात सकल जगमें प्रतक्ष
 तुम सुरधनुसम लखि जग असार, तप तपत भये तनममत क्षार
 शठ कमठ कियो उपसर्ग आय, तुम मन-सुमेरु नहिं डगमगाय

तव शुक्रध्यान महि स्वदग्ग हाथ, अरि चारिघातिया करि सुधात
 उपजायो केवलज्ञान भान, आयो कुवेर हरि बच प्रमान ॥१५॥
 की समवसरख रचना विचित्र, तहं खिरत भई वाणी पबित्र ।
 मुनि सुर नर स्वग तिर्यंच आय, मुनि निज-निज भाषाबोध पाय
 जय वर्द्धमान अंतिम जिनेश, पायी न अन्त तुम गुण गणेश
 तुम चार अघाती करम हान, लहि मोक्ष स्वर्गसुख अचलथान
 तबही सुरपति बल अवधि जान, सब देवनयुत बहु हरष ठान ।
 सजि निजवाहन आयो सुतीर, जहं परमौदारिक तुम शरीर ॥
 निर्वाण-महोत्सव कियौ भूर, लै मलियागिरि चंदन कपूर ।
 बहु द्रव्य सुगंधित सरससार, तामें श्रीजिनवर वपु पधार ॥
 निज अगिनकुमारनि मुकुटनाय, तिहं रतननि शुचिज्वाला उठाय
 तिस सिरमांडी दीनी लगाय, सो भस्म सबन मस्तक चढ़ाय
 अति हर्ष थकी रचि दीपमाल, शुभ रत्नमई दशदिश उजाल ।
 पुनि गीतनृत्य बाजे बजाय, गुनगाय ध्याय सुरपति सिधाय ॥
 सो नाथ अचै जगमें प्रतक्ष, नित होत दीपमाला सुलक्ष ।
 हे जिन तुम गुणमहिमा अपार, वसु सम्यग्ज्ञानादिक सुमार ॥
 तुम ज्ञानमाहिं तिहुंलोक दर्व, प्रतिविवित हैं चर अचर सर्व ।
 लहि आतम अनुभव परमश्रद्धि, भये वीतराग जगमें प्रसिद्ध ॥
 हो बालजती तुम सबन एम, अचरज शिवकर्ता वरी केम ।
 तुम परमशांतमुद्रा सुधार, किम अष्टकर्म रिपुको प्रहार ॥२४॥

हम करत वीनती बारबार, करजोड़ सुमस्तक धार धार ।
 तुम मये भवेदधि पार पार, मोकों सुवेग ही तार तार ॥२५॥
 'अरदास' दास यह पूर पूर, वसुकर्मशैल चकचूर चूर ।
 दुरव सहन दासकी शक्ति नाहिं, गहि शस्त्र चरण कीजै निबाह

दोहा ।

ब्रह्मचर्य सों नेह धरि, रचियो पूजन ठाठ ।
 पांचों बालजतीनका, कीजै नित प्रति पाठ ॥
 ॐ ह्री श्रीपंचबालयतितीर्थकरेभ्यो महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीगोम्मटेश्वरपूजा ।

मत्तगयंद छंद ।

स्थापना ।

देखत ही धु तिवन्त हरे, तनकी छवि, सूर्य सुधाधर द्वारे ।
 ध्यान विवेक तपोबलसे, जिनने अरि-कर्म प्रचंड संहारे ॥
 बाहु पसार अनुग्रहकी, भवसागरसे भवि जीव उबारे ।
 सो जिन बाहुबलीश, दयाकर तिष्ठहु मानस आय हमारे ॥

ॐ ह्री श्रीबाहुबलिभगवन् ! अत्र अवतर अवतर संचौषट् ।

ॐ ह्री श्रीबाहुबलिभगवन् ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।

ॐ ह्री श्रीबाहुबलिभगवन् ! मम सन्निहितो भव भव वषट् ।

हरिगीतिका अंद

शुचि सित सलिलकी धार, शशि रस तुल्य गुणकी खान है ।
सो चरण सन्मुख ईशके, भवसिंधु-सेतु समान है ॥
वसुकर्मजेता मोक्षनेता, मदनतन अभिराम है ।
भगवान बाहुबलीशको, नित शीश नाय प्रणाम है ॥

ॐ ह्रीं भगवते श्रीबाहुबलिजिनाय जन्मजरामृत्युविनाशनाथ
जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

केशर कपूर सुगन्धयुत श्रीखण्ड संग घसाइवे ।
भवतापमंजन देव पदकी भव्य पूज रचाइये ॥वसुकर्मजेता०॥

ॐ ह्रीं भगवते श्रीबाहुबलिजिनाय संसारतापविनाशनाथ
चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

अक्षत अखंड सुधांशुकरसम धवल शुद्ध चुनायके ।
अक्षय महापद हेतु चरचूँ चरण नित गुण गायके ॥वसुकर्म०॥

ॐ ह्रीं भगवते श्रीबाहुबलिजिनाय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतात्र
निर्वपामीति स्वाहा ।

अम्भोज चंपक मालती बेला गुलाब प्रसून ले ।
पदपद्म पूजूँ देवके, हँ मदन मद जिनने दले ॥वसुकर्म०॥

ॐ ह्रीं भगवते श्रीबाहुबलिजिनाय कामबाणविध्वंसनाथ सुध्वं
निर्वपामीति स्वाहा ।

अतिमिष्ट मोहन भोग मोदक वेवरादिक घृतसने ।
पकवानसे भगवानको पूजूँ सुधादिक जिन हने ॥वसुकर्म०॥

ॐ ह्रीं भगवते श्रीबाहुबलिजिनाय क्षुधारोगविनाशनाय
नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

लेकर जजूं कपूर घृत रत्नादिकी दीपावली ।

जिनकी प्रभासे हो प्रगट गुणराशि आतमकी भली ॥वसुकर्म०॥

ॐ ह्रीं भगवते श्रीबाहुबलिजिनाय मोहान्धकारविनाशनाय
दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

सुरदारु अगर कपूर तगर सुगन्ध चंदनसे बनी ।

दशदिशारंजन धूप दशविधि अग्र खेऊं पावनी ॥वसुकर्म०॥

ॐ ह्रीं भगवते श्रीबाहुबलिजिनाय दुष्टाप्रकर्मदहनाय धूपं
निर्वपामीति स्वाहा ।

बादाम पिस्ता नागियल अंगूर कदली आम हैं ।

शिव अमरफल हित चर्चते हम नाथ तव पदधाम हैं ॥वसुकर्म०॥

ॐ ह्रीं भगवते श्रीबाहुबलिजिनाय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

गन्धाम्बु तन्दुल सुमन व्यंजन दीप धूप सुहावनी ।

फल मधुर मिश्रित अर्घ ले, पूजूं तुम्हें त्रिभुवन धनी ॥वसुकर्म०॥

ॐ ह्रीं भगवते श्रीबाहुबलिजिनाय अनर्घ्वपदप्राप्तये अर्घं
निर्वपामीति स्वाहा ।

दोहा ।

पोदनपुरमें स्वर्णकी, जजूं विम्ब छविधाम ।

पुष्प वृष्टि सुर जहं करें, केशरकी अविराम ॥

ॐ ह्रीं श्रीपोदनपुरस्थबाहुबलिस्वामिप्रतिमायै, अर्घं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

भला विंध्यगिरि शिखर है, भले विराजे जेह ।
चालिस हस्त सुशोभनो, खड्गासन है देह ॥
अनुपम छवि जिनराजकी, देख लजे शशि सूर्य,
ताते नहिं छाया पड़े, बन्दू यह माधुर्य ॥

ॐ ह्रीं श्रीश्रवणबेलगोला विंध्यगिरिस्थ बाहुबलिजिनाय अर्घं
निर्वपामीति स्वाहा ।

गोमटगिरि वेणूरमें, जजूं नाय कर शीश ।
०जू आरा कारकल, और जहां हो ईश ॥

ॐ ह्रीं श्रीगोम्मटगिरि, वेणुपुर, धनुपुरा (आरा) कारकल
आदिविविधस्थानस्थश्रीबाहुबलिजिनप्रतिमायै अर्घं निर्वपामि ।

नमूं शिखर कैलाश जिहिं, शेष कर्म करि शेष ।
लोक शिखर चूड़ामणी, भये सिद्ध परमेश ॥

ॐ ह्रीं श्रीकैलाशशिखरात् सिद्धिगताय श्रीबाहुबलिसिद्धाय
अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

दोहा ।

सवा पांचसौ धनुष तन, लतायुक्त अभिराम ।
खड्गासन मरकत वरख, सुन्दर रूप सलाम ॥

पद्धरी ।

जय बाहुबलाश्वर सुगुण धाम, चरणोंमें हो कोटिक प्रणाम ।
 तुम आदि ब्रह्मके सुत सुजान, था अंतरंगमें स्वाभिमान ॥
 प्रण था वृषभेश्वरके सिवाय, यह मस्तक परको ना झुकाय ।
 षट् स्वर्गड भूमि भरतेश जीत, लौटे जब अवधपुरी पुनीत ॥
 नहीं करै चक्र तब पुर प्रवेश, भरतेश्वरकी जय थी अशेष ।
 तुम पोदनेश ब्राह्मवलीश, नहीं थे वशमें नहि नमो शीश ॥
 इसपर ही युद्ध ठना महान, था खड़ी सेन्य चतुरंग आन ।
 है भरत बाहु द्वय चरम अग, इनका नहीं हागा अंग-भंग ॥
 बहू सेनाका होगा सहार, कर उभयपक्ष मन्त्री विचार ।
 ठहराये निर्णय हित प्रबुद्ध, धिर दृष्टि मन्त्र जल तीन युद्ध ॥
 तीनों जीते तुम हे बलीश, तब क्राधित हो वह चक्र ईश ।
 निज चक्र दिया तुमपर चलाय, कुल रीति नीति सबको झुलाय
 पर चक्ररत्न तुम पास आय, फिर गया सप्रदिच्छा शीश नाय
 यह ज्येष्ठ आतकी क्रिया देख, इस जगकी स्वार्थकता विलेख
 तुम देव भये जगमे उदास, सब शिथिल किया भवमोह पाश
 दे तनुज महाबलका स्वराज, सब सौप उसे वैभव समाज ॥
 कह भरतेश्वरसे बनो ज्येष्ठ, इस नश्वर भूके भूप श्रेष्ठ ।
 फिर यथाजात मुद्रा सु धार, कर किया कर्मरिपुका सहार ॥

एक वर्ष खड़े थे एक थान, घर प्रतिमायोग अस्त्रखण्ड ध्यान ।
 ये एक वर्ष तक विराहार, सर्वोत्कृष्ट तप महा धार ॥
 बाईस परोपह सहे घोर, तपते थे तप जिन अति गहीर ।
 थे उगे लता तरु आस पास, चरननमें था अहिका निवास ॥
 थे तजे उग्र तपके प्रभाव, वनके सब जीव विरोध भाव ।
 अनुताप तुम्हें इक था महेश, पाये हैं मुझसे भरत क्लेश ॥
 भरतेरवरमे सन्मान पाय, सन्ताप गया सत्वर नशाय ।
 तब भये केवली हे जिनेश, पूजन की आकर नर सुरेश ॥
 उपदेश दिया करुणा-अधार, भवि जीवोंको करके विहार ।
 कैलाश शिखरसे मुक्ति थान, पाया तुमने सब कर्म हान ॥
 जय गोमटेश बाहूबलीश, जय जय भुजबलि जय दोर्बलीश ।
 जय त्रिभुवन मोहन छवि अनूप, जय धर्मप्रकाशक ज्योतिरूप ॥
 जय मुनिजनभूषण धर्मसार, अकलंकरूप मोहि करहु पार ।
 जय मात सुनन्दाके सुनन्द, शिव राज्य देहु मोहि जगतबंद ॥
 है स्वर्णमयी प्रतिमाभिराम, पोदनपुरमें शतशः अग्राम ।
 धनु सवापांचसौ हो जिनेन्द्र, जजते कुसुमांजलि ले सुरेन्द्र ॥
 प्रतिमा विंध्येश्वरको प्रधान, नित नमूँ कारकलकी महान ।
 वखूर पुरीकी है ललाम, गामटगिरिपत्तिको हो अग्राम ॥
 आरामे रहे विराज नाथ, शतवार तुम्हें हम नमत माथ ।
 जितनी हो जहँ जहँ बिम्बसार, सबको भेरा हा नमस्कार ॥

घत्ता ।

जय बाहुबलीश्वर महाश्रीश्रीश्वर, दयानिधीश्वर जगतारी ।
जय जय मदनेश्वर जितचक्रेश्वर, विंध्येश्वर भवभयहारी ॥

महार्घ ।

बाहुबलीके महापाद पद्मोंका, जो भवि नित्य जजं,
सर्वसंपदा पावे जगमे, ताके सब संताप भजै ।
होकर 'वीर' बाहुबलि जैसा, 'धर्म' चक्रका कंत सजै,
कर्मबेड़ियां काट स्वपरकी, निश्चय शिवपुरराज रजै ॥

इति आशीर्वादः ।

आरतो ।

(सौ० धर्मवतीजैन "ज्योति")

जिन, करूं आरती तेरी !

जय बाहुबली, जय गोमटेशके, चरण कमल केरी ॥
भक्ति प्रभू, अन्तस्तल भरके, तुम गुण गान हृदयमें धरके ।
रत्न-दीप करमें ले करके, करूं तिहारी फेरी ॥ जिन० ॥
सबा पांच सौ धनु तन दरशै, नैन देख देखन फिर तरषै ।
जय अनंग छवि जनमन हरषै, हरित वर्ण हेरी ॥ जिन० ॥
मात सुनन्दाके तुम नंदन, करूं श्रुषमसुत मैं अभिनंदन ।
अमर अमर होनेको वंदन, करते भक्ति घनेरी ॥ जिन० ॥

घृत सनेह कर्पूर सजाऊँ, जगमम, जगमम, दीप जगाऊँ ।
 खोई आतम निधि निज पाऊँ, नशे अघनिशा अंधेरी ॥जिन०॥
 'ज्योति' रूप जय, घर्मईश जय, 'वीर' धीर जितचक्र ईश जय
 जय भुजबलि जय दोर्बलांश जय, ध्याऊँ सांभ सवेरी । जिन०॥

श्रीकलिकुण्डपार्श्वनाथपूजा ।

हूँकारं ब्रह्मरुद्रं स्वरपरिकलितं वज्ररेखाष्टभक्षम्,
 वज्रस्याग्रांतराले प्रणवमनुपमानाहतं संश्रणार्थं ।
 वर्णान्ताद्यानुसपिंडान् हभमग्धभसखान् वेष्टयेत्तद्वदंते,
 वज्राणां यन्त्रमेतत् परकृतमशुभं दुष्टविद्यां विहन्ति ॥१॥
 पिंडस्थान्पापनोदान् हभमरघभसखान् शान्तियुक्तान्विदधुः
 शाकिन्या यान्तु नाशं वरलकयहसैस्तेनयुक्तेर्महोग्राः ।
 यन्त्रं श्रीखंडलिप्तं लिखतु शुचिवसाः कांस्यपात्रे सुमंत्रौ,
 लेखिन्या दर्भजात्या निखिलजनहितं तस्य मौख्यं विभर्ति
 अर्कश्चन्द्रः कुजः सौम्यः गुरुः शुक्रः शनैश्चरः ।
 राहुः केतुः ग्रहाः शान्तिं यान्ति यन्त्रस्थापने ॥३॥
 सिद्धं विशुद्धं महिमानिवेशं, दुष्टारिमारि-ग्रहदोषनाशम् ।
 सर्वेषु योगेषु परं प्रधानं, संस्थापये श्रीकलिकुण्डयन्त्रम् ॥४॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं कलिकुण्डदण्ड-श्रीपार्श्वनाथ धरणेन्द्र-
 पद्यावती-सेवित अतुलबलवीर्यपराक्रम सर्वविघ्नविनाशन अत्र

अवतर अवतर संबौषट आह्वानम् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्था-
पनम् । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधीकरणम् ।

अष्टक

गंगापमातीर्थसुनीरपूरैः, शीतैः सुगन्धैर्घनसागमिश्रैः ।

दृष्टोपसर्गैकविनाशहेतुं, समर्चये श्रीकलिकुण्डयन्त्रम् । १

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं कलिकुण्डदण्डश्रीपार्श्वनाथाय धरखेट्र-
पद्मावती-सोवताय अतुल बलवीर्यपराक्रमाय सर्वविघ्नविनाश-
नाय ह्रस्व्युं भ्रस्व्युं म्रस्व्युं रस्व्युं व्रस्व्युं म्रस्व्युं स्स्व्युं
ख्रस्व्युं जन्मजरामृत्यु-विनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीचन्द्रनैगेन्धविलुब्धमृङ्गैः, सर्वोत्तमैर्गन्धविलासयुक्तैः ।

दृष्टोपसर्गैकविनाशहेतुं, समर्चये श्रीकलिकुण्डयन्त्रम् ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं कलिकुण्डदण्डश्रीपार्श्वनाथाय चंदनं
निर्वपामीति स्वाहा ।

चन्द्रावदातैः सरलैः सुगन्धैरनिघपात्रै वंशशालिपुञ्जैः ।

दृष्टोपसर्गैकविनाशहेतुं, समर्चये श्रीकलिकुण्डयन्त्रम् ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं कलिकुण्डदण्डश्रीपार्श्वनाथाय.....
अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

मन्दारजातीवकुलादिकुन्दैः, सौरयभ्रम्यैः शतपत्रपुष्पैः ।

दृष्टोपसर्गैकविनाशहेतुं, समर्चये श्रीकलिकुण्डयन्त्रम् ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं कलिकुण्डदण्डश्रीपार्श्वनाथाय.....
पुष्पं निर्वपामीमि स्वाहा ।

वाष्पायमाणैः घृतपूरपूरैः, नानाविधैः पात्रगर्तैरसाढ्यैः ।
दुष्टोपसर्गैकविनाशहेतुं, समर्चये श्रीकलिकुण्डयन्त्रम् ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्ड-श्रीपार्श्वनाथाय
नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

विश्वप्रकाशैः कनकावदातैर्दीपैः सुकूर्मयैर्विंशालैः ।
दुष्टोपसर्गैकविनाशहेतुं, समर्चये श्रीकलिकुण्डयन्त्रम् ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्ड-श्रीपार्श्वनाथाय
दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

कूर्परकृष्णागुरुचन्दनाद्यैः, धूपैः सुगन्धीकृतदिग्विभागैः ।
दुष्टोपसर्गैकविनाशहेतुं, समर्चये श्रीकलिकुण्डयन्त्रम् ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्ड-श्रीपार्श्वनाथाय
धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

खजं रराजादलनालिकेरैः, पुङ्गीफलमोक्षफलाभिसारैः ।
दुष्टोपसर्गैकविनाशहेतुं, समर्चये श्रीकलिकुण्डयन्त्रम् ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्ड-श्रीपार्श्वनाथाय
फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जलगन्धाक्षतपुष्पैर्नैवेद्यैः, दीपधूपफलनिकरैः ।
श्रीकलिकुण्डाय वरं ददामि कुसुमांजलि भक्त्या ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्डश्रीपार्श्वनाथाय घर-
शेन्द्रपद्मावतीसेविताय अतुलबलवीर्यपराक्रमाय सर्वविघ्नविना-
शनाथ ह्रस्त्व्यूं भ्रस्त्व्यूं म्रस्त्व्यूं रस्त्व्यूं छस्त्व्यूं म्रस्त्व्यूं
स्त्व्यूं ल्रस्त्व्यूं अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

वरसम्भक्तविहसणहं, भव्वयणहं जिणवर सुमिरणे ।
 खासइ पाउ असेस लहु तसु जेम दिवायर विथरणे ॥१॥
 सुदुद्धरअंजनपव्वयकाउ, दिसाकरि तासण मेह खिखाउ ।
 सदप्पुव चिघुण देइ करिंदु, मणम्मि भरंतहं देउजिणहु ॥२॥
 पपुत्तु समुट्टिउ दन्तिसमूह, महाबल लोल लुत्ताविय जोहु ।
 सरांसु ण देइ कम्मं ण मइन्दु, मणम्मि० ॥३॥
 तमालमहीरुह भंणडसीसु, दिणोसरसंणिहु लोयण भीसु ।
 पसंणु हवेइ पिसाउ रउद्दु, मणम्मि० ॥४॥
 विर्यंभियबेल णहंगणि बोलु, जलुभव जीव पयासिय रोलु ।
 अथाहु वि गापयमित्तु समुद्दु, मणम्मि० ॥५॥
 पुरंतफनामणिरुद्धदियंतु, तिलोयखयंकरु णाहं कयंतु ।
 बलेवि ण डंकइ करु फण्हिद, मणम्मि० ॥६॥
 दुसंचर तीरणिपव्वयदुग्गि, असंख महीरुह भीसणमग्गि ।
 कदिंपि ण लमाइ तक्कर विंद, मणम्मि० ॥७॥
 घिएणइ सित्तउ तिब्बु जलंतु, जगत्तउजालइणाइगिलित्तु ।
 ससोसिही मुह बेइ जिमचन्दु, मणम्मि० ॥८॥
 णिमीलियबंधवसज्जणचक्खु, अणोयपयार पयासिय दुक्खु ।
 विहइइ संखलबंधु रउद्दु, मणम्मि० ॥९॥

मणोहरहृन्दियमोक्त्वशिवार, भयंदरखलसिलेसमसार ।

पणासइ रोउ तहाजरबिदु, मणम्मि० ॥१०॥

दुलंधु रणपिणु पासहबूहु, ख मारि वि सक्कह सत्तु समूहु ।

किवाणु वि हांइ अलंअर बिदु, मणम्मि० ॥११॥

घत्ता ।

वरखणिं दुम्मायंतहं गारुडियहं फिट्टइ विसुजिह ।

भव्वयणहं णयणाणांदिजिणु सुमरंतहं उवसग्गुतिहं ॥१२

छंद ।

कन्दर्पद्विपकुम्भदारुणहरिः कर्माद्रिभेदाशनिः,

मिथ्याज्ञानतमोविनाशतरणिः क्रोधादियक्षीश्वरः ।

अज्ञानद्रु मखंडनेकफरशुः मुक्तांगनावल्लभः,

श्रीमत्पार्ष्वजिनेश्वरो भयहरो कुर्यात्सतां मंगलं ॥१२॥

जयमाला शार्दूल छंद ।

प्रोद्यत्सन्मशिनागनायकफटाटोपोल्लसन्मण्डपम् ,

सद्भक्त्यानमदिन्द्रमलिमौशिभाभास्वत्पदाम्भोरुहम् ।

प्रोन्मीलन्नवनीरदालिपटलीशङ्कासमुत्पादकम् ,

ध्यायेत् श्रीकलिकुण्डदण्डविलसच्चंडोप्रपार्ष्वप्रसुम् ॥

छन्द ।

सुसिद्ध विशुद्ध विबोधनिधान, विकासितविश्व विवेकविधान ।

विडम्बितकाम जगज्जय चंड, सदा सद्योदय जय कलिकुण्ड

पयोधि-पयोधर-धीर-निनाद, निराकृत-दुर्मत-दुर्मदवाद ।
 असत्यपथैकपतत्पविदंड, सदा सदयोदय जय कलिकुंड ॥२॥
 निराकुल निर्मलशील निरीह, निराश निरंजन संयमसिंह ।
 विपाटित-दुष्ट-मदद्विपगंड, सदा सदयोदय जय कलिकुंड ॥
 कषाय चतुष्टय-काष्ठ-कुठार, निरामय नित्य नरामर-सार ।
 विदीर्ण-घनाघन-विघ्न-करंड, सदा सदयोदय जय कलिकुंड ॥
 अनन्य वितन्य विलीन-विकल्प, विशल्य विशूल विसप विदर्प
 विरोग विभाग विखंड विमु ड, सदा सदयोदय जय कालिकुंड
 फणीश नरेऽ सुरश महेश, दिनेश शुभेश गणेश गुणेश ।
 वितर्क विकासित-सत्कज-खंड, सदा सदयोदय जय कलिकुंड
 विशोक विशंक विमुक्तकलंक, विकासित-विश्व विदूरित-पंक ।
 कलामल केवल चिन्मयपिंड, सदा सदयोदय जय कलिकुंड
 निकन्दितमोहमहीरुहकन्द, वरप्रद सत्पद सम्पदमन्द ।
 त्रिदंड विखंडित माय-विहंड, सदा सदयोदय जय कलिकुंड

मालिनी छंद ।

कलिलदमनदक्षयोगियोगोपलक्ष्विकलकलिकुंडाहंडपारर्वप्रचंड
 शिवसुखशुभसंपद्वासबन्नीवसंतं प्रतिदिनमहमीडेवर्द्धमानद्विसिद्धयै

आशीर्वाद (स्रग्धरा छंद)

सर्पत्सर्पत्सदपोत्फटतरलतरोत्तारफुत्कारवेला,

संघट्टेत्पत्तिवाताहतशठकमठोद्भूतजीमूतजातः ।

खेलत्स्वर्गापगांतर्जलधितललसन्लोलडिडीरपिंड-
व्याजाच्छीपार्श्वराजोज्ज्वलविजययशो राजहंसोऽवतादः

अथ आनन्द स्तवन छंद ।

प्रणम्य देवेन्द्रनुतं जिनेन्द्रं सर्वज्ञमत्र प्रतिबोधसंज्ञं,
स्तोष्ये सदाहं कलिकुण्डयन्त्रं सर्वाङ्गविधनौघविनाशदक्षम् । १॥
नित्यं स्मरंतोपि हि, येपि भक्त्या शक्त्या स्तुवंतोपि जपन्सुमंत्रं,
पूजां प्रकुर्वन् हृदये दधानाः स चेप्सितं यच्छति यन्त्रराजः ॥२॥
गृहांगणे कल्पतरुः प्रसूतश्चितामणिस्तस्य करे लुलोठ ।
गौस्तस्य तुल्यास्ति च कामधेनोर्यस्यास्ति भक्तिः कलिकुण्डयंत्रे ॥
नमामि नित्यं कलिकुण्डयन्त्रं सदा पवित्रं कृतरत्नपात्रम् ।
रत्नत्रयाराधनभावलभ्यं सुरासुरैर्वैदितमाद्यमीड्यम् ॥ ४ ॥
सिंहेभसर्पाग्निजलान्धिचौरविषादयोऽन्ये च सदापि विघ्नाः ।
व्याध्यादयो राजकुलोद्भवं भयं नश्यंत्यवश्यं कलिकुण्डपूजया
दुःस्त्रादिबंधं निगडं निदानं त्रुट्यन्ति शीघ्रं प्रजपन्सुमन्त्रम् ।
ज्वरातिसारग्रहणीविकाराः प्रयांति नाशं कलिकुण्डपूजया ॥६॥
बंध्यापि नारी बहुपुत्रयुक्ता संसारसक्ता प्रियचित्तरक्ता ।
यस्यास्य चित्ते कलिकुण्डचिंता नमाम्यहं तं सततं त्रिकालम् ॥
अनर्थसर्वप्रतिघातदहं सौख्यं यशः शान्तिकपौष्टिकाद्यम् ।
नमाम्यहं तं कलिकुण्डयन्त्रं विनिर्गतं यजिन्नसज्जवन्नाहं ॥१॥

मालिनी छंद ।

भुवनमिदमनिघं देवराजाभिबंधं,
पठति च वरभक्त्या सर्वदा योपि शांत्यै ।
सकलसुखमनल्पं कल्पयावत्प्रपेदे,
विनिहतविषविघ्नं यंत्रराजप्रसादात् ॥ ६ ॥

जाप्य मन्त्र ?

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्ड श्रीपार्श्वनाथ धर-
णेन्द्रपद्मावतीसेवित अतुलबलवीर्यपराक्रम ममात्मविद्यां रक्ष रक्ष
परविद्यां छिन्धि छिन्धि भिन्धि भिन्धि स्फ्रां स्फ्रीं स्फ्रौं स्फः
ह्रूं फट् स्वाहा ॥ १ ॥

द्वितीय मन्त्र २

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्रीपार्श्वनाथ धरणेन्द्रपद्मावतीसेवित
ममेप्सितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ॥ २ ॥

तृतीय मन्त्र

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्डस्वामिन्नतुलबलवीर्य-
पराक्रम ममात्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिन्धि छिन्धि भिन्धि
भिन्धि स्फ्रां स्फ्रीं स्फ्रौं स्फः ह्रूं फट् स्वाहा ॥ ३ ॥

मंत्रस्तोत्रम्

श्रीमद्देवेन्द्र वंधामल-मणि-मुकुट-ज्योतिषाञ्चक्रवाह-
व्यालीढं पादपीठं शठ-कमठ-कृतोपद्रवावाधितस्य ।
लोकाऽलोकावभासि-स्फुरदुरुविमल-ज्ञान सद्दीप्रदीप,
प्रध्वस्तध्वान्तजालस्य वितरतु सुखं पार्श्वनाथस्य नित्यं ॥१॥

हां हीं हूं हौं हः प्रभास्वन्मरकत-मखिभाऽऽक्रान्त-भृतिर्हि वं मं
वं सं सं वीजमन्त्रैः कृतसकलजगत-शेम-रशोक-रश्चः ।

घां घीं घूं घौं घः समस्त-क्षिति-तल-महित-ज्यातिरुद्धोत्तितार्थ,
छैं चो चौं चः श्रीं श्रीजात्मक-सकल-तनोःपार्ष्वनाथस्य नित्यम्

हींकारं रेफयुक्तं रर रर रर रां देव सं संयुतं हीं,
क्लीं क्लूं द्रां द्रीं सुरेभं भयदमलकुला पंचकोद्गापि हूं हूं ।
दं दृमत्युष्णवर्षैरखिलमिह जगन्मे विधेद्भूयाशु वश्यं,
वा वं मंत्रं पठंतं त्रिजगदधिपते ! पार्ष्व ! मां रश्च नित्यं ॥३॥

श्रां क्रीं हीं सर्ववश्यं कुरु कुरु सरसं क्रामयं तिष्ठ मधूं,
हैं हैं हें रश्च रश्च प्रमलभलमहाभैरवातिप्रभीतेः ।

द्रीं द्रीं द्रूं द्रावय द्रावय हन हन फट् फट् वषट् भिन्धि भिन्धि,
स्वाहा मंत्रं पठंतं त्रिजपदधिपते ! पार्ष्व ! मां रश्च नित्यम् ॥४॥

हं जं ज्वीं ज्वीं च हं सः कुवलयकलितैः रंजितांगप्रसूनैः,
जं वं ह्रः पक्षि हं हं हर हर हर हंतं पक्षिपः पक्षिकोपम् ।
वं जं हं सः प वं जं सर सर सर सूं स स्वधावीजमन्त्रैः,
स्त्रायस्व स्यावरादि—प्रबल-विष-सुसंहारिम्भदः पार्ष्वनाथः ॥

घां घीं घूं घौं घः एतैरधिपति-स्तमंत्राक्षरैरीथ नित्यं,
हा हा कारोप्रनादैर्ज्वलदनलशिखाकल्पदीर्घोर्ध्वकेशैः ।
पिंगाक्षैः लोलजिह्वैर्विषम-विषधराऽलंकृतैस्तीक्ष्णदंष्ट्रैः,
भूतैः प्रेतैः पिशाचैरनसकृतमहोपद्रवाश्च रश्च ॥ ६ ॥

ॐ श्रीं नमः शक्तिमानां सपदि हरवदं किंद मिह द्रुवं च,
 ग्मौ त्तमं सं दिव्यदीर्घागतिवस्तिकथितस्तंभने सं विधेहि ।
 कट् कट् कट् सर्वरोगग्रहभरणाभयोच्चाटनं चैव पार्श्व,
 आद्यस्वाशेषदोषादभरनरघनैर्नृतपादारविन्दः ॥ ७ ॥
 इत्थं मंत्राक्षरोत्थं वचनमनुपमं पार्श्वनाथस्य नित्यम्,
 चिद्वेषोच्चाटनस्तंभनवशकृतः पापरोगापहेति ।
 प्रोत्सर्पज्जगमस्थावरविषम-विषध्वं वनं स्वायुरारो-
 ग्यैश्वर्यापादभक्त्या स्मरति पठति यो स्तौति तस्येष्टसिद्धिं ॥८॥

श्रीकलिकुण्डपार्श्वनाथपूजाभाषा ।

(मंगल पाठ)

मंगलमूर्ती परमपद, पंच धरो नित ध्यान ।
 हरौ अमंगल विश्वका, मंगलमय भगवान् ॥ १ ॥
 मंगल जिनवरपद नमो, मंगल अर्हत देव ।
 मंगलकारी सिद्धपद, सो बन्दों स्वयमेव ॥२॥
 मंगल श्रीआचार्य मुनि, मंगल गुरु उवभाय ।
 सर्वसाधु मंगल करो, बन्दों मन वच काय ॥३॥
 मंगल सरस्वति मातका, मंगल जिनवरधर्म ।
 मंगलमय मंगल करो, हरौ असाता कर्म ॥४॥

याविधि मंगल द्वार ले, जन्ममें मंगल होत ।
मंगल नाथूराम यह, सबसागर दृढ पोत ॥५॥

अद्विष्ट वंद ।

हंकार अक्षरात्मक देव जो ध्यावते,
देव यजुष पशुकृत सो व्यभि नशावते ।
कांसी तपेपत्र पै शुद्ध लिखावते,
केशर चन्दन ता पर गन्ध रचावते ॥

दोहा ।

ऐसे अनुपम यंत्रको, मन बच काय सहार ।
जे भवि पूजे प्रीति धर, हों भवदधिसे पार ॥

(बन्त्र स्थापना) चाल जोगीरासा ।

है महिमाको धन शुद्धवर, यंत्र कलीकुण्ड जानो,
डांकिन शांकिन अगनि चोर मय, नाशत सब दुख तानो ।
नव ग्रहका सब दुःख विनाश, रवि शनि आदि पिछानो,
तिसका मैं स्थापन करहुं, त्रिविध योग कर लानो ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं कलिकुण्डदण्ड श्रीपार्वतीनाथ धरणी-
न्द्रपद्मावतीसेवित अतुलबलवीर्यपराक्रम सर्वविघ्नविनाशक अत्र
अवत्तर अवतर संबौष्ट आह्वानम् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः-स्था-
पनम्, अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधीकरणात् ॥

अष्टक

छंद त्रिभंगी ।

गंगाको नीरं अति ही शीरं गन्ध गहीरं मेल सही,
 भर कंचनभारी आनंद धारी धार करो मन प्रीति लही ।
 कलिकुण्ड सु यन्त्रं पढ़ कर मंत्रं ध्यावत जे भविजन ज्ञानी,
 सब विपति विनाशै, सुख परकाशै होवै मंगल सुखदानी ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्डश्रीपार्श्वनाथाय धरणेंद्र-
 पद्मावती-सेविताय अतुल-बलवीर्यपराक्रमाय सर्वविघ्नविनाश-
 नाय ह्रस्त्व्यूं भ्रस्त्व्यूं म्रस्त्व्यूं रस्त्व्यूं ष्रस्त्व्यूं भ्रस्त्व्यूं स्त्रस्त्व्यूं
 ल्रस्त्व्यूं जन्मजरामृत्यु-विनाशनाय जलं निर्बपामीति स्वाहा ।

क्षीरोदधि नन्दन मलयाचन्दन केशर औ कर्पूर घसो ।
 भर सुवराकलशा मन अतिहुलसा भय वा तापका दुःख नशो ॥

कलिकुण्ड सु० ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्डश्रीपार्श्वनाथाय.....
 चंदनं निर्बपामीति स्वाहा ।

शशि सम उजियारो तंदुल प्यारो अग्नि इक सारो जुग लेवो ।
 हो गंध मनोहर रतन धार भर पुञ्ज सुकर मद तज देवो ॥

कलिकुण्ड सु० ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्डश्रीपार्श्वनाथाय.....
 अक्षतान् निर्बपामीति स्वाहा ।

बहु फूल सु वासं मधुकराशं करके आसं आवह है ।
 सुरतरुके लावो पुण्य बदावो काम व्यथा नश जावत है ॥
 कलिकुण्ड सु० ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्ड-श्रीपार्वनाथाय.....
 पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

पकवान बनाये बहु घृत लाये स्वांड पगाये मिष्ट करे ।
 मन आनन्द धारें मन्त्र उचारें बुधा रोग तत्काल टरे ॥

कलिकुण्ड सु० ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्ड-श्रीपार्वनाथाय.....
 नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

रतनन की जोतं अति उद्योतं तम द्य होतं ज्ञान बढ़े ।
 अति ही सुख पावै पाप नशावै जो मन लावै पाठ पढ़े ॥

कलिकुण्ड सु० ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्ड-श्रीपार्वनाथाय.....
 दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

चंदन कर्पूरं अंगर सुचूरं लोंगादिक दश गंध मिला ।
 बरधूप बनाकर अगनिमाहि धर दुष्टकर्म तत्काल जला ॥

कलिकुण्ड सु० ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्ड-श्रीपार्वनाथाय.....
 धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

खजूरे मंगायो भीफल लाबो दास अनार बहाम खरे ।
पूरीफल प्यारे मन सुखकारे अन्तराय विधि दूर करे ॥

कलिकुण्ड सु० ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्धं कलिकुण्डदण्ड-भीपारर्वनाथाय.....
फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जल गंध सुधारा तंदुल प्यारा पुष्प चरु ले दीप भली ।
दश धूप सुरंगी फल लेय अभंगी करो अर्घ उर हर्ष रलो ॥

कलिकुण्ड सु० ॥ ९ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्धं कलिकुण्डदण्डभीपारर्वनाथाय धर-
णेन्द्रपद्मावतीसेविताय अतुलकलावीर्यपराक्रमाय सर्वविघ्नविना-
शनाय ह्रस्व्यूं भ्रस्व्यूं म्रस्व्यूं रम्रस्व्यूं ळ्रस्व्यूं म्भ्रस्व्यूं
स्त्रस्व्यूं ल्रस्व्यूं अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

सर्वज्ञ परम गुणसागर हैं, तिन पद के हरि सब चाकर हैं ।
सब विघ्नविनाशक सुखकर हैं, कलिकुण्डसुपत्र नमूं वर हैं ॥
नित ध्यान करें जन मन ला, वर पूज रचै कर यंत्र खला ।

सब विघ्न० ॥ २ ॥

तिन के घर ऋद्धि अनेक भरै, मनवांछित कारज सर्व सरै ।

सब विघ्न० ॥ ३ ॥

सुरवन्दित हैं तिन के चरणां, उर धर्म बढे अघ को हरणां ।

सब विघ्न० ॥ ४ ॥

भय चोर अगनि जल साँप मही, सब व्याधि महीं छिनबै जु सही
सब विघ्न० ॥ ५ ॥

सब बन्ध खुलै छिन माँहि लखो, अरि मित्र होय गुरु साँच अखो
सब विघ्न० ॥ ६ ॥

अतिसार संग्रहनी रोग नसैं, बंका नारी लह पुत्र हसैं । ११ ।
सब विघ्न० ॥ ७ ॥

सब दूर अमंगल होय जान, सुख संपत दिन दिन बढ़त मान
सब विघ्न० ॥ ८ ॥

इस यंत्र की जे पूजा करत, सुर नर सुख लह हों मुक्ति-कंत
सब विघ्नबिनाशक सुखकर है, कलिकुंडसुयंत्र नमूं वर हैं ॥६

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्डश्रीपार्श्वनाथाय
धरयोन्द्रपद्मावतिसेविताय अतुलबलवीयेपराक्रमाय सर्वविघ्न-
बिनाशकाय महार्घं निर्वा० ॥

जाप्य मन्त्र ।

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्रीपार्श्वनाथाय धरयोन्द्रपद्मावती-
सेविताय समेप्सितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ॥

जयमाला

गीता छंद

नायेन्द्र प्रभु के चरण नमते मुकुटप्रभा महा बड़ी,
बढ़ी पुण्य अपार सब दुख-कार अघं प्रकृती घटी

भयभी भी कलिकुण्ड दण्ड प्रचण्ड पारसनाथ जी ।
तिनकी मुनो जयमाल भविजन कह नवाके माथ जी ॥१॥

त्रोटक छंद ।

विधि धानि हनो वर ज्ञान लहो, सबही पदार्थ को भेद कहो ।
नित यंत्र नमूँ कलिकुण्ड सार, सब विघ्न विनाशन सुखकार
कुमती वसु मान विनाशत है, मुकती का मारग भासत है ।
नित यंत्र० ॥ ३ ॥

दुर्गति मारग का नाश करे, एकांत मिथ्यात विवाद हरे ।
नित यंत्र० ॥ ४ ॥

निराकुल निर्मल शील धरे, निर्मल मुक्ति-लक्ष्मी को वरे ।
नित यंत्र० ॥ ५ ॥

नहि क्रोध मान छल लोभ पाप, अष्टादश दोष विमुक्त आप ।
नित यंत्र० ॥ ६ ॥

है अजर अमर गुण के भंडार, सब विघ्न विनाशक परमसार ।
नित यंत्र० ॥ ७ ॥

नागेन्द्र नरेन्द्र सुरेंद्र आय, नमि हैं आनदित चित्त लाय ।
नित यंत्र० ॥ ८ ॥

दिनेन्द्र मुनेंद्र निशेन्द्र आय, पूजत नित मन में हर्ष धार
नित यंत्र० ॥ ९ ॥

घन्ता बंद ।

सब पापनिवारण, संकटटारण, कलिकुण्ड पारस परचंड ।
जग में यश पावै संपति आवै, लहै मुक्ति जो सुख है अखंड ।
प्रतिदिन जो बन्दै मन आनन्दै हों बलवन्त पाप सब दूर,
विघ्न विनाश लहै सुख संपति दुष्ट कर्म होवैं चकचूर ।

श्री पारस स्वामी अन्तर्यामी, ध्यान लगायो बन मांही,
चर कमठ जु आयां क्रोध बढ़ायो पीड़ा कीनी अधिकारी ।
जिन मेरु समाना अचल महाना लख नागेन्द्र ने पूजा कियो ।
फण मंडप कानो सुरबल हीनो है प्रभु को निज शीस नयो
महा अर्घ ।

सोरठा ।

पूजन ये सुखकार, जे भवि करि हैं प्रीतिधर ।
विधि बलवंत अपार इन कर शिव सुख को लहै ॥

इत्याशीर्वादः पुष्पांजलि चिपेत् ।

(इस पूजा की नीचे लिखी तीन जाप हैं)

जाप मंत्र १

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डश्रीपारर्वनाथाय धरदोन्द्र-
पद्मावतीसहिताय अतुलबलवीर्यपराक्रमाय ममात्मविद्यां, रक्ष
रक्ष परविद्यां द्विद द्विद भिद भिन्द स्मं स्मं स्मं स्मं स्मं स्मं
हं फट् स्वाहा ॥ १ ॥

जाप मंत्र २

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्रीपार्वनाथाय धरणेन्द्रप्रभावतीं
सहितान्य ममेप्सितं कार्यं कुरु कुरु स्वाहा ॥ २ ॥

जाप मंत्र ३

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं कलिकुण्डदण्डस्वामिन्नतुलबलबीज-
पराक्रमाय ममात्मविद्या रक्ष रक्ष परविद्या छिद छिद भिद भिद
स्फूर्त्तं स्फूर्त्तं स्फूर्त्तं स्फूर्त्तं स्फूर्त्तं ह्रूं फट् स्वाहा ॥ ३ ॥

नवग्रह अरिष्टनिवारक विधान

ग्रहग्रहान्ततीर्थेशं, धर्मतीर्थप्रवर्तकं,
भव्यविघ्नोपशांत्यर्थं, ग्रहार्चा वर्यते मया ।
मार्तण्डेन्दुकुजसोम्य-सूरसूर्यकृतांतकाः,
राहुरच केतुसंपुक्ता, ग्रहाः शांतिकरा नव ॥

दोहा ।

आदि अन्त जिनवर नमो, धर्म प्रकाशनहार ।
भव्य विघ्न उपशांतिको, ग्रहपूजा चित्त धार ॥
काल दोष परभावसो, विकल्प छूटे नाहिं ।
जिन-पूजामें ग्रहनकी, पूजा मिथ्या नाहि ॥
इस ही जम्बूद्वीपमें, रवि-शशि मिथुन प्रमान ।
ग्रह नक्षत्र तारा सहित, ज्योतिष चक्र प्रमान ॥

तिनहीके अनुसार सों, कर्म-चक्रकी चाल ।
 सुख दुख जानै जीवको, जिन-वच नेत्रविशाल ॥
 ज्ञान प्रश्न-व्याकरस्थमें, प्रश्न-अंग है आठ ।
 भद्रबाहु मुख जनित जो, सुनत कियो मुख पाठ ॥
 अवधि धार छुनिराजजी कहे पूर्वकृत कर्म ।
 उनके वच अनुसार सों, हरे हृदय को मर्म ॥

समुच्चय पूजा ।

दोहा ।

अर्क चन्द्र कुज सोम गुरु, शुक्र शनिश्चर राहु ।
 कंतु ग्रहारिष्ट नाशने, श्री जिन-पूज रचाहु ॥

ॐ ह्रीं सर्वग्रहभ्रिष्टनिवारका श्रीचतुर्विंशतिजिना अत्र अव-
 तरत अवतरत संवौषट् आह्वानं, अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः स्वापनं
 अत्र मम सन्निहिता भवत भवत वषट् सन्निधीकरणं ।

गीता छन्द ।

श्रीरसिंधु समान उज्जल, नीर निर्मल लीजिये ।
 चौबीस श्रीजिनराज आने, धार त्रय शुभ दीजिये ॥
 रवि सोम भूमिज सौम्य गुरु कवि, शनितमो घृतकेतवे ।
 पूजिये चौबीस जिन, ग्रहारिष्ट-नाशन हेकवे ॥

ॐ ह्रीं सर्वग्रहारिष्टनिवारकश्रीचतुर्विंशतिश्रीमहोदयः पंच-
 कल्याणकप्राप्तेभ्यो जलं निर्वापामीति स्वाहा ।

श्रीखण्ड कुमकुम हिम सुमिश्रित, विसौ मनकरि चावसौ ।
चौबीस श्री जिनराजअधर, चरण चरचो भावसौ ॥ रवि०

ॐ ह्रीं सर्वप्रहारिष्टनिवारकश्रीचतुर्विंशतितीर्थकरेभ्यः पंच-
कल्याणकप्राप्तेभ्यो चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ।

अक्षत अखण्डत सालि तंदुल, पुञ्ज मुक्ताफल सम ।
चौबीस श्रीजिनचरण पूजन, नाम ह्यै नवग्रह अम ॥ रवि० ॥

ॐ ह्रीं सर्वप्रहारिष्टनिवारकश्रीचतुर्विंशततीर्थकरजिनेन्द्रेभ्यः
पंचकल्याणकप्राप्तेभ्यः अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

कुंद कमल गुलाब केतकि, मालती जाही जुही ।
कामवाण विनाश कारण, पूजि जिनमाला गुही ॥ रवि० ॥

ॐ ह्रीं सर्वप्रहारिष्टनिवारकश्रीचतुर्विंशतितीर्थकरजिनेन्द्रेभ्यः
पंचकल्याणकप्राप्तेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

फैनी सुहारी पुवा पापर, लेय मोदक घेवर ।
शतछिद्र आदिक विविध विंजन, लुधाहर बहुसुखकर ॥ रवि० ॥

ॐ ह्रीं सर्वप्रहारिष्टनिवारकश्रीचतुर्विंशतितीर्थकरजिनेन्द्रेभ्यः
पंचकल्याणकप्राप्तेभ्यो नैवद्य निर्वपामीति स्वाहा ।

मणिदीप जगमग जोति तमहर, प्रभू आगे लाइये ।
अज्ञाननाशक जिनप्रकाशक, मोहतिमिर नशाइये ॥ रवि० ॥

ॐ ह्रीं सर्वप्रहारिष्टनिवारकश्रीचतुर्विंशतितीर्थकरजिनेन्द्रेभ्यः
पंचकल्याणकप्राप्तेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

कृष्णा अगर घनसारमिश्रित, लोम चन्दन लेदये ।
ग्रहरिष्ट नाशन हेत भविजन, धूप जिनपद स्वइये ॥रवि०॥

ॐ ह्रीं सर्वप्रहारिष्टनिवारकश्रीचतुर्विंशतितीर्थकरजिनेन्द्रेभ्यः
पंचकल्याणकप्राप्तेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

बादाम पिस्ता सेव श्रीफल, मोच नीबू सदफलं ।
चौबीस श्रीजिनराज पूजत, मनोवांछित शुभ फलं ॥रवि०॥

ॐ ह्रीं सर्वप्रहारिष्टनिवारकश्रीचतुर्विंशतितीर्थकरजिनेन्द्रेभ्यः
पंचकल्याणकप्राप्तेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जल गंध सुमन अखण्ड तन्दुल, चरु सुदीप सुधूपकं ।
फल द्रव्य दूध दही सुमिश्रित, अर्घ देय अनूपकं ॥रवि०॥

ॐ ह्रीं सर्वप्रहारिष्टनिवारकश्रीचतुर्विंशतितीर्थकरजिनेन्द्रेभ्यः
पंचकल्याणकप्राप्तेभ्यः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

बोहा ।

श्रीजिनवर पूजा किये, ग्रह अरिष्ट मिट जांय ।
पंच ज्योतिषी देव सब, भिल्ल सेवे प्रभु पांय ॥

पद्वरी छंद ।

जय २ जिन आविमहन्त देव, जय अजित जिनेश्वर करहुं सेव
जय २ संभव संभव निवार, जय २ अमिनन्दन जगत तार ॥

जय सुमति सुमति दायक विशेष, जय पद्मप्रभ लख पद्म लेख
जब २ सुपार्स हर कर्म फास, जय जय चंद्रप्रभ सुख निवास ॥
जब घुष्पदन्त कर कर्म अंत, जय शीतल जिन शीतल करन्त
जय श्रेय करन श्रेयान्स देव, जय वासुपूज्य पूजत सुमेव ॥
जय विमल विमल कर जगतजीव, जय २ अनंत सुख अतिसदीव
जय धर्मधुरन्धर धर्मनाथ, जय शांति जिनेश्वर मुक्ति साथ ॥
जय कुंभुनाथ शिव-सुख निधान, जय अरह जिनेश्वर मुक्तिखान
जय मल्लिनाथ पद पद्म भास, जय मुनिसुव्रत सुव्रत प्रकाश ॥
जय जय नर्मिदेव दयाल सन्त, जय नेमिनाथ तसुगुख अनन्त ।
जय पारश प्रभु संकट निवार, जय वर्द्धमान आनन्दकार ॥
नवग्रह अरिष्ट जब होय आय, तब पूजै श्रीजिनदेव पाय ।
मन वच तन मन सुखसिंधु होय, ग्रहशांत रीति यह कही जोय ॥

ॐ ह्रीं सर्वग्रहारिष्टनिवारकश्रीचतुर्विंशतितीर्थकरजिनेन्द्रेभ्यः
पंचकल्याणकप्राप्तेभ्यो महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

चौबीसों जिनदेव प्रभु, ग्रह सम्बन्ध विचार ।
पुनि पूजों प्रत्येक तुम, जो पाऊं सुख सार ॥

इत्याशीर्वादः ।

सर्वग्रह शान्ति मन्त्रका जाप ।

ॐ ह्रीं ह्रीं हूं ह्रीं ह्रः असिआउसा सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ।
(अतः इस मन्त्रकी माला फेरनेसे सर्वग्रहोंकी शान्ति होती है।)

(प्रत्येक पूजा)

सूर्यग्रह अरिष्टनिवारक श्रीपद्मप्रभपूजा

सोरठा

पूजो पद्म जिनेंद्र, गोचर लग्न विषे यदा ।
सूर्य करै दुखदद, सुख होवे सब जीव को ॥

अडिल्ल ।

पंच कन्याणक सहित, ज्ञान पंचम लसै,
समोसन सुख साध, मुक्तिमांही वसै ।
आह्वानन कर तिष्ठ, सन्निधी कीजिये,
सूरज ग्रह हो शांत, जगतसुख लीजिये ॥

ॐ ह्रीं सूर्यग्रहारिष्टनिवारक श्रीपद्मप्रभजिन अत्र अवतर
अवतर संवौषट् (आह्वान) अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् ।
अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् सन्निधीकरणं ।

परिपुष्पांजलिंक्षिपेत् ।

अष्टक ।

छन्द त्रिभंगी ।

सोने की भारी सब सुखकारी, कीरोदधि जल भर लीजे ।
भव ताप मिटाई तृष्ण नसाई, धारा जिन चरनव दीजे ॥
षष्ठम प्रभ स्वामी शिवमन-गामी, भक्तिक मोह मुन कूजत हैं ।
दिनकर दुख जाई पाप नसाई, सब सुखदाई पूजत हैं ॥

ॐ ह्रीं सूर्यप्रहारिष्टनिवारकश्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्या-
णकप्रप्ताय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

मलियामिरि चन्दन दाह्निकंदन, जिनपद वदनं सुखदाई ।
कुमकुम जुत लीजे, अरचन कीजे, ताप हरीजे दुख जाई ॥
पद्मप्रभ स्वामी ०॥

ॐ ह्रीं सूर्यप्रहारिष्टनिवारकश्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्या-
णकप्रप्ताय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

तन्दुल गुण मंडित सुर भवि मंडित, पूजत पंडित हितकारी ।
अक्षय पद पावो अल्लत चदावो, गावो गुण शिव सुखकारी ॥
पद्मप्रभ स्वामी० ॥

ॐ ह्रीं सूर्यप्रहारिष्टनिवारकश्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्या-
णकप्रप्ताय अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

मचकुन्द मंगाके कमल चढ़ाके, बकुल बेल दृग चितहारी ।
मन्दिर ले आवो मदन नसावो, शिव सुख पावो हितकारी ॥
पद्मप्रभ स्वामी० ॥

ॐ ह्रीं सूर्यप्रहारिष्टनिवारकश्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्या-
णकप्रप्ताय दुर्घ्नं निर्वपामीति स्वाहा ।

गौ घृत ले धरिये, स्वाजे करिये, भरिये हाटकमय धारी ।
व्यंजन बहु लीजे, पूजा कीजे, दोष क्षुधादिक अघहासी ॥
पद्मप्रभ स्वामी० ॥

ॐ ह्रीं सूर्यप्रहारिष्टनिवारकश्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्या-
णकप्रप्ताय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

मखिदीपक लीजे धीव भरीजे, कीजे घनसारक वाती ।
जग जोति जगावे जगमग जगमग, मोहतिमिरकी है घाती ॥
पद्मप्रभ स्वामी० ॥

ॐ ह्रीं सूर्यप्रहारिष्टनिवारकश्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्या-
णकप्रप्ताय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

कालागुरु धूप अधिक अनूट, निर्मलरूपं घनसारं ।
खेवो प्रभु आगे पातक भागे, जागे सुख, दुख सब हरनं ॥
पद्मप्रभ स्वामी० ॥

ॐ ह्रीं सूर्यप्रहारिष्टनिवारकश्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्या-
णकप्रप्ताय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीफल ले आवो सेव चढावो, अन्य अमरफल अविकारं ।
बांझितफल पावो जिनगुण गावो, दुख दरिद्र वसु कर्महरं ॥
पद्मप्रभ स्वामी० ॥

ॐ ह्रीं सूर्यप्रहारिष्टनिवारकश्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्या-
णकप्रप्ताय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जल चन्दन लाया सुमन सुहाया, तन्दुल मुक्तासम कहिये ।
चरु दीपक लीजे धूप सुखीजे, फल लै वसु कर्मन दहिये ॥
पद्मप्रभ स्वामी० ॥

ॐ ह्रीं सूर्यप्रहारिष्टनिवारकश्रीपद्मप्रभोजिनेन्द्राय पंचकल्याणकप्रप्ताय पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अडिल्ल ।

सलिल गंध ले फूल सुगंधित लीलिषे,
तन्दुल ले चह दीप धूप खेवीजिये ।
कमल-मोदको दोष तुरत ही धूजिये,
पद्मप्रभ जिनराज सुमन्मुख हूजिये ॥

ॐ ह्रीं मूयप्रहारिष्टनिवारकश्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्याणकप्रप्ताय पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

जय जय सुखकारी, सबदुखहारी, मारी-रोगादिक हरनं,
इत्यादिक आने, प्रभुगुण गावे, मंदरगिरि मज्जनकरणं ।
इत्यादिक साजै, दुन्दुभि बाजै, तीन लोक सेवत चरणां,
पद्मप्रभ पूजक, पातक धूजत, भव भव भव मांगत शरणां ॥

फद्धरी छंद ।

जय पद्मप्रभ-पूजा कराय, खरज ग्रह दूषण तुरत जाय ।
नौ बाजन समवसरन बखान, घण्टा भालर सोहत बित्तव ॥
शंतदिन्द्र निमत तिस चरम आय, दशशत गणकर शोभा बसाय
वाणी घनघोर छु घटा जोर, घन शब्द सुनत भवि नचै मोर ॥

भामण्डल-अम्भ-लसब भूर, चन्द्रादिक क्योटिक ज्ञानु सर ।
 तरु लसत अशोक महा उर्तंग, सब जीवन शोक हरै अर्भग ॥
 सुर सुमनादिक वर्षा कराय, चौसाठ चँवर प्रभु पर ढराय ।
 सिंहासन तीन त्रिलोक ईश, त्रय छत्र फिरै मग जड़त शीस ॥
 मन भई आवत मकन्दर मार, प्रय भूलितार सुन्दर अपार ।
 कन्याखक पांचों सुखनिधान, प्रंचमगाति दाता हैं सुजान ॥
 साडे बारा कोड़ी जु सार, बाजे तिस षेद काले अपार ।
 धरयोद्रेनरेन्द्रसुबेन्द्र ईश, त्रयलोक समत प्रसरि ऋषीश ॥
 सुर मुक्ति रमाकर नमस्त बाप, दोऊ हाथ बोजकर बारवार
 याके पद नमस्त आनन्द हाय, कृति भागे दिनकर छिपै जोय
 मन शुद्ध समुद्र हृदय विचार, सुखदाता सब जनको अपार
 मन वच तन कर पूजा निहार, कीजे सुखदायक जगतसार

ॐ ह्रीं श्रीसूर्यमहारिष्टनिस्वामकभीष्मामभजिनेन्द्राय नमः
 र्घपदप्राप्तये अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

घत्ता छन्द ।

सब जन्ताहितकारी, सुख अति भारी, आरा रोगादिक सुखी
 पायादिक यारै, अह निरवारै, भय्य जीव-सच सुख करणी ॥

इति आशीर्वादः परिपुण्यांजलिं विपेत् ॥

सर्वब्रह्म निवासाय नमः

ॐ ह्रीं श्रीपद्मप्रभजिनेन्द्राय नमः

चंद्र अरिष्टनिवारक श्रीचंद्रप्रभ पूजा ।

सोरठा

निशपति पीडा ठान, गोचर लग्न विष परे ।
वसु विधि चतुर सुजान, चन्द्रप्रभ पूजा करे ॥

अडिल्ल छंद ।

चंद्रपूरीके बीच चन्द्रप्रभ अवतरे,
लक्षण मोहे चन्द्र सवनक मन हरे ।
मव्य जीव सुखकाज द्रव्य ल धरत हें,
सोम दोषके हेत थापना करत ह ।

ॐ ह्रीं चन्द्रारिष्टनिवारक श्रीचन्द्रप्रभाजन अत्र अवतर २
संबीष्ट आह्वानं, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनं, अत्र मम सन्नि-
हितो भव भव वषट सन्निधीकरण, परिपुष्पाजलिं क्षिपेत् ।

अष्टक ।

कंचन झारी रतन जडात, क्षीरोदक भरि जिनहि चडात ।
जगत गुरु हा, जय जय नाथ जगत गुरु हो ॥
चन्द्रप्रभ पूजाँ मन लाय, सोम दाष ताँ मिट जाय ।
जगत गुरु हो, जय जय नाथ जगत गुरु हो ॥

ॐ ह्रीं चन्द्रारिष्टनिवारकश्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्पाणक-
प्राप्ताय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

मलियागिर केशर घनसार, चरचत जिन भवताप निवार । जगत०

ॐ ह्रीं चन्द्रारिष्टनिवारकश्रीचन्द्रप्रभजिन्द्राय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

खण्डरहित अक्षत शशिरूप, पुञ्ज चढाय हाय शिवभूप, । जगत०

ॐ ह्रीं चन्द्रारिष्टनिवारक श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय चदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

कमल कुन्द कमलिनी अभंग, कल्पतरु जस हरै अभङ्ग । जगत०

ॐ ह्रीं चन्द्रारिष्टनिवारकश्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

घेवर बावग मोदक लंड, दोष बुधाहर धार भरेउ ॥जगत०॥

ॐ ह्रीं चन्द्रारिष्टनिवारकश्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

मखिमयदीपक घृत जु भरेउ, वाती बरत तिमिर जु हरेउ । जगत०

ॐ ह्रीं चन्द्रारिष्टनिवारकश्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

कालागुरुकी कनी खिवाय, वसुविधि कर्मजु तुरत नसाय । जग०

ॐ ह्रीं चन्द्रारिष्टनिवारक श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्याणक
प्राप्ताय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीफल अदि सदा फल लेउ, चोचमोचअमृतफल देउ । जगत०

ॐ ह्रीं चन्द्रारिष्टनिवारकश्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय पंचकल्याणक-
कप्राप्ताय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जल मन्थं पुष्प शालि मैवेद्य, दीप धूप फल सै अनिवेद्य ।
 जगत गुरु हो, जय जय नाथ जगत गुरु हो ॥
 चन्द्रप्रभ पूजौ मन लाय, सोम दोष तातै मिट जाय ।
 जबत गुरु हो, जय जय नाथ जगत गुरु हो ॥

ॐ ह्रीं श्रीचन्द्रारिष्टनिवारकश्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय पंचकन्यास-
 णकप्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अडिल्ल छंद ।

जल चन्दन बहु फल जु तदुल लीञ्जिये,
 दुग्ध शर्करा सहित सु विंजन कीजिये ।
 दीप धूप फल अर्घ वटाय धरीजिये,
 पूजौ सोम जिनेन्द्र सुदुःख हरीजिये ।

ॐ ह्रीं चंद्रारिष्टनिवारकश्रीचंद्रप्रभजिनेन्द्राय पंचकन्यास-
 णकप्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

चन्द्रप्रभचरण्यं, सब सुख भरण्यं, करण्यं आतमहित अतुलं
 दर्दजु हरण्यं, भव जलतरण्यं, मरनहनं शुभकर विपुलं ॥

त्रोटक छंद ।

भक्ष्य-मन हृदय मिथ्यात-तम नाशकं ।
 केवलज्ञान जग-सूर्य-प्रतिभाभकं ॥

चंद्रप्रभचरण मनहरण सब सुखकरं ।
 शाकिनी भूत ग्रह सोम सब दुखहरं ॥
 वर्धनं चन्द्रका धर्म जलनिधि महत् ।
 जगत सुखकारशिव-मार्ग प्रभुने गहा ॥ चन्द्रप्रभ० ॥
 ज्ञान गंभीर अतिधीर वरवीर हैं ।
 तीन लोक सब जन्तुके मीस् हैं ॥ चन्द्रप्रभ० ॥
 विकट कंदर्पकौ दर्प छिनमें हरा ।
 कर्म वसु पाय सब आप ही तैं भरा ॥ चन्द्रप्रभ० ॥
 सामपुर नगमें जन्म प्रभुने लहा ।
 क्रोध छल लोभ मद मान माया दहा ॥ चन्द्रप्रभ० ॥
 देह जिनराजकी अधिक शोभा धरे ।
 स्फटिकमणि कांति तांही देख लज्जा करे ॥ चन्द्रप्रभ० ॥
 आठ अरु एक हज्जार लक्षण महा ।
 दाहिने चरणको निशपति गह रहा ॥ चन्द्रप्रभ० ॥
 कहत मनसुख श्रीचन्द्रप्रभ पूजिये ।
 सोम दुख नाशके जगत भय धूजिये ॥
 चन्द्रप्रभचरण मनहरण सबसुखकरं ॥
 शाकिनी भूत ग्रह सोम सब दुखहरं ॥

ॐ ह्रीं चन्द्रारिप्रतिवारकश्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय नमः ॥
 प्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

[३४४]

दोहा ।

पाप तापके नाशकां, धर्मामृत रसकूप ।
चंद्रग्रह जिन पूजिये, होय जो आनंद भूप ॥

इति आशीर्वादः ।

(चन्द्रग्रह निवारणका जाप)

ॐ ह्रीं चन्द्रग्रहजिनेन्द्राय नमः ।

मंगल अरिष्टनिवारक श्रीवासुपूज्यका पूजा ।

दोहा ।

वासुपूज्यजिन चरणयुग, भूसुत दोष पलाय ।
ताते भवि पूजा करो, मनमें अति हरषाय ॥

अडिल्ल छंद ।

वासुपूज्यके जन्म समय हरषायके,
आये गज ले साज इन्द्र सुख पायके ।
ले मंदरगिरि जाय जु न्हवन करायके,
सोंपे माता जाय जो नाम धरायके ॥

ॐ ह्रीं भौमअरिष्टनिवारकश्रीवासुपूज्यजिन । अत्र अवतर
अवतर संबौषट् आह्वानं, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनं, अत्र मम
सन्निहितो भव भूष षट् सन्निधीकरणं ।

कनकभारी अधिक उत्तम रतनजडित सु लीजिये,
पद्मद्रहको जल सुगंधित कर धार चरनन दीजिये ।
भूतनय दूषण दूर नाश जु सफल आरत टारके,
श्रीवासुपूज्य जिन चरन पूजों हर्ष उरमें धारके ॥

ॐ ह्रीं भौमअरिष्टनिवारकश्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय पंचकल्याणकप्राप्ताय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीखण्ड मलय जु महा शीतल सुरभि चन्दन घिस धरौं ।
जिन चरन चरचौं भविक हित सौ, पाप ताप सबै हरौं ॥
भूतनय० ॥

ॐ ह्रीं भौमअरिष्टनिवारकश्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय पंचकल्याणकप्राप्ताय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

अक्षत अखण्डित सुरभिमंडित धार भर कर भै गहों ।
अक्षत सु पुञ्ज दिवाय जिनपद, अखय पद भै जो लहों ॥
भूतनय० ॥

ॐ ह्रीं भौमअरिष्टनिवारकश्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय पंचकल्याणकप्राप्ताय अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

कमल कुंद गुलाब चम्पा, पारिजातक अतिघने ।
पहुप पूजत चरण प्रभुके, कुसमशर तब हो हने ॥
भूतनय० ॥

ॐ ह्रीं भौमअरिष्टनिवारकश्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय पंचकल्याणकप्राप्ताय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

बोसपि सद्य मंगाय भविजन, दुग्ध मिश्रित शकरी ।
चरु चारु लेकर जजो जनपद, लुधा वेदन सब हरी ॥
भूतनय० ॥

ॐ ह्रीं भौमअरिष्टनिवारकश्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय पंचकल्या-
णकप्राप्ताय नैवेद्य निर्वपामीति स्वाहा ।

मणिजडित कंचन दीप सुन्दर, सद्य घृत तामे भरो ।
उद्योत कर जिन चरण आगे, हृदय मिथ्यात्म हरों ॥
भूतनय० ॥

ॐ ह्रीं भौमअरिष्टनिवारकश्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय पंचकल्या-
णकप्राप्ताय दीप निर्वपामीति स्वाहा ।

काला अगर घनसार मिश्रित, देवफूल सुहावने ।
खेवत धुआ सो सुरंग मोदित, करत वसु कर्मन देने ॥
भूतनय० ॥

ॐ ह्रीं भौमअरिष्टनिवारकश्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय पंचकल्या-
णकप्राप्ताय धूप निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीफल अनार जो आम नीबू, चोच मोच सुधाफल ।
जिन चरन चरचत फलन सेती, माच फलदाता रत्न ॥
भूतनय० ॥

ॐ ह्रीं भौमअरिष्टनिवारकश्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय पंचकल्या-
णकप्राप्ताय फल निर्वपामीति स्वाहा ।

जल बन्ध अक्षत पुष्प व्यंजन, दीप धूप फलोत्तम ।
जिनराज अर्घ च्छाय भविजन, सेउ मुक्ति सुखोत्तम ॥
भूतनय ॥

ॐ ह्रीं भौमअरिष्टनिवारकश्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय पंचकल्पा-
णकप्राप्तय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अडिल्ल छन्द ।

सुरभित जल श्रीखण्ड कुसुम तंबुल मले,
व्यंजन दीपक धूप सदा फल सों रले ।
वासुपूज्य जिन चरण अर्घ शुभ दीर्घिण,
मंगलग्रह दुख टार सो मंगल लीर्घिण ॥

ॐ ह्रीं भौमअरिष्टनिवारकश्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय पंचकल्पा-
णकप्राप्तय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

मंगलग्रहहरनं मंगलकरनं, सुखकर शिव-रक्षणी वरनं ।
आतमहितकरनं भवजलतरनं, वासुपूज्य सेवक चरनं ॥

पद्दरी छन्द ।

इन्द्र नरेन्द्र खगेन्द्र जु देव, आय करे जिनवरकी सेव ।
वासुपूज्य जिन पूजा करो, मंगल दोष सकल बहिरो ।टेका।
विजया जननी मन हर्षाय, जनक जु वसुपूज्य सुखदाय ।वा०॥

शुभ लक्षण कर लक्षितकाय, चम्पापुर जनमे जिनराय ॥वा०॥
 महिष अंक चरननमे परो, देखत सबको संशय हरो ॥वा०॥
 फागुन प्रसि जो चौदश जान, हो वराग्य सुधरियो ध्यान ॥वा०॥
 घात घातिया कवल पाय, जैनधर्म जगमें प्रगटाय ॥ वा० ॥
 षट शत एक मुनीश्वर भया, गिरिमन्दार शिव लहि गयो ॥वा०॥
 मंगल हेतु जजो जिनराय, मंगल ग्रह दूषण मिटजाय ॥वा०॥

घत्ता छद ।

पूजन प्रभुकी कीजे, दोष हरीज छीजे पातक जन्म जरा ।
 सुख हो अधिकारी ग्रहदुखहारी, भवजल भारी नीर तरा ॥

ॐ ह्रीं भौमअरिष्टनिवारकश्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय पंचकल्या
 णकप्राप्तये महार्घे निर्वपामीति स्वाहा ।

(मङ्गल ग्रहनिवारन का जाप)

ॐ ह्रीं श्रीवासुपूज्यजिनेन्द्राय नमः

बुधग्रह अरिष्टनिवारक पूजा ।

सोम्य ग्रह पीडा करे, पूजो आठ जिनेश ।
 आठों गुण जिनमें वसें, नावत शीस सुरेश ॥

छप्पय ।

विमलनाथ जिन नमों, नमों जु अनन्तनाथ जिन ।
 धर्मनाथ जिन बंदि बंदि हौं, शान्ति शान्ति जिन ॥

कुंधु अरह नमि सुमरि, सुमरि पुन वर्धमान जिन ।
 इन आठों जिन जजो, भजो सुख करन चरन तिन ॥
 बुध महाग्रह अशुभता, धरत करत दुख जार जब ।
 आब्दानन कर तिष्ठ तिष्ठ, सन्निधी करहु पव ॥

ॐ ह्रीं बुधमहारिष्टनिवारका श्रीअष्टजिना अत्र अवतरत
 अवतरत संवैपट् आह्वानं, अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः स्थापनम्,
 अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् सन्निधीकरणं ।

परिषुष्यांजलि क्षिपेत् ।

अष्टक ।

गीतिका छन्द ।

हेम भारी जड़ित मन जल, भरों चीरोदक तन,
 धार देत जिनराज आगे, पाप ताप जु नाशन ।
 विमलनाथ अनंतनाथ, सु धर्मनाथ जु शांत जे,
 कुंध अरह जु नमिय जिन, महावीर आठोंजिन जजे ॥

ॐ ह्रीं बुधमहारिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो जलं निर्वपामि ।
 सुरमि सुरमित लेउ चन्दन, घिसों कुमकुम संगही ।
 जिन चरन चरचत मिटे ग्रीषम, मोह ताप जु भागही ॥
 विमलनाथ० ॥

ॐ ह्रीं बुधमहारिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यः चन्दनं निर्वपामि ।

अस्य अखण्ड उभय कोटि, सखान शुभ ज्ये अत्रि चने ।
 ले कनक धार भस्त्रय भविजन, पुञ्ज देत सुहावने ॥
 त्रिमलनाथ० ॥

ॐ ह्रीं बुधप्रहारिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो अक्षतान् निर्वपामि ।
 मन्दार माली मालती, सचकुन्द सरुवो मोतिय ।
 कमल कुन्द कुसुम करन, काम वान जु घातिया ॥
 विमलनाथ० ॥

ॐ ह्रीं बुधप्रहारिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो पुष्प निर्वपामि ।
 घृत शुद्ध मिश्रित शर्करामृत, करहु व्यजन भावसों ।
 ग्रह शान्तिक होत जिनके, चरन चरचों चावसों ॥
 विमलनाथ० ॥

ॐ ह्रीं बुधप्रहारिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो नैवेद्य निर्वपामि ।
 मणिजड़ित हाटक दीप सुन्दर, वातिका घनसार है ।
 सर्पि सहित शिखा प्रकाशित, आरती तमहार है ॥
 विमलनाथ० ॥

ॐ ह्रीं बुधप्रहारिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो धूप निर्वपामि ।
 लोभान अगर कपूर चन्दन, लौग चूरन लाह्ये ॥
 बन्धि धूम विवर्जिता, खिन चरन आगे खेह्ये ॥
 विमलनाथ० ॥

ॐ ह्रीं बुधप्रहारिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो धूम निर्वपामि ।

कल्पपादव जिन श्रीफले, फल समूह चढ़ाइये ।
भक्ति भाव बढ़ाय करके, सरल श्रीफल लाइये ॥
विमलनाथ० ॥

ॐ ह्रीं बुधप्रहारिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो फलं निर्वपामि ।
शुभ सलिल चंदन सुमन अक्षत, बुधाहर चरु लीजिये ।
मणिदीप धूपक फल सहित, वसु द्रव्य अर्घ करीजिये ॥
विमलनाथ० ॥

ॐ ह्रीं बुधप्रहारिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो अर्घं निर्वपामि ।
दोहा ।

जल चन्दन आदिक दरक, पूजो वसु जिनराथ ।
सौम्य ग्रह दूषण मिटे, पूरन अर्घ चढ़ाय ॥

ॐ ह्रीं बुधप्रहारिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो महाअर्घं निर्वपामि ।

जयमांसा ।

विमलनाथ जिन नमों, नमों जु अनन्तनाथ जिन,
धर्मनाथ पुनि नमों, नमों शान्तिकर्ता तिन ।
कुंधुनाथ पद वन्दि, वन्दि हों अरहनाथ जिन,
नमिय प्रणमि जिन पांय, पाय जिन वर्धमान जिम ॥

इन आठों जिनराजको, हृद्यजोड़ फिर चस्त हों ।
सोमस्तनुज दुखहरनको, अंगल आसति करत हों ॥

पद्धरी छन्द ।

जय विमल विमल आतम प्रकाश,
 षड् द्रव्य चराचर लोक वास ।
 जय जय अनन्त गुण हैं अनन्त,
 सुर नर जस गावत लहे न अन्त ॥

जय धर्म-धुरन्धर धर्मनाथ,
 जगजीव टधारन मुक्ति-साथ ।
 जय शान्तिनाथ जग शान्ति करन,
 भव जीवनके दुख-दरिद्र हरन ॥

जय कुन्धु जिनं कुन्थादि जीव-
 प्रतिपालन कर सुख दे अतीव ।
 जय अरह जिनेश्वर अष्ट कर्म-
 रिपु नाशि लियो शिव रमन शर्म ॥

जय नमिय नमिय सुर वर खगेश,
 इन्द्रादि चन्द्र धुति करत शेष ।
 जय वर्धमान जग-वर्धमान,
 उपदेश देय लहि मुक्ति थान ॥

शशि-सुत अरिष्ट सब दूर जाय,
 भवि पूजे अष्ट जिनेन्द्र पाय ।
 मन बच तनकर जुग जोड़ हाथ,
 मनसिन्धु जलधि तब नवत माथ ॥

ॐ ह्रीं बुधप्रहारिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो अर्घं निर्वपामि ।
 ये आठ जिनेश्वर, नमत सुरेश्वर, भव्यजी । मंगल करनं ।
 मनबांछित पूरे, पादक चूरे, जन्ममरख-सागर तरनं ॥
 इत्याशीर्वादः ।

(बुधग्रहनिवारक जाप)

ॐ ह्रीं श्रीचिमलानंतधर्मशान्तिकुन्धभरनमिबद्धमानजिनेन्द्रेभ्यो
 नमः ।

गुरु अरिष्टनिवारक श्रीजिनपूजा ।

दोहा ।

मन वच काया शुद्ध कर, पूजो आठ जिनेश ।
 गुरु अरिष्ट मव नाश हो, उपजे सुकत्व विशेष ॥

छप्पय ।

श्रुषभनाथ जिनराज, अजित जिन सम्भव स्वामी ।
 अभिनन्दन जिन सुमति, सुपारस शीतल स्वामी ॥
 श्री श्रेयांस जिनदेव, सेव सब करत सुरासुर ।
 मनबांछित दातार, भारजित तीन लोक गुरु ॥

संघोषट् ठः ठः तिष्ठ सुसन्धिधि हूजिये ।
 गुरु अरिष्टके नाशको, आठ जिनेश्वर पूजिये ॥

ॐ ह्रीं गुरुअरिष्टनिवारकअष्टजिना अत्र अवतरत २ संघो-
 षट् । अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः । अत्र मम सन्निहिता भवत २ षट् ।

अष्टक ।

उज्वल जल लीजे, मन शुचि कीजे, हाटकमयमङ्गल भरं,
जिन धार दि आई, तृषा नमाई, भवजलनिधि वे पार परं ।
शुषभ अजित संभव अभिनन्दन, सुमति सुपारसनाथ वरं,
शीतलनाथ श्रेयांस जिनेश्वर, पूजत सुरगुरु दोषहरं ॥

ॐ ह्रीं गुरुअरिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो जलं नि० ।

मलयागिर चन्दन, दाहनिकन्दन, कुमकुम शुभ ल घनसारं
चरचो जिनचरनं, भवतपहरनं, मनवाञ्छित सब सुखनिकरं

शुषभ अजित संभव० ॥

ॐ ह्रीं गुरुअरिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो चन्दनं नि० ।

सरल शाली कृष्ण जीरक, वासमती जो मनहरनं ।
उभय कोटक अरु अखण्डित, अखयगुण शिवपदधरं ॥

शुषभ अजित संभव० ॥

ॐ ह्रीं गुरुअरिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो अक्षतं नि० ।

चम्पक चमेली, करन केतकी, मालती मरुवो मोलसरं ।
कमल कुसुद गुलाब कुँदल, मरन जुही शिव-तिय वरं

शुषभ अजित संभव० ॥

ॐ ह्रीं गुरुअरिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो पुष्पं नि० ।

घेवरहि सुखावर पुवा पुरैये, मोदक फैनी घेवरं ।

सुरहि घृत पय शर्कराजुत, विविध चरु दुधद्वयकरं । ऋषभ०

ॐ ह्रीं गुरुअरिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो नैवेद्यं नि० ।

माणक जडित, सुवर्ण थाल ले, कदलीमुत घृत मांदि तरं ।

दीपक उद्योतं, तम द्यय होतं, जिन गुण लखि भा भारभरं ॥

ऋषभ अजित संभव० ॥

ॐ ह्रीं गुरुअरिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो दीपं निर्वपामि ।

चंदन अगर, लोंग सुतरंग, विविध द्रव्य ले सुखमितरं ।

खवत जिन आगे, पातक भागे, धुवां मिम वसु कर्मजरीं । ऋषभ०

ॐ ह्रीं गुरुअरिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो धूपं निर्वपामि ।

बादाम सुपारी, शीफल भारी, चोच मोच कमरख सुवरीं ।

लैके फल नाना, शिब सुख धाना, जिनपद पूजत देत तुरं ॥

ऋषभ अजित संभव० ॥

ॐ ह्रीं गुरुअरिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो फलं निर्वपामि ।

जल चंदन फूलं, तंदुल तूलं, चरु दीपक लै धूप फलं ।

वसुविधिसे अरचे, वसुविधि विरचे, कीजे अविचल मुक्तिधरं ।

ऋषभ अजित० ॥

ॐ ह्रीं गुरुअरिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो अर्घं निर्वपामि ।

अहिल्ला छन्द ।

मन वच काया शुद्ध पवित्र जु हूजिये,
लेकर आठों दरव आठ जिन पूजिये ।
मंगलीक वसु वस्तु पूर्ण सब लीजिये ,
पूरन अर्घ-मिलाय आरती कीजिये ॥

ॐ ह्रीं गुरुभारष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो महार्घे नित्यं नमः ॥

जयमाला ।

सुरगुरुदुखनाशन, कमलपत्रासन, वसुविधि वसुजिन पूजकरं
मम मम अघहरनं, सबसुखकरनं भव्यजीव शिवधामकरं ॥

पदरी छन्द ।

जय धर्म धुरंधर ऋषभ धार, जयमुक्तिकामिनी कत सार ।
जयअजित कर्मअरि प्रवलजान, जय शीतलनाथ वसुगुणनिधान
जय संभव संभव दंभछेद, जय मुक्तिरमा लक्ष्या अखेद ।
जय अभिर्नंदन आनंदकार, जय जय शिवसुखकर्ता अपार ॥
जय मुमतिदेव देवाधिदेव, जय शुभगतिजुत सुर करहिं सेव ।
जय जय सुपारर्षसुख परमज्ञान, जय लोकालोकप्रकाशमान ॥
जय जन्मजरामृतवह्नि हर्न, जय तिनका हमको नित्य शर्ष ।
जय श्रेयकरन श्रेयांसनाथ, जय श्रेयसुपद दय मुक्ति साथ ॥

जय जय गुणगारिमा जगप्रधान, जय मन्व्य कमल परकाश भान
जय मनसुखसागर नमत शीस, जय सुरगुरु दोषन भेट ईश ॥
ॐ ह्रीं गुरुभारिष्टनिवारकश्रीअष्टजिनेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा
दोहा ।

आठ जिनेश्वर पूजते, आठ कर्म दुख जाय ।
अष्टसिद्धि नबनिधि लहैं, सुरगुरु होय सहाय ॥

इति आशीर्वादः ।

(गुरु ग्रह निवारण की जाय)

ॐ ह्रीं श्रीऋषभाजितसुपारर्वाभिनन्दनशीतलसुमतिर्बभूव-
भ्रयासनाथजिनेन्द्रेभ्यो नमः ।

शुक्रअरिष्टनिवारकश्रीपुष्पदंतपूजा ।

दोहा ।

पुष्पदंत जिनराजको, भवि पूजो मन लाय ।
मन बच काया शुद्धसो, कवि अरिष्ट मिट जाय ॥

अडिल्लछन्द ।

गोचरमें ग्रह शुक्र आय जब दुख करै,
पुष्पदंतजिन पूज सकल पातक हरै ।

आह्वानन कर तिष्ठ सन्निधि हूजिये,
आठ द्रव्य ले शुद्ध भावसों पूजिये ॥

ॐ ह्रीं शुक्रअरिष्टनिवारकश्रीपुष्पदंतजिन ! अत्र अवतर
अवतर, संवौषट् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनं । अत्र मम
सन्निहितो भव वषट् ।

अष्टक

मारठा ।

निर्मल शीत सुभाय, गंगाजल भारी भरो ।

कवि अरिष्ट मिट जाय, पुष्पदंत पूजा करों ॥

ॐ ह्रीं शुक्रअरिष्टनिवारकश्रीपुष्पदंतजिनाय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

कुमकुम लेइ घिमाय, कनक कटारी मे धरौं ।

कवि अरिष्ट मिट जाय, पुष्पदंत पूजा करौं ॥

ॐ ह्रीं शुक्रअरिष्टनिवारकश्रीपुष्पदंतजिनेन्द्राय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

तन्दुल अक्षत लाय, भाव सहित तुषपरिहरो ।

कवि अरिष्ट मिट जाय, पुष्पदंत पूजा करौं ॥

ॐ ह्रीं शुक्रअरिष्टनिवारकश्रीपुष्पदंतजिनेन्द्राय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

कमल चमेली जाय, जुही कुन्द जु केवरो ।

कवि अरिष्ट मिट जाय, पुष्पदंत पूजा करौं ॥

ॐ ह्रीं शुक्रअरिष्टनिवारकश्रीपुष्पदंतजिनेन्द्राय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

व्यंजन विविध बनाय, मधुर स्वाद जुत आचरो ।
कवि अरिष्ट मिट जाय, पुष्पदंत पूजा करौं ॥

ॐ ह्रीं शुक्रअरिष्टनिवारकश्रीपुष्पदंतजिनेन्द्राय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

कंचन दीप कराय, कदलीसुत वाती करौं ।
कवि अरिष्ट मिट जाय, पुष्पदंत पूजा करौं ॥

ॐ ह्रीं शुक्रअरिष्टनिवारकश्रीपुष्पदंतजिनेन्द्राय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

अगर कपूर मिलाय, लोग धूप बहु विस्तरो ।
कवि अरिष्ट मिट जाय, पुष्पदंत पूजा करौं ॥

ॐ ह्रीं शुक्रअरिष्टनिवारकश्रीपुष्पदंतजिनेन्द्राय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

चांच मोच फल पाय, सरस पक्व लीजा हरो ।
कवि अरिष्ट मिट जाय, पुष्पदंत पूजा करौं ॥

ॐ ह्रीं शुक्रअरिष्टनिवारकश्रीपुष्पदंतजिनेन्द्राय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

नीशदिक लै आय, अर्घ देव पातक हरो ।
कवि अरिष्ट मिट जाय, पुष्पदंत पूजा करौं ॥

ॐ ह्रीं शुक्रअरिष्टनिवारकश्रीपुष्पदंतजिनेन्द्राय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अडिल्ल ।

जल चन्दन ले फूल और अक्षत घने ,

दीप धूप नैवेद्य सुफल मनमोहने ।

गीत नृत्य गुण गाय अर्घ पूरण करों ,

पुष्पदन्त जिन पूज शुक्र दूषण हरो ।

ॐ ह्रीं शुक्रअरिष्टनिवारकश्रीपुष्पदंतजिनेन्द्राय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय महाअर्घ निवेपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

मन वच तन ध्याआ, पाप नसाओ, सब सुख पाओ अघ हरणी
ग्रहदूषण जाई, हर्ष बढ़ाई, पुष्पदंत जिनवरचरण ॥

पद्वरी छन्द ।

जय पुष्पदन्त जिनराज देव, सुर असुर सकल मिल करहि सेव

जय फागुन सुदि नौमी बखान, सुरपति सुर गर्भकन्यान ठान ॥

जय मार्गशीर्ष शशिव उदय पक्ष, नौमी तिथि जग में भये प्रत्यक्ष

जय जन्ममहोत्सव इन्द्र आय, सुरगिरि ले इन्द्र नखन कराया ॥

जय वज्रवृषभनाराच देह, दसशतवसु लक्ष्य सुनहिं गेह ।

जय राजनीति कर राज कीन, मगसिरसित पढ़वा तपसु हीन ॥

जय धाति धातिया कर्म धीर, जिन आतमशक्ति प्रकाश बीर ।

जय कातिक सुदि दुतिया महान, लहि केवलज्ञान उद्योत मान ॥

जय भव्यजीव उपदेश देय, जग जलधि उवारन मुजस लेय ।
जय भादों सुदि आठें प्रसिद्ध, इनि शेषकर्म प्रभु भये सिद्ध ॥
जय जय जगदीश्वर भये देव, भृगुतनहि दोष हर करत सेव ।
जय मनबंधित तुम करत ईश, मनशुद्धजलधि तुम नमत शीघ्र ॥

ॐ ह्रीं शुक्रअरिष्टनिवारकश्रीपुष्पदंतजिनेन्द्राय पंचकल्याणक-
प्राप्ताय अर्घे निर्वपामीति स्वाहा ।

सब गुण अधिकारी, दूषणहारी, मारी रोगादिक हरनं ।
भृगुसुत दुख जाई, पाप मिटाई, पुष्पदन्त पूजत चरनं ॥

इति आशीर्वादः

(शुक्रग्रह निवारण का जाप)

ॐ ह्रीं श्रीपुष्पदंतजिनेन्द्राय नमः ।

शनिअरिष्टनिवारक श्रीमुनिसुव्रत पूजा ।

दोहा

जन्म लग्न गोचर समय, रविसुत पीड़ा देय ।
तब मुनिसुव्रत पूजिये, पातक नाश करेय ॥

अद्विल्ल छंद

मुनिसुव्रत जिनराज, काज निज करन को ,
सूर्यपुत्र ग्रह क्रूर-अरिष्ट जु हरन को ।

आह्वानन कर तिष्ठ तिष्ठ, ठः ठः करो,
होय सन्निधि जिनगाय, भव्य पूजा करो ।

ॐ ह्रीं शनिअरिष्टनिवारक श्रीमुनिसुव्रतजिन अत्र अवतर
अवतर संवौषट् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ. ठः, अत्र मम सन्निहितो
भव भव वषट ।

अष्टक ।

चाल कातक ।

प्राणी गंगादक ले सीयरा, निर्मल प्रासुक ले नीर हो ।
प्राणी भागी भर त्रय धारदे, जासे कर्म—कलंक मिटाय हो ॥

प्राणी मुनिसुव्रत जिन पूजिये० ॥

ॐ ह्रीं शनिअरिष्टनिवारकश्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय पंचकल्या-
णकप्राप्तय जलं निवपामीति स्वाहा ।

प्राणी चन्दन घिस मलियागिरो, अरु कुमकुम ताम डार हो
प्राणी जिनपद चरचो भावसों, जासों जन्म जरा जर जाय हो

प्राणी मुनिसुव्रत जिन पूजिये० ।

ॐ ह्रीं शनिअरिष्टनिवारकश्रीमुनिसुव्रतजिनन्द्राय पंचकल्या-
णकप्राप्तय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्राणी उज्वल शशिसम लीजिये, एजी तंदुल कोट समान हो
प्राणी पांच पुंज दे भावसों, अचय पद सुखदाय हो ॥

प्राणी मुनिसुव्रत जिन पूजिये० ।

ॐ ह्रीं शनिअरिष्टनिवारकश्रीमुनिसुब्रतजिनेन्द्राय पंचकल्याणकप्राप्तय अक्षतं निवपामीति स्वाहा ।

प्राणी बेल चमेली केवड़ो, करना कुमुद गुलाब हो ।
प्राणी केतकी दल ले पूजिये, तब कामवाण मिटजाय हो ॥

प्राणी मुनिसुब्रत जिन पूजिये० ॥

ॐ ह्रीं शनिअरिष्टनिवारकश्रीमुनिसुब्रतजिनेन्द्राय पंचकल्याणकप्राप्तय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्राणी व्यंजन नाना भांति बे, एजी षट्स कर संयुक्त हो ।
प्राणी जिनपद पूजो भावसां, तब जाय लुधादिक रोग हो ॥

प्राणी मुनिसुब्रतजिन पूजिये० ॥

ॐ ह्रीं शनिअरिष्टनिवारकश्रीमुनिसुब्रतजिनेन्द्राय पंचकल्याणकप्राप्तय नैवेद्यं निवपामीति स्वाहा ।

प्राणी रतनजोत तमनाशनी, कर दीपक फंचनधार हो ।
प्राणी जिनआरतिकर भावसां, एजी भवआरततम जाय हो ॥

प्राणी मुनिसुब्रत जिन पूजिये० ॥

ॐ ह्रीं शनिअरिष्टनिवारकश्रीमुनिसुब्रतजिनेन्द्राय पंचकल्याणकप्राप्तय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्राणी चन्दन अगार कपूर ले, सब खंवा पातक माहिं हो ।
प्राणी अष्ट करम जर चार हों, जिन पूजत सब सुख होय हो ॥

प्राणी मुनिसुब्रत जिन पूजिये० ॥

ॐ ह्रीं शनिअरिष्टनिवारकश्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय पंचकल्याणकप्राप्ताय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्राणी आम अनार पियूषफल, एजी चोच मोच बादाम हो ।

प्राणी फलसों जिनपद पूजिये, एजां पावे शिवफल सार हो ॥

प्राणी मुनिसुव्रत जिन पूजिये० ॥

ॐ ह्रीं शनिअरिष्टनिवारकश्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय पंचकल्याणकप्राप्ताय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्राणी नीरादिक वसु द्रव्य ले, मन वच काय लगाय हो ।

प्राणी अष्टकर्मका नाश हा, एजी अष्टमहागुण पाय हो ॥

प्राणी मुनिसुव्रत जिन पूजिये० ॥

ॐ ह्रीं शनिअरिष्टनिवारकश्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय पंचकल्याणकप्राप्ताय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अडिल्ल छन्द ।

जल चन्दन ले फूल और अक्षत घने,

चरु दीपक बहुधूप महाफल सोहने ।

पूरण अर्घ बनाय जिन आगे हूजिये,

मुनिसुव्रत जिनराय भावसों पूजिये ॥

ॐ ह्रीं शनिअरिष्टनिवारकश्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय पंचकल्याणकप्राप्ताय पूरणं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

दोहा ।

मुनिसुब्रत सुब्रत करन, त्याग करन जगजाल ।

शनिग्रह पीड़ा हरनका, पढ़ो हर्ष जयमाल ॥

पदरी छन्द ।

जय जय मुनिसुब्रत त्रिजगराय,

शत इन्द्र आय माथा नमाय ।

जय जय पद्मावति गर्भ आय,

सावन वदि दुतिया हर्षदाय ॥

जय जय सुमित्र घर जन्म लीन,

वैशाख कृष्ण दशमी प्रवीन ।

जय जय दश अतिशय लसत काय,

त्रयज्ञान सहित हित मित कहाय ॥

जय जय तन लक्ष्मि सहस आठ,

भवि जीवन में शुतिकरन पाठ ।

जय जय सौधर्म सुरेश आय,

जन्म कन्याशक करियो सभाय ॥

जय जय तप ले वैशाख मास,

मुदि दशमी कर्म कलंक नाश ।

जय जय वैशाख जो असित पक्ष,
नौमी केवल लहि जग प्रतल ॥

जय जय रचियो तब समवपरन,
सुर नर स्वर्ग मुनि के चितहरन ।

जय छियालीस गुण सहित देव,
शत इन्द्र आय तहां करत मेव ॥

जय जय फागुन वदि द्वादशीय,
शिवथान बसे मुनि सिद्ध लीय ।

जय जय शनि पीड़ा हरन हेतु,
मनसुखसागर कर सुखनिकेत ॥

ॐ ह्रीं शनिअरिष्टनिवारकश्रीमुनिसुव्रतजिनेन्द्राय अनघपद-
प्राप्तये अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

घत्ता छन्द ।

मुनिसुव्रत स्वामी, सब जग नामी, भव्य जीव बहु सुखकरनं ।
मनवांछित पूरै, पातक चूरै, रविमुतग्रहपीड़ाहरनं ॥

इति आशीर्वादः ।

(शनि ग्रहनिवारणका जाप)

ॐ ह्रीं श्रीमुनिसुव्रतनाथजिनेन्द्राय नमः ।

राहुअरिष्टनिवारकश्रीनेमिनाथजिनपूजा ।

अडिल्ल छन्द ।

गोचर में जब आय राहु पीड़ा करे,
 नेमिनाथ जिनराज तब पूजा करे ।
 आठ द्रव्य ले शुद्धभाव हि आनके,
 श्याम पुष्प मन लाय भक्तिको ठानके ॥
 पूजों नेमि जिनेश भव्य चित्त लायके,
 राहु देय दुख दुष्ट राशिमें आयके ।
 कर आह्वानन तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः उच्चरों,
 होय सन्निधि शक्ति भक्ति पूजा करों ॥

ॐ ह्रीं राहुअरिष्टनिवारक श्रीनेमिनाथजिन अत्र अवतर
 अवतर संवौषट् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो
 भव भव षषट् । परिपुष्पांजलि क्षिपेत् ।

अष्टक ।

गीतिका छन्द ।

कनकभारी मणिजडित ले, शीत उदक भरायके,
 प्रभु नेमि जिनके चरन आगे, धार दे मन लायके ।
 जब राहु गोचर समय दुख दे, देव दुष्ट स्वभावसौं,
 तब नेमि जिनके भावसेती, चरन पूजों चावसौं ॥

ॐ ह्रीं राहुअरिष्टनिवारकश्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय जलं नि० ।

श्रीखण्ड मलय मिलाय केशर, कदलिपुत तामें घिसैं ।
जिन चरण चरचत भाव धरके, पाप ताप सबै नसैं ॥
जब राहु गोचर० ॥

ॐ ह्रीं राहुअरिष्टनिवारकश्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय चन्दनं नि० ।
अक्षत अनूपम सालिसम्भव, कनक भाजन लेइये ।
जिन अप्रपुंज चढ़ाय भविजन, एक चित मन देइये ॥
जब राहु गाचर० ॥

ॐ ह्रीं राहुअरिष्टनिवारकश्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अक्षतं नि० ।
कमल कुन्द गुलाब गुंजा, केतकी करना भले ।
सुमन लेके सुमन सेती, पूजते जिन, अघ टले ॥
जब राहु गोचर० ॥

ॐ ह्रीं राहुअरिष्टनिवारकश्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय, पुष्पं० ।
विंजन विविधरस जनित मनहर लुधादूषणको हरे ।
भर धार कंचन भाबसेती, नेमि जिन आगे धरे ॥
जब राहु गोचर० ॥

ॐ ह्रीं राहुअरिष्टनिवारकश्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय नैवेद्यं नि० ।
मणिमई दीप अनूप भरके चन्द्रज्योति सु जगमग ।
निज हाथ लै प्रभु आरती कर, मोहतम तब ही भगें ॥
जब राहु गोचर० ॥

ॐ ह्रीं राहुअरिष्टनिवारकश्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय दीपं ।

कृष्णागरु लामान लेके, और द्रव्य सुगन्धमय ।
जिन चरख आगे अग्निपर धर, धूप धूम बिनमय ॥

जब राहु गोचर० ॥

ॐ ह्रीं राहुअरिष्टनिवारकश्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय धूप० नि० ।
अम्बा बिजोरा नारियल, श्रीफल सुपारी सेबकी ।
फल ले मनोहर सरस मीठे, पूजले जिनदेवकी ॥

जब राहु गोचर० ॥

ॐ ह्रीं राहुअरिष्टनिवारकश्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय फलं नि० ।
जल गन्ध अक्षत पुष्प सुरभित, चरु मनोहर स्त्रीजिये ।
दीप धूप फलौष सुन्दर, अर्घ जिन पद दीजिये ॥

जब राहु गोचर० ।

ॐ ह्रीं राहुअरिष्टनिवारकश्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अर्घं नि० ।

अबिल्ल छंद

आठ द्रव्य ले सार नेमि प्रभु पूजिये,
राहु होय ग्रह शान्ति पाप सब धूजिये ।
मनबंधित फल पाय होय बड़भाग सो,
जो पूजे जिनदेव बड़े अनुराग सो ॥

ॐ ह्रीं राहुअरिष्टनिवारकश्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय अर्घं नि० ।

जयमाला ।

श्री नेमि जिनेश्वर, जगपरमेश्वर, जीवदया जु घुरंघरनं ।
मै शरणा आयो, शीश नमायो, सिन्धुसुत दूषण हरनं ॥

पद्धरी छन्द ।

जय जय नेमि सुनेमि धार,
करुणा कर जग जन जलधि तार ।
जय कातिक सुदि छटमी प्रधान,
शिवदेवी उर अबतरे आन ॥
जय जय सावन सुदि छट सुदेव,
इन्द्रादि न्हवनविधि करहि सेव ।
जय जय यदुकुलमंडित दिनेश,
सुर नर खग स्तुति करत शेष ॥
जय जय शुचिशुक्ल उदास होय,
छठको तप कर जिन आत्म जोय ।
जय जय निर्मल तन निर्विकार,
भामंडल छवि शोभा अपार ॥
जय जय आश्विन सुदि ज्ञान भान,
तिथि प्रथम पहर जग सुख निधान ।
जय जय भवि जन उपदेश देय,
मुनि पंचम गति साधन करेव ॥

जय जय स्रवण-शुक्ल पद्म,
 सब लोकालोक कियो प्रत्यक्ष ।
 जय जय वसु विधि विधि मकल नास,
 लहि सुख अनन्त शिव लोक वास ॥
 जय जय अजरामर प्रद प्रधान,
 हा त्रिभुवनपति लोकेश्वर धन ।
 जय जय छाया-सुत परिहरान,
 मनसुख ममुद्र लु भईये शरान ॥

ॐ ह्रीं राहुअरिष्टनिवारकश्रीनेमिनाथजिनेन्द्राय नमः ।

घत्ता छन्द ।

भवि जन सुखदाई, होउ सदाई, मन बच कस्य आवत-हों ।
 सब दूषण जाई, पाप नसाई, नेमि सदाई आवत-हों ॥

आशीर्वादः ।

(राहु ग्रहनिवारण-का जाप)

ॐ ह्रीं श्री नेमिनाथजिनेन्द्राय नमः ।

केतुअरिष्टनिवारक श्रीमल्लि, पार्वनाथपूजा ।

दोहा ।

केतु आय गोचर विषे, करे इष्टकी हान ।
मल्लि पार्व जिन पूजये, मन वाञ्छित सुख खान ॥

अडिल्ल ।

मल्लि पार्व जिनदेव सेव, बहु कीजिये,
भक्ति भाव वसुद्रव्य शुद्ध कर लीजिये ।
आह्वानन कर तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः करो,
मम सन्निधि कर पूज हर्ष हियमें धरों ॥

ॐ ह्रीं केतुअरिष्टनिवारकौ श्रीमल्लिनाथपार्वनाथजिनौ अत्र
अवतरतां अवतरतां संवौषट् । अत्र तिष्ठतां तिष्ठतां ठः ठः । अत्र
मम सन्निहितौ भवतां भवतां वषट् ।

चाल नंदीश्वर ।

उत्तम गंगाजल लाय, मखिमय भर भारी,
जिन चरण धार दे सार, जन्म जरा हारी ।
मैं पूजों मल्लि जिनेश, पारस सुखकारी,
ग्रह केतु अरिष्ट निवार, मनसुख दितकारी ॥

ॐ ह्रीं केतुअरिष्टनिवारकश्रीमल्लिनाथपार्वनाथजिनेन्द्राभ्यां
जलं निर्बपामीति स्वाहा ।

भां खण्ड मलय तरु न्याय, कदलीसुत ढासी ।

धिस केसर चरखनि न्याय, भवआताप हरी ॥ मै पूजो०

ॐ ह्रीं केतुअरिष्टनिवारकभीमल्लिनाथपार्वजिनेन्द्राभ्या
चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

तंदुल अक्षत अविहार, मुक्तासम सोहै ।

भरले हाटकमय थाल, सुर नर मन मांहे ॥ मै पूजो०

ॐ ह्रीं केतुअरिष्टनिवारकश्रीमल्लिनाथपार्वनाथजिनेन्द्राभ्या
अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

लै फूल सुगंधित सार, अलि गुंजार करे ।

पद पकज जिनहि चढ़ाय, काम विथा जु हरै ॥ मै पूजो०

ॐ ह्रीं केतुअरिष्टनिवारकभीमल्लिनाथपार्वनाथजिनेन्द्राभ्या
पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

विंजन बहुत प्रकार, पट्टस स्वादमई ।

चरु जिनवर चरख चढ़ाय, कश्चन थार लई ॥ मै पूजो० ॥

ॐ ह्रीं केतुअरिष्टनिवारकभीमल्लिनाथपार्वनाथजिनेन्द्राभ्यां
नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

मणिदीपक तूप भराय, चंद्रकनी बाती ।

जगज्यांति जहां लहकाय, मोहतिमिर घाती ॥ मै पूजो० ॥

ॐ ह्रीं केतुअरिष्टनिवारकभीमल्लिनाथपार्वनाथजिनेन्द्राभ्यां
दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

कुप्यागर्हं धंद्यं लाय, धूप दहन स्वेई ।

मोहित सुरमण्य हूँ जाय, रुचि सेती लेई ॥ मं पूजो० ॥

ॐ ह्रीं केतुअरिष्टनिवारकश्रीमल्लिनाथपार्वनाथजिनेन्द्राभ्या
धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

बहु चोच माच बादाम, श्रीफल फल देई ।

अमृत फल सुख बहु धाम, लीजे मन लेई ॥ म पूजो० ॥

ॐ ह्रीं केतुअरिष्टनिवारकश्रीमल्लिनाथपार्वनाथजिनेन्द्राभ्या
फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जल चन्दन सुमन सुलेय, तंदुल अघहारा ,

चरु दीप धूप फल लेई, अर्घं करु भारी ।

मं पूजो मल्लि जिनेश, पारस सुखकारी ,

ग्रह सेतु अरिष्ट निवार, मनसुख हिनकारी ॥

ॐ ह्रीं केतुअरिष्टनिवारकश्रीमल्लिनाथपार्वनाथजिनेन्द्राभ्या
अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अङ्गिष्ठ छन्द ।

लै वसु द्रव्य विशेष सु मङ्गल नाथके,

गीत नृत्य करवाय जु तूर्यं बजायके ।

मनम हर्ष बढ़ाय, अर्घं पूरख करों,

केतु दोषका मेंट पाय सब परिहरौ ॥

ॐ ह्रीं केतुअरिष्टनिवारकश्रीमल्लिनाथपार्वनाथजिनेन्द्राभ्या
महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

जय मल्लि जिनेसुर, सेव करें सुर,
 पार्वनाथ जिन चरण नर्मों ।
 मन वच तन लाई, स्तुति गाई,
 करौं अमरती पाप थमो ॥ १ ॥
 पद्धरी छन्द ।
 जय जय त्रिभुवनपति देव देव,
 इन्द्रादिक सुर नर करहिं सेव ।
 जय जय जिनगुण ज्ञायक महंत,
 गुण वर्णन करत न लहत अंत ॥ २ ॥
 जय जय परमात्म गुणसरिष्ठ,
 भव-पद्धति नाशन परम हृष्ट ।
 जय जय अष्टादश दोष नाश,
 कर दिनसम लोकालोक भास ॥ ३ ॥
 जय जय वसु कर्म कलंक छीन,
 सम्यक्त आदि वसु सुगुण सीन ।
 जय जय वसु प्रतिहारज अनूप,
 वसुमी शुभ भूमिके भये सुख ॥ ४ ॥

जय जय अदेह तुम देह धार,
 वर्यादि रहित है रूप सार ।
 जय जय अजरामरपद प्रधान,
 गुणज्ञान अलाकालोक भान ॥
 जय जय सुखसाता बोधदर्श,
 निजगुणजुत परगुण नहीं पर्श ।
 जय जय चित्तशुद्ध समुद्रसार,
 कर जोर नमों हों बार बार ॥

ॐ ह्रीं केतुअरिष्टनिवारकश्रीमल्लिनाथपार्श्वनाथजिनेन्द्राभ्यां
 अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

आशीर्वादः ।

(केतुग्रहनिवारणजाप)

ॐ ह्रीं श्रीमल्लिनाथपार्श्वनाथजिनेन्द्राभ्यां नमः ।

अथ नवग्रहशांति स्तोत्र ।

जगद्गुरुं नमस्कृत्य, श्रुत्वा सद्गुरुभाषितं ।
 ग्रहशांतिं प्रवक्ष्यामि, लोकानां सुखहेतवे ॥
 जिनेन्द्राः खेचरा ह्येया, पजनीया विधिक्रमात् ।
 पुण्यविलेपनैर्धूर्त्तैर्नैर्घैः स्तुष्टिहेतवे ॥

पद्मप्रभस्य मार्तण्डश्चन्द्रश्चन्द्रप्रभस्य च ।
 वासुपूज्यस्य भृगुप्रो, बुधश्चाष्टजिनेशिनं ॥
 विमलानन्तधर्मस्य, शांतिकुन्धनमेस्तथा ।
 वर्द्धमानजिनेन्द्रस्य, पादपद्मं बुधो नमेत् ॥
 ऋषभाजितसुपार्श्वाः साभिनन्दनशीतलो ।
 सुमतिः सम्भवस्वामी, श्रेयांसेषु बृहस्पतिः ॥
 सुविधिः कथितः शुक्रे, सुव्रतश्च शनैश्चरे ।
 नेमिनाथो भवेद्द्राहोः, केतुः श्रीमल्लिपार्श्वयोः ॥
 जन्मलग्नं च राशिं च, यदि पीडयन्ति खेचराः ।
 तदा संपूजयेद् धीमान्-खेचरान् सह तान् जिनान् ॥
 भद्रबाहुगुरुर्वाग्मी, पंचमः श्रुतकेवली ।
 विद्याप्रसादतः पूर्वं ग्रहशांतिविधिः कृता ॥
 यः पठेत् प्रातरुत्थाय, शुचिर्भूत्वा समाहितः ।
 विपत्तितो भवेच्छान्तिः क्षेमं तस्य पदे पदे ॥

गौतम स्वामी (गुणावा पूजा)

अडिल्ल छन्द ।

प्रान्त बिहार मंझार गुणावा ग्राम है,
 गौतम स्वामी जहां लयो शिवधाम है ।

सरस्व करे मध्य सिद्धथल है कहा,
करि आह्वानन थापि जजनपद है चहा ॥

दोहा ।

ग्राम गुणावा सों भये, गौतम गणि निर्वाण ।
करि आह्वानन थापि तिन, जजहु जारि जूष पान ॥

ॐ ह्रीं गुणावाप्रामस्थसरोवरान् मोक्षप्राप्त श्रीगौतमस्वामिन्
अत्र अवतर अवतर संवोषट् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र मम
सन्निहितो भव भव वषट् ।

अडिल्ल छन्द ।

निर्मल शीतल नीर गंगसां लीजिये,
करि प्रासुक तिहि गालि हेम कुंभ कीजिये ।
ग्राम गुणावा जाय सुमन हरषाय के,
गौतम स्वामी चरण जजा मन लाय के ॥

ॐ ह्रीं गुणावाप्रामसरोवरमध्यमोक्षप्राप्ताय श्रीगौतमस्वामिन्
जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

मलयागिरि बरदारु लेय हरषाय के,
घसि कुंकुम करपूर मुकुम्भ भराय के ।
ग्राम गुणावा जाय० ॥

ॐ ह्रीं गुणावाप्रामसरोवरमध्यमोक्षप्राप्ताय श्रीगौतमस्वामिने
चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ॥

कमोद भिन्नकर श्यामि अलङ्कित लीजिये,
धुलि हुक्कासक हेमयाल भरि कीजिये ।
ग्राम गुणावा जाय० ॥

ॐ ह्रीं गुणावाप्रामसरोवरमध्यमोक्षप्राप्ताय श्रीगौतमस्वामिने
अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

सुमन सुगन्धित बेल चमेली आनिये,
क्योंडा पाटल अञ्ज निवारा जानिये ।
ग्राम गुणावा जाय० ॥

ॐ ह्रीं गुणावाप्रामसरोवरमध्यमोक्षप्राप्ताय श्रीगौतमस्वामिने
पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्धचन्द्र सा हाल मादकहि कीजिये,
फेनी खुरमा हेम थाल भरि लीजिये ।
ग्राम गुणावा जाय० ॥

ॐ ह्रीं गुणावाप्रामसरोवरमध्यमोक्षप्राप्ताय श्रीगौतमस्वामिने
नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

दीपक घृत करपूर मशिन के जानिये,
जनके होत उदोत मोह तम हानिये ।
ग्राम गुणावा जाय० ॥

ॐ ह्रीं गुणावाप्रामसरोवरमध्यमोक्षप्राप्ताय श्रीगौतमस्वामिने
क्षीरं निर्वपामीति स्वाहा ।

धूप दशांगी लेय अग्नि मह ज्ञेपिये,

धूप गंध सौं अलि गण नाचत पेखिये ।

ग्राम गुणावा जाय० ॥

ॐ ह्रीं गुणावाग्रामसरोवरमध्यमोक्षप्राप्ताय श्रीगौतमस्वामिने
धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

चोच मोच सहकार नरंगी जानिये,

नरियल पिस्ता दाख छुडाग आनिये ।

ग्राम गुणावा जाय० ॥

ॐ ह्रीं गुणावाग्रामसरोवरमध्यमोक्षप्राप्ताय श्रीगौतमस्वामिने
फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जल फल आदिक द्रव्य एकठी लीजिये,

कंचन थारा धारि अरघ शुभ कीजिये ।

ग्राम गुणावा जाय सुमन हर्षाय के ,

गौतम स्वामी चरण जजों मन लाय के ॥

जयमाला ।

छन्द त्रिभंगी ।

धर ग्राम गुणावा, शिवको ठांवा भरम नशावा मनन करो,

जहं गौतमस्वामी, अंतरयामी, भे शिव गामी ध्यान धरो ।

तिहि थलपर जाई, मन डरषाई, जिन गुणगाई भाव धरो,

मुनि गौतम चरणा, भवभ्रम हरणा, गहि तिन शरणा पूजकरो ॥

पद्मरी छन्द ।

प्रान्त बिहारके मध्य जान, वर ग्राम गुणावा किय बखान ।
 है छोटासा यह ग्राम थान, नहिं जैनिन का कोई घर सुजान ॥
 है सरवरकेरे मध्य जान, गौतम स्वामी को मोक्ष थान ।
 अति सुघर बना मंदिर सुजान, मुनि गौतमचरण त्रिराजमान ॥
 मंदिर श्वेताम्बरि को कहाय, दीगाम्बरि पूजत हैं सुजाय ।
 निर्वाण भये जब वीरदेव, तब रक्षा चतुर्थो काल एव ॥
 तिम अंतर में गौतम सुजान, है लयो ज्ञान केवल बखान ।
 तिन गंधकुटी रचो धनद आन, घर्मोपदंश बहुकियो जान ॥
 फिर गमन आरज के मंभार, आष गुणावा करते विहार ।
 ह्यां कर्म अघाती घात कीन, इक ममय मांदि शिववाम लीन ॥
 हरि इत कन्याणक कियो आय, बहु नृत्य मान उदमव वराय ।
 धरि चार शीश सुर किय पयान, भया वंदनीक सो मोक्षथ न ॥
 भवि पूजे बंदे थान जाय, ते लहैं पुण्य पातक नशाय ।
 सुत कन्हई लज मन मोह लाय, भगवानदास नमै शीशनाय ॥

घत्तानन्द छन्द ।

वर ग्राम गुणावै जेभवि पूजैं गौतम ऋषिकी मुक्ति थली ।
 बहु पुण्य कमावैं पाप नशावैं कीरति जग फैले उजली ॥

दोहा ।

ग्राम गुणावा जाय भवि, पूजैं गौतम स्वामि ।
 ते अनधन परिवार लहि, लहैं मोक्ष को घाम ॥

इत्याशीर्वाद ।

जम्बूस्वामी पूजा ।

अष्टिल्ल छन्द ।

विद्युन्माली देव चयो भौ जम्बूस्वामी,
कामदेव अवतार अन्त केवलि जग नामी ।
पञ्चम कार काल मांहि शिव नारि वरी है,
करि आह्वानन थापि जोर कर पूज करी है ॥

दोहा ।

जम्बू स्वामी जो भये, मथुरा सों निर्वान ।
करि आह्वानन थापि इत, पूजहुं पद धर ध्यान ॥

ॐ ह्रीं चौरासीमथुरास्थलात् मोक्षप्राप्त श्रीजम्बूस्वामिन् अत्र
अवतर अवतर संवौषट् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र मम
सन्निहितो भव भव वषट् ।

अष्टिल्ल छन्द ।

निर्मल शीतल नार गंग कौ लीजिये,
करि प्रासुक तिहि गालि हेम कुंभ कीजिये ।
मथुरा जम्बूस्वामी मुक्ति थल जायके,
पूजिय मवि धरि ध्यान सुयोग लगाय के ॥

ॐ ह्रीं चौरासीमथुरास्थलात् मोक्षप्राप्ताय श्रीजम्बूस्वामिने जलं
निर्वपामीति स्वाहा ।

चन्दन शीतल लाय मिश्र कुंकुम करी,
घसि कदलीसुत सहित हेम कुंभन भरी ॥ मथुरा० ॥

ॐ ह्रीं चौरासीमथुरास्थलात् मोक्षप्राप्ताय श्रीजम्बूस्वामिने
चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

फ्लिनवर गोरि कमोद श्याम जीरा कहे,
खण्ड रहित अनियार धोय भरि थाल हे ॥मथुरा० ॥

ॐ ह्रीं चौरासीमथुरास्थलान् मोक्षप्राप्ताय श्रीजम्बूस्वामिने
अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

बेल चमेलि गुलाब जुही कपोड़ा कही,
कुदं ने वारि अब्ज थाल भरि के लही ॥ मथुरा० ॥

ॐ ह्रीं चौरासीमथुरास्थलात् मोक्षप्राप्ताय श्रीजम्बूस्वामिने
पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

नेवज विविध प्रकार लुधा गद को हरै,
रसपूरित रसगुन्ला थाल भरि के करै ॥ मथुरा० ॥

ॐ ह्रीं चौरासीमथुरास्थलान् मोक्षप्राप्ताय श्रीजम्बूस्वामिने
नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

घृत करपूर मणि दीप थाल धरि भानिये,
जिनके होत उदोत मोहतम भानिये ॥ मथुरा० ॥

ॐ ह्रीं चौरासीमथुरास्थलात् मोक्षप्राप्ताय श्रीजम्बूस्वामिने
दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

धूप दशांगी लेष अग्निमह क्षापये,
गंध पाय अलि छाये नाचते पेस्त्रिये ॥ मथुरा० ॥

ॐ ह्रीं चौरासीमथुरास्थलात् मोक्षप्राप्ताय श्रीजम्बूस्वामिने
धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

चोच मोच सहकार नरंगी लाय के,
नरियर पिस्ता दाख अनार मिलाय के ॥ मथुरा० ॥

ॐ ह्रीं चौरासीमथुरास्थलात् मोक्षप्राप्ताय श्रीजम्बूस्वामिने
फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जल फल आदिक द्रव्य आठहू लीजिये,
करि इकठी भरि थाल अर्घ शुभ कीजिये ॥ मथुरा० ॥

ॐ ह्रीं चौरासीमथुरास्थलात् मोक्षप्राप्ताय श्रीजम्बूस्वामिने
अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

त्रिभंगी छन्द ।

जम्बू धामरं, ललित ललामर, मथुरागामर हिय सुमिरो,
बसु द्रव्यन लाई, तिहि थल जाई, अर्घ बनाई मनन करो ।
बहु जिन गुण गाई, मन हरषाई, पाठ पढ़ाई भाव धरो,
पावन चौरासी, बहु सुखरासी, शिवथल वासी पूज करो ॥

पदरी छन्द ।

चय ब्रह्म स्वर्ग सुर गर्भ आन,
 घर सेठ राजगृह नगर जान ।
 लहि जन्म बाल कीड़ा करीन,
 जग अधिर दशा तन घ्यान दीन ॥ १ ॥

चय कुँवर ।कया परियन उछाह,
 दान्हा कुमार चौ नारि व्याह ।
 रतनन दीपक महलन जराय,
 बैठी बनिता टिग हुँवर आय ॥ २ ॥

बहु ज्ञान वार्ता तिन कहाय,
 रागादिक मोह दय छुडाय ।
 तब बिद्यु त्प्रभ इक चोर आन,
 रसभीनी आठ कथा बखान ॥ ३ ॥

ताकँ वैराग्य कथा कहाय,
 निज तत्वरूप दीन्हा दिखाय ।
 है जग असार नहि सार कोय,
 है शरख जीव को नहीं कोय ॥ ४ ॥

मधि चौरासी लख योनि जान,
 एकाकी भरमत जीव मान ।

कहि द्वादश भावन भाय देव,
 बहु जनयुत कीन्ही वीर सेव ॥ ५ ॥
 धरि दीक्षा चौथो ज्ञान पाय,
 अघि सप्त तर्ब प्रगटी जो आय ।
 सन्मति गौतम धर्मा सुजान,
 शिव लहो तबै केवल लहान ॥ ६ ॥
 निरअक्षर वाणी खिरी जान,
 तत्वन को इम कीन्ही बखान ।
 आपापर सों बहु नेह धार,
 चैतन्य नचै चहुँ गति मझार ॥ ७ ॥
 जब आतम ज्ञान करे प्रकाश,
 तब कर्म अनदी होहि नाश ।
 षट द्रव्यन को कीन्हीं बखान,
 जीवादिक की चर्चा महान ॥ ८ ॥
 प्रभु द्विविधि धर्म कीन्हीं बखान,
 मुनि भावक को जो है सुजान ।
 पुनि आरज में कीन्ही निहार,
 जम्बू बन में आयोग धार ॥ ९ ॥
 तब कर्म अघाती करि विनाश,
 हक समय मांहि किय शिवनिवास ।

प्रतिवर्ष कृष्ण क्रातिक मङ्गल ।

रथ यात्रा मेला होत सार ॥ १० ॥

बहुदिश सों यात्री जुटत आन,

गीतादिक उत्सव हो महान ।

बहु मुखिन के उपदेश होत,

निश दिवस बहत आनन्द श्रोत ॥ ११ ॥

जे पूजें बन्दें आन जाय,

सो बहुत पुण्य प्राणी लहाय ।

सुत कन्हईलाल सो थल निहार,

भगवानदास नमें शीश धार ॥ १२ ॥

घत्तानन्द छन्द ।

मथुरापुर जावे, मन हरषावे, जम्बूस्वामी पूज करै ।

बहु पुण्य उपावे, पाप नशावे, आतम निर्मल भाव धरै ॥

काव्य छन्द ।

उदय भाग्यवश भग्य मथुर वीरासी जावे,

जम्बूस्वामी चरण पूजि वह पुण्य उपावे ।

सो अन धन परिवार बहुत संपति को पावे,

वीरासी को काटि पदै अविनाशी पावे ॥

निवाणक्षेत्र पूजा ।

सोरठा ।

परम पूज्य चौबीस, जिहं जिहंथानक शिव गये ।

सिद्धभूमि निशदीस, मन्वचतन पूजा करों ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं चतुर्विंशतितीर्थकरनिर्वाणक्षेत्राणि । अत्र अवतरत
अवतरते सवौषट ।

ॐ ह्रीं चतुर्विंशतितीर्थकरनिर्वाणक्षेत्राणि । अत्र तिष्ठत तिष्ठत
ठ ठ ।

ॐ ह्रीं चतुर्विंशतितीर्थकरनिर्वाणक्षेत्राणि । अत्र मम
सन्निहितानि भवत भवत षषः ।

गाता छन्द ।

शुचि क्षीरदधिसम नीर निरमल, कनकभ्रागोमें भरी,
संसार पार उतार स्वाधी, जार कर विनती करो ।

सम्भेदगढ़ गिरिनार चंपा, पावापुरि कैलाशकों,
पूजों सदा चौबीसजिन निर्वाणभूमि निवासको ॥

ॐ ह्रीं चतुर्विंशतितीर्थकरनिर्वाणक्षेत्रेभ्यो जलं निर्वपामीति
स्वाहा ॥ १ ॥

केसर कपूर रुगंध चंदन सलिलशीतल विस्तरौ ।

मवतापको संताप भेटो, जोर वर विनता करौं ।

सम्भेदगढ़ गिरिनार० ॥

ॐ ह्रीं चतुर्विंशतितीर्थंकरनिर्वाणक्षेत्रेभ्यः चन्द्रं निर्वपामि
मीति स्वाहा ।

माती समान अखंड तंदुल, अमल आनंद धरि तरौ ।
ओगुन हरौ गुन करी हमको, जोरकर विनती करौ ।
सम्मदगढ़ गिरनार० ॥

ॐ ह्रीं चतुर्विंशतितीर्थंकरनिर्वाणक्षेत्रेभ्यो अक्षतं निर्वपामि
मीति स्वाहा ।

शुभफूलराम सुवासवासित, खेद सब मनकौ हरौ ।
दुखधाम काम विनाश मेरो, जोरि कर विनती करौ ।
सम्मदगढ़ गिरनार० ॥

ॐ ह्रीं चतुर्विंशत्तीर्थंकरनिर्वाणक्षेत्रेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति
स्वाहा ।

नवज अनक प्रकार जोग, मनाग धरि भव परिहरौ ।
यह भूखदूषन टार प्रभुजी, जोरकर विनती करौ ॥
सम्मदगढ़ गिरनार० ॥

ॐ ह्रीं चतुर्विंशतितीर्थंकरनिर्वाणक्षेत्रेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामि
मीति स्वाहा ।

दीपक प्रकाश उजास उज्जल, तिमिरसेती नहि डरौ ।
संशयविमोहविभर्तमहर, जोरकर विनती करौ ॥
सम्मदगढ़ गिरनार० ॥

ॐ ह्रीं चतुर्विंशतितीर्थंकरनिर्वाणक्षेत्रेभ्यो दीपं निर्वपामीति
स्वाहा ।

शुभ धूप परम अनूप पावन, भाव पावन आचरौ ।
सब करममपुंज जलाय दीजे, जोर कर विनती करौ ॥
सम्मदगढ़ गिरनार० ॥

ॐ ह्रीं चतुर्विंशतितीर्थं करनिर्वाणक्षेत्रेभ्यो धूपं निर्वपामी० ।
बहु फल मंगाय चढ़ाय उत्तम, चारगतिसौं निरवरौ ।
निश्चैं द्रुकतिफल देहु मोकों, जोरकर विनती करौ ॥
सम्मदगढ़ गिरनार० ॥

ॐ ह्रीं चतुर्विंशतितीर्थं करनिर्वाणक्षेत्रेभ्यो फलं निर्वपामी० ।
जल गंध अद्भुत फूल चरु फल दीय धुपायन करौं ।
'घानत' करो निरभय जग तैं, जोरकर विनती करौं ॥
सम्मदगढ़ गिरिनार चंपा, पावापुरि कैलाशकों ।
पूजों सदा चौबीसजिन, निर्वाणभूमि निवासकों ॥
ॐ ह्रीं चतुर्विंशतितीर्थं करनिर्वाणक्षेत्रेभ्यो अर्घं निर्वपामी० ।

जयमाला ।

सोरठा ।

श्री चौबीस जिनेश, गिरिकैलाशादिक नमों ।
तीरथ महाप्रदेश, महापुरुष निरवान तैं ॥ १ ॥

चौपाई १६ मात्रा ।

नमों अष्टम कैलास पहारं, नेमिनाथ गिरनार निहारं ।
वासुपूज्य चंपापुर बंदौं, सनमति पावापुर अभिनंदौं ॥ २ ॥

बंदौ अजित अजित पद दाता, बंदौ संभव भवदुखघाता ।
 बंदौ अभिनंदन गणनायक, बंदौ सुमति सुमतिके दायक ॥३॥
 बंदौ पदम मुर्कतपदमाधर, बंदौ सुपार्स आशपासाहर ।
 बंदौ चंद्रप्रभ प्रभु चंदा, बंदौ सुविधि सुविधिनिधि कंदा ॥४॥
 बंदौ शीतल अघतपशीतल, बंदौ श्रियांस श्रियांस महीतल ।
 बंदौ विमल विमलउपयोगी, बंदौ अनंत अनंतसुखभोगी ॥५॥
 बंदौ धर्म धर्मविसतारा, बंदौ शांति शांतमनधारा ।
 बंदौ कुंथु कुंथुरखवालं, बंदौ अर अरिहर गुनमालं ॥ ६ ॥
 बंदौ मल्ल काममल चूरन, बंदौ मुनिसुव्रत व्रतपूरन ।
 बंदौ नमि जिन नमित सुगसुर, बंदौ पास पासअमजरहर ॥७॥
 बीसौ सिद्धभूमि जा ऊपर, शिखरसमेद महागिरि भूपर ।
 एक बार बंदे जा कोई, ताहि नरकपशुगति नहिं होई ॥८॥
 नरगति नृप सुरशक्र कहावै, तिहुं जग भोग भोगि शिव पावै ।
 विघ्नविनाशक मंगलकारी, गुणविलास बंदै नरनारी ॥ ९ ॥

छंद घन्तानन्द ।

जा तीरथ जावे, पाप मिटावै, घ्यावै गावं भगति करे ।
 ताको जस कहिये, संपति लहिये गिरिके गुण को बुध उचरै ॥
 ॐ ह्रीं चतुर्विंशतितीर्थे करनिर्वाणक्षेत्रेभ्योऽर्घं निर्वधनी स्वाहा ॥

श्रीऋषिमण्डलपूजाभाषा ।

देहा ।

चौबीस जिन पद प्रथम नाम, दुतिय सुगणधर पांय ।
 तृतिय पंच परमेष्ठि को, चौथे शारद माय ॥
 मन वच तन ये चरनधुग, करहुं सदा परनाम ।
 ऋषिमण्डल पूजा रत्ना, वृषि बल द्यो अमिराम ॥

अडिल्ल छन्द ।

चौबीस जिन वसु वी पंच गुरु जे कहे,
 रत्नत्रय चव देव चार अवधी लहे ।
 अष्ट ऋद्धि चव दोय सूर हीं तीन जू,
 अरहंत दश दिक्पाल यन्त्र में लीन जू ॥

देहा ।

यह सब ऋषिमण्डल विषै, देवी देव अपार ।
 तिष्ठ तिष्ठ रक्षा करो, पूजूं वसु विधि सार ॥

ॐ ह्रीं वृषभादिचतुर्विंशतितीर्थङ्करअष्टवर्गअर्हदादिपंचपद-
 दर्शनज्ञानचारित्रसहितचतुर्णिकायदेवचतुःप्रकारअवधिधारकश्रम-
 णअष्टऋद्धिसंयुक्तचतुर्विंशतिमूर्तिह्रींअहेद्बिम्बदशदिक्पालयंत्र-
 सम्बन्धिपरमदेवा अत्र अवतरत अवतरत संवौषट् आह्वानं ।
 अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः स्थापनं । अत्र मम सन्निहिता भवत
 भवत वषट् सन्निधीकरगाम् ।

हरिगीता छन्द ।

क्षीर उदधि समान निर्मल तथा मुनि-चित्त-सारसो ।
 भर भृङ्ग मणिमय नीर सुन्दर तृषा-तुरित निवार सो ॥
 जहां सुभग ऋषिमण्डल विराजै पूजि मन बच तन सदा ।
 जिस मनोवांछित विमल सबसुख स्वप्न में दुख नहिं कदा ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय यन्त्रसम्बन्धिपरमदेवाय
 जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

मलय चन्दन लाय सुन्दर गंध सों अलि भंकरै ।
 सो लेहु भविजन कुंभ भरिके तप्त दाह सबै हरै ॥
 जहां सुभग ऋषि० ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय यन्त्रसम्बन्धिपरमदेवाय
 चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

इन्दु किंश समान सुन्दर जोति मुक्ता की हरै ।
 हाटक रकेबी धारि भविजन अक्षय पद प्राप्ती करै ॥
 जहां सुभग ऋषि० ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय यन्त्रसम्बन्धिपरमदेवाय
 अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

पाटल गुलाब जुही चमेनी मालती बेला घने ।
 जिस सुगभितें कलहंस नाचत फूल गुधि माला घने ॥
 जहां सुभग ऋषि० ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय यन्त्रसम्बन्धिपरमदेवाय
पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्द्ध चन्द्र समान फेनो मादकादिक ले घने ।
घृतपक्क मिश्रित रस सु पूरे लख जुधा डायनि हने ॥
जहां सुभग ऋषि० ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय यन्त्रसम्बन्धिपरमदेवाय
नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

मणि दीप ज्योति जगाय सुन्दर वा कपूर अनूपकं ।
हाटक सुथाली मांदि धरिके वारि जिनपद भूपकं ॥
जहां सुभग ऋषि० ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय यन्त्रसम्बन्धिपरमदेवाय
दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

चन्दन सु कृष्णागरु कपूर मंगाय अग्नि जराइये ।
सो धूप-धूम्र अकाश लागी मनहुं कर्म उडाइये ॥
जहां सुभग ऋषि० ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय यन्त्रसम्बन्धिपरमदेवाय
धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

दाडिम सु श्रीफल आम्र कमरख और केला लाइये ।
मोच फल के पायव को आश धरि करि आइये ॥
जहां सुभग ऋषि० ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय यन्त्रसम्बन्धिपरमदेवाय
फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जल फलादिक द्रव्य लेकर अर्घ्य सुन्दर कर लिया ।
संसार राग निवार भगवन् वारि तुम पद में दिया ॥
जहां सुभग ऋषिमण्डल विराजै पूजि मन वच तन सदा ।
तिस मनोवाञ्छित मिलत सब सुख स्वप्न में दुख नहि कदा ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय यन्त्रसम्बन्धिपरमदेवाय
अर्घे निर्बपामीति स्वाहा ।

अर्घावली ।

अडिङ्ग छन्द ।

ऋषभ जिनेश्वर आदि अन्त महावीर जी,
ये चौविस जिनराज हरे भवपीर जी ।
ऋषि-मण्डल विच ही विषे राजे सदा,
पूजूं अर्घ्य बनाय होय नहि दुख कदा ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय वृषभादिचतुर्विंशतितीथ-
ङ्करपरमदेवाय अर्घे निर्बपामीति स्वाहा ।

आदि कवर्ग सु अन्तजानि शाषासहा,
य वसुवर्ग महान यन्त्र में शुभ कदा ।
जल शुभ गंधादिक वरद्रव्य मंगायके,
पूजहुं दोऊ करजोर शीश निज नायके ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय कवर्गादिअष्टवर्गसहिताय
हल्लयूँ परमयंत्राय अर्घे निर्बपामीति स्वाहा ।

कावली मोहिनी छन्द ।

परम उत्कृष्ट परमर्षा पद पांच को,

नमत शतइन्द्र खगवृन्द पद सांच का ।

तिमिर अधनाश करण को तम अर्क हो,

अर्ध लेय पूज्य पद देत बुद्धि तर्क हो ॥

ॐ ही सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय पंचपरमेष्ठिरमदेवाय अर्ध
निर्वपामीति स्वाहा ।

सुन्दरी छन्द ।

सुभग सम्यग्दर्शन ज्ञान जू ,

कह चारित्र सुधाकर मान जू ।

अर्ध सुन्दर द्रव्य सु आठ ले,

चरण पूजहुं मात्र सु टाठ ले ॥

ॐ ही सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थेभ्यः सम्यग्दर्शदज्ञानचारित्रे-
भ्योऽर्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

हरिगीता छंद ।

भवनवासी देव व्यन्तर ज्यांतषी कल्पिन्द्र जू ,

जिनगृह जिनेश्वर देव राजै रत्न के प्रतिविम्ब जू ।

तोरण ध्वजा घण्टा विराजै चंवर ढरत नवीन जू ,

वर अर्ध ले तिन चरण पूजो हई हिय अति लीन जू ॥

ॐ ही सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय भवनेन्द्रव्यंतरेन्द्रव्योति-
रिन्द्रकल्पेन्द्रचतुःप्रकारदेवगृहेभ्यः श्रीजिनचैत्यालयसंयुक्तेभ्यः अर्धं
निर्वपामीति स्वाहा ।

बोद्धा ।

अवधि चार प्रकार मुनि, धरत जे ऋषिराय ।
अर्घ लेप तिन चरण जजि, विघन सघन मिटजाय ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थेभ्यः चतुःप्रकारअवधिधारक-
मुनिभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

भुजंगप्रयात छन्द ।

कहो आठ ऋद्ध धरे जे मुनीशं,
महा कार्यकारी बखानी गनीशं ।
जन गंध आदि दे जजो चर्न नरे,
लहो सुख सबेरे हरो दुःख फेरे ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थेभ्यो अष्टऋद्धिसहितमुनिभ्यो
अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री देवी प्रथम बखानी, इन आदिक चौबीसो मानी ।
तत्पर जिनभक्ति विषै है, पूजत सब रोग नशैं हैं ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाभ्यः श्रीआदिचतुर्विंशतिदेवी-
भ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

हंसा छन्द ।

यंत्र विषै वरन्यो तिरकोन, ह्रीं तहं तीन युक्त सुखमोन ।
जल फलादि वसु द्रव्य भिलाय, अर्घ सहित पूजूं शिरनाय ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय त्रिकोणमध्ये त्रिह्रींसंयुक्त
अर्घं निर्वपामीति स्वाहा

तोमर छन्द ।

दस आठ दोष निरवारि, छियालीस महागुण धारि ।
वसु द्रव्य अनूप मिलाय, तिन चर्न जजो सुखदाय ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय अष्टादशदोषरहिताय षट्-
चत्वारिंशत्महागुणयुक्ताय अर्हत्परमेष्ठिने अर्घं निर्वपामीति
स्वाहा ।

सोरठा ।

दश दिश दश दिक्पाल, दिशानाम सां नामवर ।
तिनगृह श्रीजिनअल, पूजो मै व-दौं सदा ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थेभ्यो दशदिक्पालेभ्यो जिन-
भक्तियुक्तेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

दोहा ।

अषिमण्डल शुभयन्त्र के, देवी देव चितारि ।
अर्घ सहित पूजहुं चरन, दुख दारिद्र निवारि ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थेभ्यो अषिमण्डलसम्बन्धिदेवी-
देवेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

दोहा ।

चौबीसो जिन चरन नमि, गणधर नारुं भाल ।
शारद पद पंकज नमूं, गारुं शुभ जयमाल ॥

जय आदीश्वर जिन आदिदेव, शत इन्द्र जजै मैं करहुं सेव ।
 जय अजित जिनेश्वर जे अजीत, जे जीत भये भव ते अतीत ॥
 जय सम्भव जिन भवकूप मांढि, हूबत राखहु तुम शर्षा आहि
 जय अभिनन्दन आनन्द देत, ज्यों कमलों पर रवि करत हेत ॥
 जय सुमति सुमति दाता जिनंद, जै कुमांत तिमिर नाशन दिनंद
 जय पद्मालंकृत पद्मदेव, दिन रैन करहुं तव चरन सेव ॥
 जय श्रीसुपार्श्व भवपाश नाश, भविर्जावन कूं दियो मुक्तिवाम
 जय चन्द्र दिनेश दयानिधान, गुणसागर नागर सुख प्रमान ॥
 जय पृष्पदंत जिनवर जगीश, शतइन्द्र नमत नित आत्मशीश
 जय शीतल वच शीतल जिनंद, भवताप नशावत जगत चन्द ॥
 जय जय श्रेयांसजिन अति उदार, भवि कंठमांढि मुक्ता सुहार
 जय वासुपूज्य वासव स्वगेश, तुम स्तुति करि पुनि नमि हूं हमेश
 जय विमल जिनेश्वर विमलदेव, मलरहित विराजत करहुं सेव ।
 जय जिन अनंत के गुण अनंत, कथनी कथ गणधर लहे न अंत
 जय धर्मधुरन्धर धर्मवीर, जय धर्मचक्र शुचि न्याय वीर ।
 जय शांतिजिनेश्वर शांतभाव, भव वन भटकत शुभमग लखाव ॥
 जय कुंथु कुंथुवा जीव पाल, सेवक की रक्षा करि कृपाल ।
 जय अरहनाथ अरि कर्म शैल, तपवज्र खंड लहि मुक्ति गैल ॥
 जय मल्लि जिनेश्वर कर्म आठ, मल डारे पायो मुक्ति ठाठ ।
 जय सुव्रत मुनि सुव्रत धरन्त, जय सुव्रत व्रत पाकत महन्त ॥

जय नम्मि नमत सुरवृन्द पांय, पदपंकज निरखत शीश नाय
 जय नेमि जिनन्द दयानिधान, फैलायो जग में तत्वज्ञान ॥
 जय पारशजिन आलस निवारि, उपसर्ग रुद्रकृत जीत धारि ।
 जय महावीर महाधीरधार, भवकूप थकी जग तैं निकार ॥
 जय बर्ग आठ सुन्दर अपारं, तिन भेद लखत बुध करत सार ।
 जय परमपूज्य परमेष्ठि सार, जिन सुमरत बरसे आनन्द धार ॥
 जय दर्शन ज्ञान चरित्र तीन, ये रत्न महा उज्वज प्रवीन ।
 जय चार प्रकार सुदेव सार, तिनके गृह जिन मंदिर अपार ॥
 जो पूजै वसुविधि द्रव्य न्याय, मै इत जाजि तुम पद शीश नाय
 जो मुनिवर धारत अवधि चारि, तिन पूजै भवि भवविन्धु पार ॥
 जो आठ ऋद्धि मुनिवर धरंत, ते मोपै करुणा करि महंत ।
 चावौस देवि जिन भक्तिलीन, बन्दन ताका सुपगोच कीन ॥
 जे हीं तीन त्रैकोण मांडि, तिन नमत सदा आनन्द पाहिं ।
 जय जय जय श्रीअरहंत बिम्ब, तिन पद पूजूं मै खोड डिंब ॥
 जो दस दिक्पाल कहे महान, जे दिशा नाम मो नाम जान ।
 जे तिनके गृह जिनराज धाम, जे रत्नमई प्रतिमाभिराम ॥
 ध्वज तोरन घण्टा युक्तसार, मोतिन माला लटकै अपार ।
 जे तो मधि वेदां हैं अनूप, तहँ राजत हैं जिनराज भूप ॥
 जय मुद्रा शांति विराजमान, जो लखि वैराग्य बढ़े महान ।

जे देवीदेव सु आय आय, पूजे तिन पद मन वचन काय ।
 जल मिष्ट सु उज्वल पय समान, चन्दन मत्स्यागिरि को महान
 जे अक्षत अनियारे सुलाय, जे पुष्पन की माला बनाय ।
 चरु मधुर विविध ताजी अपार, दीपक मणिमय उद्योतकार ॥
 जे धूप सु कृष्णागरु सुखेय, फल विविध भांति के मिष्ट लेय ।
 वर अर्घ अनूपम करत देव, जिनराज चरण आगे चढ़ेव ॥
 फिर मुखते स्तुति करते उचार, हो करुणानिधि संसार तार ।
 मैं दुःख सहे संसार ईश, तुमते छानी नांही जगीश ॥
 जे इहविधि मौखिक स्तुति उचार, तिन नशत शीघ्र संसारभार
 इह विधि जो जन पूजन कराय, ऋषिमंडल यंत्र सुचित्त लाय ॥
 जे ऋषिमण्डल पूजा करन्त, ते रोग शोक संकट हरन्त ।
 जे राजा मन कुल वृद्धि जान, जल दुर्ग सुगज केहरि बखान ॥
 जे विपत घोर अरु कहि मसान, भय दूर करै यह सकल जान
 जे राजभ्रष्ट ते राज पाय, पद-भृष्ट थकी पद शुद्ध थाय ॥
 धनअर्थी धन पावै महान, यामे संशय कछु नाहिं जान ।
 भार्याअर्थी भार्या लहन्त, सुतअर्थी सुत पावे तुरन्त ॥
 जे रूपा सोना ताम्रपत्र, लिख तापर यन्त्र महा पवित्र ।
 ता पूजे भागे सकल रोग, जे बात पित्त ज्वर नाशि शोग ॥
 तिन गृहते भूतपिशाच जान, ते भाग जाहि संशय न आन
 जे ऋषिमंडल पूजा करत, ते सुख पावत कहि लहै न अंत ॥

जब ऐसो मैं मनमाहिं जान, तब भावसहित पूजा सुठान ।
 वसुविधि से सुन्दर द्रव्य न्याय, जिनराजचरण आगे चढ़ाय ॥
 फिर करत आरती शुद्ध भाव, जिनराज सभी लख हर्ष आव ।
 तुम देवन के हो देव देव, इक अरज चित्त में धारि लेव ॥
 जे दीनदयाल दया कराय, जो मैं दुखिया इह जग अमाय ।
 जे इस भव वन में वासलीन, जे काल अनादि गमाय दीन ॥
 मैं भ्रमत चतुर्गति विपिन मांहि, दुख सहे सुख कां लेश नांहि
 ये कर्म महारिपु जोर कीन, जे मनमाने बहु दुःख दीन ॥
 ये काहू कां नहिं डर धरांय, इनतैं भयभीत भयां अघाय ।
 यह एक जन्म की बात जान, मैं कह न सकत हूं देव मान ॥
 जब तुम अनंत परजाय जान, दरशायो संसृति पथ विधान ।
 उपकारी तुम बिन और नांहि, दीखत नाहीं इस जगत मांहि ॥
 तुम सबलायक ज्ञायक जिनंद, रत्नत्रय सम्पत्ति द्यो अमंद ।
 यह अरज करूं मैं श्रीजिनेश, भव भव सेवा तुम पद हमेश ॥
 भव भव में श्रावक कुल महान्, भव भव में प्रकटित तत्त्वज्ञान ।
 भव भव में व्रत हा अनागार, तिस पालनतैं हों भवाब्धि पार
 ये योग सदा मुझको लहान, हे दीनबन्धु करुणा-निधान ।
 “दौलत आसेरी” मित्र दाय, तुम शरण गही हर्षित सुहाय ॥

पञ्चानन्द छन्द ।

जो पूजै ध्यावै, भक्ति बढावै, ऋषिमण्डल शुभ यंत्र तनी ।
या भव सुख पावै, सुजस लहावै, परभव स्वर्ग सुलभ धनी ॥

ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवविनाशनसमर्थाय रोगशोकसर्वसंकटहराय
सर्वशान्तिपुष्टिकराय, श्रीवृषभादिचतुर्विंशतितीर्थङ्करअष्टवर्गअर्ह-
दादिपंचपददर्शनज्ञानचारित्रसहिताय चतुर्णिकायदेवचतुःप्रकार-
अवधिधारकभ्रमणअष्टऋद्धिसंयुक्तचतुर्विंशतिसूरित्रीह्रींअर्हद् वि-
म्बदशदिक्पालयंत्रसम्बन्धिपरमदेवाय पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

आशीर्वाद ।

कुण्डलिया ।

ऋषिमण्डल शुभ यंत्र को, जां पूजै मन लाय ।
ऋद्धि सिद्धि ता घर बसै, विघ्न सघन मिटजाय ॥
विघ्न सघन मिट जाय, सदा सुख वो नर पावै ।
ऋषिमण्डल शुभ यंत्र तनी, जो पूज रचावै ॥
भाव भक्ति युत होय, सदा जो प्राणो ध्यावै ।
या भव में सुख भोग, स्वर्ग की सम्पत्ति पाव ॥
या पूजा परभाव मिटे, भव भ्रमण निरन्तर ।
यातै निश्चय मानि करो, नित भाव भक्तिधर ॥

इत्याशीर्वादः । पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।

तत्त्वार्थसूत्र पूजा

गीता छन्द

षट् द्रव्य को जामें कह्यो जिनराज-वाक्य प्रमाण सों,
किय तत्त्व सातों का कथन जिन-आप्त-आगम मानसों ।
तत्त्वार्थ-सूत्र-हे शास्त्र सो पूजौ भविक मन धारि के,
लहि ज्ञान तत्त्व विचार भल शिव जा भवोदधि पारके ॥

दोहा।

जामें षट् द्रव्यहि कह्यौ, कह्यौ तत्त्व पुनि सात ।

सो दश सूत्रहिं थापि कें, जजें कर्म कटि जान ॥

ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्भवद्वादशांगसारभूत श्रीतत्त्वार्थसूत्र अत्र
अवतर अवतर संवोषट् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र मम
सन्निहितं भव भव षषट् ।

सुन्दर छन्द

सुरसरी कर नीर सुलाय के, करि सुप्रासुक कुम्भ भरायके ।

जजन सूत्रहि शास्त्रहि को करों, लहि सुतत्त्व-ज्ञानहि शिव वरों ॥

ॐ ह्रीं श्रीतत्त्वार्थसूत्राय जलं निर्बपामीति स्वाहा ।

मलयदारु पवित्र मगाय के, घसि क.पूरवरेण मिलाय के ।

जजन सूत्रहि शास्त्रहि० ॥

ॐ ह्रीं श्रीतत्त्वार्थसूत्राय चंदनं निर्बपामीति स्वाहा ।

भिनव शालि सुगंधित लाय के, खंड विवर्जित थाल भराय के ।

जजन सूत्रहि शास्त्रहि० ॥

ॐ ह्रीं श्रीतत्त्वार्थसूत्राय अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

सुमन बेल चमेलिहि केवरा, जिन सुगंध दशोदिश विस्तरा ।

जजन सूत्रहि शास्त्रहि० ॥

ॐ ह्रीं श्रीतत्त्वार्थसूत्राय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

घर सुहाल सुफेनिहि मोदका, -रसगुला रसपुरित ओदका ।

जनन सूत्रहि शास्त्रहि० ॥

ॐ ह्रीं श्रीतत्त्वार्थसूत्राय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

घृत कपूर मणीकर दीयरा, करि उद्योत हरौ तम हीयरा ।

जजन सूत्रहि शास्त्रहि० ।

ॐ ह्रीं श्रीतत्त्वार्थसूत्राय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

बहु सुगंधित धूप दशांग ही, धरि हुताशन धूम उठाव ही ।

जजन सूत्रहि शास्त्रहि० ।

ॐ ह्रीं श्रीतत्त्वार्थसूत्राय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

क्रमुक दाख बदाम अनार ला, नरंग नीबुहि आमहि श्रीफला ।

जजन सूत्रहि शास्त्रहि० ॥

ॐ ह्रीं श्रीतत्त्वार्थसूत्राय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जल सुचन्दन आदिक द्रव्य ले, अरघ के भरि थालहि ले मले
जजन सूत्रहि शास्त्रहि को करों, लहि सुतन्त्र ज्ञानहि शिवचरों
ॐ ह्रीं श्रीतत्त्वार्थसूत्राय अर्घं निवेपामीति स्वाहा ।

मनहरण छन्द

विमल विमल वाणी, श्री जिनवर बखानी,
सुन भये तत्त्वज्ञानी ध्यान-आत्म पाया है ।
सुरपति मनमानी सुरगण सुखदानी,
सु भव्य उर आना, मिथ्यान्व हटाया है ॥
समझहि सब नीके, जीव समवशरण के,
निज २ भाषा मांहि अतिशय दिखानी है ।
निरम्बर अक्षर के अक्षरन सों शब्द के,
शब्द सों पद बने जिन जू बखानी है ॥

पादाकुलक छन्द

संसार मोह में मोह तरा, प्रगटी जिन वाणी मोहहरा ।
ऊद्धरत होत तम नाश करा, प्रणमामि सूत्र जिनवाणिवरा ॥
अति मान सरोवर भील खरा, करुणारस पूरित नीर भरा ।
दश घर्म वहे शुभ इंस तरा, प्रणमामि सूत्र जिनवाणिवरा ॥
कल्पद्रुम के सम जान तरा, रत्नत्रय के शुभ पुष्ट वरा ।
गुण तत्व पदार्थन पात्र फरा, प्रणमामि सूत्र जिनवाणिवरा ॥

वसुकर्म महारिपु दुष्ट खरा, तसु उपजी फैली बेलि वरा ।
 तसु नाशन काहि कुठार करा, प्रणमामि सूत्र जिनवाणिवरा
 मद मायर लोभऽरु क्रोध धरा, ए कषाय महादुखदाय तरा ।
 तिन नाशि भत्रोदधि पार करा, प्रणमामि सूत्र जिनवाणिवरा
 वर षोडश कारण भाव धरा, षट् कायन रक्षण नियम करा
 मद आठहु मर्दि के गर्द करा, प्रणमामि सूत्रजिनवाणिवरा
 जिनवाणि न जाने त्रिजगत फिरा, जड चेतनभाव न भिन्नकरा
 नहिं पायां आतम बांध वरा, प्रणमामि सूत्र जिनवाणिवरा ॥
 शुभकर्म उद्योत क्रियो हियरा, जिनवाणिहि ज्ञान जभ्यो जियरा
 भवभरमणहर शिवमार्ग धरा, प्रणमामि सूत्र जिनवाणिवरा ॥
 सुत कन्हईलाल परणाम करा, भगवानदास जिहि नाम धरा ।
 जिनवाणि वसो नित तिहि हियरा, प्रणमामि सूत्र जिनवाणिवरा

घत्तानन्द छन्द

जिन वाणी माता, सब सुख दाता, भव भरमणहर मुक्तिकरा
 शुभ सूत्रहि शास्त्रहि, बारहि बारहि दास जोरिकर नमन करा
 ॐ ह्रीं श्रीतत्त्वार्थसूत्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

छन्द

जो पूजै ध्यावै भक्ति बढ़ावै जिन वाणी सेती ,
 ते पावहिं धन धान्य संपदा पुत्र पौत्र जेती ।
 निरुम शरीर लहैं कीरति जग हरै भ्रमण फेरी ,
 अनुक्रम सेती लहैं मोक्षधल तहंके होय बसेरी ॥

इति श्री तत्त्वार्थसूत्र पूजा समाप्त ।

सप्तऋषि पूजा ।

छप्पय ।

प्रथम नाम श्रीमन्व दुतिय स्वरमन्व ऋषीश्वर ।
 तीसर मुनि श्रीनिचय सर्वसुन्दर चौथो दर ॥
 पंच श्रीजयवान विनयलालस षष्टम भति ।
 सप्तम जयमित्रारुय सर्व चारित्रधन गनि ॥
 ये सातौ चारण ऋद्धिधर, करूं तासु पद थापना ।
 में पूजूं मनवचकायकरि, जो सुख चाह आपना ॥

ॐ ह्रीं चारणद्धिधरश्रीसप्तर्षीश्वरा ! अत्रावतरत अवतरत
 संवौषट् ।

ॐ ह्रीं चारणद्धिधरश्रीसप्तर्षीश्वरा ! अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः ।

ॐ ह्रीं चारणद्धिधरश्रीसप्तर्षीश्वरा ! अत्र मम सन्निहिता भवत
 भवत षषट् ।

गीता छन्द ।

शुभतीर्थ-उद्भव जल अनूपम, मिष्ट शीतल लायके,
 भव तृषा कंद निकंद कारण, शुद्ध घट भरवायके ।
 मन्वादि चारण ऋद्धिधारक, मुनिनकी पूजा करूं,
 ता करे, पातक हरे सारे, सकल आनन्द विस्तरूं ॥

ॐ ह्रीं श्रीमन्वस्वरमन्वनिचयसर्वसुन्दरजयवानविनयलाल-
 सजयमित्रर्षिभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा

श्रीखण्ड कदलीनन्द केशर, मन्द मन्द घिसायके ।
तसु गंध प्रसरति दिगदिगन्तर, भर कटोरी लायके ॥

मन्वादि चारण० ॥

ॐ ह्रीं श्रीमन्वस्वरमन्वनिचयसर्वसुन्दरजयवानविनयलाल-
सजयमित्रर्षिभ्यो चंदन निर्वपामीति स्वाहा ।

अति धवल अक्षत खण्ड-वर्जित, मिष्ट राजन भांगके ।
कलधौत थारा भरत सुन्दर, चुनित शुभ उपयोगके ॥

मन्वादि चारण० ॥

ॐ ह्रीं श्रीमन्वस्वरमन्वनिचयसर्वसुन्दरजयवानविनयलाल-
सजयमित्रर्षिभ्यो अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा ।

बहु वर्षा सुवर्ण सुमन आल्ले, अमल कमल गुलाबके ।
कतकी चम्पा चारु मरुआ, चुन निजकर चावके ॥

मन्वादि चारण० ॥

ॐ ह्रीं श्रीमन्वस्वरमन्वनिचयसर्वसुन्दरजयवानविनयलाल-
सजयमित्रर्षिभ्यो पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

पकवान नाना भांति चातुर, रचित शुद्ध नयं नये ।
सद्मिष्ट लाहू आदि भर बहु, पुरटके थारा लये ॥

मन्वादि चारण० ॥

ॐ ह्रीं श्रीमन्वस्वरमन्वनिचयसर्वसुन्दरजयवानविनयलाल-
सजयमित्रर्षिभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा

कलधौत दीपक जडित नाना, भरित गांघृतसारसों ।
अतिज्वलित जगमगज्योति जाकी, तिमिरनाशनहारसों ॥
मन्वादि चारण० ॥

ॐ ह्रीं श्रीमन्वस्वरमन्वनिचयसर्वसुन्दरजयवानविनयलाल-
सजयमित्रर्षिभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

दिकूचक्र गंधित होत जाकर, धूप दशअंगी कही ।
सो लाय मनवचकाय शुद्ध, लगायकर खेउं सही ॥
मन्वादि चारण० ॥

ॐ ह्रीं श्रीमन्वस्वरमन्वनिचयसर्वसुन्दरजयवानविनयलाल-
सजयमित्रर्षिभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

वर दाख खारक अमित प्यारे, मिष्ट चुष्ट चुनायके ।
द्रावडी दाडिम चारु पुङ्गी, थाल भर भर भायके ॥
मन्वादि चारण० ॥

ॐ ह्रीं श्रीमन्वस्वरमन्वनिचयसर्वसुन्दरजयवानविनयलाल-
सजयमित्रर्षिभ्यो फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जल गंध अक्षत पुष्प चरु वर, दीप धूप सु लावना ।
फल ललित आठों द्रव्य मिश्रित, अर्घ कौजे पावना ॥
मन्वादि चारण० ॥

ॐ ह्रीं श्रीमन्वस्वरमन्वनिचयसर्वसुन्दरजयवानविनयलाल-
सजयमित्रर्षिभ्यो अर्घं स्वाहा ।

जयमाला ।

छन्द त्रिभंगी ।

बंदू ऋषिराजा, धर्म जहाजा, निज पर काजा, करत भले ।
 करुणाके धारी, गगन विहारी, दुख-अपहारी, भरम दले ॥
 काटत जमफंदा, भविजनवृन्दा, करत अनंदा चरणनमें ।
 जो पूजें ध्यावैं, मंगल गावैं, फेर न आवैं भववनमें ॥

पद्यरी छन्द ।

जय श्रीमनु मुनिराजा महंत, त्रस थावरकी रक्षा करंत ।
 जय मिथ्यातम नाशक पतंग, करुणारसपूगित अंग अंग ॥
 जय श्रीस्वरमुन, अकलंकरूप, पद सेव करत नित अमरभूष ।
 जय पंच अक्ष जीते महान, तप तपत, देह कंचन समान ॥२॥
 जय निचय सप्त तत्वार्थभास, तप रमातनी तनमें प्रकाश ।
 जय विषयरोध संबोध भान, परपरिणतिके नाशन अचल ध्यान ॥
 जय जयहि सर्वसुन्दर दयाल, लेखि इन्द्रजातया जगतजाल ।
 जय तृष्णाहारी रमखराम, निज परणतिमें पायो विराम ॥४॥
 जय आनंदघन कन्याशरूप, कन्याश करत सबको अनूप ।
 जय मदनाशन जयवान देव, निरमद विचरत सब करत सेव ॥
 जय जयहि विनयलालस अमान, सब शत्रुमित्र जानत समान ।
 जय कुशितकाय तपके प्रभाव, छवि छटा उडति आनंददाय ॥

जयमित्र सकल जगक सुमित्र, अनगिनत अधम काने पवित्र ।
जय चंद्रवदन राजीवनैन, कबहुं विकथा बोलत न बैन ॥ ७ ॥
जय साती मुनिवर एक संग, नित गगन-गमन करते अभंग ।
जय आये मथुरापुर मंभार, तहं मरी रोगको अति प्रचार ॥ ८ ॥
जय जय तिन चरणनि के प्रसाद, सब मरी देवकृत भई वाद ।
जय लोक करे निर्भय समस्त, हम नमत सदा नित जोरि हस्त ॥
जय ग्रीषमऋतु पर्वतमंभार, नित करत अतापन योग सार ।
जय तृषा परीषह करत जेरे, कहूं रंच चलत नहिं मन सुमेर ॥
जय मूल अठाइस गुणन धार, तप उग्र तपत आनंदकार ।
जय वर्षाऋतुमें वृक्षतीर, तहं अति शीतल भेलत समीर ॥ ११ ॥
जय शीतकाल चौपट मंभार, क नदी संगेवर तट विचार ।
जय निवसत ध्यानारूढ होय, रंचक नहिं मटकट राम काय ॥
जय मृतकासन वज्रासनीय, गोदूहन इत्यादिक गनाय ।
जय आसन नाना भांति धार, उपसर्ग सहित ममता निवार ॥
जय जपत तिहारो नाम कोय, लख पुत्रपौत्र कुलवृद्धि होय ।
जय भरे लक्ष अतिशय भंडार, दारिद्र्यतनो दुख हाय छार ॥
जय चोर अग्नि डांकिन पिशाच, अरु ईति भीति सब नसत सांच
जय तुम सुमरत सुख लहत लोक, सुर असुर नवत पद देत धोक

रोला—

ये सातौं मुनिराज महात्प लछमीधारी,
परम पूज्य पद धरें सकल जगके हितकारी ।
जां मनबचतन शुद्ध होय सेव औ ध्यावै,
सो जन मनरंगलाल अष्ट ऋद्धिनको पावै ।

दोहा

नमन करत चरनन परत, अहो गरीबनिवाज ।
पंच परावर्तननितै, निरवारा ऋषिराज ॥

ॐ ह्रीं श्रीमन्वस्वरमन्वनिचयसर्वसुन्दरजयवानचिनयलाल-
सजयमित्रिभिभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

पर्व पूजायें

देवपूजा ।

दोहा ।

प्रभु तुम राजा जगतके, हमें देय दुख मोह ।

तुम पद पूजा करत हूं, हम पै करुखा होहि ॥१॥

ॐ ह्रीं अष्टादशदोषरहितषट्चत्वारिंशद्गुणसहितश्रीजिनेन्द्र-
भगवन् अत्रावतरावतर संवौषट् ।

ॐ ह्रीं अष्टादशदोषरहितषट्चत्वारिंशद्गुणसहितश्रीजिनेन्द्र-
भगवन् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।

ॐ ह्रीं अष्टादशदोषरहितषट्चत्वारिंशद्गुणसहितश्रीजिनेन्द्र-
भगवन् अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् ।

छंद त्रिभंगी ।

बहु तृषा सतायो, अति दुख पायो, तुमपै आयो जल लायो
उत्तम गंगाजल, शुचि अति शीतल, प्रासुक निर्मल गुन गायो
प्रभु अंतरजामी त्रिभुवननामी, सबके स्वामी, दोष हरो ।
यह अरज मुनीजै, ठील नुकीजै, न्याय करीजै, दया धरो ॥

ॐ ह्रीं अष्टादशदोषरहितषट्चत्वारिंशद्गुणसहितश्रीजिनेन्द्र-
भगवद्भ्यो जन्ममृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ॥१॥

अथ तपत निरंतर, अग्निपटंतर, मो उरअंतर, खेद कर्यो
 लै बावन चंदन, दाहनिकंदन, तुमपदबंदन, हरष धर्यो ॥
 प्रभु अंतरजामी, त्रिभुवननामी, सबके स्वामी, दांष हरो ।
 यह अरज सुनीजै, ढील न कीजै, न्याय करीजै दया धरो ॥

ॐ ह्रीं अष्टादशदोषरहितषट्चत्वारिंशद्गुणसहितश्रीजिनेन्द्र-
 भगवद्भ्यो भवतापविनाशनाय चन्दनं निर्वपामि ॥२॥

श्रीगुन दुखदाता, कल्यो न जाता, मोहि असाता, बहुत करै ।
 तंदुल गुनभंडित, अमल अखंडित, पूजत पंडित, प्रीति धरै ॥
 प्रभु अंतरजामी, त्रिभुवननामी, सबके स्वामी, दोष हरो ।
 यह अरज सुनीजै, ढील न कीजै न्याय करीजै दया धरो ॥३॥

ॐ ह्रीं अष्टादशदोषरहितषट्चत्वारिंशद्गुणसहितश्रीजिनेन्द्र-
 भगवद्भ्यो अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निर्वपामि ॥३॥

सुरनर पशुका दल, काम महाबल, वात कहत छल, मोहि लिया
 ताके शर लाऊं फूल चढाऊं, भगति बढाऊं, खोल हिया ॥
 प्रभु अंतरजामी, त्रिभुवननामी, सबके स्वामी, दोष हरो ।
 यह अरज सुनीजै, ढील न कीजै न्याय करीजै, दया धरो ॥४॥

ॐ ह्रीं अष्टादशदोषरहितषट्चत्वारिंशद्गुणसहितश्रीजिनेन्द्र-
 भगवद्भ्यः कामबाणविध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामि स्वाहा ॥४॥

सब दोषनमाही, जासम नाही, भूख सदा ही मो लागै ।
 सद घेवर बावर, लाहू बहुधर, धार कनकभर, तुम आगै ॥
 प्रभु अन्तरजामी, त्रिभुवननामी, सबके स्वामी दांष हरो ।
 यह अरज सुनीजै, ढील न कीजै, न्याय करीजै, दया धरो ॥५॥

ॐ ह्रीं अष्टादशदोषरहितषट्चत्वारिंशद्गुणसहितश्रीजिनेन्द्र-
भगवद्भ्यः क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामि स्वाहा ॥५॥

अज्ञान महातम, छाया रह्यां मम, ज्ञान ढक्यो हन, दुख पावें ।
तम भेटनहारा, तेज अपारा, दीप सँभारा, जस गावें ॥
प्रभु अन्तरजामी, त्रिभुवननामी, सबके स्वामी, दोष हरो ।
यह अरज सुनीजै, ढील न कीजै न्याय करीजै, दया धरो ॥६॥

ॐ ह्रीं अष्टादशदोषरहितषट्चत्वारिंशद्गुणसहितश्रीजिनेन्द्र-
भगवद्भ्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीपं निर्वपामि स्वाहा ॥६॥

इक कर्म महावन, भूल रह्यो जन शिवमारग नहिं पावत है ।
कृष्णागरुधूपं, अमलप्रनूपं, नित्यस्वरूपं, ध्यावत है ॥
प्रभु अंतरजामी, त्रिभुवननामी, सबके स्वामी, दोष हरा ।
यह अरज सुनीजै, ढील न कीजै न्याय करीजै, दया धरो ॥

ॐ ह्रीं अष्टादशदोषरहितषट्चत्वारिंशद्गुणसहितश्रीजिनेन्द्र-
भगवद्भ्योऽष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

सबतै जोरावर, अंतराय अरि, सुफल विघनकरि डारत है ।
फलपुंज विविधभर, नयन मनोहर, श्रीजिनवरपद धारत है ॥
प्रभु अन्तरजामी, त्रिभुवननामी, सबके स्वामी, दोष करो ।
यह अरज सुनीजै, ढील न कीजै, न्याय करीजै, दया धरो ॥

ॐ ह्रीं अष्टादशदोषरहितषट्चत्वारिंशद्गुणसहितश्रीजिनेन्द्र-
भगवद्भ्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

आठों दुखदात्री, आठनिसानी, तुम डिय आनी, चारन हो ।
 दीनननिस्तारन, अधमउधारन, 'दानत' तारन कारन हो ॥
 प्रभु अन्तरजामी, त्रिभुवननामी, सबके स्वामी, दोष हरो ।
 यह अरज सुनीजै, डील न कीजै, न्याय करीजे, दया धरो ॥

ॐ ह्रीं अष्टादशदोषरहितषट्चत्वारिंशद्गुणसहितश्रीजिनेन्द्र-
 भगवद्भ्योऽनर्घपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

दे.हा ।

गुण अनंत को कहि सकै, छियाजोस जिनराय ।
 प्रगट सुगुन गिनती करूं, तुम ही होहु सहाय ॥ १ ॥

छंद चौपाई १६ मात्र

एक ज्ञान केवल जिन स्वामी, दो आगम अध्यातम नामी ।
 तीन काल विधि परगट जानी, चार अनंत चतुष्टय ज्ञानी ॥२॥
 पंच परावर्त्तन परकासी, छहों दरब गुन परजय भासी ।
 सातभंग वानी परकाशक, आठों कर्म महारिपु नाशक ॥ ३ ॥
 नव तत्वनके भाषनहारे, दश लच्छनसों भविजन तारे ।
 ग्याह प्रतिमाके उपदेशी, बारह सभा सुखी अकलेशी ॥ ४ ॥
 तेरहविध चारितके दाता, चौदह मारगनाके ज्ञाता ।
 पंद्रह भेद प्रमादनिवारी, सोलह भावन फल अविकारी ॥५॥
 तारे सत्रह अंक भरत भुव, ठारै धान दान दाता तुव ।

भाव उनीस जु कहे प्रथमगुन, बीस अंक गलधरजीकी धुन ॥
 इकइस सर्व घातविध जानै, बाइस बंध नवम गुणथानै ।
 तेइस निधि अरु रतन नरेश्वर, सो पूजै चौबीस जिनेश्वर ॥
 पचीस कषाय जु नाश करी हैं, देशघाति छब्बीस हरी हैं ।
 तत्व दरब सत्ताइस देखै, मनि विज्ञान अठाइस पेरवै ॥७॥
 उनतिस अक मनुष सब जाने, तीस कुलाचल सर्व बखाने ।
 इकतिस पटल सुधर्म निहारे, बचिस दोष समाइक टारे ॥६॥
 तेतिस सागर सुखकर आये, चौतिस भेद अलब्धि बताये ।
 पैतिस अच्छर जप सुखदाई, छत्तिस कारन नीति मिटाई ॥
 सैंतिस मग कहि ग्यारह गुनमें, अठतिस पद लहि नरक अगुनमें
 उनतालीस उदीरन तरम, चालिस भवन इंद्र पूजै नम ॥
 इकतालीस भेद आराधन, उदै बियालिस तीर्थकर मन ।
 तेतालीस बंध ज्ञाता नहिं, द्वार चवालिस नर चौथेमहि ॥
 पैतालीस पन्थके अच्छर, छियालीस विन दोष मुनीश्वर ।
 नरक उदै न छियालिस मुनिधुन, प्रकृतिछियालिस नाश दशमगुन
 छियालीसधन राजु सात भुव, अंक छियालिस सरसां कहि कुब
 भेद छियालिस अंतर तपवर, छियालीस पूरन गुन जिनवर ॥

अब्जि ।

मिथ्या तपत निवारन चंद समान हो,

मोहतिमिर कारनको कारन भान हा ।

काल कषाय मिटावन मेघ मुनीश हा,

‘घान्त’ सम्यक रतनत्रय गुणईश हां ॥१५॥

ॐ ह्रीं अष्टादशदोषरहितवट् चत्वारिंशद्गुणसहितभीजिने-
न्द्रभगवद्भ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सरस्वतीपूजा ।

दोहा ।

जनम जरा मृतु छय करै, हरै कुनय जडरीति ।

भवसागरसों ले तिरं, पूजै जिनवचप्रीति ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्भवमरस्वति वाग्वादिनि ! अत्र अवतर
अवतर संबौषट् । अत्र तिष्ठतिष्ठ ठः ठः । अत्र मम सन्निहित
भवभव वषट् ।

त्रिभंगी ।

छीरोदधि गंगा, विमल तरंगा, मजिल अभंगा, मुखसंगा ।

भरि कंचन भागी, धार निकारी, तृषा निवारी, हित चंगा ॥

तीर्थकरकी धुनि, गनधरने सुनि, अंग रचे चुनि, ज्ञानमई ।

सो जिनवरवानी, शिवसुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई ॥

ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्भवसरस्वतीदेव्यै जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

करपूर मंगाया, चन्दन आया, केशर लाया, रंग भरी ।

शारदपद बंदौ मन अभिनंदौ, पापनिकंदौ, दाह हरी ॥

तीर्थंकरकी धुनि, गनधरने सुनि, अंग रचे चुनि, ज्ञानमई ।
सो जिनवरवानी, शिवमुखदादानी, त्रिभुवनमानी, पूज्यमई ॥

ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्भवसरस्वतीदेव्यै चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

सुखदासकमोदं, धारप्रमोदं, अतिअनुमोदं, चंदसमं ।

बहुर्भाक्त बड़ाई, कीरति गाई, होहु सहाई, मात समं ॥

तीर्थंकरकी धुनि, गनधरने सुनि, अङ्ग रचे चुनि, ज्ञानमई ।

सो जिनवरवानी, शिवमुखदादानी, त्रिभुवनमानी, पूज्यमई ॥

ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्भवसरस्वतीदेव्यै अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

बहुफूलसुवासं, विमलप्रकाशं, आनंदरासं, लाय धरे ।

मम काम मिटायां, शीतबदायो, सुखउपजायां, दोष हरे ॥

तीर्थंकरकी धुनि, गनधरने सुनि, अङ्ग रचे चुनि, ज्ञानमई ।

सो जिनवरवानी, शिवमुखदादानी, त्रिभुवनमानी, पूज्यमई ॥४॥

ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्भवसरस्वतीदेव्यै पुष्पं निर्वपामि ।

पकवान बनाया, बहुघृत लाया, सरविधि भाया, मिष्ट महा ।

पूजं धुति भाऊं, प्रीति बड़ाऊं, सुधा नशाऊं, हर्ष लहा ॥

तीर्थंकरकी धुनि, गनधरने सुनि, अंग रचे चुनि, ज्ञानमई ।

सो जिनवरवानी, शिवमुखदादानी, त्रिभुवनमानी, पूज्यमई ॥५॥

ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्भवसरस्वतीदेव्यै नैवेद्यं निर्वपामि स्वाहा ॥

करि दीपकज्योतं तम छय होतं, ज्योति उदातं, तुमहिं चढ़ै ।

तुम हो परकाशक, भ्रमविनाशक, हम घटभासक, ज्ञान बढ़े ॥
तीर्थकरकी धुनि, गनघरने सुनि, अंग रचे चुनि, ज्ञानमई ।
सो जिनवरवानी, शिवसुखदानी, त्रिभुवनमानी, पूज्यमई ॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्भवसरस्वतीदेव्यै दीः निर्वपामि स्वाहा ॥
शुभगंध दशोकर, पावकमें धर धूप मनोहर, खेवत हैं ।
सब पाप जलावै, पुण्य कमाव, दास कहावै, सेवत हैं ॥
तीर्थकरकी धुनि, गनघरने सुनि, अङ्ग रचे चुनि, ज्ञानमई ।
सो जिनवरवानी, शिवसुखदानी, त्रिभुवनमानी पूज्यमई ॥७॥

ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्भवसरस्वतीदेव्यै धूपं निर्वपामि स्वाहा ॥
बादाम छुहारी, लोंग, सुपारी, श्रीफलभारी, न्यावत हैं ।
मनवांछिव दाता, मेट असाता, तुम गुन माता, ध्यावत हैं ॥
तीर्थकरकी धुनि गनघरने सुनि, अङ्ग रचे चुनि, ज्ञानमई ।
सो जिनवरवानी, शिवसुखदानी, त्रिभुवनमानी, पूज्यमई ॥८॥

ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्भवसरस्वतीदेव्यै फलं निर्वपामि स्वाहा ॥
नयननसुखकारी, मृदुगुनधारी, उज्वलभारी, मोल धरै ।
सुभगंधसम्हारा, वसननिहारा, तुमतरधारा, ज्ञानकरै ॥
तीर्थकरकी धुनि, गनघरने सुनि, अंग रचे चुनि, ज्ञानमई ।
सो जिनवरवानी, शिवसुखदाना, त्रिभुवनमानी, पूज्यमई ॥

ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्भवसरस्वतीदेव्यै वस्त्रं निर्वपामीति स्वाहा ।

जलचंदन अच्छत, फूल चरोंचत, दीपधूप अति, फल लावै ।
 पूजाको ठानत, जो तुम जानत, सा नर धानत, सुख पावै ॥
 तीर्थकरकी धुनि, गनधरने सुनि, अंग रचे चुनि, ज्ञानमई ।
 सो जिनवरवानी, शिवमुखदानी, त्रिभुवनमानी, पूज्यमई ॥

ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्भवसरस्वतीदेव्यै अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा,

अथ जयमाला ।

सोरठा ।

ओङ्कार धुनिमार, द्वादशांग वाणी विमल ।
 नमों भक्ति उरधार, ज्ञान करै जड़ता हरै ॥

बेसरी ।

पहला आचारांग बखानो, पद अष्टादश सहस्र प्रमानो ।
 द्वाजा सूत्रकृतं अभिलाषं, पद छत्तीस सहस्र गुरु भार्ग ॥ १ ॥
 तीजा ठाना अंग सुजानं, सइस वियासिल पदसरधानं ।
 चौथो सवमायांग निहारं, चौसठ महस लाख इकधारं ॥ २ ॥
 पंचम व्याख्याप्रगपति दरशं, दोय लाख अष्टाइस सहस्रं ।
 छद्दा ज्ञातृकथा विसतारं, पांचलाख छप्पन्न हजारं ॥ ३ ॥
 सप्तम उपासकाध्ययनंगं, सत्तर सहस्र ग्यारलाख मंगं ।
 अष्टम अंतकृतं दस ईसं, सहस्र अठाइस लाख तेईसं ॥ ४ ॥

नवमः अनुसूत्र अंग विशालं, लाख बानवें सहस्र चकलें ।
 दशम प्ररनव्याकरणे विचारं, लाख तिरानवें मोल हजारें ॥५॥
 ग्यारम सूत्रविपाक सो भाषं, एक कोडि चौरासी लाख ।
 चार कोडि अरु पन्द्रह लाख, दो हजार सब पद गुरुशाखें ॥६॥
 द्वादश दृष्टिवाद पनभेदं, इकसौ आठ कोडि पद वेद ।
 अठसठ लाख सहस्र छपन हैं, सहित पंचपद मिथ्याहन हैं ॥
 इक सौ चारह कोडि बाखने, लाख तिरासी ऊपर जाने ।
 अठावन सहस्र पंच अधिकाने, द्वादश अङ्ग मात्र पद माने ॥७॥
 इकावन कोडि आठ ही लाख, सहस्र सौरामी चहसौ माख ।
 साढ़े इकीम शिलोक बनाये, एक एक पदके ये गाये ॥ ६ ॥

धत्ता ।

जा वानीके ज्ञानसों, सूझे लोक अलोक ।
 'धानत' जग जयवंत हो, मदा देत हू धोक ॥

ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्गतसरस्वत्यै देव्यै पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

गुरुपूजा ।

शोहा ।

चहुँ मति दुखसागरविषै, तारनतरनजिहाज ।

रतनत्रयनिधि नगन तन, धन्य महा मुनिराज ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीआचार्योपाध्यायसर्वसाधुगुरुसमूह ! अन्नवतरणवतर
संबोधत् ।

ॐ ह्रीं श्रीआचार्योपाध्यायसर्वसाधुगुरुसमूह ! अन्न तिष्ठ तिष्ठ ।
ठ ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीआचार्योपाध्यायसर्वसाधुगुरुसमूह ! अन्न मम
सग्निहितो भवभव । वषट् ।

गीता छन्द ।

शुचि नीर निरमल क्षीरदधिसम, सुगुरु चारन चढाइया ।
तिहुं धार तिहुं गदटार स्वामी, अति उच्छाह बढाइया ॥
भवभोगतन वैरागधार निहार, शिवतष तपत हैं ।
तिहुं जगतनाथ अराधसाधु सु, पूज नित गुन जपत हैं ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीआचार्योपाध्यायसर्वसाधुगुरुभ्यो जन्ममृत्युविना-
शयनाय जलं नि० ।

करपूर चंदन सलिलसौं घसि, सुगुरुपद पूजा करों ।
सब पाप ताप मिटाय स्वामी, धरम शीतल बिस्तरों ॥
भवभोगतन वैरागधार निहार, शिवतष तपत हैं ।
तिहुं जगतनाथ अराधसाधु सु, पूज नित गुन जपत हैं ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं श्रीआचार्योपाध्यायसर्वसाधुगुरुभ्यो भवतापविनाशनाय
चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

फिनवा कमोद पुत्रास उज्जल, सुगुरुपगतर धरत हैं ।
गुनकार ओगुनहार स्वामी, वंदना हम करत हैं ॥

भवभोगतन वैरागधार निहार, शिवतप तपत हैं ।
तिहुं जगतनाथ अराधसाधु सु, पूज नित गुन जपत हैं ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं आचार्योपाध्यायसर्वसाधुगुरुभ्योऽक्षयपदप्राप्तये अक्ष-
तान् निर्वपामीति स्वाहा ।

शुभफूलरास प्रकास परिमल, सुगुरुपायनि परत हों ।
निरवार मार उपाधि स्वामी, सीलदिढ उर धरत हों ॥
भवभोगतन वैरागधार निहार, शिवतप तपत हैं ।
तिहुं जगतनाथ अराधसाधु सु, पूज नित गुन जपत हैं ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं आचार्योपाध्यायसर्वसाधुगुरुभ्य कामवाणविश्वसनाय
पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

पकवान मिष्ट मलौन सुन्दर, सुगुरु पायेंन प्रीतसों ।
कर छुधारोग विनाश स्वामी, सुधिर कीजे रातसों ॥
भवभोगतन वैरागधार निवार, शिवतप तपत हैं ।
तिहुं जगतनाथ अराधसाधु सु, पूज नित : न जपत हैं ॥ ५ ॥

ॐ ह्रीं आचार्योपाध्यायसर्वसाधुगुरुभ्य छुधारोगविनाशनाय
नैवेद्यं निर्वपामीति ।

दीपक उदोत सजोत जगमग, सुगुरुपद पूजों सदा ।
तमनाश ज्ञानउजास स्वामी, मोहि मोह न हो कदा ॥
भवभोगतन वैरागधार निहार, शिवतप तपत हैं ।
तिहुं जगतनाथ अराधसाधु सु, पूज नित गुन जपत हैं ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं आचार्योपाध्यायसर्वसाधुगुरुभ्यो मोहान्धकारविनाश-
नाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

बहु अगर आदि सुगंध खेऊं, सुगुरु पद पद्महि खरे ।
दुख पुञ्ज काट जलाय स्वामी, गुण अल्लय चितमें धरे ॥
भव भोगतन वैरागधार निहार, शिवतप तपत हैं ।
तिहुँ जगतनाथ अराधसाधु सु, पूज नित गुन जपत हैं ॥

ॐ ह्रीं आचार्योपाध्यायसर्वसाधुगुरुभ्यो अष्टकर्मदहनाय धूप
निर्वपामीति स्वाहा ।

भरथाल पूर बदाम बहुविधि, सुगुरुक्रम आगें धरों ।
मंगल महाफल करो स्वामी, जोरकर विनती करों ॥
भव भोगतन वैरागधार निहार, शिवतप तपत हैं ।
तिहुँ जगननाथ अराधसाधु सु, पूज नित गुन जपत हैं ।

ॐ ह्रीं आचार्योपाध्यायसर्वसाधुगुरुभ्यो मोक्षफलप्राप्तये निर्व-
पामीति स्वाहा ।

जल गंध अक्षत फूल नेवज, दीप धूप फलावली ।
'घानत' सुगुरुपद देहु स्वामी, हमहि तार उतावली ॥
भव भोगतन वैरागधार निहार, शिवतप तपत हैं ।
तिहुँ जगतनाथ अराधसाधु सु पूज नित गुन जपत हैं ॥

ॐ ह्रीं आचार्योपाध्यायसर्वसाधुगुरुभ्यो अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्य
निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

बोहा ।

कनककामिनीविषयवस, दीसै सब संमार ।
 त्यागी वैरागी महा, साधु सुगुन भंडार ॥
 तीन घाटि नवकांड सब वंदां सीस नवाय ।
 गुण तिहँ अडाईस लां, कहूँ आरती गाय ।

छंद बेसरी ।

एक दया पालै मुनिराज, रागदोष दो हरन परं ।
 तीनों लोक प्रगट सब देखै, च्यारों आराधननिकरं ॥
 पंच महाव्रत दुद्धर धारें छहों दरब जानै सुहितं ।
 सात भंगवानी मनलाच, पावै आठ ऋद्धि उचितं ॥
 नवों पदारथ विधिसों भाखे, बंध दशों चूरन करनं ।
 ग्यारह शंकर जानै मानै, उत्तम बारह व्रत धरनं ॥
 तेरहभेद काठिया चूरे, चौदह गुनथानक लखियं ।
 महाप्रमाद पंचदश नाशे, सोलकषाय सबै नखियं ॥ ४ ॥
 बंधादिक सत्रह सूतर लख, ठारह जन्म न मरन मुनं ।
 एक समय उनईस परीषह, बीस प्ररूपनिमें निपुनं ॥
 भाव उदीक इकीसों जानै, बाइस अभस्वन त्याग करं ।
 अहिमिंदर तेईसों बंदै, इन्द्र सुरग चम्बीस वरं ॥ ५ ॥

पञ्चीर्मा भावन नित भावै, कृहसो अंगउपंग पटै ।
सत्ताईसौं विषय विनाशै, अट्टाईसौं गुन सु बटै ॥
शीतसमय सर चौपटवासी, ग्रीषमगिरिसिर जोग धरै ।
बर्षा धृत्तरै थिर ठाढे, आठकरमहनि सिद्धि वरै ॥ ६ ॥

दोहा ।

कहों कहां लों भेद मैं, बुधि थोरी गुन भूर ।
हेमराज सेवक हृदय, भक्ति भरी मरूपूर ॥ ७ ॥

ॐ ह्रीं आचार्योपाध्यायसर्वसाधुगुरुभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।



सहस्रकूटजिन चैत्यालय पूजा ।

हरिगीतिका छन्द ।

सहस्रकूट जिनचैत्य परमसुन्दर सुखकारी ।
पावनपुन्यनिधान दरस है जग अपहारी ॥
रोगशोकदुख हरै विपति दारिद्र नसावै ।
जो जन प्रीति लगाय नियमसे नित गुन गावै ॥

ॐ ह्रीं सहस्रकूटजिनचैत्यालयानि ! अत्र अवतरत अवतरत
संबोधत्

ॐ ह्रीं सहस्रकूटजिनचैत्यालयानि ! अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ।

ॐ ह्रीं सहस्रकूटजिनचैत्यालयानि ! अत्र मम सन्निहितानि भवत
भवत वषट् ।

नीरगंगको सुचि न्यायके, कनक कुम्भनमें सु भरायके ।
घार दे जिन सम्मुख हूजिये, सहस्रकूट जिनालय पूजिये ॥

ॐ ह्रीं सहस्रकूटजिनचैत्यालयेभ्य जलं निर्वपामीति स्वाहा ।
जगतमें जे गध सुहावनी न्यायकर ले अति मन भावनी
तापहर जिन सम्मुख हूजिये, सहस्रकूट जिनालय पूजिये ॥

ॐ ह्रीं सहस्रकूटजिनचैत्यालयेभ्यश्चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।
अमल तन्दुल श्वेत मंगाह्ये, जामतें अक्षयपद पाह्ये ।
थालमा जिन सम्मुख हूजिये, सहस्रकूट जिनालय पूजिये ॥

ॐ ह्रीं सहस्रकूटजिनचैत्यालयेभ्यः अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।
कल्पघृत्नके अतिमोहने, फूल करमें ले मनमोहने ।
मदनहर जिन सम्मुख हूजिये, सहस्रकूट जिनालय पूजिये ॥

ॐ ह्रीं सहस्रकूटजिनचैत्यालयेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।
निज सु आतमके हितकारने, भूखकी बाधा सु बिडारने ।
चरु सु ले जिन सम्मुख हूजिये, सहस्रकूट जिनालय पूजिये ॥

ॐ ह्रीं सहस्रकूटजिनचैत्यालयेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।
जगत जीवन मोह भरा हिये, तामुके तम नाशनके लिये ।
दीप ले जिन सम्मुख हूजिये, सहस्रकूट जिनालय पूजिये ॥

ॐ ह्रीं सहस्रकूटजिनचैत्यालयेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।
धूप ले धूपायन डारने, अष्ट कर्मनके अघ जारने ।
कर्म हर जिन सम्मुख हूजिये, सहस्रकूट जिनालय पूजिये ॥

ॐ ह्रीं सहस्रकूटजिनचैत्यालयेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।
मधुरफल उत्तम संसारमे, शिवप्रियाहित भरकर थारमें ।
शिवपतिके सम्मुख हूजिये, सहस्रकूट जिनालय पूजिये ॥

ॐ ह्रीं सहस्रकूटजिनचैत्यालयेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।
जल सु आदिक द्रव्य सुधामई, सुखदपद कर घर ले सही ।
शुद्ध मन जिन सन्मुख हूजिये, सहस्रकूट जिनालय पूजिये ॥

हरिगीतिका छन्द ।

वसुविधि द्रव्य मेलाय, परमसुन्दर सुखदाई ।
पूजै श्रीजिनसहस्रकूट, मंगलमय भाई ॥
ऋद्धि सिद्धि दातार, और भव रोग मिटावे ।
भद्रा भक्तिसहित, पूर्ण जो अर्घ चढ़ावे ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं सहस्रकूटजिनचैत्यालयेभ्यः पृथार्घिं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

दोहा ।

सहस्रकूट जिनभवनकी, मक्ति हियेमें धार ।
सुनों सरम जयमाल यह, तज मन सकल विकार ॥१॥

पदरी छन्द ।

सहस्रकूट जिनभवन सार, हैं मध्यलोकके जे मभार ।
 कृत्रिम सु अकृत्रिम दो प्रकार, भापे जिनवर जगमें निहार ॥
 जिनमें जिन प्रतिमाको प्रमाण, है सहस्र एक वसु अधिक जान
 पावान धातुमई अति पवित्र, रचना है सुखदायक विवित्र ॥
 जिस नाम लेत सब हरे ताप, भवभवके नाशें सकल पाप ।
 है तीन लोक आनन्ददाय, सुर नर स्वर्ग पूजन आय आय ॥
 कोटीभट राजा श्रीपाल, और अनेकन नृप निहाल ।
 सहस्रकूट जिनभवग बंद, कर्मनरे काटे अभित फंद ॥ ५ ॥
 सोहै रचना अद्भुत अटूट, श्रीजिनवर आलय सहस्रकूट ।
 है बनौ अनपम अति विशाल, ताको कछु वर्णन करहिं लाल ॥
 है भरत क्षेत्रके मध्य धाम, इक आय बुन्देला खण्ड धाम ।
 ताको जु केन्द्रअति विशदगात, है भाँसीनगर सुजग विख्यात
 तहां श्रीजिन मन्दिर है महान, तामें वेदी सोभै प्रधान ।
 वर सहस्रकूट जिन भवनसार, है धातु मई रचना अपार ॥
 तहं स्तुतिवन्दन कर हिं भव्य, अरचें नित लै कर अठठ द्रव्य
 हमहू तिनकी पूजन रचाय, कर रहे सकल मन वचन काय ॥

वत्सा ।

सहस्रकूट जिनभवन हैंऽनूपम, जाकी सेव करे मन श्याय ।
 ताके मन अति सुमति प्रकाशै, दुर्गति जगकी जाय पलाय ॥

बुद्धि होय नित सम्पति गृहमें, तार्तै धर्म बुद्धि हुलशाय ।
 पात्र धर्मका वन "वसन्त" जग, अनुक्रम करके शिशुसुख पाय ॥
 ॐ ह्रीं सहस्रकृतजिनचैत्यालयेभ्यो महार्घे निर्वपामीति स्वाहा ।
 इत्याशीवादः (पुष्पाजलिं क्षिपेत्)

षाडशकारणजू मंस्कृत ।

ऐंद्रं पदं प्राप्य परं प्रमादं धन्यात्मनामात्मनि मन्यमानः ।
 दृक्शुद्धिमुख्यानि जिनेंद्रलक्ष्म्या महाम्यहं षोडशकारणानि ॥

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणानि ! अत्रावतरत
 अवतरत संवौषट् ।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणानि ! अत्र तिष्ठत
 तिष्ठत ठः ठः ।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणानि ! अत्र मम सन्नद्धि-
 तानि भवत भवत वषट् ।

सुवर्णभृंगारविनिर्गताभिः पानीयधाराभिरिमाभिरुच्चैः ।

दृक्शुद्धिमुख्यानि जिनेंद्रलक्ष्म्या महाम्यहं षाडशकारणानि ॥

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्धि-विनयसम्पन्नता-शीलव्रतेष्वनतीचारा-
 भीक्षणज्ञानोपयोग-संवेग शक्तितस्त्यागतपः-साधुसमाधि-त्रैयावृ-
 त्यकरण-अर्हद्भक्ति-अचायेभक्ति-प्रवचनभक्ति-आवश्यकपरिहाणि
 मार्गप्रभवना-प्रवचनवात्सल्येति-सौर्यकरस्वकारणेभ्यो जन्मजरा-
 त्मयुविनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

भीखंडविडोद्भवचंदनेन, कर्पूरस्फुरः सुरभीकृतेव । इक्०

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यः कर्पूरं निर्वपा-
मीति स्वाहा ।

स्थूलैरखंडैरमलैः सुगधैः शान्यक्षतैः सर्वजगन्नमस्यैः । इक्०

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यो अक्षतं निर्वपा-
मीति स्वाहा ।

गुञ्जद्विरेफंः शतपत्रजातीसत्केतकीचंपकगुण्यपुष्पैः । इक्०

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यः पुष्पं निर्वपा-
मीति स्वाहा ।

नवीनपक्वान्नविशेषसारैर्नानाप्रकारैरचरुमिर्वसिष्ठैः । इक्०

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यो नैवेद्यं निर्वपा-
मीति स्वाहा ।

तेजामयोन्लासशिश्वैः प्रदीपैः दीपप्रभैर्ध्वस्तविमोवितानैः । इक्०

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यो दीपं निर्वपा-
मीति स्वाहा ।

कर्पूरकृष्णागरवूर्यारूपैर्धूपैर्दुर्गासाहुतारिव्यगमैः । इक्०

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यो धूपं निर्वपा-
मीति स्वाहा ।

सन्नान्तिकेरकङ्काम्रवीजपुरादिभिः सारफत्तैः रसालैः । इक्०

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यः कर्तुं निर्वपा-
मीति स्वाहा ।

पानीवचंदनरसाक्षतपुष्पभोज्यसद्दीपधूपफलकम्पितमर्घ्यपात्रं ।
 आर्हतपद्मेस्वमलषोडशकारणानां पूजाविधौ विमलमंगलमातनोतु
 ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यो अर्घं निर्बपामीति स्वाहा ।

यदा यदोपवासाः स्युराकरण्यते तदा तदा ।
 मोक्षसौख्यस्य कर्तृणि कारणान्यापि षोडश ॥

(इति पठित्वा यंत्रोपरि पुष्पाजलिं क्षिपेत्—यंत्रके ऊपर पुष्प
 चढ़ाना चाहिये)

अमत्यसहिता हिंसा मिथ्यात्वं च न दृश्यते ।
 अष्टांग यत्र सयुक्तं दर्शनं तद्विशुद्धये ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्धयेऽर्घं निर्बपामीति स्वाहा ।

दर्शनज्ञानचारित्रतपसां यत्र गौरवं ।

मनोवाक्कायसंशुद्ध्या मा ख्याता विनयस्थितिः ॥२॥

ॐ ह्रीं विनयसंपन्नतायै अर्घं निर्बपामीति स्वाहा ।

अनेकशीलसंपूर्णं व्रतपंचकसंयुतं ।

पंचविंशतिक्रिया यत्र तच्छीलव्रतमुच्यते ॥ ३ ॥

ॐ ह्रीं निरतिचारशीलव्रतायार्घं निर्बपामीति स्वाहा ।

काले पाठस्तवो ध्यानं शास्त्रे चिंता गुरौ नुतिः ।

यत्रोपदेशना लोके शास्त्रज्ञानोपयोगता ॥ ४ ॥

ॐ ह्रीं अभीक्ष्णज्ञानोपयोगायार्घं निर्बपामीति स्वाहा ।

पुत्रमित्रकलत्रेभ्यः संसारविषयार्थतः

विरक्तिर्जायते यत्र स संज्ञेयो बुधैः स्मृतः ॥

ॐ ह्रीं संवेगायार्थं निर्वपामीति स्वाहा

जघन्यमप्यमोत्कृष्टपात्रेभ्यो दीयते भृशं ।

शक्त्या चतुर्विधं दानं सा ख्याता दानसंस्थितिः ॥

ॐ ह्रीं शक्तिस्त्यागायार्थं निर्वपामीति स्वाहा ।

तपो द्वादशमेवं हि क्रियते मोक्षलिप्सया ।

शक्तितो भक्तितो यत्र भवेत् सा तपसः स्थितिः ॥

ॐ ह्रीं शक्तिस्तपसेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

आर्या ।

मरखोपर्गरोमादिष्टवियोगादनिष्टसंयोगात् ।

न भयं यत्र प्रविशति, साधुसमाधिः स विज्ञेयः ॥

ॐ ह्रीं साधुसमाधयेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अनुष्टुप् ।

कुष्टोदरव्यथाशूलैर्वातपित्तशिरोतिभिः ।

काशस्वासज्वरारोगैः पीडिता ये ह्यनीश्वराः ॥

तेषां भैषज्यमाहारं शुभषापथ्यमादरात् ।

यत्रैतानि प्रवर्तन्ते वैयाहृत्य तद्बुध्यते ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं वैयाहृत्यकरणायार्थं निर्वपामीति स्वाहा ।

मनसा कर्मणा वाचा जिननावाचस्वर्यं ।
 सदैव स्मर्यते यत्र सार्हभक्तिः प्रकीर्तिता ॥
 ॐ ह्रीं अर्हद्भक्तयेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 निग्रथभुक्तितो भुक्तिस्तस्य द्वारावलोकनं ।
 तद्भोज्यालाभतो वस्तुरसत्यागोपवासता ॥
 तत्पादवंदनापूजा प्रणामो विनयो नतिः ।
 एतानि यत्र जायते गुरुभक्तिर्मता च सा ॥
 ॐ ह्रीं आचार्यभक्तयेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 भवस्मृतिरनेकांतलोकालोकप्रकाशिका ।
 प्रोक्ता यत्रार्हता वाची वर्यते सा बहुभुक्तिः ॥
 ॐ ह्रीं बहुभुतभक्तयेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 षट्द्रव्यपंचकायत्वं सप्ततत्त्वं नवार्थता ।
 कर्मप्रकृतिविच्छेदो यत्र प्रोक्तः स आगमः ॥
 ॐ ह्रीं प्रवचनभक्तयेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 प्रतिक्रमस्तनूत्सर्गः समता वंदना स्तुतिः ।
 स्वाध्यायः पठ्यते यत्र तदावरयकमुच्यते ॥
 ॐ ह्रीं आवश्यकापरिहाण्येऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 जिनस्नानं भुताख्यानं गीतवाद्यं च नर्तनं ।
 यत्र प्रवर्तते पूजा सा सन्मार्गप्रभावना ॥
 ॐ ह्रीं सन्मार्गप्रभावनायै अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

चारित्रगुणशुक्लानां मुनीनां शीलचारिणां ।

गौरवं क्रियते यत्र तद्वात्सल्यं च कथ्यते ।

ॐ ह्रीं प्रवचनवत्सलत्वाचार्यं निर्बपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

भवभवहि निवारण सत्सिंहकारण, पयदमि गुणमन्त्रसागरहं ।

पञ्चविंशतिर्त्थंकर असुहृत्स्वयंकर, केवलशास्त्रदिवायरहं ॥

पदरी छंद ।

दिद धरहु परमदंसल विमुद्धि, मखबयणकायविरह्यात्सुद्धि ।

मा छंडहु विखऊ चउ पयार, जो मुत्तिवरांगण्य हियाहि हार ॥

अणुदिणु परिपालउ सीलभेउ, जो हुचि हरइ संसारहेउ ।

खाखोपजाग जो काल गमइ, तसु तखिय किट्टि भुवण्यहि भमइ

संवेउ चाउ जे अणुसरति, वेण्य भवण्यउ ते तरन्ति ।

जे चउविह दाख सुपच देय, ते मोहभूमि सुइ सत्य लेय ॥

जे तब तर्बति बारहपयार, ते सग्गसुरिंदहहविहवसार ।

जो साधुसमाधि धरति धक्क, सो ह्वइ ख कालहुईधुवक्क ॥

जो जाणइ वैयावक्ककरण, सो होइ सक्वदोसाण हरण ।

जो चितइ मख अरिहत देव, तसु विसय अर्थात्सल्यस्व ॥

पञ्चयणसरिस जे गुरु खमति, चउगइसंसार ख ते भमति ।

बहुसुपह भक्ति जे खर करन्ति, अप्पउ रयण्यचक्र ते धरन्ति ॥

जे छद्म आवासइ चित्तदेह, सो सिद्धपंथसहरत्थ लेइ ।
 जे मग्गपहावण्य आइरंति, ते अहमिहंसण्य संभवन्ति ॥
 जे पवयणकज्जसमत्थ हंति, तहं कम्म जिहं दह स्ववण्य भंति ।
 जे वच्छलच्छ कारण वहंति, ते तित्थयरत्तउ पुइ लहंति ॥

घत्ता ।

जे सोलहकारण कम्मवियारण्य जे धरंति वयसीलधरा ।
 ते दिवि अमरेसुर पहुमि शरेसुर सिद्धवरंगण्य हियहि हरा ॥

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणोभ्योऽनघेपदप्राप्तये
 पूर्णाधि निर्वपामीति स्वाहा ।

एताः षोडश भावना यतिवराः कुर्वन्ति ये निर्मलाः,
 ते वै तीर्थकरस्य नामपदवीमायुलभन्ते कुलं ।
 विचं कांचनपर्वतेषु विधिना स्नानार्चनं दवतां,
 राज्यं सौख्यमनेकधा वरतपो मां चं च सौख्यास्पदं ॥

(इत्याशीर्वादः)

सोलहकारणपूजा (भाषा) ।

अडिल्ल ।

सोलहकारण माय तीर्थकर जे भये, हरषे इन्द्र अपार मेरुपै लेगये
 पूजाकरि निज धन्य लखयो बहु चावसौं, हमहू षाडशकारण
 भावै भावसौं ॥

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणानि ! अत्र अक्षरतर
अक्षरतर संवेषट् ।

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणानि ! अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणानि ! अत्र मम सन्नि-
हितानि भवत भवत वषट् ।

चौपाई

कंचनभारी निरमल नीर, पूजो जिनवर गुणगंभीर ।

परमगुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो ॥

दरशविशुद्धि भावना भाय, सोलह तीर्थकरपददाय ।

परमगुरु हो, जय जय नाथ परमगुरु हो ॥

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यो जन्ममृत्युविनाश-
नाय जल निर्वपामीति स्वाहा ।

चंदन घसो कपूर मिलाय, पूजो श्राजिनवरके पाय ।

परमगुरु हो, जय जय नाथ परमगुरु हो ॥ दरश० ॥

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यः संसारतापविनाश-
नाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

तंदुल धवल सुगंध अनूप, पूजो जिनवर तिहु जगभूप ।

परमगुरु हो, जय जय नाथ परमगुरु हो ॥ दरश० ॥

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्योऽक्षयपदप्राप्तये अक्षयपद-
प्राप्तये

फूल सुगंध मधुपरांजार, पूजो जिनवर जगभ्रातार ।

परमगुरु हो, जय जय नाथ परमगुरु हो ॥ दरश० ॥

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यः कामवाण्विध्व-
सनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

सदनवेज बहुविधि एकवान, पूजौं श्रीजिनवर गुणस्वान ।

परमगुरु हो, जय जय नाथ परमगुरु हो ॥ दरश० ॥

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यः क्षुधारोगविनाश-
नाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

दीपकजोति तिमिर छयकार, पूजूं श्रीजिन केवलधार ।

परमगुरु हो, जय जय नाथ परमगुरु हो ॥

दरशविशुद्धि भावना भाय, सोलह तीर्थकरपददाय ।

परमगुरु हो, जय जय नाथ परमगुरु हो ॥

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्योमोहान्धकारविनाशाय दीपं
अगर कपूर गंध शुभ स्वेय, श्रीजिनवर आगे महकेय ।

परमगुरु हो, जय जय नाथ परमगुरु हो ॥ दरश० ॥

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्योऽष्टकर्मवहनाय धूपं नि०
श्रीफल आदि बहुत फलसार, पूजौं जिन वाञ्छितदातार ।

परमगुरु हो, जय जय नाथ परमगुरु हो ॥ दरश० ॥

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्योमौक्तफलप्राप्तये फलं०
जल फल आठों दरव चढाय, 'द्यानत' वरत करों मनलाय ।

परमगुरु हो, जय जय नाथ परमगुरु हो ॥

दरशविशुद्धि भावना भाय, सोलह तीर्थकरपददाय ।

परमगुरु हो, जय जय नाथ परमगुरु हो ॥

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्योऽनर्घकृप्राप्तये अर्घ्यं०

होहा ।

षोडशकारण गुण करै, हरै चतुरर्गातिवाम ।

पाप पुण्य सब नाशकै, ज्ञानभान परकाश ॥

चौपाई १६ मात्रा ।

दरशविशुद्धि धरै जां कोई, ताको आवागमन न होई ।
 विनय महाधारै जो प्राणी, शिववनिताकी सखी बखानी ॥
 शील सदा दिठ जो नर पालै, सो औरन की आपद टालै ।
 ज्ञानाभ्याम करै मनमाहीं, ताके मोहमहातम नाही ॥
 जो संवेगमाव विसतारै, सुरगमृकति पद आप निहारै ।
 दान देय मन हरष विशेष, इह भव जस परभव सुख देखै ॥
 जो तप तपै खपे अभिलाषा, चूरे करमशिखर गुरु भाषा ।
 साधुसमाधि सदा मन लावै, तिहुजगभोग भागि शिव जावै ॥
 निशदिन वेयावृत्त्य करैया, सो निहर्च भवनार तिरैया ।
 जो अरहंतभगति मन आनै, सा जन विषय बषाय न जानै ॥
 जो आचारजमगति करै है, सो निर्मल आनार धरै है ।
 बहुश्रुतवंतभगति जो करई, सो नर संपूरन श्रुत धरई ॥
 प्रवचनभगति करै जां ज्ञाता, लहै ज्ञान परमानंददाता ।
 षट्आवश्य काल जो सार्धै, सोही रत्नत्रय आराधै ॥
 धरमप्रभाव करै जे ज्ञानी, तिन शिवमारग सेवि पिछानी ।
 बत्सल अंग सदा जो ध्यावै, सो तीर्थकर बदनी आवै ॥

ॐ ह्रीं दर्शविशुद्ध्यादिषोडशकारसोभ्यः पूर्णाध्व्यं निर्वपामीति स्वाहा
दोहा ।

एही सालह भावना, सहित धरं व्रत जोय ।
देव इन्द्र नरवंद्यपद, 'द्यानत' शिवपद होय ॥
(इत्याशीर्वादः)

पंचमेरु समुच्चय पूजा (संस्कृत) ।

संवौषडाहूय निवेश्य ठाभ्यां सांनिध्यमानीय वषट्पदेन ।
श्रीपंचमेरुस्थजिनालयानां यजाम्यशीतिप्रतिमाः समस्ताः ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरुस्थितजिनचैत्यालयस्थजिनप्रतिमा ! अत्र अवतरत
अवतरत संवौषट् । अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः । अत्र मम सांनिहिता
भवत भवत वषट् ।

अथाष्टकं

सुमिधुमुरुयाखिलतीर्थसार्था,—बुमिः शुभांभोजरजोभिरामैः ।
श्रीपंचमेरुस्थजिनालयानां, यजाम्यशीतिप्रतिमाः समस्ताः ॥

आद्यः सुदर्शनो मंरुविजयश्चाचलस्तथा ।

चतुर्थो मंदरो नाम विद्यन्माली सुपंचमः ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरुस्थचैत्यालयस्थजिनविम्बेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा
कूर्त्स्वरस्फुरदत्युदारैः सौरभ्यसारैर्हेरिचंदनाद्यैः ।
श्रीपंचमेरुस्थजिनालयानां यजाम्यशीतिप्रतिमाः समस्ताः ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरुसंबंधिजिनचैत्यालयस्थजिनबिबेभ्यः चंदनं
निर्वपामीति स्वाहा ।

शान्यक्षतैः कैवळकुड्मलानां गुणप्रयेण भ्रममावहद्भिः ।

श्रीपंचमेरुस्थजिनालयानां यजाम्यशीतिप्रतिमाः समस्ताः ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरुस्थचैत्यालयस्थजिनबिबेभ्यः अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्रधानसंतानकमुख्यपुष्पसुगंधितागच्छदतुच्छसृंगैः ।

श्रीपंचमेरुस्थजिनालयानां यजाम्यशीतिप्रतिमाः समस्ताः ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरुसंबंधिजिनचैत्यालयस्थजिनबिबेभ्यः पुष्पं
निर्वपामीति स्वाहा ।

सद्यस्तनैः क्षीरघृतेक्षुमुख्यैः सद्द्रव्यमव्यश्चरुभिः सुगंधैः ।

श्रीपंचमेरुस्थजिनालयानां यजाम्यशीतिप्रतिमाः समस्ताः ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरुसंबंधिजिनचैत्यालयस्थजिनबिबेभ्यः नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ।

तमोविनाशप्रकटीकृतार्थदीपशेषज्ञवचोनुरूपैः ।

श्रीपंचमेरुस्थजिनालयानां यजाम्यशीतिप्रतिमाः समस्ताः ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरुसंबंधिजिनचैत्यालयस्थजिनबिबेभ्यो दीपं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

स्वपापरक्षःपरिणाशधूम्रैरिवोरुकृष्णागरुधूपधूम्रैः ।

श्रीपंचमेरुस्थजिनालयानां यजाम्यशीतिप्रतिमाः समस्ताः ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरुसंबंधिजिनचैत्यालयस्थजिनबिबेभ्यो धूपं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

नारिंगमुख्याखिलवृक्षपक्कफलैः सुगधैः सरसैः सुवर्णैः ।

श्रीपंचमेरुस्थजिनालयानां यजाम्यशीतिप्रतिमाः समस्ताः ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरुसंबधिजिनचैत्यालयस्थजिनविबेभ्यः फलं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

वार्गंधषुष्पाक्षततदीपधूपनैवेद्यदूर्वाफलवद्भिरघैः ।

श्रीपंचमेरुस्थजिनालयानां यजाम्यशीतिप्रतिमाः समस्ताः ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरुसंबधिजिनचैत्यालयस्थजिनविबेभ्यो अर्घं
निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

जिनमज्जशपीठं मृनिगणईठं असी चैत्यमंदिरसहितं ।

वंदौ गिरनायक महिमालायक पंचमेरु तीरथमहितं ॥

चौपाई

जंबूदीप अधिक छवि छाजै, मध्य सुदरशन मेरु विराजै ।

उन्नत जोजन लक्षप्रमाणं, छत्रोपम शिर ऋजुक विमानं ॥

दीप धातकीखंड मभारं, मेरु युगम आगम अनुसारं ।

विजय नाम पूरव दिशि सोहै, पश्चिमभाग अचल मन मोहै

पुष्करार्द्धमें भी पुनि या ही, मंदर विद्युन्माली सोही ।

चारोंकी इकसार ऊंचाई, सहस्र असी चउ योजन गाई ॥

पांचों मेरु महागिरि ये ही, अचल अनादि निधन धिर जेही ।

मूल वज्र मधि मणिमय भासै, ऊपर कनकमई तम नासै ॥

गिरिगिरि प्रति वन चार बखाने, वन वन देवल चार बखाने ।
 चामीकरमय चहुंदिशि राजें, रतनमई जोती रवि लाजें ॥
 समोसरख रचना शुभ धारै, धुत्र पाननसां पाप बिडारै ।
 सौ योजन आयाम गणीजै, व्यास तासमें अर्ध भखीजै ॥
 तुंग पौनसी योजन भारे, भद्रसालके जिनगृह सारे ।
 ऊपर अर्ध अर्ध सब जानो, पांडुक वन पर्यंत प्रमानो ॥
 पांचो मेरुनिका सुन लाजै, सुन वर्णन सरधा यह कीजै ।
 शोभा वर्णत पार न लहिये, बुधि ओछी कैस करि कहिये ॥
 विंब अटोतरसौ इक माहीं, रतनमई देखत दुख जाई ।
 आनन जो अरिविंद लसैं हैं, लक्षण व्यंजन सहित इसैं हैं ॥
 तीन पीठपर शोभित ऐसैं, जगशिर सिद्ध विराजत जैसे ।
 पद्मासन वैराग्य बढावैं, सुर विद्याधर पूजन आवैं ॥
 महिमा कौन कहै जिनकेरी, त्रिभुवन नैनानंद जिनेरी ।
 धनुष पांचसैं तन चित चोरैं, बंदो भाव सहित कर जोरैं ॥
 गजदंतादि शिखर परके हैं, कृत्य अकृत्रिम जिनगृह जेहैं ॥
 अरु त्रिभुवनमें प्रतिमा सारी, तिन प्रति भोक त्रिकाल हमारी
 घसा

भूधर प्रति जेहा करमन एहा, भक्तिविषैं दृढ भव्य जनौ ।
 करि पूजा सारी अष्टप्रकारी, पंचमेरु जयमाल भखा ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरुस्थचैत्यालयस्थजिनविम्बेभ्यः पूर्वार्धे निर्बपा-
 मीति स्वाहा ।

(इति पंचमेरुसमुच्चयपूजा ।)

पंचमेरु पूजा भाषा ।

गीता छन्द

तीर्थकरोके न्हवनजलतैं, भये तीरथ शर्मदा,
तातैं प्रदच्छन देत सुरगन, पंचमेरुनकी सदा ।
दा जलधि ढाईद्वीपमें सब, गनतमूल विराजही,
पूजौं असाजिनधामप्रतिमा, हाहि सुख, दुख भाजही ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरुसम्बन्धिजिनचैत्यालयस्थजिनप्रतिमासमूह !
अत्रावतरावतर संवैपट् ।

ॐ ह्रीं पंचमेरुसम्बन्धिजिनचैत्यालयस्थजिनप्रतिमासमूह !
अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।

ॐ ह्रीं पंचमेरुसम्बन्धिजिनचैत्यालयस्थजिनप्रतिमासमूह !
अत्र मम संनिहतो भव भव षषट् ।

चौपाई आंचलीबद्ध (१५ मात्रा) ।

सीतलमिष्टमुवास मिलाय, जलसाँ पूजौं श्रांजनराय ।

महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ॥

पांचों मेरु असाँ जिनधाम, सब प्रतिमाको करौं प्रनाम ।

महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरुसम्बन्धिजिनचैत्यालयस्थजिनबिम्बेभूते जल
निर्वपामीति स्वाहा ।

जलकेशरकरपूर मिलाय, गंधसाँ पूजौं श्रीजिनराय ।

महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ॥ पांचों० ॥

ॐ ह्रीं पञ्चमेरुसम्बन्धिजिनचैत्यालयस्थजिनविबेभ्यः चन्दन
निर्वपामीति स्वाहा ।

अमल अखंड सुगंध सुहाय, अच्छतसौं पूजौं जिनराय ।
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पांचों० ॥

ॐ ह्रीं पञ्चमेरुसम्बन्धिजिनचैत्यालयस्थजिनविबेभ्यो अक्षतान्
निर्वपामीति स्वाहा ।

बरन अनेक रहे महकाय, फूलसौं पूजौं श्रीजिनराय ।
महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ॥ पांचों० ॥

ॐ ह्रीं पञ्चमेरुसम्बन्धिजिनचैत्यालयस्थजिनविबेभ्यः पुष्पं
निर्वपामीति स्वाहा ।

मनबांछित बहु तुरत बनाय, चरुसौं पूजौं श्रीजिनराय ।
महासुख हांय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पांचों० ॥

ॐ ह्रीं पञ्चमेरुसम्बन्धिजिनचैत्यालयस्थजिनविबेभ्यो नैवेद्यं
निर्वपामीति स्वाहा ।

तमहर उज्ज्वल ज्योति जगाय, दीपसौं पूजौं श्रीजिनराय ।
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पांचों० ॥

ॐ ह्रीं पञ्चमेरुसम्बन्धिजिनचैत्यालयस्थजिनविबेभ्यो दीपं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

खेऊं अगर अमल अधिकाय, धूपसौं पूजौं श्रीजिनराय ।
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ पांचों० ॥

ॐ ह्रीं पञ्चमेरुसम्बन्धिजिनचैत्यालयस्थजिनविबेभ्यो धूपं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

सुरम सुवर्ण सुगंध सुभाय, फलसों पूजौ श्रीजिनराय ।
महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ॥ पाँचों ॥

ॐ ह्रीं पञ्चमेरुसंबन्धिजिनचैत्यालयस्थजिनविभेभ्यः फलं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

आठ दरबमय अरघ बनाय, 'दानत' पूजौ श्रीजिनराय ।
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥

पाँचों मेरु असी जिनधाम सब प्रतिमाको करों प्रनाम ।
महासुख होय, देखे नाथ परमसुख होय ॥

ॐ ह्रीं पञ्चमेरुसंबन्धिजिनचैत्यालयस्थजिनविभेभ्यो अर्घ्यं
निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

सोरठा ।

प्रथम सुदर्शनस्वामि, विजय अचल मंदर कहा ।

विद्युन्माली नाम, पंच मेरु अगमें प्रगट ॥

बेसरी छन्द ।

प्रथम सुदर्शन मेरु विराजै, मद्रशाल वन भूपर छाजै ।

चैत्यालय चारों सुखकारी, मनवचतन बंदना हमारी ॥

ऊपर पंचशतकपर सोहै, नंदनवन देखत मन मोहै ।

चैत्यालय चारों सुखकारी, मनवचतन बंदना हमारी ॥

साढे बासठ सहस ठ'चारै, वनसुमनस शांभै अधिकारै ॥
 चैत्यालय चारौ सुखकारी, मनवचतन बंदना हमारी ॥
 ऊंचा जोन्नन सहसछचीसं, पांडुकवन सोहै गिरिसीसं ।
 चैत्यालय चारौ सुखकारी, मनवचतन बंदना हमारी ॥
 चारौ मेरु समान वखाने, भूपर भद्रसाल चहुं जाने ।
 चैत्यालय सोलह सुखकारी, मनवचतन बंदना हमारी ॥
 ऊंचे पांच शतक पर भाखे, चारौ नंदनवन अभिलाखे ।
 चैत्यालय सोलह सुखकारी, मनवचतन बंदना हमारी ॥
 साढेपचपन सहस उतंगा, वन सौमनस चार बहुरंगा ।
 चैत्यालय सोलह सुखकारी, मनवचतन बंदना हमारी ॥
 उच्च अठाइस सहस बताये, पांडुक चारौ वन शुभ गाये ।
 चैत्यालय सोलह सुखकारी, मनवचतन बंदना हमारा ॥
 सुरनर चारन बंदन आरै, सो शोभा हम किहसुख गाव ।
 चैत्यालय अस्सी सुखकारी, मनवचतन बंदना हमारी ॥

दोहा ।

पंचमेरुकी आरती, पढे सुनै जो कोय ।

'दानत' फल जानै प्रभू, तुरत महासुख होय ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरुसम्बन्धिजिनचैत्यालयस्थजिनविम्बेभ्योऽर्घ्यं
 निर्वपामीति स्वाहा ।

नंदीश्वर पूजा संस्कृत ।

स्थानासनाध्व्यप्रतिपत्तियोग्यं, सद्भावसन्मानजलादिभिश्च ।
लक्ष्मीमुतागमनवीर्यसुखदर्भगर्भैः, संस्थापयामि भुवनाधिपतिं
जिनेन्द्रम् ॥

ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपे द्विपंचाशज्जिनालयस्थप्रतिमासमूह ! अत्र
अवतर अवतर संबोधत् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र मम सन्नि-
हितो भव भव वषट् ।

अथाष्टकं ।

तीर्थोदकैर्मणिसुवर्णवटोपनीतैः, पीठे पवित्रवपुषि प्रविकल्पितार्थैः
नंदीश्वरद्वीपजिन्नलयार्चाः, समर्चये चाष्टदिनानि भक्त्या ॥

ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपे पूर्वदिग्भागे एकअंजनगिरिचतुर्दधि-
मुखाष्टरतिकरेति त्रयोदशजिनालयेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपे दक्षिणदिग्भागे एकअंजनगिरिचतुर्दधि-
मुखाष्टरतिकरेति त्रयोदशजिनालयेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपे पश्चिमदिग्भागे एकअंजनगिरिचतुर्दधि-
मुखाष्टरतिकरेति त्रयोदशजिनालयेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपे उत्तरदिग्भागे एकअंजनगिरिचतुर्दधि-
मुखाष्टरतिकरेति त्रयोदशजिनालयेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीखंडपूर्सुकुं कुमाद्यैर्गर्भैः सुगंधीकृतदिग्बिभागैः ।

नंदीश्वरद्वीपजिनालयार्चाः समर्चये चाष्टदिनानि भक्त्या ।

ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपस्थद्विपंचाशज्जिनालयेभ्यः चंदनं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

शान्यक्षतरैश्चतदीर्घमात्रैः सुनिर्मलैश्चंद्रकरावदातैः ।
नदीश्वरद्वीपजिनालयार्चाः समर्चये चाष्टदिनानि भक्त्या ॥

ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपस्थद्विपंचाशज्जिनालयेभ्यो अक्षयान
निर्वपामीति स्वाहा ।

अंभोजनीलोत्पलपारिजातैः कदंबकुदादितरुप्रसूनैः ।
नदीश्वरद्वीपजिनालयार्चा समर्चये चाष्टदिनानि भक्त्या ॥

ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपस्थद्विपंचाशज्जिनालयेभ्यः पुष्पं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

नैवेद्यकैः कांचनपात्रसंस्थैर्न्यस्तैरुदस्तैर्हरिणासुहस्तैः ।
नन्दीश्वरद्वीपजिनालयार्चा समर्चये चाष्टदिनानि भक्त्या ॥

ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपस्थद्विपंचाशज्जिनालयेभ्यो नैवेद्यं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

दीपांकरैर्ध्वस्ततमोवितानैरुद्योतिताशेषदार्थजातैः ।
नन्दीश्वरद्वीपजिनालयार्चाः समर्चये चाष्टदिनानि भक्त्या ॥

ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपस्थद्विपंचाशज्जिनालयेभ्यो दीपं निर्वपा-
मीति स्वाहा ।

कपूरकृष्णागरुचंदनाद्यै धूर्पैर्विचित्रैर्वरगंधयुक्तैः ।
नन्दीश्वरद्वीपजिनालयार्चाः समर्चये चाष्टदिनानि भक्त्या ॥

ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपस्थद्विपंचाशज्जिनालयेभ्यो धूर्पं निर्वपा-
मीति स्वाहा ।

सर्वगनारिगकपित्तपुगश्रीमाचचोचादिफलैः षवित्रैः ।

नन्दीश्वरद्वीपजिनालपार्चाः समर्चय चाष्टदिनानि भक्त्या ॥

ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपस्थद्विपचाशज्जिनालयेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीचंदनाढ्याक्षततोयमिश्रैविकाशिपुष्पांजलिना सुभक्त्या ।

यजे त्रिकालोद्भवजैनविद्वान्, भक्त्या स्वकर्मक्षयहेतवेऽहं ॥

ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपस्थद्विपचाशज्जिनालयेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीचंदनाढ्याक्षततोयमिश्रैविकाशिपुष्पांजलिना सुभक्त्या ।

सद्भावनावासजिनालयस्थान् जिनेन्द्रविद्वान्प्रयजे मनोज्ञान् ॥

ॐ ह्रीं भावनामरजिनालयेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीचंदनाढ्याक्षततोयमिश्रैविकाशिपुष्पांजलिना सुभक्त्या ।

जंब्वाख्यद्वीपस्थाजिनालयस्थान् जिनेन्द्रविद्वान् प्रजये मनोज्ञान् ॥

ॐ ह्रीं जंबूद्वीपस्थाजिनालयविंबेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीचंदनाढ्याक्षततोयमिश्रैविकाशिपुष्पांजलिना सुभक्त्या ।

श्रीधातकीखंडजिनालयस्थान् जिनेन्द्रविद्वान् प्रजये मनोज्ञान् ॥

ॐ ह्रीं धातकीखंडद्वीपस्थाजिनालयविंबेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीचंदनाढ्याक्षततोयमिश्रैविकाशिपुष्पांजलिना सुभक्त्या ।

श्रीपुष्करद्वीपजिनालयस्थान् जिनेन्द्रविद्वान्प्रयजे मनोज्ञान् ॥

ॐ ह्रीं पुष्करद्वीपस्थाजिनालयविंबेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीचंदनाढ्याक्षततोयमिश्रैर्विकाशिपुष्पांजलिना सुभक्त्या ।
सत्कुंडलाद्रिस्थजिनालयस्थान् जिनेंद्रविबान् प्रयजे मनोज्ञान् ॥

ॐ ह्रीं कुरण्डलगिरिद्वीपस्थजिनालयविबेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीचंदनाढ्याक्षततोयमिश्रैर्विकाशिपुष्पांजलिना सुभक्त्या ।
श्रीमन्मगे व रुचिके हि संस्थान् जिनेंद्रविबान् प्रयजे मनोज्ञान् ॥

ॐ ह्रीं रुचिकगिरिस्थजिनालयविबेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीचन्दनाढ्याक्षततोयमिश्रैर्विकाशिपुष्पांजलिना सुभक्त्या ।
सद्व्यंतगाणां निलयेषु संस्थान् जिनेंद्रविबान्प्रयजे मनोज्ञान् ॥

ॐ ह्रीं अष्टप्रकारव्यन्तरदेवानां गृहेषु जिनालयविबेभ्योऽर्घं
निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीचंदनाढ्याक्षततोयमिश्रैर्विकाशिपुष्पांजलिना सुभक्त्या ।
चंद्रार्कताराग्रहशुद्धज्योतिष्काणां यजे वै जिनविंबवर्यान् ॥

ॐ ह्रीं पंचप्रकारज्योतिष्काणां देवानां गृहेषु जिनालयविबेभ्योऽर्घं
निर्वपामीति स्वाहा ।

कल्पेषु कल्पातिगकेषु चैव देवालयस्थान् जिनदेवविबान् ।
सन्धीरगंधाक्षतमुख्यद्रव्यैर्यजे मनोवाक्त्तनुभिर्मनोज्ञान् ॥

ॐ ह्रीं कल्पकल्पातीतसुरविमानस्थजिनविबेभ्योऽर्घं निर्व-
पामीति स्वाहा ।

कृत्याकृत्रिमचारुचैत्यनिलयाभिस्यं त्रिलोकीगतान्,
बंदे भावनव्यंतरघ्नुतिबरस्वर्गाभरावासमान् ।

सहस्रधाक्षतपुष्पदामचरुकैः सद्दीपधूपैः फलैः,
द्रव्यैर्नीरमुत्सैर्नमामि सततं दुष्कर्मणां शांतये ॥

ॐ ह्रीं कृत्रिमाकृत्रिमजिनालयस्थजिनविवेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

वर्षेषु वर्षातिरवर्षितेषु नन्दीश्वरे यानि च मंदरेषु ।
यावति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वंदे जिनपुङ्गवानां ॥

अवनितलगतानां कृत्रिमाकृत्रिमाणां,
वनमवनगतानां दिव्यवैमानिकानां ।

इह मनुजकृतानां देवराजाचिंतानां,
जिनवरनिलयानां भावतोऽहं स्मरामि ॥

जम्बूधातकिपृष्करार्धवसुधाक्षत्रये ये भवा-
श्चंद्राभोजशिखण्डिकंठकनकप्रावृद्धनामा जिनाः ।

सम्यग्ज्ञानचरित्रलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मधना,
भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जिनेभ्या नमः ॥

श्रीमन्मेरौ कुलाद्रौ रजतगिरिवरे शान्मलौ जम्बुवृक्षे,
वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकररुचके कुण्डले मानुषांके ।

इष्वाकारेजनाद्रौ दधिमुखशिखरे ध्यन्तरे स्वर्गलोके
ज्योतिर्लोकैऽभिवन्दे भुवनमहितले यानि चैत्यालयानि ॥

द्वौ कुन्देदुतुषारहारधवलौ द्वाविद्वनीलप्रभौ

द्वौ बन्धकसमप्रभ निजवृष द्वौ च म्रियंगुप्रभौ ।

शेषाः षाडश जन्मसृत्पुरहिताः सन्तप्तहेमप्रभा-

स्ते संज्ञानदिवाकराः सुरनुतः सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः ॥

नौकोडिसया पश्चादीसा तेषणलक्त्वाण सहससच्छईसा ।

नौसेते पडियाला जिणपडिमा किट्टिमा बन्दे ॥

ॐ ह्रीं कृत्रिमाकृत्रिमचैत्यालस्थजिनविबेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अतीतचतुर्विंशतितीर्थं करनामानि ।

निर्वाणसागराभिल्यो माधुर्यो विसलप्रमः ।

शुद्धवाक् श्रीधरो धीरो दत्तनाथोऽमलप्रमः ॥

उद्धराह्नोग्निनाथश्च संयमः शिवनायकः ।

पुष्पांजलिर्जगत्पूज्यस्तथा शिवगणाधिपः ॥

उत्सःहो ज्ञाननेता च महनीयो जिनोत्तमः ।

विमलेश्वरनामान्यो यथार्थश्च यशोधरः ॥

कर्मसंज्ञोऽपरो ज्ञान-मतिः शुद्धमस्तथा ।

श्रीभद्रपदकांतश्चातीता एते जिनाधिपाः ॥

नमस्कृतसुराधीशैर्महीपतिभिरचिताः ।

बन्दिता धर्षणद्राघैः सन्तु नः सिद्धिहेतवे ॥

ॐ ह्रीं अतीतचतुर्विंशतितीर्थं करेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

वर्तमानचतुर्विंशतितीर्थं करनामानि ।

ऋषमोऽजितनामा च संश्रवश्चाभिनन्दनः ।

सुमतिः पद्मभासश्च सुपाश्र्वां जिनसत्तमः ॥

चन्द्राभः पृष्पदन्तश्च शीतलो भगवान्मृनिः ।
 श्रेयांसो वासुपूज्यश्च विमलो विमलव्युतिः ॥
 अनन्तो घर्मनामा च शांतिकुन्धू जिनोत्तमौ ।
 अरश्च मन्ल्लिनाथश्च सुव्रतो-नमितीर्थकृत् ॥
 हरिर्वशममुद्भूतोऽरिष्टनेमिजिनेश्वरः ।
 ध्वस्तोपसर्गदैत्यारिः पार्श्वो नागेंद्रपूजितः ॥
 कर्मातकृन्महावीरः सिद्धार्थकुलसंभवः ।
 एते सुरासुराघेण पूजिता विमलत्विवः ॥
 पूजिता भरताद्यैश्च भूपेद्रैर्भू रिभूतिभिः ।
 चतुर्विधस्य संघस्य शांतिं कुर्वतु शाश्वतीं ॥
 ॐ ह्रीं वर्तमानचतुर्विंशतिजिनेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 अनागततीर्थङ्करनामानि ।

तीर्थकृच्च महापद्मः सुरदेवो जिनाधिपः ।
 सुपार्श्वनामधेयोऽन्यो यथार्थश्च स्वयंप्रभुः ॥
 सर्वात्मभूत इत्यन्या देवदेवप्रभोदयः ।
 उदयः प्रश्नकीर्तिश्च जयकीर्तिश्च सुव्रतः ॥
 अरश्च पुण्यमूर्तिश्च निष्कषायो जिनेश्वरः ।
 विमलो निर्मलाभिख्याश्चिन्नगुप्तो वरः स्मृतः ॥
 समाधिगुप्तनामान्यौ स्वयंभूरनिवर्तकः ।
 जयो विमलसंज्ञश्च दिव्यपाद इतीरितः ॥

चरमोऽनंतवीर्योऽमी वीर्यधैर्यादिसद्गुणाः ।

चतुर्विंशतिसंख्याता भविष्यत्तार्थकारिणः ॥

ॐ ह्रीं अनागतचतुर्विंशतिजिनेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

कम्पिन्लाणयरीमंडणस्स विमलस्स विमलणाणस्स,

आरत्तिय वरसमये णुच्चति अमररमणीओ,

छन्द ।

अमररमणीउ णुच्चति जिणमंदिरं,

विविहवर तालतूरहिं सुचंगमपुरं ।

जडियचहुरयणचामीयरं पत्तयं,

जोइयं सुन्दरं जिणप आरत्तियं ॥

रुणभडंकारणेवरघचलणुट्ठिया,

मातियादाम वच्छच्छले संठिया ।

गीय गायन्ति णुच्चति जिणमंदिरं,

जोइयं सुन्दरं जिणप आरत्तियं ॥

केशभरिकुमुमपयसरसटोलन्तिया,

बयण छणइंद समकंतवियसंतिया ।

कमलदलणयण जिणवयणपेस्वंतिया,

जोइयं सुन्दरं जिणप आरत्तियं ॥

इन्दधरिण्दिजकखेदवाहंतिया,
 मिलिब सुर असुर घणरासि खेलंतिया ।
 के वि सियचमर जिण्दिब ठोलंतिया,
 जाइयं सुन्दरं जिण्दिप आरत्तियं ॥

गाथा

शंदीसुरम्मि दीवे वावण्णजिणालयेसु पडिमाणं ।
 अट्ठाहीवरपच्चे इन्दो आरत्तियं कुराई ।

छन्द ।

इन्द आरत्तियं कुराई जिणमंदिरं,
 रयणमणिक्किरणकमलेहि वरसुन्दरं ।
 गीय गायंति शच्चंति वरणाडियं,
 तूर वज्जंति शाणाविहप्पाडियं ॥

गाथा ।

एक्केकम्मि य जिणहरे चउचउ सोलहवाबीओ ।
 ज्ञोयणल्लक्खयमाणं अट्ठमे शंदीसुरे दीवे ॥

अट्ठमं दीवशंदीसुरं भासुरं,
 चैत्यचैत्यालये बंदि अमरासुरं ।
 देवदेवीउ जह धम्म सन्तोसिया,
 पंचमं गीय गायंति रसपोसिय

गाथा

दिग्बेहिं स्त्रीस्त्रीरेहि गंधड्ढाईहिं कुसुममालाहिं ।
सध्वसुरलोयसहिया पुज्जा आरंभए इन्दो ॥

इन्दसोहम्मिसम्भाववज्जोसयं,

आयऊ सज्जि ऐरावयं वरगयं ।

सध्वदध्वेहिं भध्वेहिं पूजाकरा,

मिलिव पडिवक्खया तस्स तिहु दसया ॥

गाथा

कंसालतालतिवली, भञ्जलरभरभेरिवेणुविण्णयाओ ।
वज्जंति भावसहिया भध्वेहिं णउज्जिया सध्वे ॥

छन्द ।

सध्वदध्वेहिं भध्वेहिं करताडियं,

सइए संभ्रिगणभ्रिगण्णिद्धाडयं ।

भ्रिभ्रिनिभं भ्रिगिनिभं वज्जये भ्रुद्धरी,

णञ्चये ईदइंदायणी सुन्दरी ॥

णयणकज्जलसलायामयं दिरण्णयं,

हेमहीरालयं कुण्डलं कंकणं ।

भंभ्रणं भंकरं तं पि ये खेवरं,

जिणपभारणियं ओइयं सुन्दरं ॥

दिट्ठिणासग्गि अंगुलियदावंतिया,
 खिण्हिं खिण्ण खिण्हिं जिण्णविंष जोहंतिया ।
 शारि शच्चंति गारयंति कोइलसुरं,
 जिण्णप आरत्तियं जोइयं सुन्दरं ॥

रुणुभुण्णंकारणे वरधकरकंकणं,
 शाइ जंपंति जिण्णयाहवं बहुगुणं ।
 जुवइ शच्चंति समरंति शउ शियघरं,
 जिण्णपआरत्तियं जोइयं जोइयं सुन्दरं ॥

कंठकदलीह मणिहार भुल्लंतऊ,
 जिण्णइ थुइ थुइ सो शाय संतुइऊ, ।
 विविहकोऊहलं रयहि शारीघरं,
 जिण्णपआरत्तियं जोइयं सुन्दरं ।

घत्ता ।

आरत्तिय जोवइ कम्मइ धोवइ, सग्गावग्ग हलहु लइइ ।
 जं जं मग्ग भावइ तं सुहपावइ, दीणुवि कासुण भासुणइ ।

ॐ ह्रीं श्रीनन्दीश्वरद्वीपे पूर्वपरिचमोत्तरदक्षिणे द्विपंचाशब्जि-
 नालयेभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

यावंतिं जिनचैत्यानि, विद्यंते भुवनत्रये,
 तावंति सततं भक्त्या, त्रिःपरीत्य नमाम्यहं ।

(इत्याशीर्वादः)

इति नंदीश्वर पूजा

श्रीनंदीश्वरद्वीप की भाषाजूा ।

अद्विज्ञ ।

सरब परबमें बड़ो अठार्ह परब है,
 नंदीश्वर सुग जाय लेय वसु दरब है ।
 हमे सकति सो नाहिं इहां करि थापना,
 पूजें जिनगृह प्रतिमा है हित आपना ॥

ॐ ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे द्विपञ्चाशज्जिनालयस्थजिनप्रतिमास-
 मृह ! अत्र अवतर अवतर संवौषट् ।

ॐ ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे द्विपंचाशज्जिनालयस्थजिनप्रतिमास-
 मृह ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे द्विपंचाशज्जिनालयस्थजिनप्रतिमास-
 मृह ! अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् ।

कंचनमणिमय भृङ्गार, तीरथनीर भरा,
 निहूँ धार दयी, निरवार जामन मरन जरा ।
 नंदीश्वर श्रीजिनधाम, बाबन पूज करों,
 वसुदिन प्रतिमा अभिराम, आनंदभाव धरों ॥

ॐ ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपेपूर्वदिग्भागेएकअञ्जनगिरिचतुर्दधिसुखाष्टर-
 तिकरेतित्रयोदयजिनालयेभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्ब-
 पामीति स्वाहा ।

ॐ ह्रीं नंदीश्वरद्वीपे दक्षिणदिग्भागे एकअञ्जनगिरिचतुर्द-
 धिसुखाष्टरतिकरेतित्रयोदशजिनालयेभ्यो जलं निर्बपामीति स्वाहा ।

ॐ ह्रीं नंदीश्वरद्वीपेपश्चिमदिग्भागे एकअस्त्रनगिरिचतुर्दधि-
मुखाष्टरतिकरेति त्रयोदशजिनालयेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

ॐ ह्रीं नंदीश्वरद्वीपे उत्तरदिग्भागे एकअस्त्रनगिरिचर्दधिमु-
खाष्टरतिकरेतित्रयोदशजिनालयेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

भवत्पहर शीतल वाच, सो चंदन नाहीं,

प्रभु यह गुन कीजै सांच, आयौ तुम ठाहीं !

नंदीश्वरश्रीजिनधाम०

ॐ ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्वपश्चिमोत्तरदक्षिणे द्विपंचाशजिनालये-
भ्यः संसारतापविनाशनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

उत्तम अक्षत जिनगज, पुंज धरे सोहैं,

सब जांते अक्षसमाज, तुम सम अरु को है ।

नंदीश्वरश्रीजिनधाम०

ॐ ह्रीं नंदीश्वरद्वीपे पूर्वपश्चिमोत्तरदक्षिणे द्विपंचाशजिना-
लयस्थजिनप्रतिमाभ्योऽक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

तुम कामविनाशक देव, ध्याऊं फूलनसौं,

लहि शील लच्छमी एव, छूटूं झलनसौं ।

नंदीश्वर श्रीजिनधाम० ॥

ॐ ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्वपश्चिमोत्तरदक्षिणे द्विपंचाशजि-
नालयस्थजिनप्रतिमाभ्यः कामबाणविष्वंसनाय पुष्पं निर्व० ।

नेवज इंद्रियबलकार, सो तुमने चूरा,

चरु तुम टिंग सोहै सार, अचरज है पूरा ।

नंदीश्वरश्रीजिनधाम० ॥

ॐ ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्वपश्चिमोत्तरदक्षिणे द्विपंचाशज्जि-
नालयस्थजिनप्रतिमाभ्यः जुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्व० ।

दीपककी ज्योति प्रकाश, तुम तनमांहि लसे,
टूटै करमनकी राशि, ज्ञानकणी दरसै ।

नंदीश्वर श्रीजिनधाम०

ॐ ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्वपश्चिमोत्तरदक्षिणे द्विपंचाशज्जि-
नालयस्थजिनप्रतिमाभ्यो मोहान्धकारविनाशनाय दीपं निर्व० ।

कृष्णागरुधूपसुवास, दसदिशिनारि वरै,
अति हरषभाव परकाश, मानों नृत्य करै ।

नंदीश्वरश्रीजिनधाम०

ॐ ह्रीं नंदीश्वरद्वीपे पूर्वपश्चिमोत्तरदक्षिणे द्विपंचाशज्जिना-
लयस्थजिनप्रतिमाभ्योऽष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

बहुविधिफल ले तिहुँकाल, आनंद राचत हैं ।
तुम शिवफल देहु दयाल, तां हम जाचत हैं ॥

ॐ ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्वपश्चिमोत्तरदक्षिणे द्विपंचाशज्जि-
नालयस्थजिनप्रतिमाभ्यो मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

यह अरघ कियो निज हेत, तुमको अरपतु हों ।
'द्यानत' कीनों शिवखेत,—भूमि समरपतु हों ॥
नंदीश्वर श्रीजिनधाम, बावन, पूज करौं ।
वसुदिन, प्रतिमा अभिराम, आनंद भाव धरौं ॥

ॐ ह्रीं श्रीनंदीश्वरद्वीपे पूर्वपश्चिमोत्तरदक्षिणे द्विपंचाशज्जिनाल-
यस्थजिनप्रतिमाभ्योऽनघंपदप्राप्तये अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

दोहा ।

क्रातिक फागुन साढके, अंत आठ दिनमाहिं ।
नंदीश्वर सुर जात हैं, हम पूजें इह ठाहिं ॥

एकसौ त्रेसठ कोडि जोजनमहा,
लाख चौरास एक एक दिशमें लहा ।

अट्ठमं द्वीप नंदीश्वरं भास्वरं,
भौन बावन्न प्रतिमा नमो सुखकरं ॥

चारदिशि चार अंजनगिरा राजही,
सहस चौरासिया एकदिश छाजही ।

हं लपम गोल ऊपर तले सुन्दरं ॥ भौन० ॥

एक इक चार दिशि चार शुभ बावरी,
एक इक लाख जोजन अमल जलभरी ।

चहुँदिशा चार वन लाख जोजन वरं ॥ भौन० ॥

सोल बापीनमधि सोल गिरि दधिमुखं,
सहस दश महा जोजन लखत ही सुखं ।

बावरीकौन दोमाहिं दो रतिकरं ॥ भौन० ॥

शैल बत्तीस इक सहस जोजन कहे,

चार सोले मिले सर्व बावन लहे ।

एक इक सीसपर एक जिनमंदिरं ॥ भौन० ॥

बिंब झट एकसौ रतनमय सोहही,
 देवदेवी सरव नयनमन मोहही ।
 पांचसैं धनुष तन पद्म-आसन परं ॥ मौन० ॥
 लाल नख छुख नयन स्याम अरु स्वेत हैं,
 स्यामरंग भोंह सिरकेश छवि देत हैं ।
 वचन बोलत मनो हंसत कालुषहरं । मौन० ॥

कोटि शशि भानदुति तेज छिप जात है,
 महावैगम परिखाम टहरात है ।
 वयन नहिं कहैं लखि होत सम्यकधरं
 मौन वावन्न प्रतिमा नमौ सुखकरं ॥

सोरठा ।

नंदीश्वर निजधाम, प्रतिमा महिमा को कहैं,
 'धानत' लीनो नाम, यहै भगति सब सुख करैं ।

ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपे पूर्वपरिचमोत्तरदक्षिणे द्विपंचाशब्दि-
 नालयस्थजिनप्रतिमाभ्यः पूर्यार्चं निर्धपाय्मीति स्वाहा ।

(इत्याशीर्वाचः)

दशलक्षणपूजा संस्कृत ।

उत्तमादिक्षमाद्यन्तब्रह्मचर्यमुलक्षणं ।

स्थापयेद्दशधा धर्ममुत्तमं जिनमाषितं ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशलाक्षणिकधर्मे ! अत्रावतर अवतर संवौषट् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् ।

(यन्त्र की स्थापना करनी चाहिये ।)

प्रालेयशैलशुचिनिर्गतचास्तोयैः,

शीतैः सुगन्धिसहितैर्मुनिचित्ततुल्यैः ।

संपूजयामि दशलक्षणधर्ममेकं,

संसारतापहननाय क्षमादियुक्तं ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमा-भार्दवाजव-सत्य-शौच संयम-तपस्त्यागा-किञ्चन्य-ब्रह्मचर्यधर्मेभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीचंदनैर्बहलकुंकुमचंद्रमिश्रैः,

संवासवासितदिशामुखदिध्यसंस्थैः ।

संपूजयामि दशलक्षणधर्ममेकं

संसारतापहननाय क्षमादियुक्तं ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशधर्मेभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

शालीयशुद्धसरलामलपुण्यपुञ्जैः,
 रम्यैरस्वडशैशिलक्षारूपतुन्यैः ।
 संपूजयामि दशलक्ष्णधर्ममेकं
 संसारतापहननाय क्षमादियुक्तं ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशधर्मेभ्योऽक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

मंदारकुन्दवकुलोत्पलपारिजातैः
 पुष्पैः सुगंधसुरभीकृतमूर्ध्वलोकैः ।
 संपूजयामि दशलक्ष्णधर्ममेकं
 संसारतापहननाय क्षमादियुक्तं ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशधर्मेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

अत्युत्तमैः रसरसादकमद्यजातै-
 नैवेद्यकैश्च परितोषितभव्यलोकैः ।
 संपूजयामि दशलक्ष्णधर्ममेकं,
 संसारतापहननाय क्षमादियुक्तं ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशधर्मेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

दापैविनाशिततमोत्कररुद्यताशैः
 कपूरवतिज्वलितोज्वलभाजनस्थैः ।
 संपूजयामि दशलक्ष्णधर्ममेकं
 संसारतापहननाय क्षमादियुक्तं ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशधर्मेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

कृष्णामरुप्रभृतिसर्षसुगधद्रव्ये-

धूर्ध्रैस्तिरोहितदिशाम्मुखदिव्यधूर्ध्रैः ।

संपूजयामि दशलक्षशधर्ममेक,

ससारतापहननाय क्षमादियुक्तं ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमाविदशधर्मेभ्यो धूप निवपामीति स्वाहा ।

पूगीलवंगकदलीफलनालिकेरैः

हृद्प्राणनेत्रमुखदैः शिवदानदक्षैः ।

संपूजयामि दशलक्षशधर्ममेकं

ससारतापहननाय क्षमादियुक्तं ॥

ॐ ह्रीं इत्तमक्षमादिदशधर्मेभ्यः फलं निर्बपामीति स्वाहा ।

पानीयस्वच्छहरिचन्दत्तपुष्पसारैः

शालीयतन्दुलनिवेद्यसुचन्द्रदीपैः ।

धूपैःफलावलिनिनिमित्तपुष्पगंधैः

पुष्पांजलिभिरपि धर्ममहं समर्पे ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमा-मार्दवा-जैव-सत्य-शौच-संयम-तपस्त्यागा-
किचन्द-ब्रह्मचर्यधर्मेभ्यो अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं निर्बपामीति स्वाहा ।

अंगपूजा ।

(उत्तम क्षमा)

येन केनापि दुष्टेन पीडितेनापि कुत्रचित् ।

क्षमा त्याज्या न भव्येन स्वर्गमोक्षाभिलाषिणा ॥

ॐ ह्रीं परब्रह्मणे उत्तमज्ञमाधर्मा'गाय अर्चं निर्वपामीति स्वाहा ।
 उत्तमस्वममर्हउ अज्जउ सच्चउ पुण्य सउच्च संजम सुतठ।'
 चाउवि आकिंचणु भव भयवंचणु,वंभचेरु धम्मजु अस्वउ ॥
 उत्तमस्वम तिल्लोयहमारी, उत्तमस्वम जम्मोवहितारी ।
 उत्तमस्वम रयणत्तयधारी, उत्तमस्वम दुग्गाइदुइहारी ॥
 उत्तमस्वम शुण्यमणसहयारी, उत्तमस्वम मुणिविंदपयारी ।
 उत्तमस्वम बुद्धयण्य चिंतामणि, उत्तमस्वम संपज्जइ थिरमणि ॥
 उत्तमस्वम महेण्णिज्ज सयलजणु, उत्तमस्व मिच्छर्त्त विहंडणु ।
 जह अममत्थहदोसु खमिज्जइ, जहि अममत्थह णवि रुसिज्जइ ॥
 जहि आकोसखवयण सहज्जइ, जहिं परदोस ण जण भामिज्जइ
 जह चेरणगुण चित्त धरिज्जइ, तहिं उत्तमस्वम जिण्णे कहिज्जइ ॥

घत्ता ।

इस उत्तमस्वमजूया सुरस्वगणूया केवलणाख लाह वि थिरू ।
 इय सिद्धणिरंजण भवदुहभंजणु अगणियरिसिपुंगमजि चिरू ॥

ॐ ह्रीं उत्तमज्ञमाधर्मा'गायार्चं निर्वपामीति स्वाहा ।

(उत्तम मार्दव)

सुदुर्लभं सर्वभूतेषु कार्यं जीवने सर्वदा ।

कठिन्यं त्यज्यते नित्यं, धर्मबुद्धिं विजानता ॥

ॐ ह्रीं परब्रह्मणे उत्तममार्दवधर्मा'गायः जलाद्यर्थं निर्व०

मद्बु भवमद्गु माण्यिकंदयु दयधम्म जु मूल ह विमलु ।
 सम्बह हिर्यवारुं गुणगणसारुं तिस उंचऊं संजम सयलु ॥
 मद्दु माण्यकमाय विहंडयु, मद्दु पंचदियमण दंडयु ।
 मद्दुदु धम्महंकरुणुवलो, पपरह विचमहीरुदवली ॥
 मद्दु जिणवैरं भक्तिपधासड, मद्दुदु कुंपहंपरु णरुण्णासड ।
 मद्दुदवण बंधुविण्ये पवडुइ, मद्दुदवण अरुवइरी हडुइ ॥
 मद्दुदवेण पारणाभेविसुदी, मद्दुदवेण विहु लोभह सिदी ।
 मद्दुदवेण दोविहं तवः सांइइ, मद्दुदवेण तीजो थार मोहइ ॥
 मद्दुदु जिणसासणु जाशिज्जइ, अप्पापर सरुव भासिज्जइ ।
 मद्दुदु दोष अण्णु शिवारुं मद्दुदु जण्णसमुदुदहत्तारुं ॥

ॐ । धत्ता ३

सम्महंमण अंगु मद्दुपण्णाम जु मुणुहु
 इय पुरियाण विचित्त मद्दु धम्म अमलं थुणुहु ॥

ॐ ह्रीं लक्ष्मणमार्दवधर्मा गायत्रीं निर्वपामीति स्वाहा ।

(उत्तम आर्जव)

आर्यतं क्रियते सम्पक्कं दुष्टवुद्धिरच त्यज्यते ।

पापचिन्ता न कर्त्तव्या श्रावकैर्धर्मचित्तकैः ॥

ॐ ह्रीं परमब्रह्मणे आर्जवधर्मा गाय जलाग्रधं निर्वपामीति स्वाहा ।

धम्महं वरलक्ष्णु अज्जउ थिरमणु,

दुारयविहंडणु सुइजणणु ।

तं इत्थु जि किज्जइ तं पालिज्जइ,
तं णि सुणिज्जइ स्वयज्जणु ॥ १ ॥

जारिसु णिजयचित्त चित्तज्जइ,
तारिसु अण्णह्ण पुण भासिज्जइ ।
किज्जइ पुण तारिसु सुइसंचणु,
तं अज्जवगुण मुणह्ण अवंचणु ॥ २ ॥

मायासन्न मणह्ण णीमारह्ण,
अज्जउ धम्म पवित्त त्रियारह्ण ।
चउ तउ मायावियउ णिरत्थउ,
अज्जउ सिवपुर पंथ सउत्थउ ॥ ३ ॥

जत्थ कुटिलपरिणाम चइज्जइ,
तहिं अज्जउ धम्मजु संपज्जइ ।
दंसणणायसरुव अत्वंडो,
परम अतीदिय सुवंस्वकरंडो, ॥ ४ ॥

अप्पे अप्पउ भवहत्तरंडो,
एरिसु चेयणभावपयंडो ।
सो पुण अज्जउ धम्मे लब्भइ,
अज्जवेषण वैरियमण सुब्भइ ॥ ५ ॥

वत्ता । -

अञ्जत परमप्यत मयसंकपत,

चिम्मितु सासय अभयपत ।

तं शिरुजाहञ्जह संसत हिञ्जह,

पाविञ्जह जिहि अचलपत ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं उक्तमार्जवधर्मा'गायार्धे' निर्वपामीति स्वाहा ।

(उक्तम सत्य)

असत्यं मर्वथा त्याज्यं दृष्ट्वाक्यं च सर्वदा ।

परनिदा न कर्तव्या भव्येनःपि च सर्वदा ॥

ॐ ह्रीं परमब्रह्मणे उक्तमसत्यधर्म'ङ्गोय जलाद्यर्धे' निव०

दयधम्महु कारण दोसणिवारण, इहभवपरभव सुक्खयरू ।

सच्चुजि वयणुल्लत भुवणिअतुल्लत, वोलिञ्जह वीसासयरू ॥

सच्चुजि सव्वह धम्मपद्दाणु, सच्चु जि महियलगरुवविहाण ।

सच्चु जि संसारसमुदसेत, सच्चु जि भव्वह मण सुक्खहेत ॥

सच्चेण जि सोहइ मणुवजम्म, सच्चेण पवित्तत पुण्णकम्म ।

सच्चेण सयलगुणगण सुहंति, सच्चेण तियस सेवा वहंति ॥

मच्चेण अणुटवमहव्वयाइ, सच्चेण विहासिय आवयाइ ।

हियमिय भापिञ्जइ शिच्चभास, श्वि भासिञ्जइ परदुहपयास

परवाहायर भ सहु ण भव्व, मच्चु शि छंडत विगयगव्व ।

सच्चु जि परमप्पा अत्थि एककु, से भावहु अवतमदलणअक्कु

रुन्धिञ्जइ सुशिया'त्रपश'त्ति, जंखण'किइइ संसार अचि ।

घत्ता ।

मन्चु जि धम्मपलेण, कंबलहाण वहेह थणु ।
तं पालह् ओ भव्व, भएहु ख अलियउ-इह वयणु ॥

ॐ ह्रीं सत्यधर्माङ्गाशार्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

(उत्तम शौच)

बाह्याभ्यन्तरे च्छापि मनोवाक्यायशुद्धिमिः

शुचित्वेन सदा भाव्यं पापभातैः सुश्रावकैः ॥

ॐ ह्रीं परब्रह्मणे उत्तमशौचधर्माङ्गाय जलाद्यर्धं त्रिवं०

मन्चु जि धम्मंगो तं जि अंभगा । भएणंगो उवओगमई ।
जररणविण्णासणु तिजयपयामणु काइज्जइ अहिणिसु जि थुऊ
धम्म सउच्च होइ मखसुद्धिय, धम्म सउच्च वयणधण गिद्धिय ।
धम्म सउच्च लोह वज्जतउ, धम्म सउच्च सुतव पहिजंतउ ॥
धम्म सउच्च वंभवयधरणु, धम्म सउच्च मयट्ठखिवारणु ।
धम्मसउच्च जिणायमभण्णे, धम्म सउच्च सुगुण अणुमण्णे
धम्म सउच्च सल्लकयचाए, धम्म सउच्च जि शिम्मलभाए ।
धम्म सउच्च कसाय अहावे, धम्म सउच्च ख लिप्पइ पावे ॥
अहवा जिणवर पूजविहण्ण, शिम्मल फासुयजलकयएहाण्णे ।
तं पि सउच्च गिहत्थउ भासइ, शवि मुणिवरह कहिउ लोयासिउ
घत्ता ।

भव मुखि वि अण्णिवो धम्म सउच्चउ पालिज्जइ एयम्ममण्णि ।

सिवमग्ग सहाओ सिद्धपदाओ अणुवचित्ति किंखित्ति ॥

ॐ ह्रीं उत्तमशौचधमा गायाघ निवपामीति स्वाहा ।

(उत्तम सयम)

संयमं द्विविधं लोके कथितं मुनिपुङ्गवैः ।

पालनीर्यं पुनश्चित्ते भव्यजीवेन सर्वदा ॥

ॐ ह्रीं परब्रह्मणे उत्तमसयमधर्मा गाय जलाद्यर्घं निर्व०

सजम जशि दुल्लहु, तं पाविन्नलहु, जो छंडइ पुण मूढमई ।

सो भमै भवावलि जरमरणावलि, किम पाबइ सुइ पुण सुगई ॥

सजम पचेदिय दडण्णेण, सजम जि कसाय विहडण्णेण ।

सजम दुद्धर तव धारण्णेण, सजमरस चाय वियारण्णेण ॥

संजम उववास वियंभण्णेण, संजम मणुपसरहु थंभण्णेण ।

संजम गुरुकायकलेसण्णेण, सजम परिगहगिहचायण्णेण ॥

सजम तसथावरकखण्णेण, संजम तिण्णिजोयणियत्तण्णेण ।

सजमसुतत्थपरिरकखण्णेण, सजम ब्रह्मगमण चयतण्णेण ॥

संजम अण्णकंपकुशंतण्णेण, संजम परमन्थवियारण्णेण ।

सजम पोसइ दंसण हु अत्थ, सजम तिसहूणिरुमोकखपत्थ ॥

सजमविणु णारभवसयल सुण्णु, संजम विणुदुग्गइजि उपवण्णु ।

सजमविणु घडियम इत्थ जाट, संजमविणुबिहली अत्थिआड

घत्ता ।

इहभवपरभवसंजमसरणा, हाज्जउ जिण्णेण हे भणिओ ।

दुग्गइसरसोसण खरकिरण्णोवम जेण भवारि विसम हणिओ ॥

ॐ ह्रीं उत्तम सयमधर्मा गायाघ निवपामीति स्वाहा ।

(उत्तम)

द्वादश द्विविधं लोके वाङ्माम्यतरभेदतः ।

स्वर्यशक्तिप्रमाणेन क्रियते ध्रुमेवेदिभिः ॥

ॐ ह्रीं परमब्रह्मणे उत्तमतपोधर्मा गाय जलाशर्घं निर्व० ।

शारभवपावेष्टिषु तच्च मुखोष्पिषु खंड वि पंचेदियसमणु ।

शिञ्चेउवि मंडिवि सगइ छडिवि तव किज्जइ जाये विवणु ॥

तं तउ जहि परिगहछडिज्जइ, तं तउ जहि मयणुजि खंडिज्जइ

तं तउ जहि शग्गत्तणु दीमइ, तं तउ जहि गिरिकंदर शिवसइ

त तउ जहि उवसग्ग सहिज्जइ, तं तउ जहि रायाइ जिणिज्जइ

तं तउ जहि भिक्खइ भुज्जइ, सावयगेह कालणिविसज्जइ

तं तउ जत्यममिदिपरिपालणु, तं तउ गुत्तियहण्डालणु ।

त तउ जहि अष्पापर बुज्जिउ, त तउ जहि भव माणुजि

उज्जिउ ॥

तं तउ जहि ससरुव मुणिज्जइ, तं तउ जहि कम्महगण विज्जइ,

तं तउ जहि सुरभत्तिपयासहि, पवयणत्थ भवियणह पमासहि

जेण तव केवल उपवज्जइ, सासय सुक्ख शिच्च सुपज्जइ ॥

पत्ता ।

वारहविहु तउवरु दुग्गाइ परिहुरु, तं पूजिज्जइ धिरगणिया ।

मच्छरभयछंडिवि करणइ दंडिवि, तं पि धरिज्जइ गौरविया ॥

ॐ ह्रीं उत्तमतपोधर्मागायार्घं निर्वेषामीति स्वाहा ।

(उत्तम त्याग)

चतुर्विधाय संघाय दानं चैव चतुर्विधं ।

दातव्यं सर्वथा सदभिश्चितकैः पारलौकिकैः ॥

ॐ ह्रीं परब्रह्मणे उत्तमत्यागवर्मांगाय जलाद्यद्य निर्वपामीति स्वाहा
 चाउ वि धम्मगो करहु अभंगो खियसत्तिइ मत्तिय जणहु ।
 पत्तह सुवत्तिह तवगुणजुत्तह परमइसवलु तं सुणहु ॥,
 चाए आवागवणउ हट्टह, चाए खिम्मल कित्ति पविट्टइ ।
 चाए वयरिय पणमिह पाये, चाए भोगभूमि सुह जाए ॥
 चाउ विण्णिज्जइ खिच्च जि विण्णए, सुयवयखे भासेप्पिणु पणए
 अभयदाण दिज्जइ पहिलारउ, जिमि खासइ परभवदुह्यारउ
 सत्थदाण वीजो पुण किज्जइ, खिम्मलणाण जेण पाविज्जइ
 ओसह दिज्जइ रायविणासणु, कह वि ण पित्थइ वहिपयासणु
 आहारे धणरिद्धि पविट्टइ, चउविह चाउ जि एहु पविट्टइ ।
 अहवा दुट्ठवियप्पह चाए, चाउ जि एहु सुणहु समवाए ॥

घत्ता ।

दुहियहि दिज्जइ दाण, किज्जइ माणु जि गुखियणहि ।

दयभावीय अभग, दंसण वित्तिज्जइ मणहं ॥

ॐ ह्रीं उत्तमत्यागवर्मांगायार्चं निर्वपामीति स्वाहा ।

(उत्तम आर्किचन)

३५

चतुर्विंशतिसंख्यातौ यो परिग्रह ईरितः ।

तस्य संख्या प्रकर्तव्या तृष्णारुहितचेतसा ॥

ॐ ह्रीं परमब्रह्मणे उत्तमाकिचन्यधर्मांगाय जलाद्यध निर्वे०
 आकिंचणु भावहु अप्पा ँभावहु देहभिएणउ ँभाणमळ ।
 निरुवम भयवएणउ सुहसंपएणउ, परम अतींदिय विगयभउ ॥
 आकिंचणु चउसंगहणिवित्ति, आकिंचणु चउसुभाणसत्ति ।
 आकिंचणु वउवियल्लियममत्ति, आकिंचणु रयणत्तयपवित्त ॥
 आकिंचणु आउ चिएठित्त, पसरंतउ इन्दियवणिवित्त ।
 आकिंचणु देहइणोहचित्त, आकिंचणु जं भवसुइ विरत्त ॥
 ।तणमत्त परिग्गह जत्थ णत्थि, मणिराउ विट्ठिज्जइ तव अवत्थि
 अप्पापर जत्थ वियारसत्ति, पयट्ठिज्जइ जहि परमेठ्ठिमत्ति ॥
 जह छट्ठिज्जइ सकलदुट्ठ, भोयण वट्ठिज्जइ जह अण्डि ।
 आकिंचण धम्म जि एम होइ, त उभाइज्जइ शुरुइत्थलोइ ॥
 चत्ता ।

ए हुज्जि पहाये लद्धसहावे, तित्थेसर सिधनयरिगया ।
 त पुण रिसिसारा मयणवियारा, धंदणिज्ज एतेण सया ॥

ॐ ह्रीं उत्तमाकिचन्यधर्मांगाय निर्वपामीति स्वाहा ।

(उत्तम ब्रह्मचर्य)

नवधा सर्वदा पान्यं शील संतापधारिभिः ।

भेदाभेदेन संयुक्तं सद्गुरूणां प्रसादतः ॥

ॐ ह्रीं परमब्रह्मणे उत्तमब्रह्मचर्यधर्मांगाय ब्रह्मचर्ये निर्वपामि ० ।

बंभन्वउ दुद्धरु धारिज्जइवरु केडिज्जइ विषयासणिरु ।
 तियसुक्खयरत्तो मणकरिमत्तो तं जि भन्व रक्खेहु थिरु ॥
 वित्तभूमि मयणु जि उंपवज्जइ, तण जु पीडउ करइ अक्कज्जइ
 तियह सरीरइ णिदह सेवइ, णिय परणारि ण मूठउ वेवइ ॥
 णिवडइ णिगय महादुह भुज्जइ, जो हीणुजि बंभन्वउ भंजइ ।
 इय जाणाबणु मणवयकाए, बंभन्वेरु पालहु अणुभाए ॥
 खवपयार सत्थिय सुहयारउ, बंभन्वे विणु वउतउजिअमारउ ।
 बंभन्वे विणु काय किलेसइ, विडल सयल भासीय जिणेसइ ॥
 वाडिर फग्गेंदयसुंरक्खउ, परमबंभ आभितर पिक्खउ ।
 एण उवाए लब्भइ मिवहरु, इम गइधु बहु भणइ विणाययरु ॥

घत्ता ।

जिणणाह महिज्जइ मुणि पणविज्जइ, दहलक्खण पालीइणिरु
 भो खेमसियासुय भन्व विविणजुय होलिवम्मयहु करहु थिरु ॥
 ॐ ह्री उक्तमज्जन्चर्यधर्मांगायार्धे निर्वपामीति स्वाहा ।

समुच्चय आरती ।

इय काऊण णिज्जरं जे हणंति भवपिजरं ।
 नीगेयं अजरामरं ते लहंति सुक्खं परं ॥
 जेण मोक्खफलं तं पाविज्जइ, सो धम्मंगो एहहु गिज्जइ ।
 खमखमायलु तुंगय देहउ, महउ पन्नउ अज्जउ सेहउ ॥

सञ्ज सउच्च मूल संजमदलु, दुविह महातव शत्रुकुसुमाउलु
 चउविह चाउय स्रहियपरमलु, पीणियभव्वलोयल्लप्पइयलु ॥
 दियसंदोह सद्द कलकलयलु, सुरणरवरस्वेयर सुहसयफलु ।
 दीणाणाह दीह सम णिग्गहु, सुद्ध सोमत्थुमित्तपरिग्गहु ॥
 बंभचेरु छायाइ सुहासिउ, रायहंस नियरेहि समासिउ ।
 एहहु धम्मरुक्ख लाखिज्जइ, जीवदया वयणाहि राखिज्जइ ॥
 भाणट्ठाण मल्लारउ किज्जइ, मिच्छामई पवेस ण दिज्जइ ।
 सीलसलिलधारहि सिंचिज्जइ, एम पयत्तण वट्ठारिज्जइ ॥

घत्ता ।

कोहानल चुक्कउ, हाउ गुरुक्कउ, जाइ रिमिदिय मिट्ठगई ।
 जगताइ सुहंकरु धम्ममहातरु, देइ फलाइ सुमिट्ठमई ॥

ॐ ह्री उक्तमन्त्रमादिदशलक्षणधर्मभ्योऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

इत्याशीर्वादः ।

दशलक्षणधर्मभाषापूजा ।

अबिल्ल ।

उत्तम छिमा मारदव आरजवभाव हैं,

सत्य सीच संयम तप त्याग उपाव हैं ।

आकिचन ब्रह्मचरज धरम दश सार हैं,

चहुगतिदुखतैं काहि मुक्ति करतार हैं ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशलक्ष्णधर्म अत्र अवतर अवतर संवौषट् ।

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशलक्ष्णधर्म ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशलक्ष्णधर्म ! अत्र मम सन्निहितो भव भव
वषट् ।

सोरठा ।

हेमाचलकी धार, मुनिचित सम शीतत्र सुरभि ।

भवआताप निवार, दसलच्छन पूजो सदा ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमामार्दवार्जवसत्यशौचसयमतपस्त्यागाकिंचन्य-
ब्रह्मचर्येतिदशलक्ष्णधर्मैभ्यो जल निर्वपामीति स्वाहा ।

चन्दन केशर गार, हाय सुवाम दशो दिशा ।

भवआताप निवार, दसलच्छन पूजा सदा ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशलक्ष्णधर्माय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

अमल अखंडितसार, तंदुल चन्द्रसमान शुभ ।

भवआताप निवार, दसलच्छन पूजो सदा ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशलक्ष्णधर्माय अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

फूल अनेकप्रकार, महकें ऊरधलोकलो ।

भवआताप निवार, दसलच्छन पूजो सदा ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशलक्ष्णधर्माय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

नेवज विविध निहार, उत्तम ष्टरससंजुगत ।

भवआताप निवार, दसलच्छन पूजो सदा ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशलक्ष्णधर्माय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

भक्ति कपूर सुधार, दीपकज्योति सुहावनी । .

भवभ्राताप निवार, दसलच्छन पूजो सदा ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशलक्षणधर्माय दीप निर्बपामीति स्वाहा ।

अगर धूप विस्तार, फैले सर्व सुगंधता ।

भवभ्राताप निवार, दसलच्छन पूजो सदा ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशलक्षणधर्माय धूप निर्बपामीति स्वाहा ।

फल की जाति अपार, ध्यान नयन मनमोहने ।

भवभ्राताप निवार, दसलच्छन पूजो सदा ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशलक्षणधर्माय फल निर्बपामीति स्वाहा ।

भाठों दरव संवार, धानत अधिक उच्छाहसों ।

भवभ्राताप निवार, दसलच्छन पूजो सदा ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशलक्षणधर्मायार्घ्य निर्बपामीति स्वाहा ।

अंगपूजा ।

सोरठा ।

पीहें दृष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करें ।

धरिये छिमा तिवेक, काव न कीजै पीतमा ॥

चीपाई मिश्रित गीता छन्द ।

उत्तमस्त्रिमा गहोरे भाई, इहयव जस परमव सुखदाई । .

गाली सुनि मन खेद न आनो, गुनको औसुन कहै अंधानो ॥

कहि है अयानो वस्तु छीनै, बाँध मार बहुविधि कर ।
घरतैं निकारै तन विदारै, घर जो न तहाँ घरै ॥
तैं करम पूरव विधे खोटे, सदै क्यो नहिं जीयरा ।
अति क्रोधअगनि दुष्काय प्राणी, साम्य जल ले सीयरा ॥

ॐ ह्रीं उत्तमवधममार्दङ्गाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

मान मर्दाङ्गरूप करहि नीचगति जगतमें ।

कोमल मुदा अनूप सुख पावै प्राणी सदा ॥

उत्तम मार्दवगुन मन माना, मान करनको कौन ठिकाना ।
बस्यो निगोदमाहितें आया, दमरी रुकन भाग विकाया ॥

रुकन विकाया भागवरातें देव इकईद्री भया,
उत्तम मुआ चांडाल हूवा, भूप कीडोंमें गया ।
जीतव्य जोवन-धनगुमान कहा करे जलबुदबुदा,
करि विनय बहुगुन बड़े जनकी ज्ञानका पावैउ दा ॥

ॐ ह्रीं उत्तमवधममार्दङ्गाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

कपट न कीजे कोय, चोरनके पुर ना बसै ।

सरल सुभावी होय, ताके घर बहु संपदा ॥

उत्तमभ्राजवरीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी ।
मनमें हो सो वचन उचरिये, वचन होय सो तनसो करिये ॥
करिये सरल तिहुंजोग अपने, देख निरमल आरसी ।
सुख करै जसा लखै तैसा, कपटप्रीति अंगारसी ॥

नहिं लहै लक्ष्मी अधिक छलकरि, करमबन्ध विशेषता ।
मय त्यागि दूध बिलोव पीवै, आपदा नहिं देखता ॥

ॐ ह्रीं उत्तमार्जुनधर्मागाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

कठिन बचन मति बोल, परनिंदा अरु भूठ तज ।

सांच जवाहर खोल, सतवादी जगमें सुखी ॥

उत्तम सत्यवरत पालीजै, परविश्वासघात नहिं कीजै ।
सांचे भूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न बेखो ॥

पेखो निहायत पुरुष सांचेका दरब सब दीजिये ।

मुनिगज श्रावककी प्रतिष्ठा, साचगुण लख लीजिये ॥

ऊंच सिंहासन बेठि वसुनूप, धरमका भूपति भया ।

बच भूठसेती नरक पहुँचा, सुरगमें नारद गया ॥

ॐ ह्रीं उत्तमसत्यधर्माङ्गाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

धरि हिरटे संतोष, करहु तपस्या देहमों ।

शौच सदा निरदोष, धरम बडो संसारमें ॥

उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पापको बाप बखाना ।

आशापास महा दुखदानी, सुख पावै संतोषी प्रानी ॥

प्रानी सदा शुचि शीलजपतप ज्ञान ध्यान प्रभावतैं ।

नित गंगजमुन समुद्र न्हाये, अशुचिदोष सुभावतैं ॥

ऊपर अमल, मल भरयां भीतर, कौन विधिघट शुचि कहै ।

बहु देह मैली सुगुनेथली, शाचगुन साधू लहै ॥

ॐ ह्रीं उत्तमशौचधर्मागाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

काय छहों प्रतिपाल, पंचेद्री मन वश करो ।

संजमरतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं ॥

उत्तम संजम गहु मन मरे, भव भवक भाजे अघ तेरे ।

सुरग नरकपशुमतिमें नाहीं, आलसहरन करन सुख ठाहीं ॥

ठाहीं पृथी जल आग मारुत, रुख व्रस करुना धरो ।

सपरसन रसना घान नैना, कान मन सब वश करो ॥

जिस विना नहिं जिनराज सीभे, तू रूख्यो जग कीचमें ।

इक धरो मन विसरो करो नित, आव जममुख वीचमें ॥

ॐ ह्रीं उत्तमसंयमधर्मागाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

तप चाहैं सुरराय, करमसिखरको वज्र है ।

द्वादशविधि सुखदाय, क्यों न करे निज सकति सम ॥

उत्तम तप सबमाहि बग्वाना, करमशैलको वज्र समाना ।

वस्यो अनादिनिगादभंभारा, भूविकलत्रय पशुतन धारा ॥

धारा मनुष तन महादुर्लभ, सुकुल आव निरोगता ।

श्रीजैनवानी तत्त्वज्ञानी, मई विषयपयोगता ॥

अति महादुरलभ त्याग विषय, कषाय जो तप आदरै ।

नरभव अनूपम कनक धरपर मखिमयी कलसा धरै ॥

ॐ ह्रीं उत्तमतपोधर्मागाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

दान चार परकार, चारसंघको दीजिये ।

धन विजुली उनहार, नरभवलाहो लीजिये ॥

उत्तमत्याग कक्षा जगमारा, औषध शास्त्र अमय आहारा ।

।नहचे रागद्वेष निरवारै, ज्ञाता दानों दान संभारै ॥

दोना संभारै कूपजलमम, दरब घरमे परिनया ।

निज हाथ दीजे साथ लाजे, खाया खोया बह गया ॥

धनि साध शास्त्र अमयदिवैया, त्याग राग विरोधको ।

।वन दान श्रावक साध दोनों, लहैं नाहीं बोधकों ॥

ॐ ह्रीं उत्तमत्यागधर्मांगाय अर्घ्यं निर्घपामीति स्वाहा ।

परिग्रह चोवस भेद, त्याग करै मुनिराज जी ।

तिसना भाव उछेद, घटती जान घटाइए ॥

उत्तम आकिचन गुण जानो, परिग्रहचिंता दुख ही माना ।

फांस तनकसी तनमें सालै, चाह लंगोटीकी दुख भाल ॥

भाले न ममता सुख कमी नर, विना मुनिद्रा धरै ।

धनि नगनपर तन-नगन ठाडे, सुर असुर पायनि परै ॥

घरमाहिं तिसना जो घटावै, रुचि नहीं संसारसौं ।

बहुधन बुरा हू भला कहिये, लीन पर-उपहारसौं ॥

ॐ ह्रीं उत्तमकिचन्यधर्मांगाय अर्घ्यं निर्घपामीति स्वाहा ।

शीलबाहु नी राख, अद्भ्यभाव अंतर लखो ।

करि दोनों अभिलाख, करहु सफल नरभव सदा ॥

उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनौ, माता बहिन सुता पहिचानौ ।
 सहै वानवरषा बहु खूरे, टिकै न नैनवान लखि कूरे ॥
 कूरे तियाके अशुचितनमें, कामरोगी रति करै ।
 बहु सुतक सडहिं मसान माहीं, काक ज्यों चौंचै भरै ॥
 संसारमें विषवेल नारी, तजि गये जांगीश्वरा ।
 'घानत' धरमदश पैडि चडिकैं, शिवमहलमें पग धरा ॥
 ॐ ह्री उत्तमब्रह्मचर्यधर्मागाथ अर्च्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

समुच्चय जयमाला ।

बोहा ।

दशलच्छन बंदौ सदा, मनवांछित फलदाय ।
 कहौ आरती भारती, हमपर होहु सहाय ॥ १ ॥

बेसरी छन्द ।

उत्तमछिमा जहां मन होई, अंतरबाहिर शत्रु न कोई ।
 उत्तमार्द्रव विनय प्रकासै, नानाभेद ज्ञान मव भासै ॥
 उत्तमआर्जव कपट मिटावै, दुरगति त्यागि सुगति उपजावै ।
 उत्तम सत्यवचन मुख बालै, सो प्रानी संसार न डोलै ॥
 उत्तमशौच लोभपरिहारी, सन्तोषी गुणरतनभंडारी ।
 उत्तमसंयम पालै ज्ञाता, नरभव सफल करै ले साता ॥
 उत्तमतप निरवांछित पालै, सो नर करमशत्रुको टालै ।
 उत्तमत्याग करै जो कोई, भोगभूमि-सुर-शिवसुख होई ॥

उत्तमश्राक्चिचनघ्न घारै, परमसमाधिदशा विसृतारै ।
उत्तमब्रह्मचर्य मन लावै, नरसुरसहित मुक्तिरुल पावै ॥

दोहा ।

करै करमकी निरज्जा, भवपीजरा, विनाश ।
अजर अमरपदको लहे, 'ध्यानत' सुखकी राशि ॥

ॐ ह्रीं उत्तमब्रह्मामावर्जवार्जवशौचसत्यसंयमतपस्स्वागाकिचन्द-
ब्रह्मचर्यदशलक्ष्यजर्मैः पूर्णाख्य निर्वपामीति स्वाहा ।

रत्नत्रयपूजा (संस्कृत) ।

श्रीमंतं सन्मतिं नत्वा श्रीमतः सुगुरुनपि ।
श्रीमदागतः श्रीमतु वक्ष्ये रत्नत्रयार्चनं ॥ १ ॥
अनंतानंतसंसारकर्मसंबंधविच्छिदे ॥
नमस्तस्मै नमतस्मै जिनाय परमात्मने ॥ २ ॥
ध्रौव्योत्पादव्ययानेकतत्त्वसंदर्शनदिवेषे । नमः । ३ ।
संसारार्णवमग्नानां यः समुद्रतु मीश्वरः । नमः । ४ ।
लोकालोकप्रकाशात्मा यश्चैतन्यमयं महः । नमः । ५ ।
येन ध्यानाग्निना दग्धं कर्मकल्मलक्षयं । नमः । ६ ।
येनात्मात्मनि विज्ञातः परं परमिदं वपुः । नमः । ७ ।
ए यवं परमं ज्योतिषं परं ब्रह्मव्यः शुभान् । नमः । ८ ।

सर्वानंदमयो नित्यं सर्वसम्बद्धितकरः । नम० । ६ ।

इत्याद्यनेकधास्तोत्रैः स्तुत्वा सज्जिनपुंगव ।

कुर्वे दम्बोधचारित्रार्चनं संक्षेपतोऽधुना ॥ १० ॥

(इत्युच्चार्य पूजनप्रतिज्ञानार्थं रत्नत्रयस्वोपरि पुष्पांजलिं क्षिपेत् ।

यद् श्लोक पदकर रत्नत्रय यंत्रके ऊपर पुष्प चढ़ाने चाहिये)

ॐ ह्रीं श्रीसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपरत्नत्रय ! अत्रावतर
अवतर संवौषट् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र मम सन्निहितं
भव भव वषट् ।

संसारदुःखज्वलनावगूढप्रगूढसंतापमलापशांत्यै ।

सदर्शनज्ञानचरित्रपंक्तेर्जलस्य धारां पुरतो ददामि ।

ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्दर्शनाय ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाय,

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

रत्नत्रयं भूषितभव्यलोकमशोकमंतर्गतमावगम्यं ।

काश्मीरकपूर् रसुचंदनाद्यैः सुगंधगंधैरहमर्चयामि ॥

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

अक्षतमक्षतपुंजैः, शालीर्यैः शुद्धगंधिभिः शुद्धैः ।

दर्शनबोधचरित्रं त्रितयं तत्संयजे भवत्या ॥

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

विक्रमितकुसुमशतपत्रसुजातसमृद्धशोभया,

वनकपूर् रनीरुभचंदनचर्चितचक्रगंधया ।

अलिकुलरशितकलितमधुरध्वनिश्यामसमूहस्सालया,
सकलितमातनोति रत्नत्रयमत्र पवित्रमालया ॥

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्रसिद्धसद्द्रव्यमनन्यलभ्यं वचो गुरुस्थामिव साधुसिद्धं ।
सुदृष्टिसद्बोधचरित्ररत्न-त्रयाय नैवेद्यमहं ददामि ॥

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

दीपैः सुकूर्पररागभृंगै रंगदुमिरंगद्यु तिदीप्यमानैः ।
सद्दर्शनज्ञानचरित्ररत्न-त्रयत्रयावाप्तिकरं यजेऽहं ॥

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

धूपैः कालागरुभिः विशुद्धसंशुद्धकर्मसंधूपैः ।
दर्शनज्ञानचरित्रत्रितयं संधूपयामि संसद्दुर्ध्वै ॥

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

पूगैरनर्ध्वैर्वरनालिकेरैर्नारिंजंभीरकपित्थपुञ्जैः ।
रत्नत्रय तपितभव्यलोकं, शक्यावलोकं तदहं यजामि ॥

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जलर्गंधाक्षतपुष्पैः, -श्चरुदीपैर्धूपसत्फलैः सर्वैः ।
दर्शनबोधचरित्रं त्रितयं त्रेधा यजामहे भक्त्या ॥

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

मोहाद्विसंकटतटीविकटप्रपात-

संधादिने सकलसत्त्वहितकाराय ।

रत्नप्रयाय शुभहेतिसमप्रभाय,
पुष्पांजलि प्रविमलां ह्यवतारयामि ।
(पुष्पांजलि क्षिपेन)

दर्शनपूजा ।

परस्याभिमुखी श्रद्धा, शुद्धचेतन्यरूपतः ।
दर्शनं व्यवहारेण निश्चयेनात्मनः पुनः ॥
यदधिगम्य नराः शिवसंपदामधिपदं प्रतिपद्य विरेजिरे ।
तदिह मानममात्मरमे लसद्दिशतु दर्शनमष्टविधं मम ॥
ॐ हा हीं हूं हौं ह्रः अष्टागसम्यग्दर्शनं ! अत्रावतर अवतर संवौषट्
अनंतानंतसंसारसागराचारकारणम् ।
तीर्थं तीर्थकृतामत्र स्थापयामि सुदर्शनम् ॥
ॐ हा हीं हूं हौं ह्रः अष्टागसम्यग्दर्शनं ! अत्र तिष्ठ ठः ठः
(इति प्रतिष्ठापनम्)

अष्टागैरष्टधापूतमष्टैकगुणसंयुतं ।
मदाष्टानिविष्टुक्तं दर्शनं सन्निधापये ॥
ॐ हां हीं हूं हौं ह्रः । अष्टागसम्यग्दर्शनं ! अत्र मम सन्निहितं
भव भव षषट् । (इति सन्निधीकरणम्)

शरदिंदुसमाकारसारया जलधारया ।

सम्यग्दर्शनमष्टांगं संयजे संयजावहं ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसहितसम्यग्दर्शनाय जन्मसृष्ट्युविनाशनाय क्लृप्तं नि०
कपूर्वीरकारमीरमिथसच्चन्दनैषेनेः ।

सम्यग्दर्शनमष्टांगं संयजे संयजावहं ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसहितसम्यग्दर्शनाय चदनं नि० ।

अस्वढैः खंडितानेकदुरितैः शालितंदुर्लैः ।

सम्यग्दर्शनमष्टांगं संयजे संयजावहं ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसहितसम्यग्दर्शनाय अक्षतं नि० ।

शतपत्रशतानेकचारुचंपकराजिभिः ।

सम्यग्दर्शनमष्टांगं संयजे संयजावहं ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसहितसम्यग्दर्शनाय पुष्पं नि० ।

न्यायैरिव जिनेन्द्रस्य सन्नाज्येः पुष्टिकारिभिः ।

सम्यग्दर्शनमष्टांगं संयजे संयजावहं ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसहितसम्यग्दर्शनाय नैवेद्यं नि० ।

चंचत्काचनसंकाशदीपैः सद्दीप्तिहेतुभिः ।

सम्यग्दर्शनमष्टांगं संयजे संयजावहं ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसहितसम्यग्दर्शनाय दीपं नि० ।

कृष्णागरुमहाद्रव्यधूपैः संघपिताशुभैः ।

सम्यग्दर्शनमष्टांगं संयजे संयजावहं ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसहितसम्यग्दर्शनाय धूपं नि० ।

पुष्पत्रारिगङ्गाभीरमातुलिगफलोत्करैः ।

सम्यग्दर्शनमष्टांगं संयजे संयजावहं ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसहितसम्यग्दर्शनाय फलं नि०

जलगंधकुसुममिश्रं, फलतंदूलकलितललिताढ्यं ।

मम्यक्त्वाय सुमव्यं भव्यां कुसुमांजलिं दद्यात् ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसहितसम्यग्दर्शनाय अर्घं नि०

अंगपूजा

यस्य प्रभावाज्जगतां त्रयेऽपि यूज्या भवंतीह घना जनौषाः ।

सुदुर्लभायामरपूजिताय निःशंकितांगाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

ॐ ह्रीं निःशंकितांगायार्घं निवेपामीति स्वाहा ।

सुदर्शनं येन विना प्रयुक्तं मतं फलं नैव भवेज्जनानां ।

सुदुर्लभायामरपूजिताय निःकांक्षितांगाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

ॐ ह्रीं निःकांक्षितांगायार्घं निवेपामीति स्वाहा ।

यदंगतः संयमवृत्तसेको तस्मात्फलं संलभते शरीरी ।

सुदुर्लभायामरपूजिताय निर्निदितांगाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

ॐ ह्रीं निर्निदितांगायार्घं निवेपामीति स्वाहा ।

यदुज्झितं चारुचरित्रमेतत्सिद्ध्यै भवेन्नैव मुनीश्वराणां ।

सुदुर्लभायामरपूजिताय निर्मूढतांगाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

ॐ ह्रीं निर्मूढतांगायार्घं निवेपामीति स्वाहा ।

सुरेंद्रनाभ्रेंद्रनरेंद्रवृन्दैर्वज्रं पदं यद्विशतो लभंते ।

सुदुर्लभायामरपूजितायां पगूहनांगाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

ॐ ह्रीं पगूहनांगायार्घं निवेपामीति स्वाहा ।

भवन्ति वृद्धा गुणवृद्धिसिद्धा येनानुवृद्धा जगति प्रसिद्धाः ।
सुदुर्लभायामरपूजिताय सुस्थापनांगाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

ॐ ह्रीं सुस्थितिकरयागार्यार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सुरतनवद्दुर्लभतामृपेतं मध्यावनौ यत्प्रतिभासमानं ।
सुदुर्लभायामरपूजिताय वात्सल्यातांगाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

ॐ ह्रीं वात्सल्यांगार्यार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्रबंधभूयिष्ठमलञ्चकार यच्छामने शासितभव्यलोकः ।
सुदुर्लभायामरपूजिताय प्रभावनांगाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

ॐ ह्रीं प्रभावनांगार्यार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सौर म्याहृतसद्भृंगसारया जलधारया ।

निःशंकितादिकान्यस्य सदगानि यजामहे ॥

ॐ ह्रीं निःशंकितादिभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

चारुचन्दनकारमीरकपूरैरादिविलेपनैः ।

निशंकितादिकान्यस्य सदगानि यजामहे ॥

ॐ ह्रीं निःशंकितादिभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।

अक्षतैरक्षतानंतसौख्यदानविधायकैः ।

निशंकितादिकान्यस्य सदगानि यजामहे ॥

ॐ ह्रीं निःशंकितादिभ्यो अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

जातीकुन्दादिराजीवचम्पकानेकयष्टैः ।

निःशंकितादिकान्यस्य सदगानि यजामहे ॥

- ॐ ह्रीं निःशंकितादिभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।
 खाद्यमाद्यपदैः स्वाद्यैः सन्नाज्यैः सुंकृतैरिव ।
 निःशंकितादिकान्यस्य सदंगानि यजामहे ॥
- ॐ ह्रीं निःशंकितादिभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।
 दशाग्रैः प्रस्फुरद्भूरुपैर्दीपैः पुण्यजनैरिव ।
 निःशङ्कितादिकान्यस्य सदङ्गानि यजामहे ॥
- ॐ ह्रीं निःशंकितादिभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 धूपैः संधूपितानेककर्मभिधूपदायिनां ।
 निःशंकितादिकान्यस्य सदङ्गानि यजामहे ॥
- ॐ ह्रीं निःशंकितादिभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 नालिकेराभ्रपूमादिफलैः पुण्यफलैरिव ।
 निःशंकितादिकान्यस्य सदंगानि यजामहे ॥
- ॐ ह्रीं निःशंकितादिभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।
 जलगन्धकुसुममिश्रं फलतंदुलकमलकलितललिताढ्यं ।
 सम्यक्त्वाय सुभव्यं भव्यां कुसुमांजलिं दद्यात् ॥
- ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनाय इदं जलं गन्धं अक्षतं पुष्पं चरुं दीपं
 धूपं फलं अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।
 ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय नमः, ॐ ह्रीं निःशंकितांगाय नमः,
 ॐ ह्रीं निःकाञ्चितांगाय नमः, ॐ ह्रीं निर्विचिकित्सांगाय नमः
 ॐ ह्रीं निमूढतांगाय नमः । ॐ ह्रीं उपगूहनांगाय नमः । ॐ ह्रीं
 सुस्थितिकरणांगाय नमः । ॐ ह्रीं वात्सल्यांगाय नमः, ॐ ह्रीं
 प्रभावनांगाय नमः ।

(इति जाप्यं कुर्यात्—इस मंत्रका जप करना चाहिये)

जयमाला ।

तन्वानां निश्चयो यस्तदिह निगदितं दर्शनं शुद्धबुद्धैः
तस्मादानष्टकर्माष्टकघनतिमिरो जायते ज्ञानसूरः ।
ज्ञानात्सिद्धिप्रसिद्धिं भुवि वचनमिदं शाश्वतं सिद्धिसौख्यं,
चंचच्चंद्रांशुशुद्धं तदहमिह महे दर्शनं पूजयामि ।

जय सम्यग्दर्शन दर्शिताश,
कमलाचित हतघनकर्मपाश ।

जय निःशंकिन त्रिश्चितसुतत्त्व,
शतपत्रशताचित मृदितमन्त्र ॥

जय निःकांचित वर्जितविकार,
कुंदाचित कृतसंसारपार ।

जय निर्विचिक्रितिसत भावभंग,
कुमुदप्रघ्ननपूजित सुसंग ॥

जय निर्मूढांग महाप्ररूढ,
शुभचंपकचचित चारुरूढ ।

जय जय उपगूढन परमपक्ष,
वरमन्त्रिकार्च्य दर्शितमुख ॥

जय जय सुस्थित सुस्थितीकरणा,
जातीकुमुदाचित दुःस्वहरणा ।

वात्सल्यमल्ल जय जय विशाल,

केतकिदलपूजित दलितकाल ॥

प्रतिभावनांग जय जय वरेण,

वसुविधकुसुमार्चित सुरेण ।

घत्ता ।

इति दर्शनमार्गं भावनिर्गमं दर्शनमिष्टमनिष्टहरं ।

सुमनःसत्पुंजं शर्मनिकुंजं, भव्यजनाय ददातु वरं ॥

पंचातिचारातिशयप्रपूतं, पंचप्रदं पंचमबोधहतं ।

सदृशं रत्नमनर्घ्यमर्घैर्भक्त्या सुरत्नैरहमर्चयामि ॥

मुक्ताः श्रेणिगता विभाति नितरां यत्प्रस्फुरत्तेजसा,

येनालंकृतावग्रहं ग्रहमुचं सिद्ध्यंगना मुचति ।

यत्संसारमहाखेवे भवभृतां दुःप्राप्यमापृच्छतः

तत्सम्यक्त्वसुरत्नमर्चितधियां देयादनिघं पदं ।

रत्नांजलि ।

अतुलसुखनिधानं सर्वकल्याणबीजं

जननजलधि पोतं भव्यसत्त्वैकपात्रम् ।

दुरिततरुकुठारं पुण्यतीर्थप्रधानं,

पिवतु जितविपक्षं दर्शनार्थं सुधांशु ।

(इत्याशीर्वादः)

ज्ञानपूजा ।

प्रणम्य श्रीजिनाधीशमधीशं सर्वसंपदां ।
 सम्यग्ज्ञानमहारत्नपूजां वक्ष्ये विधानतः ॥
 श्रीजिनेन्द्रस्य सद्बिबिधुत्तरेण महाधियः ।
 पुस्तकं स्थापनीयं चेतस्यैवादर्शमध्यमं ॥
 कल्पनातिगता बुद्धिः परमाचविभाविका ।
 ज्ञानं निश्चयतो ज्ञेयं तदन्ववृष्यवहारतः ॥
 ज्ञानाचारोऽष्टधा पुंसां पवित्रीकरणाक्षमः ।
 प्रभावेन तु पूजायै समागच्छतु निर्मलं ॥

ॐ ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अष्टविधसम्यग्ज्ञान ! अत्र अवतर
 अवतर संबौषट्

सम्यग्ज्ञानप्रभापूतं कर्मकक्षक्षयानलं ।

पूजाक्षणे तु गृह्णातु स्थित्वा पूजामनिदितां ॥

ॐ ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अष्टविधसम्यग्ज्ञान ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ
 ठः ठः (प्रतिस्थापनं)

अचित्यमाहात्म्यभचित्यवैभवं मवार्यबोचीर्णविसारि सर्वतः ।

प्रबोधचारित्रमिहांतरतरं निरंतरं तिष्ठतु सन्निधौ मम ॥

ॐ ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः अष्टविधसम्यग्ज्ञानाचार ! मम सन्नि-
 दितो भव भव वषट् । (सन्निधीकरणं)

शरदिंदुसमाकारसारया जलधारया ।

बोधतन्त्रसमाचारं संयजे संयजावहं ॥

ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाचाराय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।
 कर्पूरनीरकाश्मीरमिश्रसञ्चदनैर्धनैः ।
 बोधतत्वसमाचारं संयजे सयजावहं ॥

ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाचाराय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा ।
 अस्वहैः खंडितानेकदुरितः शालितदुलैः ।
 बोधतत्वासमाचारं संयजे सयजावहं ॥

ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाचाराय अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।
 शतपत्रशतानेकचारुचंपकराजिभिः
 बोधतत्वममाचारं संयजे सयजावहं ॥

ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाचाराय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।
 न्यायैरिव जिनेन्द्रस्य सन्नाज्यैः पुष्टिकारिभिः ।
 बोधतत्वसमाचारं संयजे सयजावहं ॥

ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाचाराय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।
 चंचत्कांचनसंकाशं दीपैः सद्दीप्तिहेतुभिः ।
 बोधतत्वसमाचारं संयजे सयजावहं ॥

ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाचाराय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 कृष्णागरुमहाद्रव्यधूपैः संधूपिताशुभैः ।
 बोधतत्वसमाचारं संयजे सयजावहं ॥

ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाचाराय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

पूगनारंभजंघीरयातुलिङ्गकलोत्करैः ।

बोधतत्वसमाचारं संजये सयजावहं

ॐ ह्रीं अष्टविधसन्ध्यानाचाराय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

मोहाद्रिसंकटतटोविकटप्रपातसंपादिने सकलसत्त्वहितंकराय ।

बांधाय शक्रशुभहेतिसमप्रभाय पुष्पां बलिं प्रविमलां ह्यवतारयामि

ॐ ह्रीं सन्ध्याबोधतत्वाचार्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

अतीवदुःखाशुभकर्मनाशप्रकाशिताशेषविशेषणाय ।

सुदुर्लभायामरपूजिताय प्रबोधतत्वाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

सुव्यंजनेर्व्यंगितव्यंगभावप्रभावनाभावितभावबृद्धं ।

सुदुर्लभायामरपूजिताय प्रबोधतत्वाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

ॐ ह्रीं व्यंजनव्यंगिताचार्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

पदार्थसंबंधमुपेत्य नीतं समग्रनामग्रपदप्रदायि ।

सुदुर्लभायामरपूजिताय प्रबोधतत्वाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

ॐ ह्रीं अर्थसमप्रायार्थं निर्वपामीति स्वाहा ।

शब्दार्थश्रद्धानवितानमानद्वयेन बंधं सुनिबंधमेति ।

सुदुर्लभायामरपूजिताय प्रबोधतत्वाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

ॐ ह्रीं तदुभयसमप्रायार्थं निर्वपामीति स्वाहा ।

पवित्रकालाध्ययनप्रभावप्रदर्शितानेककलाकलापं ।

सुदुर्लभायामरपूजिताय प्रबोधतत्वाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

ॐ ह्रीं कालाध्ययनपवित्राचार्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

समृद्धशुद्धोपधिशुद्धमिद्धं सुभावर्भतःस्फुरदंगसंगम् ।
सुदुर्लभायामरपूजिताय प्रबोधतत्वाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

ॐ ह्रीं उपाध्यानोपहितायार्घं' निर्वपामीति स्वाहा ।

विनीतचेतो वितनोति नीतिप्रशीतमानंत्यमनंतरूपं ।
सुदुर्लभायामरपूजिताय प्रबोधतत्वाय नमोऽस्तु तस्मै ।

ॐ ह्रीं विनयलब्धप्रभावनंगायार्घं' निर्वपामीति स्वाहा ।

अपन्हुते निन्हवतो गुरुणां गुरुप्रभावप्रदतांधकारे ।
सुदुर्लभायामरपूजिताय प्रबोधतत्वाय नमोऽस्तु तस्मै ॥

ॐ ह्रीं गुर्वाद्यपन्हवसमृद्धायार्घं' निर्वपामीति स्वाहा ।

अनेकधामान्यवितानवृद्धं प्रभावितानंतगुणं गुणानां ।
सुदुर्लभायामरपूजिताय प्रबोधतत्वाय नमोऽस्तु तस्मै ।

ॐ ह्रीं बहुमानोन्मुद्रितायार्घं' निर्वपामीति स्वाहा ।

सौरभ्याहृतसद्भृंगसारया जलधारया ।

व्यंजनाद्यमलांगानि संयजे जन्मविच्छिदे ॥

ॐ ह्रीं व्यंजनाद्यंगेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

चारुचंदनकारमीरकपूर्वादिविलेपनैः ।

व्यंजनाद्यमलांगानि संयजे जन्मविच्छिदे ॥

ॐ ह्रीं व्यंजनाद्यंगेभ्योः चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

अक्षयैरक्षयानंतसुखदानविधायकैः ।

व्यंजनाद्यमलांगानि संयजे जन्मविच्छिदे ॥

ॐ ह्रीं व्यंजनाद्व्यंगेभ्यो अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

जातीकुंदादिराजीवचंपकानेकपल्लवैः ।

व्यंजनाद्यमलांगानि संयजे जन्मविच्छिन्दे ॥

ॐ ह्रीं व्यंजनाद्व्यंगेभ्यो पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

खाद्यमाद्यपदैः स्वाद्यैः सन्नाज्यैः सुकृतैरिव ।

व्यंजनाद्यमलांगानि संयजे जन्मविच्छिन्दे ॥

ॐ ह्रीं व्यंजनाद्व्यंगेभ्यः नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

दशाग्रैः प्रस्फुरद्द्रूपैर्दीपैः पुण्यजनैरिव ।

व्यंजनाद्यमलांगानि संयजे जन्मविच्छिन्दे ॥

ॐ ह्रीं व्यंजनाद्व्यंगेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

धूपैः संधूपितानेककर्मभिर्धूपदायिनां ।

व्यंजनाद्यमलांगानि संयजे जन्मविच्छिन्दे ॥

ॐ ह्रीं व्यंजनाद्व्यंगेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

नालिकेराग्रपूगादिफलैः पुण्यफलैरिव ।

व्यंजनाद्यमलांगानि संयजे जन्मविच्छिन्दे ॥

ॐ ह्रीं व्यंजनाद्व्यंगेभ्यो फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

मोहाद्रिसंकटतटीबिकटप्रपातसंपादिने सकलसत्त्वहितकराय ।

बोधाय शक्रशुभहेतिसमप्रभाय पुष्पांजलिं प्रविमलां ह्यवतारयामि

ॐ ह्रीं सम्बोधतत्त्वाय इदं जलं गन्धं अक्षतं पुष्पं चर्चं दीपं
धूपं फलं अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

ॐ ह्रीं व्यंजनव्यंजिताय नमः, ॐ ह्रीं अर्थसमप्राय नमः
 ॐ ह्रीं तद्भयसमप्राय नमः, ॐ ह्रीं कालाध्ययनपवित्राय नमः
 ॐ ह्रीं उपाध्यानोपहिताय नमः, ॐ ह्रीं विनयलब्धिप्रभावाय नमः,
 ॐ ह्रीं गुर्वाद्यपन्हवसमृद्धाय नमः, ॐ ह्रीं बहुमानोन्मुद्रिताय
 नमः । (इस मंत्रका जाप करना चाहिये)

जयमाला ।

व्योम्नीव व्यक्तरूपं विगतघनमलं भाति नक्षत्रमेकं,
 जीवाजीवादितत्त्वं स्थगितगतमलं यस्य दृग्गोचरस्थं ।
 तत्त्वज्ञैः प्राध्यते यत्प्रविपुलमतिमिर्मोक्षसौख्याय जज्ञे,
 तद्भव्याभोजमानुललितगुणमणि बोधमभ्यर्चयामि ॥
 घनमोहतमःपटलापहरं, यमसंयमसंगमभारधरं ।
 भुवि भव्यपयोजविकासमहं, प्रणमामि सुबोधदिनेशमहं
 कृतदुष्कृतकौशिकचारुहरं, भुतभूरिभवार्षवशोषकरं ।
 भुवि भव्यपयोजविकासमहं, प्रणमामि सुबोधदिनेशमहं
 निखिलामलवस्तुविकाशपदं, हतदुर्घरदुर्जयमष्टमदं ।
 भुवि भव्यपयोजविकासमहं, प्रणमामि सुबोधदिनेशमहं ॥
 कलिकल्मषरुद्भयशोषकरं, हृदयादवसर्पितकर्मजलं ।
 भुवि भव्यपयोजविकासमहं प्रणमामि सुबोधदिनेशमहं ॥
 जडतामपहारकसूर्यरुमं, सुमनोज्ञवसंगविभंगसमं ।
 भुवि भव्यपयोजविकासमहं, प्रणमामि सुबोधदिनेशमहं ॥

हृदयामललोचनलक्ष्मितं, निजमासुरमानुसहस्रयुतं ।
 भुवि भव्यपयोजविकासमहं, प्रणमामि सुबोधदिनेशमहं ॥
 अलिकज्जलनीलतमालतमं, प्रतिमधिकभावनिशापममं ।
 भुवि भव्यपयोजविकासमहं, प्रणमामि सुबोधदिनेशमहं ॥
 निजमंडलमंडितलोकमुखं, नतसर्वसमर्पितसर्वसुखं ।
 भुवि भव्यपयोजविकासमहं, प्रणमामि सुबोधदिनेशमहं ॥
 चत्ता ।

स्तुत्वेति बहुधा स्तांत्रैर्बहुभक्तिपरायणः ।

नानाभव्यैः समं धीमानर्घं चापि समुद्धरेत् ॥

संसारपाथोनिधिशोषकारि प्रबंधभूयिष्ठमनंतरूपं ।

सज्ज्ञानरत्नंबहुयत्नमृंगैः रत्नैः शुभैरचितमर्चयापि ।

रत्नांजलि ।

चिंतामूलमहादृढस्तदमलस्थूलस्थलस्कंधमान्,

नांगोपांगसदागमैकविसरच्छास्त्रोपशास्त्रांचितः ।

एकानेकविधावधिप्रभृतिभिः सत्पात्रपुष्पैर्वैरे,

देयाद् बोधतरुः सदा शिवसुखान्यासेवितोऽनेकशः ।

आशीर्वादः ।

दुरिततिमिरहंसं मोक्षलक्ष्मीसरोजं,

मदनभुजगमंत्रं चित्तमातंजसिंहं ।

व्यसनघनसमीरं विश्वतत्त्वैकदीपं

विषयसफरजालं ज्ञानक्षाराश्रयत्वं ॥

(इत्याशीर्वादः)

चारित्रपूजा ।

देवश्रुतगुरुभक्त्वा कृत्वा शुद्धिमिहात्मनः ।
 सम्यक्चारित्ररत्नस्य वक्ष्ये संक्षेपतोऽर्चनं ॥
 सम्यक् रत्नत्रयस्याथ पुस्तकं चोत्तरेण तु ।
 गणेशपादुकायुग्मं स्नापयित्वा महोत्सवे ॥
 गौणं चारित्रमाख्यातं यत्सावद्यनिवर्तनं ।
 आनन्दसांद्रमानात्मा पवित्रं परमार्थतः ॥
 त्रयोदशविधानेकभण्यलोकैकपावनं ।
 चारित्राचारकर्मैत कमलं विमलं शिवः ॥

ॐ ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राचार ! अत्रा-
 वतर अवतर संवौषट् ।

(यंत्रके ऊपर पुष्पाजलि चढ़ाना चाहिये)

विषमकर्ममहाकुलपर्वतप्रकटकूटविभंजनसत्पविः ।

य इह तिष्ठतु तिष्ठतु मोक्षद त्रिमलहारि चरित्रमहामहः ॥

ॐ ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राचार !
 अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । (प्रतिष्ठापनं)

सकलभण्यपयोऽविकासकृत् प्रकटिताग्निप्रभावविभावकः ।

प्रबलमोहनशाचरचारहृत् चरणभानुरुदेतु मनोभरे ॥

ॐ ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रः त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राचार !
 अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् । (सन्निधिकरणं)

शरदिंदुसमाकारसारया जलधारया ।

सञ्चारित्रसमाचारं संयजे संयजावहं ॥

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राचाराय जलं निर्व्व० ।

कपूर्नीरकाश्मीरमिश्रसच्चन्दनैर्घनेः

सञ्चारित्रसमाचारं संयजे संयजावहं ॥

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राचाराय चन्दनं निर्व्व० ।

अस्वहैः स्वडितानेकदुरितैः शालितंदुलैः ।

सञ्चारित्रसमाचारं संयजे संयजावहं ॥

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राचाराय अक्षतं निर्व्व० ।

शतपत्रशतानेकचारुचंपकराजिभिः ।

सञ्चारित्रसमाचारं संयजे संयजावहं ॥

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राचाराय पुष्पं निर्व्व०

न्यार्यरिव जिनेद्रस्य सन्नाज्यैः पुष्टिकारिभिः ।

सञ्चारित्रसमाचारं संयजे संयजावहं ॥

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राचाराय नैवेद्यं निर्व्व० ।

चंचत्कांचनसंकाशैर्दीपैः सहीप्तिहेतुभिः ।

सञ्चारित्रसमाचारं संयजे संयजावहं ॥

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राचाराय दीपं निर्व्व० ।

कृष्णागरुमहाद्रव्यधूपैः संधूपिताशुभैः ।

सञ्चारित्रसमाचारं संयजे संयजावहं ॥

- ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राचाराय धूपं निर्व्वे० ।
 पूगनारं गजं वीरमातुलिंगफलोत्करैः ।
 सञ्चारित्रसमाचारं संयजे संयजावहं ॥
- ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राचाराय फलं निर्व्वे० ।
 कर्माणि हि महारोगा नराणां यत्प्रयोम्यतः ।
 सञ्चारित्रौषधायाम्मै ददामि कुमुदाञ्जलिं ॥
- ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राचाराय इदं जलं गंधं
 अक्षतं पुष्पं नैवेद्यं दीपं धूपं फलं अर्घं निर्व्वपामीति स्वाहा ।
 प्राण्णातिपातविरतिरूपं सर्वत्र तत्त्वतः ।
 पूजयामि समीचीनं चारित्राचारमर्चितं ॥
- ॐ ह्रीं अर्द्धिसापूर्णमहाव्रतायार्घं निर्व्वपामीति स्वाहा ।
 असत्यविरते प्राप्तपरभावमनेकधा ।
 पूजयामि समीचीनं चारित्राचारमर्चितं ॥
- ॐ ह्रीं असत्यविरतिमहाव्रतायार्घं निर्व्वपामीति स्वाहा ।
 चौर्याद्यावृत्तवृत्तात्मा सर्वथा सुमनीषिणां ।
 पूजयामि समीचीनं चारित्राचारमर्चितं ॥
- ॐ ह्रीं चौर्यविरतिमहाव्रतायार्घं निर्व्वपामीति स्वाहा ।
 ग्राम्यधर्मविनिर्मुक्तं यद् बंधं त्रिदशैरपि ।
 पूजयामि समीचीनं चारित्राचारमर्चितं ॥
- ॐ ह्रीं मैथुनविरतिमहाव्रतायार्घं निर्व्वपामीति स्वाहा ।

सर्वग्रहविनिर्मुक्त मनकग्रन्थसंयुतं ।

पूजयामि समीचीनं चारित्र्याचारमचितं ॥

ॐ ह्रीं परिप्रहावरतिमहाव्रतायाघ निर्वपामीति स्वाहा ।

सौरभ्याहृतसदुग्ंधसारया जलधारया ।

अहिंसाव्रतपूर्वाणि यजाम्यंगानि सर्वदा ॥

ॐ ह्रीं अहिंसादिपञ्चमहाव्रतेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

चारुचंदनकारमीरकपूरादिविलेपनैः ।

अहिंसाव्रतपूर्वाणि यजाम्यंगानि सर्वदा ।

ॐ ह्रीं अहिंसादिपञ्चमहाव्रतेभ्य चदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

अक्षतेरक्षतानतसुखदानविधायकैः ।

अहिंसाव्रतपूर्वाणि यजाम्यंगानि सर्वदा ॥

ॐ ह्रीं अहिंसादिपञ्चमहाव्रतेभ्योऽक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

जातीकुन्दादिराजीवचंपकानेकपल्लवैः ।

अहिंसाव्रतपूर्वाणि यजाम्यंगानि सर्वदा ।

ॐ ह्रीं अहिंसादिपञ्चमहाव्रतेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

स्वाद्यमाद्यपदैः स्वाद्यैः सन्धान्यैः सुकृतैरिव ।

अहिंसाव्रतपूर्वाणि यजाम्यंगानि सर्वदा ॥

ॐ ह्रीं अहिंसादिपञ्चमहाव्रतेभ्यो जैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

दशाग्रैः प्रस्फुरस्फुरैर्दीपैः सुखयजनैरिव ।

अहिंसाव्रतपूर्वाणि यजाम्यंगानि सर्वदा ॥

- ॐ ह्रीं अहिंसादिपञ्चमहाव्रतेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 धूपैः संधूपितानेककर्मभिर्धूपदायिनां ।
 अहिंसाव्रतपूर्वाणि यजाम्यगानि सर्वदा ॥
- ॐ ह्रीं अहिंसादिपञ्चमहाव्रतेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 नालिकेरादिभिः पूगैः फलैः पुण्यफलैरिव ।
 अहिंसाव्रतपूर्वाणि यजाम्यगानि सर्वदा ॥
- ॐ ह्रीं अहिंसादिपञ्चमहाव्रतेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।
 कर्माणि हि महारोगा नश्यन्ति यत्प्रयोगतः ।
 सच्चारित्रौषधायास्मै ददामि कुसुमांजलिं ॥
- ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राचाराय इदं जलं गन्धं अक्षतं
 पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलं अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 अधृक्षं सबलोकानां यन्मनस्तन्नियामकं ।
 पूजयामि समीचीनं चारित्राचारमर्चितं ॥
- ॐ ह्रीं मनोगुणप्रयेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 यद्वाग्न्यापारजानेकदोषसंगविवर्जितं ।
 पूजयामि समीचीनं चारित्राचारमर्चितं ॥
- ॐ ह्रीं वाग्गुणप्रयेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 शरीरास्रवसंचारपरिहारविनिर्मलं ।
 पूजयामि समीचीनं चारित्राचारमर्चितं ॥
- ॐ ह्रीं कायगुणप्रयेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

ईर्यासमितिसंशुद्धमतीचारविवर्जितं ।

पूजयामि समीचीनं चारित्राचारमर्चितं ॥

ॐ ह्रीं ईर्यासमितयेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

चतुर्विधमहाभाषाशुद्धसंयमसंगतं ।

पूजयामि समीचीनं चारित्राचारमर्चितं ॥

ॐ ह्रीं भाषासमितयेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

एषणासमितिसंशुद्धं यत्प्रबृद्धं विभागतः ।

पूजयामि समीचीनं चारित्राचारमर्चितं ॥

ॐ ह्रीं एषणासमितयेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

यस्मिन्नादाननिक्षेपैः सतां संयमबृद्धये ।

पूजयामि समीचीनं चारित्राचारमर्चितं ॥

ॐ ह्रीं आदाननिक्षेपणसमितयेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

व्युत्सर्गेण विशुद्धं यत्कर्मव्युत्सर्गकारणं ।

पूजयामि समीचीनं चारित्राचारमर्चितं ॥

ॐ ह्रीं प्रतिष्ठापनसमितयेऽर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

शरदिंदुसमाकारसारया जलधारया ।

मनोगुप्तिप्रपूर्वाणि यजाम्यंगानि संसृदा ॥

ॐ ह्रीं मनोगुप्तिप्रभृतिचारित्राचारेभ्यो जलं निर्व० ।

कर्पू रनीरकाशमीरमिश्रसूचं हृत्तैर्घनैः ।

मनोगुप्तिप्रपूर्वाणि यजाम्यंगानि संसृदा ॥

ॐ ह्रीं मनोगुप्तिप्रभृतिचारित्राचारेभ्यः चंदनं निर्व० ।

अखंडैः खंडितानेकदुरितैः शालितंदुल्लैः ।
मनोगुप्तिप्रपूर्वाणि यजाम्यंगानि संमुदा ॥

ॐ ह्रीं मनोगुप्तिप्रभृतिचारित्राचारेभ्योऽक्षतं निव०

शतपत्रशतानेकचारुचंपकगजिभिः ।
मनोगुप्तिप्रपूर्वाणि यजाम्यंगानि संमुदा ॥

ॐ ह्रीं मनोगुप्तिप्रभृतिचारित्राचारेभ्यः पुष्पं निर्व०

न्यायैरिव जिनेन्द्रस्य सन्नाज्यैः पुष्टिकारिभिः ।
मनोगुप्तिप्रपूर्वाणि यजाम्यंगानि संमुदा ॥

ॐ ह्रीं मनोगुप्तिप्रभृतिचारित्राचारेभ्यो नैवेद्यं निर्व० ।

चंचत्कांचनसंकाशैर्दीपैः सहीप्तिहेतुभिः ।
मनोगुप्तिप्रपूर्वाणि यजाम्यंगानि संमुदा ॥

ॐ ह्रीं मनोगुप्तिप्रभृतिचारित्राचारेभ्यो वीपं निर्व० ।

कृष्णागरुमहाद्रव्यधूपैः संधूपिताशुभैः ।
मनोगुप्तिप्रपूर्वाणि यजाम्यंगानि संमुदा ॥

ॐ ह्रीं मनोगुप्तिप्रभृतिचारित्राचारेभ्यो सूपं निर्व० ।

पूगनारंगजंबीरमातुलिंगफलोत्करैः ।
मनोगुप्तिप्रपूर्वाणि यजाम्यंगानि संमुदा ॥

ॐ ह्रीं मनोगुप्तिप्रभृतिचारित्राचारेभ्यः फलं निर्व० ।

कमोषि हि महारोगा नश्यन्ति यत्प्रयोगतः ।

सञ्चारित्रौषधायास्मे ददामि कुसुमाञ्जलिं ॥

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राचाराय इदं जलं गन्धं अक्षतं
पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलं अघं निवेपामीति स्वाहा ।

ॐ ह्रीं अहिंसापूर्वमहाव्रताय नमः, ॐ ह्रीं असत्यविरति-
महाव्रताय नमः, ॐ ह्रीं चौयेविरतिमहाव्रताय नमः, ॐ ह्रीं
मैथुनविरतिमहाव्रताय नमः, ॐ ह्रीं परिग्रहविरतिमहाव्रताय नमः,
ॐ ह्रीं मनोगुप्तये नमः, ॐ ह्रीं वाम्नाप्तये नमः, ॐ ह्रीं कायगुप्तये
नमः, ॐ ह्रीं ईर्यासमितये नमः, ॐ ह्रीं भाषासमितये नमः,
ॐ ह्रीं एषणासमितये नमः, ॐ ह्रीं आदाननिक्षेपणसमितये नमः,
ॐ ह्रीं प्रतिष्ठापनसमितये नमः, (इस मंत्र का जाप करना चाहिये)

जयमाला ।

न द्वेषो द्वेषवृत्तिन्यरुह्यदृशि कृतानेकधरोसर्गे,
यस्मिन् रागोऽपि न स्यात् मलयजकुसुमं दीयते भक्तिभाजा ।
स्वर्णे जीर्णे तृष्णे वा भवति समतुला पुण्यपापास्रवेऽपि,
सम्यक्चारित्रमेतत्तदहमिह महे पूजयाम्यादरेण ॥

स्वात्मानं योगिनो यस्मान्त्वर्भते शुद्धचेतसा ।

नमः समयसाराय चारित्रायासलत्विषे ॥

यानि कानि तु सौख्यानि धार्यते तानि तद्विधात् ।

नमः समयसाराय चारित्रायासलत्विषे ॥

दौर्गतानि तु दुःखानि घटते लभते नरः ।

नमः समयसाराय चारित्रायामलत्विषे ॥

लोकालोकविभागात्मा यतः प्राप्नोति केवलं ।

नमः समयसाराय चारित्रायामलत्विषे ॥

यच्छ्रद्धानान्मृणां जन्म सकलं सफलं भवंत् ।

नमः समयसाराय चारित्रायामलत्विषे ॥

लक्ष्मीलोचनलक्ष्पांगं यत्करोति नरं वरं ।

नमः समयसाराय चारित्रायामलत्विषे ॥

चक्रिभिस्तीर्थैऋतृणां येनांचति पदं नरः ।

नमः समयसाराय चारित्रायामलत्विषे ॥

मुक्ता यस्मिन्पराः किंच योगिनो योगजन्मकृत् ।

नमः समयसाराय चारित्रायामलत्विषे ॥

विधायेत्यं मनः पूजां चारित्रस्य विशुद्धधीः ।

करोमि पूर्ववत्सर्वमर्घादिमनिदितं ॥

घत्ता ।

स्तुत्वेति बहुधा स्तोत्रैर्बहुभक्तिपरायणः ।

नानाभव्यैः समं लोके करोत्यानंदनाटनं ॥

अलंकृता येन सदाश्रयति सत्साधवः सिद्धिबधूवरत्वं ।

मालामुपक्षिप्य सुरत्नपूतां चारित्ररत्नं परिपूजयामि ॥

(रत्नांजलि निक्षिपेत्)

अन्तर्लानमलीमसप्रसरजिन्जीखोन्लसन्केवलं,
 खोकासोकविलोकनक्रमगुणग्रामैकशुद्धिं नयत् ।
 येनालंकृतचिद्रहा खण्डमपि सीखा नरा नर्मला,
 नैर्मन्यं प्रक्षिप्य शारवततमं वंदे चरित्रं च तत् ॥
 ततोऽपि गुरुणा दक्षामाशिषं शिरसा मुधीः ।
 गृह्णाति प्रहनिष्ठुं को मुक्तये व्रतकारकः ॥
 अनंतानंतसंसारकर्मविच्छिन्निकारकं ।
 देयाद् वः संपदः श्रीमन्मखरखं शरखं नृणां ॥
 विरम विरम संगान्मुञ्च मुञ्च प्रपंचं,
 विसृज विसृज मोहं विद्धि विद्धि स्वतत्त्वं ।
 कलय कलय कृत् पश्य पश्य स्वरूपं,
 कुरु कुरु पुरुषार्थं निवृत्तानंतहेतोः ॥

(इत्याशीर्वादः)

समुच्चय जयमाला

रयणत्तयसारउ भन्वपियारउ सयलह जीवह दुरियहरो ।
 मुखियखगखमहियउ गुणगणसहियउ मिच्छमोहमयखासहरो
 पखवीस दोसवज्जिउपवित्त, अइयाररहिउ वसुगुणविजुत्त ।
 अहं'गइ खिम्मल विफ्फुर'ति, जो तिरहं देवत्तख विलि'ति ॥
 नारइय वि तित्थयरा इव'ति, देव वि एइ'दिय पउल्लह'ति ।
 जे मिच्छत्तय सम्मत्तहीण, दालिहय खासिय ते षणीख ॥

महसुय अबही मणपडज्याख, केबलु वि कहिज्जइ महपवाण ।
 अरण्याणे तिरणइ मणइ ओइ, कुच्छियमिच्छत्तजइस दाइ ॥
 वोमुव शिम्मल पवणु वि असंग, परिअजिउविकणयरमुत्तिसंग ।
 लोयालोहावि जयउ शियाइ, बहुभयेयहजउ चारित्त होइ ॥
 पंचाइमहव्वय समिदिपंच, गुणणउ तिणियपयजियअवंच ।
 पुण पंचायारतिभेयजुत्त, मुण्णिधम्मकहहि देविदवुत्त ॥

घत्ता ।

जिहि तिणियाविणरचिरु गहण मुण्णेमुइ,
 अंधउ आलस्सउ पंगुलवि ।
 जिणवरभासिय निणणतरइ विणु,
 मुत्तिया मणइ मणि ॥
 (इत्यारीर्वादः)

रत्नत्रयपूजा भाषा ।

दोहा ।

चहुँगतिफनिविषहरनमणि, दुखपावक जलधार ।
 शिवसुखसुधासरोवरी, सम्यकत्रयी निहार ॥
 ॐ ह्रीं सम्यग्रत्नत्रय ! अत्र अवतर अवतर । संचौषट् ।
 ॐ ह्रीं सम्यग्रत्नत्रय ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।
 ॐ ह्रीं सम्यग्रत्नत्रय ! अत्र मम सन्निहितं भव भव षषट् ।

सोरठा ।

शीरोदधि ठण्डाए, ठण्डजल जल अति सोहनों ।

जनमरोग निरवार, सम्यकरत्नत्रय—भजूं ॥

ॐ ह्रीं सम्यगरत्नत्रयाय जन्ममृत्युविनाशनाथ जलं वि०

चंदन केसर गारि, परिमल महासुरंगमथ ।

जनमरोग निरवार, सम्यकरत्नत्रय—भजूं ॥

ॐ ह्रीं सम्यगरत्नत्रयाय भवतामविनाशनाथ चंदनं नि०

तंदुल अमल चितार, वासमती सुखदासके ।

जनमरोग निरवार, सम्यकरत्नत्रय—भजूं ॥

ॐ ह्रीं सम्यगरत्नत्रयाय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतानं वि०

महकै फूल अपार, अलिगुं जै ज्यों घुति करें ।

जनमरोग निरवार, सम्यकरत्नत्रय—भजूं ॥

ॐ ह्रीं सम्यगरत्नत्रयाय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं नि०

लाडू बहु विस्तार, चीकन मिष्ट सुगंधयुत ।

जनमरोग निरवार, सम्यकरत्नत्रय—भजूं ॥

ॐ ह्रीं सम्यगरत्नत्रयाय छुधारोगविनाशनाथ नैलेथं नि०

दीप रत्नमय सार, जोत प्रकाशै जगत्तमै ।

जनमरोग निरवार, सम्यकरत्नत्रय—भजूं ॥

ॐ ह्रीं सम्यगरत्नत्रयाय मोहांधकारविनाशनाथ दीपं नि०

धूप सुवास विथार, चंदन अगर कपूरकी ।

जनमरोग निरवार, सम्यकरत्नत्रय—भजूं ॥

ॐ ह्रीं सम्यगरत्नत्रयाय अष्टकर्मदहन्याय घृषं नि०

फल शाभा अधिकार, लोग छुडारे जायफल ।

जनमरोग निरवार, सम्यकरत्नत्रय—भजूं ॥

ॐ ह्रीं सम्यगरत्नत्रयाय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि०

आठदरब निरधार, उत्तमसों उत्तम लिये ।

जनमरोग निरवार, सम्यकरत्नत्रय—भजूं ॥

ॐ ह्रीं सम्यगरत्नत्रयाय अनर्घ्यपदप्राप्तये अघ नि०

सम्यकदरशनज्ञान, व्रत शिवमग तीनोंमयी ।

पार उतारन जान, 'द्यानत' पूजों व्रतसहित ॥

ॐ ह्रीं सम्यगरत्नत्रयाय पूर्णार्घ्यं निर्वापामीति स्वाहा ।

दर्शनपूजा ।

दोहा ।

सिद्ध अष्टगुणमय प्रगट, मुक्त जीवसोपान ।

जिहविनि ज्ञानचरित अफल, सम्यकदर्श प्रधान ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शन ! अत्र अवतर अवतर संबौषट् ।

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शन ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शन ! अत्र मम सन्निहितं भव भव वषट् ।

सोरठा ।

नीर सुगंध अपार, कृषा हरे मल छय करै ।

सम्यकदर्शनसार, आठ अंग पूजौं सदा ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जल केसर धनसार, ताप हरे सीतल करै ।

सम्यकदर्शनसार, आठ अंग पूजौं सदा ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

अकृत अनूप निहार, दाग्दि नाशे सुख भरै ।

सम्यकदर्शनसार, आठ अंग पूजौं सदा ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय अक्षतानं निर्वपामीति स्वाहा ।

पहुप सुवास उदार, खेद हरे मन शुचि करै ।

सम्यकदर्शनसार, आठ अंग पूजौं सदा ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

नेत्रज विविधप्रकार, ह्युषा हरे थिरता करै ।

सम्यकदर्शनसार, आठ अंग पूजौं सदा ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

दीपज्योति तमहार, घटपट परकाशे महा ।

सम्यकदर्शनसार आठ अंग पूजौं सदा ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

धूप घानसुखकार, रोष विषन जडता हरे ।

सम्यकदर्शनसार आठ अंग पूजौं सदा ॥

- ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय धूपं निर्बपामीति स्वाहा ।
 श्रीफल आदि विचार, निहचै सुरशिवफल करै ।
 सम्यकदर्शनसार, आठ अंग पूजौ सदा ॥
- ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय फलं निर्बपामीति स्वाहा ।
 जल गंधाक्षत चारु, दीप धूप फलफूल चरु ।
 सम्यकदर्शनसार, आठ अंग पूजौ सदा ॥
- ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय अर्घ्यं निर्बपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

दोहा ।

आप आप निहचै लखै, तच्चप्रतीति व्योहार ।

रहितदोष पञ्चीस है, सहित अष्ट गुन सार ॥

चौपाई—मिश्रित गीता छंद ।

सम्यकदर्शन रतन गहीजै, जिनवचमें संदेह न कीजै ।
 इहभव विभवचाह दुखदानी, परभवभोग चहै मत प्रानी ॥
 प्राणी गिलान न करि अशुचिसखि, धरमगुरुअशु परखिये,
 परदोष ठकिये धरम छिगतेको, सुधिर कर हरखिये ।
 चहुसंघको वात्सल्य कीजे, धरमकी परमावना,
 गुन आठसौं गुन आठ लहिकै, इहां फेर न आवना ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसहितपञ्चविंशतिदोषरहितानां सम्यग्दर्शनाय
 पूण्यं निर्बपामीति स्वाहा ।

ज्ञानपूजा ।

दोहा ।

पंचभेद जाके प्रगट, ज्ञेयप्रकाशन भान ।

मोह-तपन-हर-चन्द्रमा, सोई सम्यकज्ञान ॥

ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञान ! अत्र अवतर अवतर संवीषट् ।

ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञान ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।

ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञान ! अत्र मम सन्निहितं भव
भव वषट् ।

नीरसुगंध अपार, वृषा हरै मल छय करै ।

सम्यग्ज्ञान विचार, आठभेद पूजौ सदा ॥

ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जलकेसर धनसार, ताप हरै शीतल करै ।

सम्यकज्ञान विचार आठभेद पूजौ सदा ॥

ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

अक्षत अनूप निहार, दारिद नाशै सुख भरै ।

सम्यकज्ञान विचार, आठभेद पूजौ सदा ॥

ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाय अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

पहुपसुवास उदार, स्वेद हरै मन शुचि करै ।

सम्यकज्ञान विचार, आठभेद पूजौ सदा ॥

ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

- नेत्र विविधप्रकार, ह्युषा हरै धिरता करै ।
 सम्यकज्ञान विचार, आठभेद पूजा सदा ॥
 ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।
 दीपज्योति तमहार, घटपट परकाशै मडा ।
 सम्यकज्ञान विचार, आठभेद पूजा सदा ॥
 ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 धूप घनसुखकार, रोग विघन जड़ता हरै ।
 सम्यकज्ञान विचार आठभेद पूजा सदा ॥
 ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।
 श्रीफल आदि विधार, निहचै मुरशिवफल करै ।
 सम्यकज्ञान विचार, आठभेद पूजा सदा ॥
 ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।
 जल गंधाक्षत चारु, दीप धूप फल फूल चरु ।
 सम्यकज्ञान विचार, आठभेद पूजा सदा ॥
 ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

दोहा ।

- आप आप जाने नियत, ग्रंथपठन व्योहार ।
 संशय विभ्रम मोह बिन, अष्टभेद गुनकार ॥

चै:पाई-मिभित गीताईद ।

सम्यकज्ञान रतन मन भाषा, आगम तीजा नैन वतया ।
 अन्कर शुद्ध अरथ पहिचानीं, अन्कर अरथ उभय संभ जानीं
 जानीं सुकालपठन जिनागम, नाम गुरु न छिपाइये ।
 तपरीति गहि बहु मान देकै, विनयगुन चित्त लाइये ॥
 ये आठ भेद करम उल्लेदक, ज्ञान-दर्पन देखना ।
 इस ज्ञानहीसो भरत सीम्हा, और सब पटपेखना ॥
 ॐ ह्रीं अष्टविधसम्यग्ज्ञानाय पूर्णार्घिं निवपामीति स्वाहा ।

चारित्रपूजा ।

दोहा ।

विषयरोग औषध महा, दवकषायजलधार ।
 तीर्थंकर जाकीं धरै, सम्यकचारितसार ॥

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्र ! अत्र अवतर अवतर संबौषट् ।

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्र ! अत्र मम सन्निहित भव
 भव वषट् ।

सोरठा ।

नीर सुगन्ध अपार, तृषा हरै मल छय करै ।

सम्यक्चारितसार, तेरहविधि पूजौं सदा ॥

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय जलं निवपामीति स्वा० ।

- जल केशर घनसार, ताप हरै शीतल करै ।
सम्यक्चारितसार, तेरहविधि पूजौ सदा ॥
- ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय बंदनं निर्व० ।
अक्षत अनूप निहार, दारिद्र नाशै सुख भरै ।
सम्यक्चारितसार, तेरहविधि पूजौ सदा ॥
- ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय अक्षताब् निर्व० ।
पहुपसुवास उदार, स्वेद हरै मन शुचि करै ।
सम्यक्चारितसार, तेरहविधि पूजौ सदा ॥
- ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय पुष्पं निर्व० ।
नेवज विविधप्रकार, छुधा हरै थिरता करै ।
सम्यक्चारितसार, तेरहविधि पूजौ सदा ॥
- ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय नवेद्य निर्व० ।
दीपजोति तमहार, घटपट परकाशै महा ।
सम्यक्चारितसार, तेरहविधि पूजौ सदा ॥
- ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय दीपं निर्व० ।
धूप घ्रान सुखकार, रोग विघन जड़ता हरै ।
सम्यक्चारितसार, तेरहविधि पूजौ सदा ॥
- ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय धूपं निर्व० ।
श्रीफलआदिविद्या, निहचै सुरशिवफल करै ।
सम्यक्चारितसार, तेरहविधि पूजौ सदा ॥

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय फलं निर्वृ० ।

जल गंधाह्वय चारु, दीप, शूप फलफूल चरु ।

सम्यक्चारितप्रार, तेरहविध पूजो सदा ॥

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय अर्घ्यं निर्व० ।

जयमाला ।

दोहा ।

आप आप थिर नियत नय, तपसंजम व्योहार ।

स्वपर दया दोनों लिये, तेरहविधदुस्वहार ॥

चौपाई-मिश्रित गीताछंद ।

सम्यक्चारित रतन संमालौ,

पांच ताप तजिकै व्रत पालौ ।

पञ्चसमिति त्रय गुपति गहीजै,

नरभव सफल करहु तन छीजै ॥

छीजै सदा तनको जतन यह,

एक संजम पालिये ।

बहु क्लेशो नरक निगोदमाहीं,

विषयकषायनि टालिये ॥

शुभकरम जोम सुधाट आया,

पार हो दिन जात है ।

‘घानत’ धरमकी नांव बेंठो,

शिवपुरी कुशलात है ॥

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधसम्यक्चारित्राय महार्घं निर्ब० ।

समुच्चय जयमाला ।

दोहा ।

सम्यकदरशन-ज्ञान-व्रत, इन विन मुकति न होय ।

अंध पंगु अरु आलसी, जुदे जलें दव लोय ॥

चौपाई (१६ मत्रा)

जापै ध्यान सुथिर बन आवै, ताके करमबंध कट जावै ।

तासों शिवतिय प्रीति बढावै, जो सम्यक रतनत्रय ध्यावै ॥

ताको चहुगतिके दुख नाहीं, सो न परै भवसागरमाहीं ।

जनमजरामृतु दोष मिटावै, जो सम्यकरतनत्रय ध्यावै ॥

साई दसलच्छनको साधै, सो सोलहकारण आराधै ।

सो परमात्म-पद उपजावै, जो सम्यकरतनत्रय ध्यावै ॥

सोई शक्रचक्रि पद लेई, तीनलोकके सुख विलसेई ।

सो रागादिक भाव बहावै, जो सम्यकरतनत्रय ध्यावै ॥

सोई लोकालोक निहारै, परमानन्द दशा विसतारै ।

आप तिरै औरन तिरवावै, जो सम्यकरतनत्रय ध्यावै ॥

एकस्वरूपप्रकाश जिन, बचन कस्यो नहिं जाय ।

तीन भेद व्योहार सब, ‘घानत’ को सुखदाय ॥

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनत्रयाय महाध्व निर्ब० ।

क्षमावणीपूजा (संस्कृत) ।

देवश्रुतगुरुभक्त्वा स्थापयित्वा महोत्सवं ।

ततश्चाष्टविधां पूजां कुर्याद् व्रतविधायकः ॥

अष्टौ पुंजाः प्रकर्तव्याः दर्शनाग्रे जिनाग्रतः ।

ज्ञानार्थं पुस्तकस्याग्रे वृत्तार्थं पुण्यपुंजकः ॥

गुरुपादयुगस्याग्रे त्रयोदशविधानतः ।

तंदुलानां प्रकर्तव्यं वृत्तार्थं पुण्यपुंजकः ॥

तेषामुपरि पूतानि फलानि विविधानि च ।

दातव्यानि प्रयत्नेन यथाविधिमनीषिभिः ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुसमूह ! अत्र अवतर अवतर संवोषट् ।

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुसमूह ! अत्र तिष्ठ ठः ठः ।

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुसमूह ! अत्र मम सन्निहितो भव भव षष्ट् ।

अथाष्कम् ।

सौगम्याहृतसद्गंधसारयाजलधारया ।

अर्चयामि जिनाधीशं सदामयगुणगुरुन् गुरुन् ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो जलं निर्बपामीति स्वाहा ।

चारुर्चदनकारकीरकपूरादिभिलोपनैः । अर्चया०

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यः चंदनं निर्बपामीति स्वाहा ।

अक्षतैरक्षतानंतमुसम्रानविधायकैः । अर्च०

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्योऽक्षतं निर्बपामीति स्वाहा ।

जातिकुन्दादिराजीवचंपकाशुक्रपल्लवो ; अर्च०

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

स्वाद्यमाद्यपदैः स्वाद्यैः सन्नाद्यैः शुद्धकारिभिः । अर्च०

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

दशार्घैः शस्त्रुर्धूपैः दीपैः पुण्यजनैरिव । अर्चया०

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

धूपैः संधूपितानेककर्मभिर्धूपदायिनां । अर्चया०

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

नालिकेरादिभिः पूगैः फलैः पुण्यजनैरिव ।

अर्चयामि जिनाधीशं सदाममगुणगुरुन् गुरुन् ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जलंगंधकुसुमभिर्भ्रं फलतंदुलकलितललिताद्यम्

सम्यक्त्याय सुभव्यैर्भक्त्यां कुसुमांजलिं दद्यात् ॥

ॐ ह्रीं देवशास्त्रगुरुभ्योऽर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

पुनरष्टकम् ।

स्थानासनार्घ्यप्रतिपत्तियोग्याम्, सद्भावसम्मानजलादिभिश्च ।

रत्नत्रयाद्यो' विदधे त्रिकालं, सक्त्या स्वकर्मव्ययहेतवेऽहम् ॥

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीखण्डकपर्शुङ्कुमाद्यैः, गंधैः सुगंधीकृत्यदिम्बिमगैः रत्न०

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यः चंदनं निर्व० ३

शाक्यस्यैतैरक्षयदीर्घमात्रैः, सुनिमलैरर्चद्रुक्कगन्धदातैः । रत्न०

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्योऽक्षतं निर्व० ।

अमोजनीलोत्पलपारिजातैः कदंबकुंदादितरुप्रघ्नैः । रत्न०

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यः पुष्पं निर्व० ।

नैवेद्यकैः कांचनपात्रसंस्थैः, न्यस्तैरुदस्तैर्हरिणांशुहस्तैः । रत्न०

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो नैवेद्यं निर्व० ।

दीपोत्करैर्ध्वस्ततमोवितानैः, उद्योतितारोपपदार्थजातैः । रत्न०

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो दीपं निर्व० ।

कर्पूरकुण्ड्यागरुचंदनाद्यैः, सच्चूर्णैर्जैरुत्तमधूपवर्गैः । रत्न०

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो धूपं निर्व०

लवंगनारिगकपित्थपूगैः, श्रीमोचचोचादिफलैः पवित्रैः । रत्न०

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यः फलं निर्व० ।

श्रीचंदनाढ्याक्षततोयमिश्रैः, विकाशपुष्पांजलिना सुभक्त्या ।

रत्नत्रयार्चा विधते त्रिकाल, भक्त्या स्वकर्मक्षयहेतवेऽहम् ॥

ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्योऽर्घ्यं निर्व० ।

जययाला ।

दुरंतसंसारबन्धे निषण्णे, वंभ्रम्यते येन विनाहृतोयं ।

भवांबुधौ यद्भविनाम्भरत्नं, रत्नत्रयं नौमि परं पवित्रं ॥

अलक्ष्मणप्रतिविंबवेदी, योगीश्वरो यद्भक्ततः कृषोव ।

भवांबुधौ यद्भविनाम्भरत्नं, रत्नत्रयं नौमि परं पवित्रं ॥

अनेकपर्यायगतैरभावे, यस्मादनत्वं लभते क्षीरी ।
 भवांबुधौ यद्भुविनामरत्नं, रत्नत्रयं नौमि परं पवित्रं ॥
 विनामहाधर्मविघ्नलोके, लभ्यं भवेन्नैव जगत्त्रयेपि ।
 भवांबुधौ यद्भुविनामरत्नं, रत्नत्रयं नौमि परं पवित्रं ॥
 जनो भवेद्येन जितांतरागः स्वर्गापवर्गामलमोरुषकानि ।
 भवांबुधौ यद्भुविनामरत्नं, रत्नत्रयं नौमि परं पवित्रं ॥
 तन्नारकं दुःखमसह्यमस्माद्, दुःखाशयानां प्रलयं प्रयाति ।
 भवांबुधौ यद्भुविनामरत्नं, रत्नत्रयं नौमि परं पवित्रं ॥
 प्रभावतो यस्य पृथग्जनाद्याः, तीर्थाधिपत्यं क्षणतो लभते ।
 भवांबुधौ यद्भुविनामरत्नं, रत्नत्रयं नौमि परं पवित्रं ॥
 यदुज्झितं संयमिनोपि बंधो, नित्यं लभते तपसः सकाशात् ।
 भवांबुधौ यद्भुविनामरत्नं, रत्नत्रयं नौमि परं पवित्रं ॥

इत्वा विघ्नानि सर्वाणि यानि कानि पुराकृतं ।
 सम्यक् रत्नत्रयीपूतं मंगलं वितनोत्तु वः ॥
 नरामरकृतानेकोपसर्गोपनिवारणं । सम्यक् रत्न०
 विपत्संपत्तिनाशाय संपत्संपत्तिकारणं । सम्यक्०
 तुष्टिपुष्टिकरं नित्यं सर्वरोगापहारकं । सम्यक्०
 यद्दार्द्रमहावन्लोदहनैकदवानलं । सम्यक्०
 संकल्पकम्पितानेकदानकल्पद्रुमोपमं । सम्यक्०
 यद्भुवांबुधिमन्वानां दुर्लभं भवकोटिभिः । सम्यक्०
 मंगलानां च सर्वेषां यदेव मंगलं मतं । सम्यक्० ।

दुर्मिच्छादिमहादोषनिवारणपरंपराः ।
 कुर्वतु जगतः शान्तिं जिनश्रुतमुनीश्वराः ॥
 यत्संस्मरणमात्रेण विघ्नाः नश्यन्ति मूलतः । कुर्वतु जग०
 यदर्थात् लभते प्राप्ती यत्प्रसादात्प्रसादतः । कुर्वतु जग०
 दृष्ट्वा स्पर्शासतो येन येऽनंतसुखदायकाः । कुर्वतु जग०
 येषामाराधका नित्यमङ्गेषा त्रिदशैरपि । कुर्वतु जग०
 सिद्धाः शुद्धाः विशुद्धा ये प्रसिद्धा जगतां त्रये । कुर्वतु जग०
 नानागुणमहारत्नालंकृता निरलंकृताः । कुर्वतु जग०
 स्वर्गावतरणे वै रत्नवृष्टिः शक्राज्ञया षण्णवमास यावत् ।
 स्वप्नावलीढाः प्रमुखादनुज्ञास्ते संतु कन्याखकरा जिना वः ॥
 मंस्थापितो जन्मनि मूर्ध्नि मेरोः शक्रेण दुग्धार्णववारिपूर्यैः ।
 बाल्ये गता हेमघटैः सुगणां ते संतु कन्याखकरा जिना वः ॥
 यत्नेन ये स्नाप्य विभूष्य नीतास्तपोवनं सन्निहितोक्तोद्याः ।
 सौपाटितालिक्तसुरेश्वराणां ते संतु कन्याखकरा जिना वः ।
 जगत्त्रये द्योतकरीं प्रयाता, घातिचये केवलबोधलक्ष्मीः ।
 सत्प्रातिहार्याभरणाचिंतांगाः ते संतु कन्याखकरा जिना वः ॥
 प्रदग्धरज्वाकृतकर्मनाशे तदंगपूजा मुकुटानलेन ।
 कृत्वामरैश्चंदनदेवकाष्ठैः, ते संतु कन्याखकरा जिना वः ॥
 सद्रत्नवृष्टिकुसुमासनगंधवारि भेर्या रवस्त्रिदशवर्षनर्कजनास्ते ।
 साश्चर्यपंचकमशेषगणं सुराज्ञां कन्याखपंचकमिदं विदधातुशांतिं
 ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय महाार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ॥

क्षमावणीपूजा भाषा ।

छप्पय ।

अंग क्षमा जिन धर्मतनो दृढ मूल बखानां ।
 सम्यक रत्न सँभाल हृदय में निश्चय जाना ॥
 तज मिथ्या विष मूल और चित निर्मल ठानो ।
 जैन धर्म सों प्रीति करो सब पातिक भाना ॥
 रत्नत्रय गह भविक जन जिनआज्ञा सम चालिये ।
 निश्चय कर आराधना करम बध को जालिये ॥

ॐ ह्रीं सम्यग्रत्नत्रय अत्रात्रतरावतर संवौषट आह्वानं ।
 अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनं । अत्र मम सान्निहितं भव भव
 सन्निधिकरण । पुष्पाञ्जलि क्षिपेत् ।

अथाष्टक ।

क्षमा गहो उर जीवडा जिनवर वचन गहाय । टेक ।
 नीर सुगंध सुहावनो पदम द्रह को लाय ।
 जन्म रोग निर्वारिये, सम्यकरतन लहाय ॥क्षमा०॥

ॐ ह्रीं निःशंकितागाय ॥ १ ॥ निःकाङ्क्षितागाय ॥ २ ॥ निर्वि-
 चिकित्सितागाय ॥ ३ ॥ निर्मूढतागाय ॥ ४ ॥ उपगूहनागाय ॥ ५ ॥
 सुस्थितिकरणागाय ॥ ६ ॥ वात्सल्यतागाय ॥ ७ ॥ प्रभावनागाय ॥ ८ ॥
 अष्टाङ्गसंहिताय सम्यग्दशनाय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि०
 ॐ ह्रीं व्यंजनव्यंजिताय ॥ १ ॥ अर्थसमप्राय ॥ २ ॥ तदुभयसमप्राय
 ॥ ३ ॥ कालाध्ययनाय ॥ ४ ॥ उपध्यानोपहिताय ॥ ५ ॥ विनयलब्धि-
 प्रभावनाय ॥ ६ ॥ गुवपन्हवाय ॥ ७ ॥ बहुमानोन्मानसमेताय ॥ ८ ॥

अष्टागसम्यग्ज्ञानाय जलं नि० । ॐ ह्रीं अहिसाव्रताय ॥१॥ सत्य-
व्रताय ॥२॥ अचौर्यव्रताय ॥३॥ ब्रह्मचर्यव्रताय ॥४॥ अप्परिमह-
महाव्रताय ॥५॥ मनोगुप्तये ॥६॥ वचनगुप्तये ॥७॥ कायगुप्तये ॥८॥
ईर्यासमितये ॥९॥ भाषासमितये ॥१०॥ एषणासमितये ॥११॥
आदाननिक्षेपणसमितये ॥ १२॥ प्रतिष्ठापनासमतये ॥१३॥ त्रयो-
दशविधसम्यक्चारित्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि०

केसर चंदन लीजिये, संग कपूर धिमाय ।

अलि पंकति आवत घनी वास सुगंध सुहाय ॥

क्षमा गहो उर जीवडा जिनवर वचन गहाय ।

ॐ ह्रीं अष्टागसम्यग्दर्शनाय अष्टागसम्यग्ज्ञानाय त्रयोदश-
विधसम्यक्चारित्राय चन्दनं निवेपामीति स्वाहा ।

शालि अखंडित लीजिये, कंचन थाल भराय ।

जिनपद पूजौं भावसौ अक्षय पदको पाय ॥

क्षमा गहो उर जीवडा जिनवर वचन गहाय ।

ॐ ह्रीं अष्टागसम्यग्दर्शनाय अष्टागसम्यग्ज्ञानाय त्रयोदश-
विधसम्यक्चारित्राय अक्षतं निर्बपामीति स्वाहा ।

पारिजात अरु केतकी, पहुप सुगंध गुलाब ।

श्रीजिन चरख सराज कू, पूज हरष चितलाय ॥

क्षमा गहो उर जीवडा जिनवर वचन गहाय ।

ॐ ह्रीं अष्टागसम्यग्दर्शनाय अष्टागसम्यग्ज्ञानाय त्रयोदश-
विधसम्यक्चारित्राय पुष्पं निवेपामीति स्वाहा ।

शकर घृत सुरभी तनो, व्यंजन पट्टस स्वाद ।

जिनके निकट चढ़ायकर हिरदे धरि अहलाद ॥

सुमा गहो उर जीवड़ा जिनवर वचन गहाय ।

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय अष्टांगसम्यग्ज्ञानाय त्रयोदश-
विधसम्यक्चारित्राय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

हाटकमय दीपक रचो, बाति कपूर सुधार ।

शोधक घृत कर पूजिये, मोह तिमिर निवार ॥

सुमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर वचन गहाय ।

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय अष्टांगसम्यग्ज्ञानाय त्रयोदशवि-
धसम्यक्चारित्राय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

कृष्णागर करपूर ही, अथवा दस विध जान ।

जिन चरणां ढिंग खेइये, अष्ट करम की हान ।

सुमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर वचन गहाय ।

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय अष्टांगसम्यग्ज्ञानाय त्रयोदश-
विधसम्यक्चारित्राय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

केला अम्ब अनार ही, नारिकेल ले दाख ।

अग्र धरो जिनपद तने, मोक्ष होय जिन भाख ॥

सुमा गहो उर जीवड़ा, जिनवर वचन गहाय ।

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय अष्टांगसम्यग्ज्ञानाय त्रयोदश-
विधसम्यक्चारित्राय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

जलफल आदि मिलाय के, अरघ करों हरषाय ।

दुःख जलांजलि दीजिये, श्रीजिन होय सहाय ॥

समा गहो उर जीवड़ा, जिनवर वचन गहाय । ५

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय अष्टांगसम्यग्ज्ञानाय त्रयोदश-
विधसम्यक्चारित्र्याय अर्घं निवपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

दोहा ।

उनतीस अंग की आरती, मुनो भविक चितलाय ।

मन वच तन सरधा करो, उचम नर भव पाय ॥

चौपाई ।

जैनधर्म में शं क न आने, सो निःशंकित गुण चित ठानै ।

जप तप कर फल नाछै नाहीं, निःकाचित गुण हो त्रिस माहीं ॥

पर को देव गिलानि न आने, सो तीजा सम्यक् गुण ठानै ।

अन्य देव को रंच न मानो, सो निमूढता गुण पहिचानो ॥

पर को आंगुण देख जु ठांके, सो उपगूहन श्री जिन भाखै ।

जैनधर्म तैं डिगता देखे, थापै बहुर धिति कर लेखै ॥

जिनधरमी सों प्रीति निबहिये, गऊ बच्छावत बच्छल कहिये ।

ज्यौ त्यौ जैन उद्योत बड़ावै, सो प्रभावना अंग कहावै ॥

अष्ट अंग यह पाले जाई, सम्यकदृष्टी कहिये सोई ।

अब गुण आठ ज्ञान के काहिये, भाषे श्री जिन मन में गहिये ॥

व्यंजन अक्षर सहित पढ़ीजै, व्यंजन व्यंजित अंग कहीजै ।

अर्थ सहित शुध शब्द उचारै, दूजा अर्थ समग्रह धारै ॥

सहुभय तीजा अंग लखीजे, अक्षर अर्थ सहित जु पढ़ीजें ।
 चौथा कान्याध्ययन विचारै, काल समय लखि सुमगल धारै ॥
 पंचम अंग उपधान बतावै, पाठ सहित तब बहुफल पावै ।
 षष्ठम विनय सुलब्ध सुनीजे, वाणी बहुत विनय सु पढ़ीजे ॥
 जापे पठे न लोपे जाई, अंग सप्तम गुरुवाद कहाई ।
 गुरुकी बहुत विनय जु करीजे, मो अष्टम अंगधर सुख लीजे
 यह आठौं अंग ज्ञान बढ़ावै, ज्ञाता मन वच तन कर ध्यावै ।
 अब आगे चारित्र सुनीजे, तेह विधि धर शिव सुख लीजे ॥
 छहों काय की रक्षा करहै, सोई अहिंसा व्रत चित धर है ।
 हित मित मत्य वचन सुख कहिये, सो मतवादी केवल लहिये
 मन वच काय न चोरी करिये, सोई अर्चोयव्रत चित धरिये ।
 मनमथ भय मन रंच न आने, सो मुनि ब्रह्मचयं व्रत ठाने ॥
 परिग्रह देख न मूर्च्छित होई, पंच महाव्रत धारक सोई ।
 महाव्रत ये पांचा खर, सब तार्थकर इनको करे ॥
 मन में विकल्प रंच न होई, मनागुप्ति मुनि कहिये साई ।
 वचन अलीक रंच नहि भाखै, वचनगुप्ति सां मुनिवर राखै ॥
 कायोत्सर्ग परीषह सहि हैं, ता मुनि कायगुप्ति जिन कहि हैं ।
 पंच समिति अब सुनिये भाई, अर्थ सहित भाषे जिनराई ॥
 हाथ चार जब भूमि निहारे, तब मुनि इत्यो समिती धारे ।
 मिष्ट वचन मुख बोलै साई, भाषा समिति तास मुनि होई ॥

भोजन छयालिस दूषण टारै, सो मुनि एषण सुद्ध विचारै ।
 देखकै पाथी ले अरु धर है, सो आदाननिक्षेपन बर है ॥
 मल सूत्र एकान्त जु डारै, परतिष्ठापन समिति संभारै ।
 यहसब अंग उनतीस कहेहैं, श्रीजिन भाषे गणधरने गहेहैं
 आठ आठ तेरह विधि जानौ, दशने ज्ञान चरित्र सु ठानौ ।
 तातें शिवपुर पहुँचो जाई, रत्नत्रय की यह विधि भाई ॥
 रतनत्रय पूरण जब होई, क्षमा क्षमा करियौ सब कोई ।
 चैत माघ भादों त्रय वारा, क्षमा क्षमा हम उर में धारा ॥

ॐ ह्रीं रत्नत्रयाय महाघं निर्वपामीति स्वाहा ।

यह क्षमावणि आरतां, पढ़े सुने जो कोय ।

कहे मन्त्र सरधा करो, मुक्ति श्री फल हाय ॥

इत्याशीर्वादः ।

सोरठा ।

दोष न गहिये कोय, गुण गहि पहिये भाव सों ।

भूल चक जो होय, अर्थ विचारि जु शोषियो ॥

स्वयंभूस्तोत्रम् (संस्कृत)

येन स्वयंबाधयेन लोका, आश्वासिता केचन चित्तकार्ये ।
 प्रबोधिता केचन माक्षमार्गे, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् ॥
 इन्द्रादिभिः क्षीरसमुद्रतांयैः, संस्थापितो मेरुगिरौ जिनेन्द्रः ।
 यः कामजेता जनसंरक्ष्यकारी, तं शुद्धभावादजितं नमामि ॥

ध्यानप्रबंधप्रभवेन येन, निहत्य कमेप्रकृतीः समस्ताः ।
 मुक्तिस्वरूपां पदवीं प्रपेदे, तं संभवं नौमि महानुरागात् ॥
 स्वप्ने यदीया जननी क्षयायां, गजादिवन्हन्तमिदं ददर्श ।
 यत्तात इत्याह गुरुः परोऽयं, नौमि प्रमादादभिनन्दनं तम् ॥
 कुवादिवादं जयता महांतं, नयप्रमाणैर्वचनैर्जगत्सु ।
 जैनं मतं विस्तरितं च येन, तं देवदेवं सुमति नमामि ॥
 यस्यावतारे सति पितृधिष्णो, ववर्ष रत्नानि हरेर्निदेशात् ।
 धनाधिपः षण्णवमासपूर्वं, पद्मप्रभं तं प्रणमामि साधुं ॥
 नरेन्द्रसर्पेश्वरनाकनार्थः, वाणी भवती ऋगृहे स्वचित्ते ।
 यस्यात्मात्मबोधः प्रथितः ममायामहं पुषारवं ननु त नमामि
 सत्प्रातिहार्यातिशयप्रपन्नो, गुणप्रवीणो हतदोषसंगः ।
 यो लोकमोहाघतमःप्रदीपश्चन्द्रप्रभं तं प्रणमामि भावात् ॥
 गुप्तिप्रयं पंच महाव्रतानि, पंचोपदिष्टा समितिश्च येन ।
 बभूव यो द्वादशधा तपामि, तं पुष्पदंतं प्रणमामि देवं ॥
 ब्रह्मव्रतांतो जिननायकेनोत्तमक्षमादिर्दशधापि धर्मः ।
 येन प्रयुक्तो व्रतबंधबुद्ध्या, तं शीतलं तीर्थकरं नमामि ॥
 गण जनानंकरे धर्मांत विध्वस्तकोपे प्रशमैकचित्ते ।
 यो द्वादशांगं श्रुतमादिदेश, श्रेयांममानौमि जिनं तमीशं ॥
 मुक्त्यंगनायै रचिता विशाला, रत्नत्रयीशेखरता च येन ।
 यत्कंठमासाद्य बभूव श्रेष्ठा तं वासुपूज्यं प्रणमामि वेमात् ॥

ज्ञानी त्रिवेकी परमस्वरूपी, ध्यानी व्रती प्राणहितोपदेशी ।
 मिथ्यात्वघाती शिवसौख्यभोजी, बभूव यस्तं विमलं नमामि ॥
 आभ्यन्तरं बाह्यमनेकधा यः, परिश्र्दं सर्वमपाचकार ।
 यो मार्गमुद्दिश्य हितं जनानां, वद जिने तं प्रणमाम्यनंतं ॥
 सार्द्धं पदार्था नव सप्ततत्त्वैः, पंचास्तिकायाश्चन कालकायाः ।
 षड्द्रव्यनिर्णीतिरलोकयुक्तिर्येनोदितं तं प्रणमामि धमेम् ॥
 यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमोऽभूत् श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां ।
 निधिप्रभुः षोडशकां जिनेद्रस्तं शांतिनाथं प्रणमामि भेदात् ॥
 प्रशंसितो यो न विमतिं हर्षं, विराधितो यो न करोति रोषं ।
 शीलव्रताद् ब्रह्मपदं गतो यस्तं कुंतुनाथ प्रणमामि हर्षात् ॥
 यः संस्तुस्तो यः प्रणतः सभाया, यः सेविताऽन्तर्गुणशूरणाय
 पदाच्युतेः केवलिभिर्जिनस्य, देवाधिदेवं प्रणमाम्यथरं तम् ॥
 रत्नत्रयं पूर्वमवांतरे यो व्रतं पवित्रं कृतवानशेषं ।
 कायेन वाचा मनसा विशुद्ध्या, तं मल्लिनाथं प्रणमामि भक्त्या
 ब्रुवन्नमः सिद्धिपदाय वाक्य-मित्यग्रहीद्यः स्वयमेव लोचं ।
 लौकांतिकेभ्यः स्तवनं निशम्य, वंदे जिनेशं मुनिसुव्रतं तं ॥
 विद्यावते तीर्थकराय तस्मा, -याहाग्दानं ददतो विशेषात् ।
 गृहे नृपस्याजनि रत्नवृष्टिः, स्तौमि प्रणामात्मयतो नमि तम् ॥
 राजीमतीं यः प्रविहाय मोक्षे, स्थितिं चकारापुनरागमाय ।
 सर्वेषु जीवेषु दयां दधान, स्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या ॥

सर्पाधिराजः कमठारिणायै, ध्यानस्थितस्यैव फणावितानैः ।

बस्योपसर्गं निरवर्तयत्तं, नमामि पाश्च महतादरेण ॥२३॥

भवार्णवे जंतुसमूहमेन, -माकषेयामास हि धर्मपोतात् ।

मज्जंतमृद्धीक्ष्य य एनसापि, श्रावद्धमानं प्रणमाम्यहं तं ॥२४॥

यो धर्मं दशधा करोति पुरुषः स्त्री वा कृतोपस्कृतं,

सर्वज्ञध्वनिसंभवं त्रिकरणव्यापारशुद्ध्यानिशं ।

भव्यानां जलमालया त्रिमलया पुष्पांजलिं दापयन्,

नित्यं संश्रियमातनोति सकलं स्वर्गापवर्गस्थितिं ॥

स्वयंभूस्तात्र (भाषा)

राजविषे जुगलनि सुखि कियो, राज त्याग भवि शिवपद दिया

स्वयंबोध स्वंभू भगवान, बंदौ आदिनाथ गुणखान ॥१॥

इंद्र चौरसागर जल लाय, मेरु न्दवाये गाय बजाय ।

मदनविनाशक सुखकरतार, बंदौ अजित अजितपदकार ॥

शुकलध्यान करि करमविनाशि, घाति अघाति सकल दुखराशि

लह्यो मुक्तिपद सुख अविकार, बंदौ संभव भवदुख टार ॥३॥

माता पच्छिम रयनमंभार, सपने सोलह देखे सार ।

भूप पूछि फल सुनि हरषाय, बंदौ अभिनंदन मनलाय ॥४॥

सब कुवादवादीसरदार, जोते स्यादवादधुनिघार ।

जैनधरमपरकाशक स्वाम्, सुमतिदेवपद करहुं प्रनाम ॥५॥

गर्भ अमाऊ घनपति आय, करी नगरशोभा अधिकाय ।
 बरसे रतन पंचदश माम, नमौ पदमप्रभ सुखकी रास ॥६॥
 इंद फनिद नगिंद्र त्रिकाल, बानी सुनि सुनि होहिं रूस्याल ।
 द्वादश सभा ज्ञानदाता, नमौ सुपारसनाथ निहार । ७॥
 सुगुन छियालिम हैं तुममाहिं, दोष अठारह कोई नाहि ।
 माहमहातमनाशक दीप, नमौ चंद्रप्रम राखि समीप ॥८॥
 द्वादशविधि तप करम विनाश, तेरह भेद चरित परकाश ।
 निज अनिच्छ भग्निच्छकदान, बंदों पुष्पदंत मनआन ॥९॥
 भावसुखदाय सुगगतै आय, दशविधि धरम कह्यो जिनराय ।
 आप ममान सबनि सुखदह, बंदों शातल धर्मसनेह ॥१०॥
 ममता सुधा कोपविषनाश, द्वादशांगबानी परकाश ।
 चारसव आनददातार, नमौ श्रेयांस जिनेश्वर सार ॥११॥
 रतनत्रयचिरमुकुट विशाल, सोभै कंठ सुगुन मनिमाल ।
 मुक्तिनार भरता भगवान, वासुपूज बंदों धर ध्यान ॥१२॥
 परम समाधिसरूप जिनेश, ज्ञानी ध्यानी हितउपदेश ।
 कर्मनाशि शिवसुख बिलसंत, बंदों विमलनाथ भगवंत ॥१३॥
 अतर बाहिर परिग्रह डारि, परमदिगंबरव्रतको धारि ।
 सर्वजीवहित राह दिखाय, नमो अनंत वचनमनलाय ॥१४॥
 सात तत्व पंचासतिकाय, अरथ नमौ छदरब बहुमाय ।
 लोक अलोक सकल परकाश, बंदों धर्मनाथ अविनाश ॥१५॥
 पंचम चक्रवरति निधिभाग, कामदेव द्वादशम मनोष ।

शांतिकरन सोलम जिनराय, शांतिनाथ बंदों हरषाय ॥१६॥
 बहुधुति करे हरष नहिं हांय, निंदे दोष गहै नहिं कोय ।
 शीलवान परब्रह्मस्वरूप, बंदों कुथुनाथ शिवभूप ॥१७॥
 द्वादशगण पूजे सुखदाय, धुतिबंदना करे अधिकाय ।
 जाकी निज धुति कबहू न हाय, बंदों अरजिनवर पददाय ।
 परभव रतनत्रय अनुराग, इहभव व्याहसमय वैराग ।
 बालब्रह्मपूरनव्रतधार, बंदों मल्लिनाथ जिनसार ॥१८॥
 बिन उपदेश स्वयं वैराग, धुति लांकांत करे पगलाग ।
 नमःसिद्ध कहि सच व्रत लेहिं, बंदों मुनिसुव्रत व्रत दाई ॥
 श्रावक विद्यावंत निहार, भगतिभावमों दियो अहार ।
 वरसे रतनराशि ततकाल, बंदों नमिप्रभु दीनदयाल ॥२१॥
 सब जीवनकी बंदी छोर, रागद्वेष दो बंधन तोर ।
 रजमति तजि शिवतियसों मिले, नेमिनाथ बंदों सुखनिले ॥
 दैत्य क्रिया उपसर्ग अपार, ध्यान देखि आयो फनधार ।
 गयो कमठ शठ मुख कर श्याम, नमों मेरुसम पारसस्वाम ॥२३॥
 भवसागरतैं जीव अपार, धरमपोतमें धरे निहार ।
 हूबत काठे दया विचार, वर्द्धमान बंदों बहुवार ॥२४॥

बोहा ।

चौबीसौ पदकमलजुग, बंदों मनवचकाय ।

‘धानत’ पठै सुनै सदा, सो प्रभु क्यों न सहाय ॥

अर्घावली ।

समुच्चय अर्घ ।

प्रभूजी अष्ट द्रव्यजु न्यायो भावसों,
 प्रभूजी थां का हरष हरष गुण गाऊँ, महाराज ।
 यो मन हरष्यो प्रभू थां की पूजा जीरे काण्ठे,
 प्रभूजी थांकी तो पूजा भवि जनि नित करे ।
 जाका अशुभ कर्म कटजाय, महाराज । यो मन० ।
 प्रभूजी थांकी तो पूजा भवि जीव जो करे,
 सा तो सुरग मुक्तिपद पावे, महाराज । यो मन० ।
 प्रभूजी इन्द्र धरशेंद्रजी सब मिलि गाय,
 प्रभूका गुणांका पार न पायो, महाराज । यो मन० ।
 प्रभूजी थे छोजी अनन्ताजी गुणवान,
 थाने तो सुमर्या संकट परिहरे महाराज । यो मन० ।
 प्रभूजी थे छोजी साहिब तीनों लोक का,
 जिनराज मै छूँ जी निपट अज्ञानी, महाराज । यो मन० ।
 प्रभूजी थां का तो रूपजी निरखन कारणे,
 सुरपति रचिया छै नयन इजार, महाराज । यो मन० ।
 प्रभूजी नरक निगोद में भव भव मै रुन्धो,
 जिनराज सहिया छै दुःख अपार, महाराज । यो मन० ।
 प्रभूजी अब तो शरणाजी थारो मै लियो,

किम विध कर पार लगावो महाराज । यो मन० ।
 प्रभृजी म्हागे तो मनडो थामेंजी पुल रयो,
 ज्यो चकगी बिच रेशमकी डोगी, महाराज । यो मन० ।
 प्रभृजी तीन लोक में है जिन-चिम्ब,
 कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय पूजस्थां महागज । मां मन०
 प्रभृजी जल चंदन अक्षत पुष्प नवद,
 दीप धूप फल अर्घ चढ़ाऊं महागज । यो मन० ।
 जिनचैत्यालय महागज सब चैत्यालय जिनराज । या मन०
 प्रभृजो अष्ट द्रव्य जु ल्यायो बनाय,
 पूज रचाऊं श्रीभगवानकी महाराज । यो मन० ।
 यो मन हर्ष्यो प्रभृ था की पूजा जीरे कारणे ।

ॐ ह्रीं भावपूजां भाववृंदनांत्रिकालपूजांत्रिकालवृंदनां कुर्यात्
 कारयेत् भावयेद्वा, श्रीअहत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवंसाधुभ्यो नमः,
 प्रथमानुयोगकरखानुयोगचरणानुयोगद्रव्यानुसोमोभ्यो नमः । दर्श-
 नविशुद्ध्यादिषोडशकारणेभ्यो नमः । उत्तमक्षमादिदशलाक्षणिक-
 धर्मैभ्यो नमः । सम्यग्दर्शनसम्यग्ज्ञानसम्यक्चारित्र्येभ्यो नमः । जले
 स्थले आकाशे गुहासु पर्वतेषु नगरेषु ग्रामेषु ऊर्ध्वलोके,
 मध्यलोके पाताले च कृत्रिमाकृत्रिमजिनचैत्यालयस्थजिनविम्बेभ्यो
 नमः । विदेहक्षेत्रेषु विद्यमानविशतितीर्थङ्करेभ्यो नमः ।
 पंचभरतपंचैरावतपंचपूर्वापरविदेहक्षेत्रसम्बन्धिप्रिशात् चातुर्विंश-
 तीर्थकरेभ्यो नमः । नन्दीश्वरद्वीपसम्बन्धि-जिनचैत्यालयेभ्यो
 नमः । पंचमेरुसम्बन्धि-अशीतिजिनचैत्यालयेभ्यो नमः । सम्मेद-

शिवरकैलाशचंपापुर-पावापुर-गिरनारादिसिद्धक्षेत्रेभ्यो नमः ।
जैनवद्रीमूलवद्रीराजगृहशत्रुञ्जयतारंगा-चमत्कार श्रीमहावीरजी
पद्मपुरी आदि अतिशयक्षेत्रेभ्यो नमः, श्रीचारण-श्रद्धिधारक सम-
परमर्षिभ्यो नमः ।

ॐ ह्रीं श्रीमंतं भगवन्तं श्री वृषभादि महावीर-पर्यन्तचतुर्विं-
शतितीर्थंकरपरमदेवं आद्यानां आद्ये जम्बू द्वीपे भरतक्षेत्रे आर्य-
खण्डे.....नाम्नि नगरे मासानामुत्तमे मासे..... मासेशुभे.....
पक्षे शुभ.....तिथौ.....वासरे मुनिआयिकानां श्रावकश्राविकानां
बुद्धकबुद्धिकानां सकलकर्मक्षयार्थं अनर्घपदप्रप्तये महार्घं सम्पूर्णार्घं
निर्वपामीति स्वाहा ।

भावपूजावंदनास्तवसमेतं श्रीपंचमहागुरुभक्तिकायोत्सर्गं करो-
म्यहम् ।

(यहां पर कायोत्सर्गोपर्वक नौ वार एमोकारमन्त्र
जपना चाहिये ।)

सोलहकारणका अर्घ !

उदकचन्दनतन्दुलपुष्पकैशरुसुदीपसुधूपफलार्घकैः ।

धवलमंगलगानरवाकुले जिनगृहे जिनहेतुमहं यजे ॥

ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्धार्थादषोडशकारणेभ्यो अर्घं निर्व० ।

सोलहकारण का अर्घ (भाषा) ।

जल फल आठों द्रव्य मिलाय, 'दानत' वरत करों मन लाय,

परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो ।

दरशविशुद्धि भावना भाय, सोलह तीर्थंकर पद पाय,

परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो ॥

ॐ ह्रीं दशनविशुद्ध्यादिषोडशकारयोर्म्यो अर्घं नि० । १

दशलक्षणधर्मका अर्घ ।

उदकचन्दनतन्दुलपुष्पकैश्वरुसुदीपसुधूपफलाघकैः ।

धवलमंगलगानरवाकुले जिनगृहे जिनधर्ममहं यजे ॥

ॐ ह्रीं अर्हन्मुखकमलसमुद्भूतोत्तमक्षमामाद् वाज्ज्वशौचस-
त्यसंयमतपस्त्यागार्किकन्यब्रह्मचयदशलाक्षणिकधर्मभ्यो अघ निर्ब-
पामीति स्वाहा ।

दशलक्षण धमका अघ (भाषा) ।

आठो द्रव्य सम्भाग, दानत अधिक उछाह सों ।

भव आताप निवार, दशलक्षण पूजों सदा ॥

ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशलक्षणधर्मभ्यो अर्घं नि० ।

रत्नत्रयका अर्घ

उदकचन्दनतन्दुलपुष्पकैश्वरुसुदीपसुधूपफलाघकैः ।

धवलमंगलगानरवाकुले जिनगृहे जिनरत्नमहं यजे ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय अष्टविधाचारसम्यग्ज्ञानाय त्रयोदश-
प्रकारसम्यक्चारित्राय अर्घं निर्बपामीति स्वाहा ॥

रत्नत्रयका अर्घ (भाषा)

आठों द्रव्य वनाय, उत्तम से उत्तम लिये ।

जन्म रोग निवार, सम्यक रत्नत्रय भजों ॥

ॐ ह्रीं अष्टांगसम्यग्दर्शनाय अष्टविधसम्यग्ज्ञानाय त्रयोदश-
प्रकारसम्यक्चारित्रेभ्यो अघ निर्बपामीति स्वाहा ।

[१४५]

पंचममेरु का अर्घ ।

आठ दरव मय अर्घ बनाय, दानत पूजो श्रीजिनरस्य ।
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥
पांचो मेरु असी जिनधाम, सब प्रतिमा को करूँ प्रणाम
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥

ॐ ह्रीं पंचमेरुसम्बन्धिअशीतिजिनालयेभ्यो अर्घं निर्व० ।

नन्दीश्वर द्वीप का अर्घ ।

यह अर्घ कियो निज हेत, तुमको अरपत हों ।
दानत कीनों शिव खेत, भूमि समरपत हों ॥
नन्दीश्वर श्रीजिनधाम, बावन पूज करों ।
वसुदिन प्रतिमा अभिराम, आनन्द श्राव धरों ॥

ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपे द्विपचाशत्जिनालयेभ्यो अर्घं निर्व० ।

महाव्रतों का अर्घ ।

उदकचंदनतन्दुलपुष्पकैः, चरुसुदीपसुधूपफलार्घकैः ।
धवलमंगलगानरवाकुले, जिनगृहे जिनवृत्तमहं यजे ॥

ॐ ह्रीं श्रीमहाव्रतेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जिनवाणी का अर्घ ।

धीरहिमाचल तैं निकसी गुरु गौतम के मुख झुंड ठरी है,
मोह महाभिरि भेदि चली जगकी जड़ता-तप दूर करी है ।

ज्ञान-पयोदधि मांहिरली सत भंग तरंगन सों उछरी है,
ता शुचि शारद गंगनदी प्रणमों अंजलि करि शीश धरी है

ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्भूतद्वादशाङ्गजिनवाण्ये अर्घं निर्व० ।

महामुनियों का अर्घ ।

ज्ञान के उजागर सहज सुखसागर,

सुगुण रतनाकर वैराग रस भरे हैं ।

शरण को माते हरि मरण को भय न करि,

करण सों पटि दे चरण अनुसरे हैं ॥

धर्म मंडन भरम के विहण्डन,

परम नरम होय कर करमन मो अदे हैं ।

ऐसे मुनिराज भूमि लोक में विराजमान,

निरखत बनारसी नमस्कार करे हैं ॥

ॐ ह्रीं त्रयोदशविधचारित्रधारकमुनिवरेभ्योऽर्घं निर्व० ।

महार्घ

गीता छन्द ।

मैं देव श्री अर्हन्त पूजूं, सिद्ध पूजूं चाव सों,

आचार्य श्री उवभाय पूजूं, साधु पूजूं भाव सों ।

अर्हन्त-भाषित बैन पूजूं, द्वादशांग रचे गनी,

पूजूं दिगम्बर गुरुचरन, शिव हेत सब आशा हनी ॥

सर्वज्ञभाषित धर्म दशविधि, दत्ता-वय पूजूं सदा,
जजि भावना षोडश रत्नत्रय, जाविना शिव नहिं कदा ।
त्रैलोक्य के कुत्रिम अकुत्रिम, चत्य चैत्यालय जजूं,
पनमेरु नन्दीश्वर जिनालय, स्वचर सुर पूजित मजूं ॥
कैलाश श्री सम्मेद श्री, गिरनार गिरि पूजूं सदा,
चम्पापुरी पावापुरी पुनि, और तीस्थ सर्वदा ।
चौबीस श्रीजिनराज पूजूं बीस क्षेत्र विदेह के,
नामावली इक सहस्र वसु, जय होय पति शिवमेह के ॥
दिहा ।

जल गंधाक्षत पुष्प चरु, दीप धूप फल लाय ।
सर्व पूज्य पद पूज हूँ, बहु विध भक्ति बढ़ाय ॥
इति महार्घं ।

शान्ति पाठ ।

गीता इन्द ।

शास्त्रोक्तविधि पूजा महोत्सव सुरपती चक्री करें,
हम सारिखे लघु पुरुष कैसे यथाविधि पूजा करें ।
धन क्रिया ज्ञान रहित न जाने रीति पूजन नाथ जी,
हम भक्तिवश तुम चरख आगे जोड़ लीने हाथ जी ॥१॥
दुखहरण भंगलकरण आशाभरण जिनपूजा सही,
यह धिच में सरधान भरे शक्ति द्यो स्वयमेव ही ।

तुम सारिखे दातार फाये काज लघु जांचूं कहा,
 शुभ आष सम कर लेहु स्वामी यही इक बांछा महा ॥२॥
 संसार भीषख बिपिन में वसु कर्म मिलि आतापियो,
 तिस द्रष्टे आकुलित चित मैं शान्ति थल कहूं ना लियो ।
 तुम मिले शान्तिस्वरूप शान्तिकरख समरथ जगपती,
 वसु कर्म मेरे शान्ति करदो शान्तिमय पंचमगती ॥३॥
 जबलों नहीं शिव लहूँ तबलों देव ये धन पावना,
 सतसंग शुद्धचिरख श्रुत-अभ्यास आतम-भावना ।
 तुम बिन अनन्तानन्त काल गयो रुलत जगजाल में,
 अब शरण आयो नश दुखकर जोड़ नावत भाल मैं ॥

दोहा ।

कर प्रमाण के मान तें, गगन नपे किहि भंत ।
 त्यों तुम गुण वर्णन करूं, कवि नहिं पावे अन्त ॥

पुष्पांजलि क्षिपेत् ।

भजन (पंचपरमेष्ठी)

हमारे परमेष्ठी आधार ॥ टेक ॥

पांचों पद के पैतिस अक्षर मंत्र जपो रामोकार । हमारे० ।
 अष्ट दैव ले पूजा कीनी आठों कर्म निवार । हमारे० ।
 तुम्हीं कल्पतरु तुम चिन्तामणि तुम हो दीनदयाल । हमारे० ।
 भवसागर से डूबत डूबत तुम्हीं उतारो पार । हमारे० ।

‘सेवक’ की प्रभु अर्ज यही है आवागमन निवार । हमारे० ।
दान ये मुझको दीजिये स्वामी कर भवसागर पार,
हमारे परमेष्ठी आधार ।

विसर्जनपाठ ।

गीता छन्द ।

सम्पूर्ण विधि कर वीनऊँ इस परम पूजन ठाठ में,
अज्ञान वश शास्त्रोक्त विधितैं चूक कीन्हों पाठ में । - -
सो होहु पूर्ण समस्त विधिवत् तुम चरख की शरखतैं,
बन्दिहों कर जोड़कर उद्धार जन्मन मरख तैं ॥१॥
आह्वान स्थापन तथा सन्निधीकरण विधान जी,
पूजन विसर्जन यथाविधि जानूँ नहीं गुणवान जी ।
जो दोष लागे सो नसो सब तुम चरख की शरख तैं,
बन्दों तुम्हें कर जोड़ कर उद्धार जन्मन मरख तैं ॥२॥
तुम रहित आवागमन आह्वानन कियो निज भाव में,
विधि यथाक्रम निजशक्ति सम पूजन कियो अतिचाव में ।
करहु विसर्जन भाव ही मैं तुम चरख की शरख तैं,
बन्दों तुम्हें कर जोड़ कर उद्धार जन्मन मरख तैं ॥३॥

दोहा ।

तीन भुवन तिहु काल में, तुम सा देव न और ।
सुख कारन संकटहरन, नमों युगल कर जोर ॥ १७

सलूना पर्व पूजा

श्री अकम्पनाचार्यादि सप्तशतमुनि पूजा

(चाल जोगीरासा)

पूज्य अकम्पन साधु-शिरोमणि सात-शतक मुनि ज्ञानी ।
आ हस्तिनापुरके काननमें हुए अचल दृढ़ ध्यानी ।
दुखद सहा उपसर्ग मयानक सुन मानव धवराये ।
आत्म-साधनाके साधक वे, तनिक नहीं अकुलाये ॥
योगिराज श्री विष्णु त्याग तप, वरसलता-वश आये ।
किया दूर उपसर्ग, जगत-जन मुग्ध हुए हर्षाये ॥
सावन शुक्ला पन्द्रस पावन शुभ दिन था सुखदाता ।
पर्व सलूना हुआ पुण्य-प्रद यह गौरवमय गाथा ॥
शान्ति दया समताका जिनसे नव आदर्श मिला है ।
जिनका नाम लियेसे होती जागृत पुण्य-कला है ।
करूँ वन्दना उन गुरुपदकी वे गुण भै भी पाऊँ ।
आह्वानन संस्थापन सन्निधिकरख करूँ हर्षाऊँ ॥

ॐ ह्रीं श्रीअकम्पनाचार्यादिसप्तशतमुनिसमूह अत्र अवतर
अवतर संबौषट् इत्याह्वानम् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः प्रविष्टापनम् ।
अत्र मम सन्निहितो भव भव त्रषट् सन्निधीकरणम् ।

अथाष्टकम्

गीताञ्चन्द ।

मै उर-सरोवरसे विमल जल भाव का लेकर भहो ।
नत पाद-पद्मोंमें चढ़ाऊँ मृत्यु जनम जरा न हो ॥
श्रीगुरु अकम्पन आदि मुनिवर मुझे साहस शक्ति दें ।
पूजा करूँ पातक मिटें, वे सुखद समता भक्ति दें ॥

ॐ ह्रीं श्रीअकम्पनाचार्यादिसप्तशतमुनिभ्यो जन्मजरामृत्यु-
विनाशनाय जलं निर्वेपामीति स्वाहा ।

सन्तोष मलयागिरिय चन्दन निराकुलता सरस ले ।
नत पादपद्मोंमें चढ़ाऊँ, विश्वताप नहीं जले ॥
श्रीगुरु अकम्पन आदि मुनिवर मुझे साहस शक्ति दें ।
पूजा करूँ पातक मिटें, वे सुखद समता भक्ति दें ॥

ॐ ह्रीं श्रीअकम्पनाचार्यादिसप्तशतमुनिभ्यः ससारतापविना-
शनाय चदनं निर्वेपामीति स्वाहा ।

तंदुल अखंडित पूत आशाक्रे नवीन सुहावने ।
नत पाद-पद्मोंमें चढ़ाऊँ दीनता क्षयता हने ॥
श्रीगुरु अकम्पन आदि मुनिवर मुझे साहस शक्ति दें ।
पूजा करूँ पातक मिटें, वे सुखद समता भक्ति दें ॥

ॐ ह्रीं श्रीअकम्पनाचार्यादिसप्तशतमुनिभ्योऽक्षयपद्मप्राप्तये
अक्षतं निर्वेपामीति स्वाहा ।

ले विविध विमल विचार सुन्दर सरस सुमन मनोहरे ।
 नत पाद-पद्मोंमें चढ़ाऊँ काम की बाधा हरे ॥
 श्रीगुरु अकम्पन आदि मुनिवर मुझे साहस शक्ति दे ।
 पूजा करूँ पातक मिटें, वे सुखद समता भक्ति दे ॥

ॐ ह्रीं श्रीअकम्पनाचार्यादिसप्तशतमुनिभ्यः कामवाणविध्वंस
 नाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

शुभ भक्ति घृतमें विनयके पकवान पावन मैं बना ।
 नत पाद-पद्मोंमें चढ़ा मेटूँ चुधाकी यातना ॥
 श्रीगुरु अकम्पन आदि मुनिवर मुझे साहस शक्ति दे ।
 पूजा करूँ पातक मिटें, वे सुखद समता भक्ति दे ॥

ॐ ह्रीं श्रीअकम्पनाचार्यादिसप्तशतमुनिभ्यः जुधारोगविना-
 शनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

उत्तम कपूर विधेकका ले आत्म-दीपकमें जला ।
 कर आरती गुरुकी हटाऊँ मोह-तमकी यह कला ॥
 श्रीगुरु अकम्पन आदि मुनिवर मुझे साहस शक्ति दे ।
 पूजा करूँ पातक मिटें, वे सुखद समता भक्ति दे ॥

ॐ ह्रीं श्रीअकम्पनाचार्यादिसप्तशतमुनिभ्यो मोहान्धकारवि-
 नाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

ले त्याग-तपकी यह सुगन्धित धूप मैं खेऊँ अहो ।
 गुरुचरण-करुणासे करमका कष्ट यह मुझको न हो ॥

श्रीगुरु अकम्पन आदि मुनिवर मुझे साहस शक्ति दे ।
पूजा करूँ पातक मिटें, वे सुखद समता भक्ति दे ॥

ॐ ह्रीं श्रीअकम्पनाचार्यादिसप्तशतमुनिभ्योऽष्टकर्मविध्वंस-
नाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

शुचि-साधनाके मधुरतम प्रिय सरस फल लेकर यहाँ ।
नत पाद-पद्मोंमें चढ़ाऊँ मुक्ति मैं पाऊँ यहाँ ॥
श्रीगुरु अकम्पन आदि मुनिवर मुझे साहस शक्ति दे ।
पूजा करूँ पातक मिटें, वे सुखद समता भक्ति दे ॥

ॐ ह्रीं श्रीअकम्पनाचार्यादिसप्तशतमुनिभ्यो मोक्षफलप्राप्तये
फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

यह आठ द्रव्य अनूप श्रद्धा स्नेहसे पुलकित हृदय ।
नत पाद-पद्मोंमें चढ़ाऊँ भव-पार मैं होऊँ अमय ॥
श्रीगुरु अकम्पन आदि मुनिवर मुझे साहस शक्ति दे ।
पूजा करूँ पातक मिटें, वे सुखद समता भक्ति दे ॥

ॐ ह्रीं श्रीअकम्पनाचार्यादिसप्तशतमुनिभ्योऽनव्यपदप्राप्तये
अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

(सोरठा)

एज्य अकम्पन आदि सात शतक साधक सुधी ।
यह उनकी जयमाला वे मुझको निज भक्ति दे ॥

(पद्धती छन्द)

वे जीव दया पालें महान, वे पूख्खअहिंसक ज्ञानवान् ।
 उनके न रोष उनके न राग, वे करें साधना मोह त्याग ॥
 अप्रिय असत्य बोलें न वैन, मन वचन कायमें भेद है न ।
 वे महासत्य धारक ललाम, है उनके चरणांमें प्रणाम ॥
 वे लें न कभी तृणजल अदत्त, उनके न धनादिकमें ममत्त ।
 वे व्रत अचौर्य दृढ़ धरें सार, है उनको सादर नमस्कार ॥
 वे करें विषयकी नहीं चाह, उनके न हृदयमें काम-दाह ।
 वे शील सदा पालें महान, कर मग्न रहें निज आत्मध्यान ॥
 सब छोड़ वसन भूषण निवास, माया ममता स्नेह आस ।
 वे धरें दिग्म्बर वेष शान्त, होते न कभी विचलित न भ्रांत ॥
 नित रहें साधनामें सुलीन, वे सहें परीसह नित नवीन ।
 वे करें तत्वपर नित विचार, है उनको सादर नमस्कार ॥
 पंचेन्द्रिय दमन करें महान, वे सतत बढ़ावें आत्म ज्ञान ।
 संसार देह सब भोग त्याग, वे शिव-पथ साधें सतत जाग ॥
 “कुमरेश” साधु वे हैं महान, उनसे पाये जग नित्य त्राण ।
 मैं करूं वन्दना बार बार, वे करें भवार्णव मुझे पार ॥
 मुनिवर गुण-धारक पर-उपकारक, भव-दुख-हारक सुख-कारी ।
 वे करम नशायें सुगुण दिलायें, मुक्ति मिलायें भय-हारी ॥

ॐ ह्रीं श्रीअकम्पनाचार्यादिसप्तशतमुनिभ्यो महार्घं निर्ब० ।

[५५५]

सोरठा ।

भद्रा भक्ति समेत जो जन यह पूजा करे ।
वह पाये निज ज्ञान, उसे न व्यापे जगत दुख ॥

इत्याशीर्वादः ।

श्री विष्णुकुमार महामुनि पूजा

(लावनी छन्द)

श्री योगी विष्णुकुमार बाल वैरागी ।
पाई वह भवन ऋद्धि विक्रिया जागी ॥
मुन मुनियोंपर उपसर्ग स्वयं अकुलाये ।
हस्तिनापुर वे वात्सव्य-भरे हिय आये ॥
कर दिया दूर सब कष्ट साधना-बलसे ।
पा गये शान्ति सब साधु अग्निके झुलसे ॥
जन जनने जय-जयकार किया मन माया ।
मुनियोंको दे आहार स्वयं भी पाया ॥
हैं वे मेरे आदर्श सर्वदा स्वामी ।
मैं उनकी पूजा करूँ बन् अनुभाषी ॥
वे दें मुझमें यह शक्ति भक्ति प्रभु पाऊँ ।
मैं कर आत्म कन्यान मुक्त हो जाऊँ ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुने अत्र अवतर अवतर संवौषट्
इत्याह्वाननम् । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः प्रतिष्ठापम् । अत्र मम
सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधीकरणम् ।

(चाल जोगीरासा)

श्रद्धाकी वापीसे निर्मल, भावभक्ति जल लाऊँ ।
जनम मरण मिट जायें मेरे इससे विनत चढ़ाऊँ ॥
विष्णुकुमार मुनीश्वर वन्दू यति रक्षा हित आये ।
यह वात्सल्य हृदयमें मेरे अभिनव ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं
निर्वपामीति स्वाहा ।

मलयागिरि धीरजसे सुरभित समता चन्दन लाऊँ ।
भव-भवकी आताप न हो यह इससे विनत चढ़ाऊँ ॥
विष्णुकुमार मुनीश्वर वन्दू यति-रक्षा हित आये ।
यह वात्सल्य हृदयमें मेरे अभिनव ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये संसारतापविनाशनाय चन्दनं
निर्वपामीति स्वाहा ।

चन्द्रकिरण सम आशाओं के अक्षत सरस नवीने ।
अक्षय पद मिल जाये मुझको गुरु सन्मुख धर दीने ॥
विष्णुकुमार मुनीश्वर वन्दू यति-रक्षा हित आये ।
यह वात्सल्य हृदयमें मेरे अभिनव ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं निर्व० ।

उर उपवनसे चाह सुमन चुन विविध मनोहर लारुँ ।
व्यथित करे नहिं काम वासना इससे विनत चढ़ाऊँ ॥
विष्णुकुमार मुनीश्वर वन्दू यति-रक्षा हित आये ।
यह वात्सल्य हृदयमें मेरे अभिनव ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये कामवाणविनाशनाय पुर्व नि० ।

नव नव व्रत के मधुर रसीले मैं पकवान बनाऊँ ।
लुधा न बाधा यह दे पाये इससे विनत चढ़ाऊँ ॥
विष्णुकुमार मुनीश्वर वन्दू यति-रक्षा हित आये ।
यह वात्सल्य हृदयमें मेरे अभिनव ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये लुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि० ।

मैं मनका मणिमय दीपक ले ज्ञान-वातिका जारूँ ।
मोह-तिमिर मिट जाये मेरा गुरु सन्मुख उजियारूँ ॥
विष्णुकुमार मुनीश्वर वन्दू यति-रक्षा हित आये ।
यह वात्सल्य हृदयमें मेरे अभिनव ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये मोहतिमिरविनाशनाय दीपं नि० ।

ले विरागकी धूप सुगन्धित त्याग धूपायन खेऊँ ।
कर्म आठका ठाठ जलाऊँ गुरुके पद नित सेऊँ ॥
विष्णुकुमार मुनीश्वर वन्दू यति-रक्षा हित आये ।
यह वात्सल्य हृदयमें मेरे अभिनव ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये अष्टकर्महननाय धूपं निर्व० ।

पूजा सेवा दान और स्वाध्याय विमल फल लाऊँ ।
 मोक्ष विमल फल मिले इसीसे विनत गुरु पद ध्याऊँ ॥
 विष्णुकुमार मुनीश्वर वन्दे यति रक्षा हित आये ।
 यह वात्सल्य हृदयमें मेरे अभिनव ज्योति जगाये ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्व०
 यह उत्तम वसु द्रव्य संजोये हर्षित भक्ति बढ़ाऊँ ।
 मैं अनर्घपदको पाऊँ गुरुपदपर बलि बलि जाऊँ ॥
 विष्णुकुमार मुनीश्वर वन्दू यति-रक्षा हित आये ।
 यह वात्सल्य हृदयमें मेरे अभिनव ज्योति जगाये ॥'
 ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं निर्व०

जय-माला

दोहा

श्रावण-शुक्ला पूर्णिमा यति रक्षा दिन जान ।
 रक्षक विष्णु मुनीशकी मह बुद्धमाल महान ॥

पदही छन्द

जय योगिराज श्रीविष्णु धीर, आकर वह हर दी साधु-पीर ।
 हतिनापुर वे आये तुरन्त, कर दिया विपत्तका शीघ्र अन्त ॥
 वे ऋद्धि सिद्धि-साधक महान्, वे दयावन वे ज्ञानवान ।
 घर लिपा स्वयं वामन सरूप, चल दिये विप्र बनकर अनूप ॥

पहुँचे बलि नृपके राजद्वार, वे, तेज-पुञ्ज धर्मावतार ।
 आशीष दिया आनन्दरूप, होगया मुदित सुन शब्द श्रुप ॥
 बोला वर माँगो विप्रराज, दूंगा मनवाँछित द्रव्य आज ।
 पग तीन भूमि याचो दयाल, बस इतना ही तु दो नृपाल ॥
 नृप हँसा समझ उनको अज्ञान, बाँझा यह कपालो, और दान
 इससे कुछ इच्छा नहीं शेष, बोले वे ये ही दो नरेश ॥
 संकल्प किया दे भूमि दान, ली वह मनमें अति मोद मान ।
 प्रगटार्ई अपनी श्रद्धि सिद्धि, हो गई देहकी विपुल वृद्धि ॥
 दो पगमें नापा जग समस्त, हो गया भूप बलि अस्त-व्यस्त ।
 पग एक और दो भूमि दान, बोले बलिसे करुणानिधान ॥
 नतमस्तक बलिने कहा अन्य, है भूमि न मुझपर हे अनन्य ।
 रख लें पग मुझपर एक नाथ, मेरी हो जाये पूर्ण बात ॥
 कह कर तथास्तु पग दिया आप, सह सका न बलि वह भार-ताप
 बोला तुरन्त ही कर विलाप, करदें अब मुझको क्षमा आप ॥
 मैं हूँ दोषी मैं हूँ अज्ञान, मैंने अपराध किया महान् ।
 ये दुस्खित किये सब साधुसन्त, अब करो क्षमा हे दयावन्त ॥
 तब की मुनिवरने दया-दृष्टि, हो उठी गमन से महावृष्टि ।
 पागये दग्ध वे साधु-त्राय, जन-जनके पुलकित हुए प्राण ॥
 घर घरमें छाया मोद-हास, उत्सवने पाया नव प्रकाश ।
 पीड़ित मुनिबाँका पूर्णमान, रख मधुर दिया आहार दान ॥
 युग युग तक इसकी रहे याद, कर-सूत्र बंधाया सान्हाद ।

बन गया पर्व पावन महान, रक्षाबन्धन सुन्दर निधान ॥
वे विष्णु मुनीश्वर परम सन्त, उनकी गुण-गरिमाका न अन्त ।
वे करें शक्ति सुभक्तो प्रदान, कुमरेश प्राप्त हो आत्मज्ञान ॥

घत्ता

श्री मुनि विज्ञानी आत्म-ध्यानी,
मुक्ति-निशानी सुख-दानी ।
भव-ताप विनाशे सुगुण प्रकाशे ।
उनकी करुणा कल्याणी ॥

ॐ ह्रीं श्रीविष्णुकुमारमुनये महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

दोहा

विष्णुकुमार मुनीशको, जो पूजे धर प्रीत ।
वह पावे कुमरेश शिव, और जगत में जीत ॥

[दीपावली के दिन कार्तिक वदी अमावस्या की रात्रि के अन्त में यानी कार्तिक सुदी प्रतिपदा के प्रातः भगवान महावीर का निर्वाण समय है उस समय भगवान महावीर का पूजन होता है पाबापुर क्षेत्र की पूजा होती है और प्राकृत भाषा तथा हिन्दी भाषा का निर्वाणकांड पढ़ा जाता है । इसके सिवाय उसी दिन गौतम गणधर को केवलज्ञान हुआ था । हम भगवान महावीर की पूजा पीछे चौबीसी पाठ में वे चुके हैं यहा पर गौतम गणधर (गणपति) की पूजा देते हैं । तदनन्तर निर्वाण काण्ड रखते हैं । इस प्रकार पाठक महानुभाव दीपावली विधान कर सकेंगे ।]

श्री गौतम गणपति पूजा

श्री गौतम गणेश शीश यह तुम्हें नमाकर,
 आह्वानन अब करूँ आय तिष्ठो मानस पर ।
 पाके केवल ज्योति ज्ञाननिधि हुए गुणाकर,
 निज लक्ष्मी का दान करो मेरे घट आकर ॥
 श्री गौतम गणेश जी, तिष्ठो मम उर आय ।
 ज्ञान-लक्ष्मी-पति बने, मेरी मानव काय ॥

ॐ ह्रीं कार्तिककृष्णामावस्यायां कैवल्यलक्ष्मी-प्राप्त श्रीगौतम-
 गणपतिजिनेन्द्र ! अत्र, अवतर अवतर सम्बोषट् ।

अत्र तिष्ठ, तिष्ठ, ठः ठः स्थापनम् । अत्र मम सन्निहितो भव
 भव वषट् इति सन्निधिकरणम् ।

गाङ्गोय वारि शुचि प्रासुक दिव्य ज्योति,
 जन्मादि कष्ट निज वारण को लिया मैं ।
 मसार के अखिल त्रास निवारने को
 योगीन्द्र गौतम-पदाम्बुज-में चढ़ाता ।

ॐ ह्रीं कार्तिककृष्णामावस्यायां कैवल्यलक्ष्मीप्राप्ताय श्रीगौतम-
 गणेशाय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

कपूरयुक्त मलयागिरि को बिसाया,
 संसार ताप श्मनार्थ हसे बनाया ।
 संसार के अखिल त्रास निवारने को,
 योगीन्द्र गौतम-पदाम्बुज-में चढ़ाता ॥

ॐ ह्रीं कार्तिककृष्णामावस्यायां कैवल्यलक्ष्मीप्राप्ताय श्रीगौत-
मगणेशाय सुगन्ध निर्वपामीति स्वाहा ।

मुक्ताभ अक्षत सुगन्धि चुना चुना के,
व्याधिघ्न अक्षत-पदार्थ सजा सजा के ।
संसार के अखिल त्रास निवारने को,
योगीन्द्र गौतम-पदाम्बुज-में चढ़ाता ॥

ॐ ह्रीं कार्तिककृष्णामावस्यायां कैवल्यलक्ष्मीप्राप्ताय गौतम-
गणेशायऽक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।

कन्दर्प दर्प दलनार्थ नवीन ताजे,
बेला गुलाब मचकुन्द सु पारजाती ।
संसार के अखिल त्रास निवारने को,
योगीन्द्र गौतम-पदाम्बुज- में चढ़ाता ॥

ॐ ह्रीं कार्तिककृष्णामावस्यायां कैवल्यलक्ष्मीप्राप्ताय गौतम-
गणेशाय पुष्प निवपामीति स्वाहा ।

क्षीरादि मिश्रित अमोघ बल प्रदाता,
पक्वान्न थाल यह भूख निवारने को ।
संसार के अखिल त्रास निवारने को,
योगीन्द्र गौतम-पदाम्बुज-में चढ़ाता ॥

ॐ ह्रीं कार्तिककृष्णामावस्यायां कवल्यलक्ष्मीप्राप्ताय गौतम-
गणेशाय नैवेद्यं निवपामीति स्वाहा ।

रत्नादि दीप नषज्योति कपूर-वर्ती,
 उद्दाम-मोह-तम तोम सभी हटाने ।
 संसार के अखिल त्रास निवारने को,
 योगीन्द्र गौतम-पदाम्बुज-में चढ़ाता ॥

ॐ ह्रीं कार्तिककृष्णामावस्थायां कैवल्यलक्ष्मीप्राप्तये गौतम-
 गणेशाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

अज्ञान मोह मद से भव में भ्रमात्ता,
 ये दुष्ट कर्म, तिस नाशन को दर्शांगी ।
 संसार के अखिल त्रास निवारने को
 योगीन्द्र गौतम-पदाम्बुज में चढ़ाता

ॐ ह्रीं कार्तिककृष्णामावस्थायां कैवल्यलक्ष्मीप्राप्तये गौतम-
 गणेशाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ॥

केला अनार सहकार सुपक्व जामू,
 ये सिद्धमिष्ट फल मोक्षफलान्ति को मैं ।
 संसार के अखिल त्रास निवारने को,
 योगीन्द्र गौतम-पदाम्बुज में चढ़ाता ।

ॐ ह्रीं कार्तिककृष्णामावस्थायां कैवल्यलक्ष्मीप्राप्तये गौतम-
 गणेशाय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

पानीय आदि वसु द्रव्य सुगन्धयुक्त,
 लाया प्रशान्त मन से निज रूप धाने ।

संसारके अखिल त्रास निवारने को,
योगीन्द्र गौतम-पदाम्बुज में चढ़ाता ।

ॐ ह्रीं कातिककृष्णामावस्यायां कैवल्यलक्ष्मीप्राप्ताय श्रीगौतम-
गणेशाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

वीरजिनेश्वर के प्रथम गणधर-गौतम पाँय
नमन करूँ कर जोड़ कर स्वर्ग मोक्ष फल दाय ॥

हरिगीतिका

जय देव ! श्रीगौतम गणेश्वर प्रार्थना तुमसे करूँ ,
सब हटा दो कष्ट मरे अर्घ्य ले आरति करूँ ।
दुष्ट काल कराल पंचम में सहारा उठ गया,
नेतृत्वहीन हुए सभी जन आर्ष पथ सब मिट गया ॥१॥
तत्त्वार्थ चिन्तन सत्यपथ औ सत्य यत्याचार का,
है ठिकाना अब न भारत में गृहस्थाचार का ।
मार्ग नाना पकड़ जगजन मुक्ति अपनी चाहते,
आत्म वैभव शून्य हो भौतिक विभूति विगाहते ॥२॥
आत्म तंत्र-स्वतंत्रता का सत्य शिव था पंथ जो,
खोदिया वह ज्ञान सारा मोह ममता तंत्र हो ।
हे गणेश ! कृपा करो, अब आत्मज्योति पसार दो,
हम हैं तुम्हारे सदय हो दुर्वासनायें मार दो ॥३॥

क्या दशा तुमको सुनाऊँ जो हमारी हो गई,
 आत्मनिधि सब खो गई विज्ञान धारा सो गई ।
 ज्ञानभौतिक, शानभौतिक मानभौतिक शेष है,
 विज्ञान भौतिक रक्तसारा बना भारतदेश है ॥
 न्याय नीति तिलाञ्जली देकर निकाले देश से,
 देशके बाजार काले कर दिये निज वेश से ।
 कालिमा से व्याप्त सब व्यापार धन्दे कर दिये,
 नैतिक पतन की चरम सीमायुक्त नयपथ कर दिये ॥
 वीर प्रभुनिर्वाण-क्षणमें था सम्हाला आपने,
 अब छोड़ तुमको जाऊँ कहां घेरा चहुँ दिशि पापने ।
 है दिवस वह ही नाथ ! स्वामी वीरके निर्वाण का,
 जगके हितेषी विज्ञ गौतम ईश केवल ज्ञान का ॥
 नाथ ! अब करके कृपा हमको सदाग दीजिये,
 दीपमाला आरती पूजा ग्रहण मम कीजिये ।
 ऐसी दशा जब देशकी तब धर्म का क्या रूप हो,
 तुमही बनाओ नाथ ! जब यह जगत तमका तूप हो ॥
 केमे बचावें सत्य अपना और सत्याचार को,
 जब हाय ! पैसा ! हाय पैसा ! कर रहा संसार हो ।
 इस विषम-भवकी भंवरसे कैसे नौका पार हो,
 मांझी लुटेरे, पथिक डाकू, दस्यु-कर-पतवार हो ॥
 महावीर स्वामी की प्रव्रज्या के समय जो हाल था,

दीन दु खया प्राणियों का जीवनत्व मुहाल था ।
 वह ही दशा भारतधरा की नीति अष्टाचार से,
 आओ ! सम्हालो ! सदय होकर आत्म करुणाधार से ॥
 हैं सभी जन आपके अब ज्ञानसे भरदो दिया,
 मोतम दिया गणपति दिया, बोले सभी अनुपम दिया
 तेरे दिये बिन जग अंधेरा क्योंकि वह केवल दिया,
 इसलिये हे नाथ ! अब चहु ओर कर दो निज दिया ॥
 है अनूठा शक्तिशाली उदय जहँ पाता दिया,
 अज्ञान तम के तामको चैतन्य 'मणि' करता दिया ।

ॐ ह्रीं कार्तिककृष्णामावस्यायां कैवल्यलक्ष्मीप्राप्ताय गौतमगणेशाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

दोहा—ज्योतिपुञ्ज गणपति प्रभो ! दूर करो अज्ञान ।
 समता रस से सिक्त हो नया उगे उर भानु ॥

इत्याशीर्वादः ।

निवाणकांड भाषा ।

दोहा ।

बीतराग बंदों सदा, भावसहित सिरनाथ ।
 कहूँ कांड निर्वाणकी भाषा सुगम बनाय ॥

चौपाई ।

अष्टापद आदीश्वर स्वामि, वासुपूज्य चंपापुरिनामि ।
 नेमिनाथ स्वामी गिरनार, बंदों भावममति उर धार ॥

चरम तीर्थकरचरम शरीर, पावापुरि स्वामी महावीर ।
 शिखरसमेद जिनेसुर बीस, भावसहित बंदों निश दीस ॥
 बरदतराय रु इन्द मुनिंद, सायरदत्त आदिगुणवृंद ।
 नगरतारवर मुनि उठ कोडि, बंदों भावसहित कर जोडि ॥
 श्रो गिरनार शिखर विख्यात, कोडि बहत्तर अरु सौ सात ।
 संबुप्रदुम्न कुमर द्वै भाय, अनिरुध आदि नमूं तखु पाय ॥
 रामचन्द्रके सुत द्वै वीर, लाडनरिंद आदि गुणधीर ।
 पांचकोडि मुनि मुनि मुक्तिमभार, पावागिरि बंदों निरधार ॥
 पांडव तीन द्रविडराजान, आठकोडि मुनि मुक्ति पयान ।
 श्रोशत्रुं जयगिरिके सीस, भावसहित बंदों निशदीस ॥
 जे बलभद्र मुक्तिमें गये, आठकोडि मुनि औरहु भये ।
 श्रीगजपंथ शिखर सुविशाल, तिनके चरण नमूं तिहुंकाल ॥
 राम हनु सुग्रीव सुडील, गवयगवाख्य नील महानील ।
 कोडि निन्याखबै मुक्ति पयान, तुंगीगिरि बंदों धरि ध्यान ॥
 नंग अनंग कुमार सुजान, पांचकोडि अरु अर्ध प्रमान ।
 मुक्ति गये सोनागिरि शीस, ते बंदों त्रिभुवनपति ईस ॥
 रावणके सुत आदिकुमार, मुक्ति गये रेवातट सार ।
 कांठि पंच अरु लाख पचास, ते बंदों धरि परम हुलास ॥
 रेवा नदी सिद्धवर कूट, पश्चिम दिशा देह जहँ छूट ।
 द्वै चक्री दश कामकुमार, ऊठकोडि बंदों भव पार ॥
 बडवानी बडनगर सुचंग, दक्षिण दिशि गिरिचूल उतंग ।

इन्द्रजीत अरु कुम्भ जु कर्ण, ते बंदौं भवसागर तरण ॥
 सुवर्णभद्र आदि मुनि चार, पावागिरिवर शिखर मँभार ।
 चेलना नदी तीरके पास, मुक्ति गये बंदौं नित तास ॥
 फलहोड़ी बडगाम अनूप, पश्चिम दिशा द्रोणगिरि रूप ।
 गुरुदत्तादि मुनीसुर जहां, मुक्ति गये बंदौं नित तहां ॥
 बालि महाबालि मुनि होय, नागकुमार मिले त्रय होय ।
 श्रीअष्टापद मुक्तिमँभार, ते बंदौं नित सुरत सँभार ॥
 अचलापुरकी दिश ईसान, तहां मेंढगिरि नाम प्रधान ।
 साठे तीन कोडि मुनिराय, तिनके चरण नमूं चितलाय ॥
 वंसस्थल वनके ढिग होय, पश्चिमदिशा कुंथुगिरि सोय ।
 कुलभूषण दिशभूषणनाम, तिनके चरणनिकरूं प्रणाम ॥
 जसरथ राजाके सुत कहे, देश कलिग पांचसो लहे ।
 कोटिशिला मुनि कोटि प्रमान, बंदन करूं जोर जुगपान ॥
 समवसरण श्रीपार्श्वार्जनंद, रसिदीगिरि नयनानंद ।
 वरदत्तादि पंच ऋषिराज, ते बंदौं नित धरम जिहाज ॥
 मथुरापुर पवित्र उद्यान, जंबूस्वामीजी निर्वान ।
 चरम केवली पंचम काल, ते बंदौं नित दीन दयाल ॥
 तीनलोकके तीर्थ जहां, नित प्रति बंदन कीजै तहां ।
 मनवचकायसहित सिर नाय, बंदन करहिं भविक गुणगाय ॥
 संवत् सतरहसौ इकताल, आश्विन सुदि दशमी सुविशाल ।
 'भैया, बंदन करहिं त्रिकाल, जय निर्वाणकांड गुणमाल ॥

महावीराष्टकस्तोत्र

छंद शिखरिणी ।

यदीये चैतन्ये मुकुट इव भावाश्चिदचितः, समं भांति
 ध्रौव्यव्ययजनिलसंतोतरहिताः । जगत्साक्षी मार्गप्रकटनपरो
 भानुरिव यो, महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे (नः) ॥१॥
 अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पंदरहितं, जनान्कोपापायं
 प्रकटयति वाभ्यंतरमपि । स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशश्रितमयी
 वातिविमला, महावीरस्वामी० ॥ २ ॥ नमन्नाकेंद्राली मुकुट-
 मणिभाजालजटिलं, लसत्पादांभोजद्वयमिह यदीयं तनुभृतां ।
 भवज्वालाशांत्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि, महावी० ॥३॥
 यदर्चाभावन प्रमुदितमना ददुर इह, चणादासीत्स्वर्गी गुण-
 गणसमृद्धः सुखनिधिः । लभंते सद्भक्ताः शिवसुखसमाजं
 किमु तदा, महावी० ॥ ४ ॥ कन्तस्वर्णाभासोऽप्यपगतत-
 तुर्जाननिवहो, विचित्रात्माप्येको नृपतिवरमिद्वार्थतनयः ।
 अजन्मापि श्रीमान् विगतभवरागोद्भुतगतिः, महावी० ॥५॥
 यदीया वाग्गंगा विविधनयकल्लोलविमला, वृहज्ज्ञानांभो-
 भिर्जगति जनतां या स्नपयात् । इदानीमप्येषा बुधजनपरालैः
 परिचिता, महावीर० ॥६॥ अनिर्वागोद्भूकस्त्रिभुवनजयी काम-
 सुमटः, कुमारावस्थायामपि निजबलाद्येन विजितः । स्फुर-
 न्नित्यानंदप्रशमपदराज्याय स जिनः, महावीर० ॥ ७ ॥

महामोहातंकप्रशमनपराक्रस्मिकभिवङ्ग, निरापेक्षो बंधुविंदित-
महिमा मंगलकरः । शरण्यः साधूना भवभयभृतामुत्तमगुणो,
महावीर० ॥ ८ ॥ महावीराष्टकं स्तात्रं भक्त्या भागेदुना कृतं ।
यः पठेच्छ्रुयाच्चापि स याति परमां गति ॥ ९ ॥

तिलक मन्त्र

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी ।
ममलं कुंदकुंदाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलं ॥ १ ॥

जिनवाणी माता की आरती

जय अम्बे वाणी, माता जय अम्बे वाणी ।
तुमको निश दिन ध्यावत सुरनर मुनि ज्ञानी । टेरे ॥ श्रीजिन
गिरिते निकसां, गुरु गौतम वाणी । जीवन अम तम नाशन
दापक दरशाणी ॥ जय० ॥ १ ॥ कुमत कुलाचल चूरण,
बज्र सु सरधानी । नव नियोग निक्षेपण, देखन दरपाणी
॥ जय० ॥ २ ॥ पातक पंक पखालन, पुण्य परम पाणी ।
मोहमहार्णव हूवत, तारण नौकाणी ॥ जय० ॥ ३ ॥ लोका-
लोक निहारण, दिव्य नत्र स्थानी । निज पर भेद दिखावन,
सूरज किरणानी ॥ जय० ॥ ४ ॥ श्रावक मुनिगण जननी,
तुमही गुणखानी । सेवक लख सुखदायक, पावन परमाणी
जय अम्बे वाणी माता जय अम्बे वाणी ॥



अनन्तव्रत पूजा

अखिल्ल छन्द ।

श्रीजिनराज चतुर्दश, जग जयकरजी,
कर्म नाश भवतार सु, शिवसुखधारत्री ।
संवौषट ठः ठः सु, षष्ट यह उच्चरू,
आह्वानन स्थापन, निज सन्निधि करू ।

ॐ ह्रीं श्रीवृषभाद्यनन्तनाथपर्यन्तचतुर्दशजिनेन्द्रा अत्र अव-
तरत अवतरत, संवौषट । अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः । अत्र मम
सन्निहाता भवत भवत षष्ट् सन्निधापनम् ।

गीता छन्द ।

गंगादि तीरथका सुजल भर, कनकमय भृङ्गार मैं,
चउदशजिनेश्वर चरणयुगपरि, धार डारौ सार मैं ।
श्री वृषभ आदि अनन्त जिन, पर्यन्त पूजो ध्यान के,
करि व्रत अनंत सुकर्म हनिके, लहो शिवसुख जाय के ।

ॐ ह्रीं श्रीवृषभाद्यनन्तनाथपर्यन्तचतुर्दशजिनेन्द्रेभ्यो जलम् ।
चन्दन अमर घनसार आदि, सुगन्ध द्रव्य घसाय के ।
सहजहिं सुगन्ध जिनेन्द्रके पद, चचे हो सुखदाय के ॥श्री०
ॐ ह्रीं श्रीवृषभाद्यनन्तनाथपर्यन्तचतुर्दशजिनेन्द्रेभ्यः चन्दनम् ।
तंदुल अखंडित अतिसुगन्ध, सुमिष्ट लेके कर धरौ ।
जिनराज तुम चरनन निकट, मविषाय पूजो शुभ धरौ ॥श्री०
ॐ ह्रीं श्रीवृषभाद्यनन्तनाथपर्यन्तचतुर्दशजिनेन्द्रेभ्यो अक्षतम् ।

चम्पा चमेली केतकी पुनि, मोगरा शुभ लायके ।
कवड़ा कमल गुलाब गैदा, जुही सुमाल बनाय के ॥श्री०

ॐ ह्रीं श्रीवृषभाद्यनन्तनाथपर्यन्तचतुर्दशजिनेन्द्रेभ्यः पुष्पम् ।

लाहू कलाकंद सेव घेवर, और माता चूर ले ।

गूजा सुपेड़ा क्षीर व्यंजन, धाल में भरपूर ले ॥ श्री०

ॐ ह्रीं श्रीवृषभाद्यनन्तनाथपर्यन्तचतुर्दशजिनेन्द्रेभ्यो नैवेद्यम् ।

ले रत्न जड़ित सुआरती, तामांही दीप संजोय के ।

जिनराज तुम पद आरतांकर, तिमिर मिथ्या स्वायके ॥ श्री०

ॐ ह्रीं श्रीवृषभाद्यनन्तनाथपर्यन्तचतुर्दशजिनेन्द्रेभ्य दीपम् ।

चन्दन अगर तगर सिलारम, कपूरकी करि धूप का ।

तागन्ध ते अलि हो चकित सा, खेऊ निकट जिन भूपका ॥श्री०

ॐ ह्रीं श्रीवृषभाद्यनन्तनाथपर्यन्तचतुर्दशजिनेन्द्रेभ्यो पुष्पम् ।

नारिंग केला दाख दाड़िम, बीजपूर मंगाय के ।

पुनि आम्र और बादाम खारक, कनक थार मराय के ॥श्री०

ॐ ह्रीं श्रीवृषभाद्यनन्तनाथपर्यन्तचतुर्दशजिनेन्द्रेभ्यो फलम् ।

जल सुचन्दन अरुत पुष्प, सुगन्ध बहुविध लाय के ।

नैवेद्य दीप सु धूप फल इन, को जु अर्घ बनाय के ॥श्री०

ॐ ह्रीं श्रीवृषभाद्यनन्तनाथपर्यन्तचतुर्दशजिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यम् ।

जयमाला, पद्धरी छन्द ।

जय वृषभनाथ वृषको प्रकाश, भविजनको तारे पाप नाश ।

जय अजितनाथ जीते सुकर्म,ले क्षमा खड्ग भेदे जु मर्म ॥
 जय संभव जग सुखके निधान,जग सुखकरता तुम दियो ज्ञान
 जय अभिनंदन पद धरो ध्यान,तासों प्रगटे शुभज्ञान भान ॥
 जय सुमति सुमति के देनहार,जासों उतरे भवउदधि पार ।
 जय पद्म पद्म पदकमल तोहि,भविजन अति सेवै मगनहोहि॥
 जय सुपाशर्व तुम नमत पांय,क्षय होत पाप बहु पुन्य थांय।
 जय चंद्रप्रभ शशकोटि भान,जगका मिथ्यातम हरो जान ॥
 जय पुष्पदंत जग मांहि सार,पुष्पकको मारयां अति सुमार ।
 करि धर्मभाव जग में प्रकास,हरपापतिमिर दियो मुक्तिवास॥
 जय शीतलजिन हरभव प्रवीन,हर पापताप जग दुखी कीन ।
 श्रेयांस कियो जग को कल्याण,दे धर्म दुखित तारे सुजान ॥
 जय वासुपूज्य जिन नमों तोहि,सुर नर मुनि पूजत गर्व खोहि
 जय विमलर गुण लीन मेय,भवि करे आप सम सगुण देय॥
 जय अनंतनाथ करि अनंतवीर्य,हरि धातकर्म धरि अनंत धीर्य
 उपजायो केवल ज्ञानभान,प्रभु लखे चराचर सब सुजान॥

दोहा ।

ये चौदह जिन जगत में, मंगलकरण प्रवीन ।

पापाहरन बहुसुख कान, सेवक सुखमय कीन ॥

ॐ ह्रीं श्रीवृषभाद्यनन्तनाथपर्यन्तचतुर्दशजिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यं ।



श्रोरविव्रत पूजा ।

अद्विज छन्द ।

यह भविजन हितकार, सु रविव्रत जिन कही ।

करहु भव्यजन सर्व, सुमन देके सही ॥

पूजो पार्श्व जिनेन्द्र, त्रियोग लगायके ।

मिटै सकल सन्ताप, मिलै निधि आयके ॥

मतिसागर इक सेठ, सुग्रन्थन में कही ।

उनहीं ने यह पूजा कर आनंद लही ॥

ताते रविव्रत सार सो भविजन कीजिये ।

सुख सम्पति सन्तान, अतुल निधि लीजिये ॥

प्रथमो पार्श्व जिनेश को, हाथ जोड़ सिर नय ।

परमव सुख के कारने, पूजा करू बनाय ॥

ऐतवार व्रत के दिना, येही पूजन ठान ।

ता फल सम्पति को लहै, निश्चय लीजे मान ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्र ! अत्र अवतर अवतर संवीषट् ।

अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् ।

उज्वल जल भरके अतिलायो, रतन कटोरन मांही ।

धार देत अति हर्ष बढ़ावत, जन्म जरा मिट जांहीं ॥

पारसनाथ जिनेश्वर पूजो, रविव्रत के दिन भाई ।

सुखसम्पति बहु होय तुरतही, आनंद मंगल दाई ॥

ॐ ह्रीं श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलम् ।

मलयागिरि केशर अतिसुन्दर, कुमकुम रङ्ग बनाई ।

धार देत जिन चरनन आगे, भव आताप नशाई ॥ पारस०

ॐ ह्रीं श्रीपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय भवातापविनाशनाय चन्दन
मोतीमम अतिउज्वल तन्दुल, लावो नीर पखारो ।

अक्षयपद के हेतु भाव सों, श्रीजिनवर ढिंग धारो ॥ पारस०

ॐ ह्रीं श्रीपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षयम् ।

बेला अरु मचकुन्द चमेली, पारिजात के ब्यावो ।

चुन चुन श्रीजिन अग्र चढ़ाऊँ, मनवांछित फल पावो ॥ पारस०

ॐ ह्रीं श्रीपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय कामवाणविभ्रसनाय पुष्पम् ।

बावर फैनी गोजा आदिक, घृत में लेत पकाई ।

कचन थार मनोहर भर के, चरनन देत चढ़ाई ॥ पारस०

ॐ ह्रीं श्रीपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यम् ।

मणिमय दोष रतनमय लेकर, जगमग जोति जगाई ।

जिनके आगे आर्गत करके, माहर्षिमिर नश जाई ॥ पारस०

ॐ ह्रीं श्रीपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपम् ।

चूरन कर मलयगिरि चन्दन, धूप दशांग बनाई ।

तट पात्रक में खेप भाव सों, कर्मनाश हो जाई ॥ पारस०

ॐ ह्रीं श्रीपार्ष्वनाथजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूपम् ।

श्रीफल आदि बदाम सुपारी, भांति भांति के लावो ।

श्राजिन चरन चढ़ाय हरषकर, तार्ते शिव फल पावो ॥ पारस०

ॐ ह्रीं श्रीपारश्वनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फलम् ।
जल गंधादिक अष्ट द्रव्य ले, अर्घ बनावो भाई ।
नाचत गावत हर्षभाव सों, कंचनथार भराई ॥पारस०
ॐ ह्रीं श्रीपारश्वनाथजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्यम् ।

गीतिकाञ्छन्द ।

मन वचन काय त्रिशुद्ध करके, पारश्वनाथ सु पूजिये ।
जल आदि अर्घ बनाय भविजन, भक्तिवन्त सु हूजिये ॥
पूज्य पारसनाथ जिनवर, सकल सुखदातार जी ।
जे करत हैं नर नारि पूजा, लहत सोख्य अपार जा ॥
ॐ ह्रीं श्रीपारश्वनाथजिनेन्द्राय पूर्णार्घ निर्वपामीति स्वाहा ।

अथ जयमाला, दोहा ।

यह जग में विख्यात हैं, पारसनाथ महान ।
तिन गुण की जयमालिका, भाषा करो बखान ॥
जय जय प्रणमों श्रीपारश्व देव,
इन्द्रादिक तिनकी करत सेव ।
जय जय सु बनारस जन्म लीन,
तिहुं लोक विषै उद्योत कीन ॥
जय जिनके पितु श्री विश्वसैन,
तिनके घर भये सुखचैन ऐन ।
जय वामादेवी माय जान,
तिनके उपजे पारस महान ॥

जय तीन लोक आनन्द देव,
 भविजन के दाता भये ऐन ।
 जय जिनने प्रभु का शरणा लीन,
 तिनको सहाय प्रभुजी सो कोन ॥

जय नाग नागिनी भये अधीन,
 प्रभु चरखन लाय रहे प्रवीन ।
 तजि के सो देह स्वर्गें सु जाय,
 धरणेन्द्र पदावति भये आय ॥

जय चोर अञ्जना अधम जान,
 चोरी तज प्रभु को धरो ध्यान ।
 जय मृत्यु भये स्वर्गें सु जाय,
 श्रद्धी अनेक उनने सो पाय ॥

जय मत्तिसागर इक सेठ जान,
 जिन रविव्रतपूजा करी ठान ।
 तिनके सुत थे परदेश माँहि,
 जिन अशुभकर्म काटे सुताहि ॥

जय रविव्रत पूजन करी सेठ,
 ता फल कर सब से भई भेंट ।
 जिन जिन ने प्रभु का शरणा लीन,
 तिन शिद्धि सिद्धि पाई नवीन ॥

जे रविव्रत पूजा करहिं जेय,
 ते सौख्य अनन्तानन्त लेय ।
 धरखेन्द्र पदावति हुये सहाय,
 प्रभुभक्त जान तत्काल आय ॥
 पूजा विधान इहिविधि स्वाथ,
 मन वचन काय तीनों लगाय ।
 जो भक्तिभाव जयमाल गाय,
 सोही सुखसम्पति अतुल पाय ॥
 बाजत मृदंग बीनादि सार,
 गावत नाचत नाना प्रकार ।
 तन नन नन नन नन ताल देत,
 सन नन नन नन सुर भर सो लेत,
 ता थेइ थेइ थेइ पग धरत जाय,
 छम छम छम छम घुंघरू बजाय ।
 जे करहिं निरत इहि मांत मांत,
 ते लहहिं सुख शिवपुर सुजात ॥
 रविव्रत पूजा पार्श्व की, करै भक्ति जन जोय ।
 सुख सम्पति इह भव लहै, तुरत सुखा पद होय ॥
 ॐ ह्रीं पार्श्वनाथजिनेन्द्राय पूजार्थं निर्बपामीति स्वाहा

सवित्रत पार्व्व जिनेन्द्र, पूज मवि मन करे ।
 मव मव को आताप, संकल छिन मे टरे ॥
 होय सुरेन्द्र नरेन्द्र, आदि पदवी लहे ।
 सुख सम्पति सन्तान, अटल लक्ष्मी रहे ॥
 फेर सर्व विधि पाय, भक्ति प्रभु अनुसरे ।
 नानाविध सुख भोग, बहुरि शिवतिय वरे ॥

इत्यादीर्वादिः,



श्री सिद्ध क्षेत्र पूजायें

श्री निर्वाण क्षेत्र पूजा

दोहा ।

बंदौं श्रीभगवान को, भावभगति सिर नाय ।
पूजा श्रीनिर्वाण की, सिद्धक्षेत्र सुखदाय ॥
द्वीप अटार्ह के विषै, सिद्धक्षेत्र जो जान ।
तिनिकां मैं वंदन करौं, भव भव होउ सहाय ॥

अडिल्ल ।

परम महा उत्कृष्ट मोक्ष मंगल सही,
आदि अनादि संसार भानि मुक्ती लही ।
तिनके चरन अरु क्षेत्र जजौं शिवदायही,
आह्वानन विधि ठानि वार त्रय गायही ॥

ॐ ह्रीं भरतक्षेत्र आर्यखड सम्बन्धी सिद्ध क्षेत्र, अत्रावतराव-
तर संवौषट आह्वानन । ॐ ह्रीं भरतक्षेत्र के आर्य खड संबधी
सिद्ध क्षेत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापन ।

ॐ ह्रीं भरत क्षेत्र के आर्य खण्ड सम्बन्धी सिद्ध क्षेत्र अत्र
मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरण ।

अष्टक ढाल पंचमेरु पूजाभाषाकी चालमें ।

शीतल उज्जल निर्मलनीर, पूजौं सिद्धक्षेत्र गम्भीर ।
लहौं निर्वाण, पूजौं मन बच तन धरि ध्यान ॥

अब मैं शरणा गही तुम आन, भवदधिपार उत्तरन जान ।
लहों निर्वाण पूजों मन बच तन धरि ध्यान ॥

ॐ ह्रीं भरत क्षेत्र के आर्य खंड संबंधी सिद्ध क्षेत्रेभ्यो जन्म-
जरामृत्युविनाशनाय जलं निर्बपामीति स्वाहा ।

चंदन घिसौं कपूर मिलाय, भव आताप तुरत मिट जाय ।
लहों निर्वाण पूजो मन बच तन धरि ध्यान ॥ अबमै०

ॐ ह्रीं भरत क्षेत्र के आर्य खंड सम्बन्धी सिद्ध क्षेत्रेभ्यो
भवाताप विनाशनाय चंदनं निवपामीति स्वाहा ।

अमल अखंडित अक्षत धोप, पूजों सिद्ध क्षेत्र सुखहोय ।
लहो निर्वाण पूजो मन बच तन धरि ध्यान ॥ अब०

ॐ ह्रीं भरत क्षेत्र के आर्य खंड सम्बन्धी सिद्धक्षेत्रेभ्यो
अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं निवपामीति स्वाहा ।

पुष्प सुगंध मधुप भंकार, पूजों सिद्ध क्षेत्र मंभार ।
लहों निर्वाण पूजों मन बच तन धरि ध्यान ॥ अब०

ॐ ह्रीं भरत क्षेत्र के आर्य खण्ड सम्बन्धी सिद्ध क्षेत्रेभ्यः
कामवाणवध्वंसनाय पुष्पं निर्बपामीति स्वाहा ।

वर नैवेद्य मिष्ट अधिकाय, पूजों सिद्ध क्षेत्र समभाय ।
लहों निर्वाण पूजों मन बच तन धरि ध्यान ॥ अब०

ॐ ह्रीं भरत क्षेत्र के आर्य खण्ड सम्बन्धी सिद्धक्षेत्रेभ्यः
क्षुधावेदनीरोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्बपामीति स्वाहा ।

दीप रतनमय तेज प्रकाश, पूजों सिद्ध क्षेत्र समभास ।
लहों निर्वाण पूजों मन बच तन धरि ध्यान ॥ अब०

ॐ ह्रीं भरतक्षेत्रके आर्य खण्ड सम्बन्धी सिद्धक्षेत्रेभ्यो मोहां-
धकार विचारशनाय दीपं निवेपामीति स्वाहा ।

धूप सुगंध लहै दश अंग, पूजों सिद्ध क्षेत्र सरवंग ।
लहों निर्वाण, पूजों मन बच तन धरि ध्यान ॥ अब०

ॐ ह्रीं भरतक्षेत्र के आर्यखण्ड सम्बन्धी सिद्धक्षेत्रेभ्यो अष्टकर्म
वहनाथ धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

फल प्राप्तुक उत्तम अतिसार, सिद्ध क्षेत्र बांछित दातार ।
लहों निर्वाण पूजों मन बच तन धरि ध्यान ॥ अब०

ॐ ह्रीं भरतक्षेत्र के आर्य खण्ड सम्बन्धी सिद्धक्षेत्रेभ्यो
मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

अर्घ करों निज माफिक शक्ति, पूजों सिद्ध क्षेत्र करि मक्ति ।
लहों निर्वाण, पूजों मन बच तन धरि ध्यान ॥ अब०

ॐ ह्रीं भरतक्षेत्र के आर्य खण्ड सम्बन्धी सिद्धक्षेत्रेभ्यो
अनर्घपदप्राप्तये अर्घं महार्घं निवेपामीति स्वाहा ।

तीर्थ सिद्ध क्षेत्र के सबै, बांछा मेरी पूरो अर्घे,
लहों निर्वाण, पूजों मन बच तन धरि ध्यान ।
अब मैं सरन गही तुम आन, भवदधि पार उतारन जान ॥

ॐ ह्रीं भरतक्षेत्र के आर्य खण्ड सम्बन्धी सिद्ध क्षेत्रेभ्यो
अर्घं महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

प्रत्येक निर्वाणक्षेत्र के अर्घ ।

अडिल्ल

श्री आदीश्वरदेव भये निर्वाणजू ।

श्री कैलाश शिखर पर मानजू ॥

तिन के चरन जजों मै मन वच काय के ।

भवदधि उतरों पार शरन तुम आय के ॥

ॐ ह्रीं कैलाशपर्वत सेती श्री ऋषभदेव तीर्थकर दश हजार मुनि सहित मुक्ति पधारे और वहाँ तें और मुनि मुक्ति पधारे होहिं तिन को अर्घ महार्घ निर्वाणामीति स्वाहा ॥१॥

चंपापुर में मुक्ति भये जिनराजजी ।

वासुपूज्य महाराज करम क्षयकारजी ॥

तिनि के चरन जजों मै मन वच कायके ।

भवदधि उतरों पार शरन तुम आयके ॥

ॐ ह्रीं चंपापुर सेती श्री वासुपूज्य तीर्थकर हजार मुनि सहित मुक्ति पधारे और वहाँ तें और मुनि मुक्ति पधारे होहिं तिनको अर्घ महार्घ निर्वाणामीति स्वाहा ॥२॥

श्री गिरनार शिखर जग में बिजी ।

सिद्ध बधू के नाथ भये नेमिनाथजी ॥

तिन के चरन जजों मै मनवचकाय के ।

भवदधि उतरों पार शरन तुम आय के ॥

ॐ ह्रीं गिरन्तर शिखर सेती श्री नेमिनाथ तीर्थंकर पांच सौ छत्तीस मुनि सहित मुक्ति पधारे अर बहुत्तरि कोडि सात सौ मुनि और दू मुक्ति पधारे तिनको अर्घं महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥३॥

पावापुर सरवर के बीच महावीरजी ।

सिद्ध भये हानि कर्म करें सुर सेवजी ॥

तिन के चरन जजों मैं मनवचकाय के ।

भवदधि उतरो पार शरन तुम आय के ॥

ॐ ह्रीं पावापुर के पद्म सरोवर मध्य सेती श्री महावीर तीर्थंकर छत्तीस मुनि सहित मुक्ति पधारे और वहाँ ते और मुनि मुक्ति पधारे होहिं तिनको अर्घं महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥४॥

श्री सम्मद शिखर शिवपुर को द्वार है ।

बीस जिनेश्वर मुक्ति भये भवतार है ॥

तिन के चरन जजों मैं मनवचकाय के ।

भवदधि उतरो पार शरन तुम आय के ॥

ॐ ह्रीं सम्मद शिखर सेती श्री बीस तीर्थंकर मुक्ति पधारे अर उस शिखर तें और मुनि मुक्ति पधारे होहिं तिनको अर्घं महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥५॥

नंगानंग कुमर दोग्य राचकुमार जू ।

मुक्ति भये सोनागिर जग दितकार जू ॥

साढे पांच कोडि भये शिवराजजी ।

पूजों मन वच काय लहों सुखमारजी ।

ॐ ह्रीं सोनागिर पर्वत सेती नंगानंगकुमारादि साढे पांच कोडि मुनि मुक्ति पधारे तिनको अर्घं महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥ ६ ॥

राम हनु सुप्रीव नील महानील जी ।

गवगवाक्ष्य इत्यादि भये शिवतीरजी ॥

कोडि निन्यानवै मुक्ति तुंगी गिरि पाय कै ।

तिनि के चरन जजों मैं मन बच काय कै ।

ॐ ह्रीं तुंगीगिरि पर्वत सेती श्रीरामचन्द्र हनुमान सुप्रीव नील महानील गवगवाक्ष्य इत्यादि निन्यानवै कोडि मुनि मुक्ति पधारे तिनिको अर्घे' महार्घे' निर्वपामीति स्वाहा ॥७॥

वरदत्तादिवरंग मुनीन्द्र सुनामजी ।

सायरदत्त महान महा गुण धाम हैं ।

तारवरनयरते मुक्ति भये सुखदायजी ।

तीन कोडि अरु लाख पचाम सुगाय जी ॥

ॐ ह्रीं तारवरनयर सेती वरदत्तवरंग सायरत्तादि साढे तीन कोडि मुनि मुक्ति पधारे तिनिको अर्घे' महार्घे' निर्वपामीति स्वाहा ॥८॥

श्री गिरिनार शिखर जग में विख्यात है ।

कोटि बहत्तर अधिकै अरु सौ सात है ॥

संबू प्रदुमन अनिरुद्ध मुक्ति को पाय कै,

तिन के चरन जजों मैं मन बच काय कै ॥

ॐ ह्रीं श्री गिरिनार शिखर सेती शम्बुकुमार प्रद्युम्नकुमार अनिरुद्ध कुमारादि बहत्तर कोडि सात सौ मुनि मुक्ति पधारे तिनिको अर्घे' महार्घे' निर्वपामीति स्वाहा ॥९॥

रामचंद्र के सुत दोग जिन दिक्षा धरी,

लाडनरिंद आदि मुनि आठ कर्मन हरी ।

पावागिरि के शिखर ध्यान धरि के सही,

पाँच कोडि मुनि सहित परम पदवी लही ॥

ॐ ह्रीं पावागिरि शिखर सेती लाडनरिंद आदि पाच कोडि
मुनि मुक्ति पधारे तिनको अर्घं महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥१०॥

पांडव तीन बड़े राजा तुम जानियो ।

आठ कोडि मुनि चरमशरीरी मानियो ॥

श्री सेतुरंज शिखर मुक्ति वर पाय के ।

तिन के चरन जजों मैं मन वच काय के ॥

ॐ ह्रीं शत्रुञ्जय शिखर सेती पांडव तीन को आदि दे आठ
कोडि मुनि मुक्ति पधारे तिन को अर्घं महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥

श्री गजपंथ शिखर पर्वत सुखधाम है ।

मुक्ति गये बलभद्र सात अभिराम है ॥

आठ कोडि मुनि सहित नमों मन लाय के ।

तिन के चरन जजों मैं मन वच काय के ॥

ॐ ह्रीं गजपंथ शिखर सेती सात बलभद्र को आदि ले आठ
कोडि मुनि मुक्ति पधारे तिन को अर्घं महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥

रावण के सुत आदि पंच कोडि जानिये ।

ऊपर लाख पचास परम सुख मानिये ॥

रेवा नदी के तीर मुक्ति में जाय के ।

तिन के चरन जजों मैं मन वच काय के ॥

ॐ ह्रीं रेवा नदी के तीर सेती रावण के सुदृढ़ को आदि दे
साढ़े पांच कोडि मुनि मुक्ति पधारे तिनको अर्घं महार्घं निर्व-
पामिति स्वाहा ।

द्वै चक्री दश काम कुमार महाबली ।

रेवा नदी के पच्छिम कूट सिद्ध है भली ॥

साढे तीन कोडि मुनि शिव को पाय क,

निन के चरण जजौं मैं मन वच काय के ॥

ॐ ह्रीं रेवानदी के पश्चिम भाग तें सिद्ध कूट सेती द्वैचक्री
दश कामदेव कूं आदि दे साढ़े तीन कोडि मुनि मुक्ति पधारे तिन
को अर्घं महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

दक्षिण दिशि में चूल उतंग शिखर है जहां,

बडनयरी बडनयर तहां शोभित महा ।

इन्द्रजीत अरु कुंभकरण ब्रत धार के,

मुक्त गये वसु कर्म जीति सुख कारिके ॥

ॐ ह्रीं दक्षिण दिशा में चूलगिरि उतंग शिखर सेती इन्द्रजीत
कुम्भकरण मुनि मुक्ति पधारे तिनको अर्घं महार्घं निर्व०

अचला नदी के तीर व पावाशिखरजी,

समंतभद्र मुनि च्यार बड़ो है ऋद्धजी ।

तहां तें परम धाम के सुख को पाय के,

तिनके चरण जजौं मैं मन वच काय के ॥

ॐ ह्रीं अचलानदी के तीर पावागिरि शिखर सेती समंत-
भद्रादि च्यार मुनि मुक्ति पधारे तिनको अर्घं महार्घं निर्व० ।

फलहोडी बडगांव अनूप जहां वसे,
पच्छिम दिशि में द्राण महा पर्वत लसे ।
गुरुदत्तादि मुनीश्वर शिव को पाय के,
तिनि के चरण जजों मैं मन वच काय के ॥

ॐ ह्रीं फलहोडी बडगांव की पच्छिम दिशा में द्रोणगिरि पर्वत सेती गुरुदत्तादि मुनि मुक्ति पधारे तिनको अर्घं महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

व्याल महाव्याल मुनीश्वर दोय हैं,
नागकुमार मिलाय तीन ऋषि होय हैं ।
श्री अष्टापद शिखर तें मुक्ति में जाय के,
तिनि के चरण जजों मैं मन वच काय के ॥

ॐ ह्रीं श्रीअष्टापद सेती व्याल महाव्याल नागकुमार तीन मुनि मुक्ति पधारे अर बहासे और जो जो मुनि मुक्ति पधारे होहिं तिनको अर्घ महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अचलापुर की दिशि ईशान महा वसे,
तहां मेढगिरि शिखर महा पर्वत लसे ।
तीन कोडि अरु लाख पचास महामुनी,
मुक्ति गये धरि ध्यान करम अरि तिन हनी ॥

ॐ ह्रीं अचलापुर की ईशान दिशि मेढगिरि पर्वत के शिखर सेती साढे तीन कोडि मुनि मुक्ति पधारे तिनको अर्घं महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

वंशस्थल वन पश्चिम कुंभ पहार है,
 कुलभूषण देशभूषण मुनि सुखकार है ।
 तहां तें शुक्ल ध्यान कार मुक्ति मे जाय के,
 तिनके चरण जजों मैं मन वच कायके ॥

ॐ ह्रीं वंशस्थल वन के पच्छिम दिशा मे कुन्थलगिरि शिखर
 सेती कुलभूषण देशभूषण मुनि मोक्ष पधारे तिनको अर्घं महार्घं
 निवपामीति स्वाहा ।

जसहर राजाके सुत पंच शत कहे,
 देश कलिंग मभार महा मुनि ते भये ।
 शुक्ल ध्यान तें मुक्ति रमनि सुख पायके,
 तिनके चरण जजों मैं मन वच कायके ॥

ॐ ह्रीं कलिंगदेश सेती जसहर राजा के पाच सौ पुत्र मुनि
 होय मुक्ति पधारे-तिनको अर्घं महार्घं निवपामीति स्वाहा ।

कोटि शिला एक दक्षिण दिशि में है सही,
 निहचै सिद्धक्षेत्र है श्री जिनवर कही ।
 कोटि मुनीश्वर मुक्ति भये सुख पायके,
 तिनके चरण जजों मैं मन वच कायके ॥

ॐ ह्रीं दक्षिण दिशिमें कोटि शिला सेती कोटि मुनि मुक्ति
 पधारे तिनको अर्घं महार्घं निवपामीति स्वाहा ।

समवशरथ श्रीपार्ष्व जिनेश्वर देवकों,
 करें सुरासुर सेव परम पद लेव को,

रिसिंदीगिर उत्तम धाम सु पायके,
वरदत्तादि पाँच मुनि मुक्ति सुजाय के ॥

ॐ ह्रीं श्री पार्वनाथ स्वामी के समचरारण रेसिन्दीगिर
शिखर सेती वरदत्तादि पाँच मुनि मुक्ति पधारे तिन को अर्घ'
महार्घ' निर्वपामीति स्वाहा ।

पोदनपुर को राज त्याग न जे भये,
बाहुबलि स्वामी तहां तें सिद्ध भये ।
तिन के चरण जजों मैं मन वच काय के,
भवदधि उतरों पार सरन तुम आय के ॥

ॐ ह्रीं पोदनपुर को राज त्यागि बाहुबलि मुनि मुक्ति पधारे
तिनि को अर्घ' महार्घ' निर्वपामीति स्वाहा ।

श्री तीर्थकर चतुरवीस भगवान हैं,
गम जन्म तप ज्ञान भये निरवान हैं ।
तिनि के चरण जजों मैं मन वच काय के,
भवदधि उतरों पार शरण तुम आय के ॥

ॐ ह्रीं वच कल्याणक धारक चतुर वीस तीर्थकर तिन को
अर्घ' महार्घ' निर्वपामीति स्वाहा ।

॥ तीन लोक में तीर्थ जे सुखदाय हैं,
तिनि प्रति बन्दों भाव सहित सिरनाथ हैं ।
तिनि की भक्ति करूं मैं मन वच काय के ।
भवदधि उतरों पार सरन तुम आय के ॥

ॐ ह्रीं तीनलोक में जे जे तीर्थ क्षेत्र हैं तिन को अर्घ'
महार्घ' निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला

पद्मरी छन्द ।

श्री आदीश्वर वंदों महान, कैलाश शिखर तें मोक्ष जान,
 चंपापुर तें श्री वासुपूज्य, तिन मुक्ति लही आत हर्ष हृज्य ।
 ऊर्जत नेमजी मुक्ति पाय, पावापुर तें श्री वीर राय,
 सम्मेद शिखर श्री मुक्तिद्वार, श्री वीस जिनेश्वर मोक्ष धार ॥

सोनागिर साढ़े पांच काडि, तुंगीगिरि राम हनु मुजोडि,
 निन्यानवे कोडि मुक्ति मभार, तिनिके हम चरण नमें त्रिकाल
 वरदत्तादि वरंग मुनीन्द्र चंद्र, तहां सायरदत्त महान बिंद,
 तारवरनयरतें मोक्ष पाय, तिन के चरननि हम सिर नमाय ॥

संबूप्रदमुनि अनिरुद्ध भाय, गिरिनारि शिखर तें मोक्ष पाय,
 बहचर कोडि सै सात जान, तिनको मैं मनवच करहो ध्यान
 श्रीरामचंद्र के दो सुत पूत, अरु पांचकोडि मुनि सहित हूत,
 लाडनरिद इत्यादि जानि, श्री पद्माधिर तें मोक्ष जान ॥

अष्ट काडि मनिराज जान, पांडव त्रय बडि रावण महान्द-
 श्री सेतुञ्जयतें मुक्ति पाय, तिनको मैं वंदों सिर नमाय-
 गजपंथ शिखर जम में विशाल, मुनि आठकोडि हूजे दयाल,
 बलिभद्र सात मुक्तीसुजाय, तिनिको हम मनवच शीसनाय ॥

रावण के सुत अरु पांच कोडि, पंचास लाख ऊपरि मुजोडि ।
 रेवा तट तें तिन मुक्ति लीन, करि शुक्ल ध्यान तें कर्म चीन,

हैं चक्रवर्ति दश कामदेव, आहूट काडि मुनिवर सुएव,
रेखा के पच्छिम कूट जानि, तिनि बरी मुक्ति वसुकर्म हानि ।
दक्षिण दिशमें गिरिचूल जानि, तहां इन्द्रजीत कुंभकरण मानि
ते मुक्ति गए वसु कर्म जीत, सो सिद्धक्षेत्र बंदौ विनीत ॥

पावागिर शिखर मंभार जानि, तहां समतभद्रमुनि च्यारि मानि
तिनि मुक्तिपुरी को गमन कीन, शिव मारग हमको सोधि दीन
फलहोडी बडगांव सु अनूप, पश्चिम दिसि दौनार रूप,
गुरुदत्तादिक शिवपद लहाय, तिनको हम बंदे सीस नाय ॥

व्याल महाव्याल मुनीश दोइ, श्रीनागकुमार मिलि तीन होइ,
श्री अष्टापद ते मुक्ति होइ, तिनि आठ कर्म मलको सुधोइ ।
अचलापुर की दिसि में ईशान, तहां मेढगिरि नामा प्रमान,
मुनि तीनकोडि ऊपरि सुजोय, पंचासलाख मिलि मुक्तिहाय,

वंशस्थलवन कुंधू पहार, कुलभूषण देशभूषण सुसार ॥
भारी उपमर्ग कर्यो वितीत, तिनि मुक्ति लई अर कमे जीत,
जसहरके सुत शत पंच सार, कलिंग देश ते मुक्ति धार ।
मुनि कोडि शिलातेँ मुक्ति लीन, तिनको बंदन मनबचन कीन
वरदत्तादि पांचो मुनीश, तिन मुक्ति लई बंदौ सईस ॥

श्री बाहुबलि बल अधिक जान, वसु कर्म नाश के मोच थान,
जहां पचकन्याख जिनेंद्रदेव, तिनकी हम जिति भांगे सुसेव ।
यह अरज गरीवन की दयाल, निर्वाण देउ हमको सुहाल,

ॐ ह्रीं भरतक्षेत्र के आर्यखण्ड सम्बन्धी सिद्धक्षेत्रेभ्यः पूर्णार्घं
निर्वपामीति स्वाहा ।

अडिल्ल

यह गुणमाल महान सुभविजन गाइयो,
स्वर्ग मुक्ति सुखदाय कंठ में लाइयो ।
यानें सब सुख होय सुजस को पाय के,
भवदधि उतरों पार सरन प्रभु आय के ॥

इत्याशीवादः ।

दोहा ।

नर भव उत्तम पायके, औसर मिलियो मोहि ।
चोरखो ध्यान लगाय के, सरन गही प्रभु तोहि ॥
बालक सम हम बुद्धि हैं, भक्ति थकी गुण गाय ।
भूल चूक तुम सोधियो, सनियो सज्जन भाय ॥
औगुन तुम मति दीजियो, गुण मह लीजो मीत ।
पूजा नित प्रति कीजियो, कर जीवन सों प्रीत ॥
संवत अष्टादश शतक, सत्तरि एक महान ।
भादों कृष्ण जु सप्तमी, पूरण भयो सुजान ॥

इति श्री निर्वाणक्षेत्र पूजा संपूर्णम् ।

श्रीसम्पेदशिखरपूजा विधान

दोहा

सिद्धक्षेत्र तीरथ परम, है उत्कृष्ट सुधान ।
शिखरसम्पेद सदा नमौ, हाय पापकी हानि ॥१॥
अगणित मुनि जहँ गये लोक शिखरके तीर ।
तिनके पदपंकज नमूं, नाशैं भवकी पीर ॥२॥

अडिल्ल

है उज्ज्वल वह क्षेत्र सुअति निरमल सही । परम
पुनीत सुठौर महा गुणकी मही । सकल सिद्धिदाताग महा
रमणीक है । बन्दौं निज सुखहेत अचल पद देत है ॥३॥

सोरठा

शिखरसमेद महान, जगमें तीर्थ प्रधान है ।
महिमा अद्भुत जान, अल्पमती भैं किमि कहों ॥

सुन्दरी छंद

सरस उन्नत क्षेत्र प्रधान है । अति सु उज्ज्वल तीर्थे
महान है ॥ करहिं भक्ति सु गुण गण गायकें । वरहिं सुर
शिवके सुख जायकें ॥

अडिल्ल

सुर हरि नर इन आदि और बंदन करे । भवसारगतैं
तिरें, नहीं भवमें परें । सफल होय तिन जन्म शिखरदर्शन
करें, जनम जनमके पाप सकल छिनमें टरें ॥

पद्धरी छन्द

श्री तीर्थंकर जिनवर जु वीस, अरु मुनि असंख्य
सचगुणन ईस । पहुंचे जहंतै कवन्यधाम, तिनको अब
मेरी है प्रणाम ॥ ७ ॥

गीतिका छंद

सम्मदेगढ़ है तीर्थ भारी सबहिकों उज्ज्वल करे ।
चिरकालके जे कर्म लागे दर्शतै छिनमें टरै ॥
है परम पावन पुण्यदायक अतुल महिमा जानिये ।
अरु है अनूप सुरूप गिरिवर तास पूजन ठानिये ॥ ८ ॥

दोहा

श्रीसम्मदे शिखर सदा, पूजौं मनवचकाय ।

हरत चतुर्गतिदुःखको, मनवांछित फलदाय ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्मदेशिखरसिद्धक्षेत्र ! अत्र अवतर अवतर । संवौषट्

ॐ ह्रीं श्रीसम्मदेशिखरसिद्धक्षेत्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीसम्मदेशिखरसिद्धक्षेत्र ! अत्र मम सन्निहितो भव भव । वषट्

अष्टक ।

अद्विल्ल

क्षीरोदधिसम नीर सुनिरमल लीजिये, कनक कलशमें
भरकैं धारा दीजिये । पूजौं शिखरसम्मदे सुमनवचकायजी,
नरकादिक दुख टरै अचलपद पायजी ॥

ॐ ह्रीं विंशतितीर्थंकराद्यसंख्यातमुनिसिद्धरत्नप्राप्तेभ्यो सम्मदे-
शिखरसिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्ब०

पयसों घसि मलपागिरिचंदन लाइये । केमरि आदि
कपूर सुगन्ध मिलाइये ॥ पूजों शिखरसम्मेद० ।

ॐ ह्रीं श्रीसम्मेदशिखरक्षेत्राय चन्दनं निर्व०

तंदुल धवल सुवासित उज्ज्वल धोयकै । हेमरतनके थार
भरों शुचि होयकें ॥ पूजों शिखरसम्मेद० ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्मेदशिखरक्षेत्राय अक्षतान निर्व०

सुगतरुके सम पुष्प अनूपम लीजिये । कामदाहदुखहरण-
चरण प्रभु दीजिये ॥ पूजों शिखरसम्मेद० ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्मेदशिखरक्षेत्राय पुष्पं निर्व०

कनकधार नैवेद्य म षटरसतं भरे । देखत लुधा पलाय
सुजनि आरौ घरे ॥ पूजों शिखरसम्मेद० ।

ॐ ह्रीं श्रीसम्मेदशिखरक्षेत्राय नैवेद्यं निर्व०

लेकर मणिमय दीप सुज्योति प्रकाश है । पूजत हांन
सुज्ञात मोहतम नाश है ॥ पूजों शिखरसम्मेद०

ॐ ह्रीं श्रीसम्मेदशिखरक्षेत्राय दीपं निर्व०

दशविधि धूप अनूप अगनिमें खेवहू । अष्टकर्म को
नाश होत सुख लेवहूँ ॥ पूजों शिखरसम्मेद० ।

ॐ ह्रीं श्रीसम्मेदशिखरक्षेत्राय धूपं निर्व०

सरस सुगंधित आम बदामादिक जिते, उत्तम फल ले
पूज करौं शिवफल हिते । पूजों शिखर सम्मेद० ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्मेदशिखरक्षेत्राय फलं निवपामीति स्वाहा ।

जल गंधाक्षतपुष्प मुनेवज लीजिये । दाप घूष फल
लेकर अर्घ सु दीजिये ॥ पूजौं शिखरसम्मदे०

ॐ ह्रीं श्रीसम्मदेशिखरक्षेत्राय अर्घ्यं निर्व०

पद्दरी छन्द

श्रीविंशति तीर्थंकर जिनेन्द्र, अरु असंख्यात जहते
मुनेन्द्र । तिनको करजोरि करौ प्रणाम, जिनको पूजौं
तजि मकल काम ॥ महार्घ ॥

अडिल्ल

जे नर परम सुभावनतैं पूजा करें, हरि हलि चक्री
होंय राज छह खंड करें । फेरि होंय धरखेंद्र इन्द्रपदवी धरें,
नानाविध सुखभोगि बहुरि शिवतिय वरें ॥

इत्याशीर्वादः (पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्)

छन्द जोगीरासा ।

श्रीसम्मदेशिखरगिरि उन्नत, शांभा अधिक प्रमानों ।
विंशति तिहिंपर कूट मनोहर, अद्भुत रचना जानो ॥
श्रीतीर्थंकर बीस तहातैं, शिवपुर पहुंचे जाई ।
तिनके पदपंकजजुग पूजौं, अर्घ प्रत्येक चढ़ाई ॥

पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् ।

नं० २४ अजितनाथ सिद्धवर कूट ।

प्रथम सिद्धिवरकूट सुजानो, आनंद मंगलदाई ।

अजितनाथ जहतैं शिव पहुंचे पूजौं मनवचकाई ॥

कोटि जु अस्सी एक अरब मुनि, चौवन लाख जु गई ।
कर्म काटि निर्वाण पधारे, तिनकों अर्घे चढ़ाई ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्रसिद्धवरकूटते, अजितनाथ
जिन अरु मुनि एक अर्ब अस्सीकोटि चौवनलाख सिद्धपदप्राप्तेभ्यः
सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्घे निर्वापामीति स्वाहा ।

नं० १४ संभवनाथ धवलकूट ।

धवलदत्त है कूट दूसरां, सब जियका सुखकारी ।
श्रीसंभवप्रभु मुक्ति पधारे पापतिमिर को टारी ॥
धवलदत्त दे आदि मुनी, नवकोडाकोडी जानो ।
लाख बहत्तरि सहस वियालिस, पंचशतक ऋषि मानो ॥
कर्मनाशकरि शिवपुर पहुँचे, बंदों शीश नवाई ।
तिनके पदयुग जजहुँ भावसो, हरषिर चितलाई ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्रधवलकूटतै सम्भवनाथजिने-
न्द्रादि मुनि नौकोडाकोडी बहत्तरलाखव्यालीसहजारपांचसौसिद्ध-
पदप्राप्तेभ्यः सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्घे निर्वापामीति स्वाहा ।

नं० १६ अभिनन्दननाथ आनन्दकूट ।

चौपाई ।

आनन्दकूट महासुखदाय, अभिनन्दन प्रभु शिवपुर जाय ।
कोडाकोडी बहत्तर जान, सत्तर काडि लाखछत्तिस मान ॥
सहस वियालिस शतक जु सात, कहे जिनागममं इह भांत ।
ए ऋषि कर्म काटि शिव गये, तिनके पदजुग पूजत भये ॥

ॐ ह्रीं सम्मेदशिखर सिद्धक्षेत्रे आनन्दकूट श्रीअभिनन्दनजि-
नेन्द्रादि मुनि बहत्तरकोड़ाकोड़ी सत्तरकोड़ाक्षतीसलाखध्यालीस-
हजारसातसौसिद्धपदप्राप्तेभ्या सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्घं निर्व० ।

न० १६ सुमतिनाथ अविचलकूट

आवचल चौथो कूट महासुख धामजी, जहाँतै सुमति-
जिनेश गये निर्वाणजी । कोडाकोडि एक मुनीश्वर जानिये,
काटि चुगमी लाख बहत्तरि मानिये ॥ सहस इक्यासी और
सातसौ गाइये, कर्म काटि शिवगये । तन्हें शिर नाइये ।
सा थानक मै पूंजूं मनवचकायजो, पाप दर हो जांय
अचलपद पायजी ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्राविचलकूटतै सुमतिनाथजि-
नेन्द्रादि मुनि एक कोड़ाकोड़ी चौरासीकोड़ा बहत्तरलाख इक्या-
सी हजार सातौ सिद्धपदप्राप्तेभ्यः सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्घं निर्व० ।

न० ८ पद्मप्रभ मोहनकूट अडिल्ल ।

मोहन कूट महान परम सुन्दर कक्षा, पद्मप्रभु जिन-
राज जहाँ शिवपुर लखो । कोटि निन्यानवे लाख सतासी
जानिये, सहस तियालिस और मुनीश्वर मानिये ॥ सप्त
सैंकरा सत्तर ऊपर बीस जू, मांछ गर मुनि तन्हें नमूं
नित शीशजू । कहै जवाहरलाल दायकर जोरिकै, अवि-
नाशी पद दे प्रभु कर्मन तारिकै ॥

ॐ ह्रीं सम्मेदशिखर सिद्धक्षेत्रमोहनकूटै पद्मप्रभुजिनेन्द्रादिमुनि
निन्यानवे कोडि सतासीलाख तितालिसहजार सातसौ नब्बे
सिद्धपदप्राप्तेभ्यः सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

• न० २२ सुपार्ष्वनाथ प्रभासकूट । सोरठा ।

कूट प्रभास महान, सुन्दर जगमन-मोहनो । श्रीसुपार्ष्वभगवान, मुक्ति गये अथ नाशिकें ॥ कोडाकोडी उनचास, कोडि चुरासी जानिये । लाख बहत्तर खास, सात सहस हैं सातसौ ॥ और कहे व्यालीम, जहंतै मुनि मुक्ती गए । तिनहिं नमैं नित शीश, दास जवाहर जोरकर ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्मोदशिखरसिद्धक्षेत्रप्रभासकूटश्रीसुपार्ष्वनाथजिनेन्द्रादि मुनि उनचास कोडीकोडी चौरासीकोडि बहत्तरलाख सातहजार सातसौ बियालिस सिद्धपदप्राप्तेभ्यः सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्घं नि० ।

न० ६ चंद्रप्रभ ललितकूट ।

दोहा

पावन परम उत्तम है, ललितकूट है नाम । चंद्रप्रभ शिवकों गये, बंदीं आठों जाम ॥ कोडाकोडी जानिये, चौरासी ऋषिमान । कोडि बहत्तर अरु कहे, अस्सीलाख प्रमान ॥ सहस चुरासी पंचशत, पचपन कहे मुनिद । बसुकरमनको नाशकर, पायो सुखको कंद ॥ ललितकूटतैं शिवगये, बंदीं शीश नवाय । जिनपद पूजों भावसों, निजहित अर्घ चढ़ाय ॥ ८ ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्मोदशिखरसिद्धक्षेत्रललितकूटतै चंद्रप्रभजिनेन्द्रादिमुनि चौरासीकोडाकोडी बहत्तरकोडि अस्सीलाख चौरासी - पांचसौ पचपन सिद्धपदप्राप्तेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

नं० ७ पुष्पदन्त सुप्रभकूट । पद्धरी छन्द ।

श्री सुप्रभकूट सु नाम जान, जहँ पुष्पदंतको मुकति-
थान । मुनि कोडाकोड़ी कहे जु भाख, नव ऊपर नवधर
कहे लाख ॥ शतचारि कहे अरु सहससात, ऋषिअप्सी
और कहे विख्यात ! मुनि मोक्ष गए हनि कर्म जाल ।
बंदौं कर जोरि नमाय भाल ॥ ६ ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्र सुप्रभकूटतै पुष्पदन्तजिनेन्द्रा-
दिमुनि एक कोडाकोड़ी नित्यानवेलाख सात हजार चारसौ अस्सी
सिद्धपदप्राप्तेभ्यः सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्घं ॥ ६ ॥

नं० १० शीतलनाथ विद्युतकूट । सुन्दरी छन्द ।

सुभग विद्युतकूट सु जानिये, परम अद्भुत तापर
मानिये । गये शिवपुर शीतलानाथजा, मनहुँ तिन इह कर-
धर माथजी ॥ मुनि जु कांडाकोडि अठारहू, मुनि जु कांडि
वियालिस जानहू । कहे और जु लाखबत्तीस जू, सहस-
व्यालिस कहे यतीश जू ॥ अवर नासौ पांच जु जानिये ।
गए मुनि शिवपुरको मानिये । करहिं जे पूजा मन लायकें,
धरहिं जन्म न भवमें आयकें ॥ १० ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्रविद्युतकूटतै श्रीशीतलनाथ-
जिनेन्द्रादि मुनि एक कोडाकोडि व्यालीसकोडि बत्तीसलाख व्या-
लीसहजार नौसौ पांच सिद्धपदप्राप्तेभ्यः सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्घं निर्बे०

नं० ६ श्रेयांसनाथ संकुलकूट । जोगीरासा ।

कूट जु संकुल परममनोहर, श्रीश्रेयांस जिनराई । कर्म-
नाशकर शिवपुर पहुँचे, बंदी मनबचकाई ॥ छ्यानव कांडा-
कांडो जानो, छ्यानवकोडि प्रमानो । लाख छ्यानवे सहस
मुनीश्वर, साढ़े नव अब जानो ॥ ता ऊपर ब्यालीम कहें हैं
श्रीमुनिके गुण गावैं । त्रिविधयोग करि जो कोइ पूजै,
सहजानंद तहं पावै ॥ सिद्ध नमो सुखदायक जगमें, आनं-
दमंगलदाई । जजो भावसों चरण जिनश्वर, हाथ जाड़
शिरनाई ॥ परम मनाहर थान सु पावन, देखत विघन
पलाई । तीन काल नित नमत जवाहर मेटो भवभटकाई ॥
जहंतें जे मुनि सिद्ध भये हैं, तिनको शरण गहाई जापद
को तुम प्राप्त भए हो, सां पद देहु मिलाई ॥ ११ ॥

ॐ ह्रीं सम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्रेसंकुलकूटतै श्रीश्रेयांसनाथजिन-
न्द्रादिमुनि छ्यानवेकोडाकोडी छ्यानवेकोडि छ्यानवलाख नव-
हजार पाचसौ वियालिस सिद्धिप्राप्तेभ्यः सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्घं नि०

नं० २३ विमलनाथ सुवीरकुलकूट । कुसुमलता छंद ।

श्रीसुवीरकुलकूट परम सुन्दर सुखदाई, विमलनाथ
भगवान जहां पंचमगति पाई । काडि सु सत्तर सातलाख
पट सहस जु गाई, सात शतक मुनि और वियालिस
जानो भाई ॥

दाहा

अष्टकर्मको नष्टकर, मुनि अष्टमच्छात पाय ।
तिन प्रति अर्घ चढ़ावहूँ, जनम मरण दुखजाय ॥
विमलदेव निरमल करण, सब जीवन सुखदाय ।
मार्तीसुत वंदत चरण, हाथ जोरि शिरनाय ॥१२॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्रस्वयभूकृतै विमलनाथजिने-
न्द्रादि मुनि सत्तरकोडि सातलाख छहहजारसातसौव्यालीससिद्ध
पदप्राप्तेभ्य सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्घं निर्बपामीति स्वाहा ॥ १० ॥

न० १२ अनतनाथ स्वयभूकट । अडिल्ल ।

कूट स्वयंभू नाम परम सुन्दर कक्षा । प्रभु अनत जिन-
नाथ जहां शिवपद लक्षा ॥ मुनि जु काडाकाड छ्यानवे
जानिय । सत्तर कोडि जु सत्तरलाख प्रमानिये ॥ सत्तर
सहस्र जु और मुनीश्वर गाइये । सात शतक ता ऊपर तिनको
ध्याइये ॥ कहै जवाहरलाल मुना मनलायकै । गिरिवरको
नित पूजा अति सुखपायकै ॥

सोरठा

पूजत विषन पलाय, अद्विसिद्धि आनंद करे ।
सुरशिवको सुखदाय, जो मनवच पूजा करे ॥१३॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्र स्वयभूकृतै अनतनाथजिने-
न्द्रादि मुनि छ्यानवेकोडाकोडि सत्तरकोडि सत्तरलाख सत्तरहजार
सातसौ सिद्धपदप्राप्तेभ्यो अर्घं निर्बपामीति स्वाहा ॥ १३ ॥

नं० १८ धमनाथ सुदत्तकूट । चौपाई ।

कूट सुदत्त महाशुभ जान, श्रीजिनधर्मनाथको थान ।
 मुनि कोडाकोडी उनीस, और कहे ऋषि कोडि उनीस ॥
 लाख जु नव नवसहस सुजान, सात शतक पंचावन मान ।
 मोक्ष गये वे कर्मनचूर, दिवसरु रयन नमों भरपूर ॥
 महिमा जाकी अतुल अनूप । ध्यावत वर इंद्रादिक भूप ॥
 शोभत महा अचलपदपाय । पूजों आनन्द मगलगाय ॥

दोहा

परमपुनीत पवित्र अति, पूजत शत सुरराय ।
 तिह थानरुकों देखकर, मातीसुत गुणगाय ॥
 पावन परम सुहावनो, सब जीवन सुखदाय ।
 सेवत सुरहरिनर सकल, मनवांचित पदपाय ॥ १४ ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्मंदशिखरसिद्धक्षेत्रसुदत्तकूटतै धर्मनाथजिनेन्द्रादि
 मुनि उनीस कोडाकोडी उनीसकोडि नौलाख नौहजार सातसौ
 पंचानवे सिद्धपदप्राप्तेभ्यो अर्घं ॥ १४ ॥

नं० २- शान्तिनाथ-शांतिप्रभकूट । सुगीतिका छन्द ।

श्रीशांतिप्रभ है कूट सुन्दर, अति पवित्र सुजानिये ।
 श्रीशांतिनाथ जिनेन्द्र जहते, परम धाम प्रमानिये ॥
 नवजु कोडाकोडि मुनिवर, लाख नव अब जानिये ।
 नौ सहस नवसे मुनि निन्यानव, हृदयमें धर मानिये ॥

दोहा

कर्मनाश शिवको गए, तिन अर्घ प्रति चढ़ाय ।

त्रिविधयोग करि पूज हैं, मनवांछित फलपाय ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्भेदशिखरसिद्धक्षेत्रशांतिप्रभकूटतै शान्तनाथ-
जिनेन्द्रादिमुनि नौकोड़ाकोड़ी नौलाख नौहजार नौसै निन्यानव
सिद्धपदप्राप्तेभ्यो सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्घे निर्वपामीति स्वाहा ॥

नं० २ कुन्धुनाथ ज्ञानधरकूट । गीतिका छन्द ।

ज्ञानधर शुभकूट सुन्दर, परम मनमोहन मदी ।

जहंतै श्रीप्रभुकुन्धुस्वामी, गये शिवपुरकी मदी ।

कोड़ा सु कोड़ी छ्यानवे, मुनि कोड़िछ्यानव जानिये ।

अर लाखवत्तीस सहसछ्यानव, शतक सात प्रमानिये ॥

दोहा

और कहे व्यालीस मुनि, सुमिरो हिय मभार ।

तिनपद पूजा भावसो, करै ल भवदधिपार ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्भेदशिखरसिद्धक्षेत्रज्ञानधरकूटतै श्रीकुन्धुनाथ-
जिनेन्द्रादिमुनि छ्यानवे कोड़ाकोड़ी छ्यानवे कोड़ि बत्तीसलाख
छ्यानवे हजार सातसौ बियालीस सिद्धपदप्राप्तेभ्यो अर्घे निर्व० ।

नं० ४ अरनाथ नाटककूट । दोहा ।

कूट जु नाटक परमशुभ, शोभा अपगम्पार । जहंते
अरजिनराजजी, पहुंचे मुक्ति-मभार ॥ कोटिनिन्यानव जानि
मुनि, लखनिन्यानव और । कहे सहस निन्यानवै बंदौ कर
जग जोर ॥ अष्ट कर्मको नष्टकरि, मुनि अष्टमक्षिति पाय ।
ते गुरु भो हिरदै बसौ, भवदधि पार लगाय ॥

सोरठा

तारणतरण जिहाज, भवसमुद्रके बीचमें । पकरा मेरी
बांह, हूबतसे राखो मुझे ॥ अष्टकरम दुखदाय, ते तुमने चूर
सबै । केवलज्ञान उपाय, अविनाशी पद पाइयां ॥ मोतीसुत
गुणगाय, चरणन शीश नवायकै । मेटोभवभटकाय, मांगत
अब बरदान यां ॥ १७ ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्मेदशिखरसिद्धक्षेत्रनाटककूटतै अरनाथजिनेन्द्रा-
दिमुनि निन्यानवैकोडि निन्यानवै लाख निन्यानव हजार सिद्ध-
क्षेत्रेभ्यो अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

नं० ५ मल्लिनाथ सम्बलकट । मुन्दरी छन्द ।

कूट सम्बल परमपवित्र जू, गये शिवपूर मल्लिजिनेश
जू । मुनि जु छ्यानवकाडि प्रमानिये, पद जजत हिरदय
मुख आनिये ॥ मोतीदामछंद—प्रभो प्रभुनाम सदा सुख-
रूप, जजौं मनभैं धर भाव अनूप । टरे अघपातिक जाहिं
सुदूर, सदा जिनको सुख आनंदपूर ॥ डर ज्यों नाग गरुड-
को देखि, भजै गजजुत्थ जु सिंहहि पेख । तुमनाम प्रभू
दुख हरण सदा, सुखपूर अनूपम होय मुदा ॥ तुम देव सदा
अशरण शरणं, भट मोहबली प्रभुजी हरणं । तुम शरण
गही हम आय अबै, मुझ कर्मबली दिइ चूर सबै ॥१८॥

ॐ ह्रीं सम्मेदशिखर सिद्धक्षेत्रसम्बलकटतै श्रीमल्लिनाथजिने-
न्द्रादि छ्यानवैकोडि मुनिसिद्धपदप्राप्तेभ्यः सिद्धपदक्षेत्रेभ्यो अघ
निर्वपामीति स्वाहा ॥

नं० ६ मुनिसुव्रत निर्जरकूट । मदअवलिप्रकपोल छंद ।

मुनिसुव्रत जिननाथ सदा आनंदके दाई । सुन्दर निर्जरकूट जहांतै शिवपुर जाई ॥ निन्यानवकोड़ाकोड़ि कहे मुनि कोड़ि सत्याना । नवलख कोड़ि मुनिंद कहे नौसौ निन्याना ॥

सोरठा

कर्म नाशि ऋषिराज, पंचमगतिके सुख लहे ।

तारणतरणजिहाज, मो दुख दूर करो सकल ॥

भुजंगप्रयात

बली मोहकी फौज प्रभुजी भगाई, जग्या ज्ञानपंचम महा सुखदाई । समोशरण धरणेंद्रने तब बनायो, तयै देव सुरपति सर्व शीश नायो ॥ जयो जय जिनेन्द्र सुशब्द उचारी, भये आज सुदर्शन सबै सु क्खकारी । गए सर्व पातक प्रभू दूरहीतै, जबै दर्श कीने प्रभू दूरहीतै ॥ सुनी नाथ श्रवनों जु तेरी बड़ाई, गही शरण हमने तुम्हारी सुहाई । बली कर्म नाशै जबै मुक्ति पाई, तिन्हें हाथ जारै सदा शीश नाई ॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्भेदशिखरसिद्धक्षेत्रनिर्जरकूटतै मुनिसुव्रतनाथजिनेन्द्रादिमान निन्यानवकोड़ाकोड़ि सत्तानवे कोड़ि नौलाख नौसौ-निन्यानवे सिद्धपदपात्रेभ्यो सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्घं निर्व०

नं० ३ नमिनाथ मित्रधरकूट । जोगीरासा ।

कूट मित्रधन परम मनोहर, सुन्दर अति छविदाई ।
श्रीनमिनाथ जिनेश्वर जहंतै, अविनाशी पद पाई ॥

नौ सौ कोड़ाकांड़ि मुनीश्वर, एक अरब ऋषि जानो । लाख
पैंतालिस सात सहस अरु, नौसौ व्यालिस मानो ॥

दोहा

वसु कर्मनका नाश कर अविनाशी पद पाय ।,
पूजो चरणसरोजको, मनवांछित फलदाय ॥२०॥

ॐ ह्रीं श्रीसम्भेदशिखरसिद्धक्षेत्रमित्रधरकटतै नमिनाथजिनेन्द्रा-
दिमुनि नौसौकोड़ाकोड़ि एकअरब पैंतीसलाख सातहजार नौसौ
व्यालिस सिद्धपदप्राप्तेभ्यः सिद्धक्षेत्रेभ्यो अर्घं निर्व०

नं० २६ पार्श्वनाथ । मुवर्णभद्रकूट ।

दोहा

सुवर्णभद्र जु कटपै, श्रीप्रभुपारसनाथ ।
जहतै शिवपुरको गये, नमो जोरिजग हाथ ॥

त्रिभंगी छन्द

मुनि कोडिवियासी, लाख चुगसी, शिवपुरवासी सुख-
दाई । सहसहि पैंतालिस, सातसौ व्यालिस, तजिके आलस
गुणगाई ॥ भवदधितै तारण, पतितउतारण, सब दुखहारण
सुख कीजै । यह अरज हमारी, सुनि त्रिपुरारी, शिवपद भारी
मो दीजै ॥

छन्द

यह दर्शनकूट अनंत लहो, फलबोडशकोटि उपासकहों ।
जगमें यह तीर्थ कह्यो भारी, दर्शन करि पाप कटै सारी ॥

मोतीदामछंद

टरै गति बन्दन नव तिर्यंच, कबहुँ दुखको नहिं पावै रंच ।
यही शिवको जगमें है द्वार, अरे नर बन्दौ कहत 'जवार' ॥

दोहा

पारशप्रभुके नामते, विघन दूरि टरि जांय ॥

श्रद्धि सिद्धि निधि तासको, मिलिहैं निशिदिन आय ॥

ॐ ह्रीं सम्मेदशिखर सिद्धक्षेत्रसुवर्णकटतै श्रीपार्श्वनाथादि-
मुनि वियासी करोड़ चुरासीलाखपैतांसिहज्जरसावसौ वियालीस
सिद्धिपदप्राप्तेभ्यः सिद्धिक्षेत्रेभ्यो अर्घं ॥ २१ ॥

अडिल्ल

जे नर परम सभाववतै पूजा करै । हरि हलि चक्री
होंय राज्य षटसंढ करै ॥ फेरि होय धरखेंद्र इन्द्रपदवी धरै ।
नानाविधि सुख भांगि बहुरि शिवतिय वरै ॥

इत्याशीर्वादः (पुष्पांजलि क्षिपेत्)

श्रीपोदनपुरबाहुबली पूजा ।

(पंच दीपचंदजी परवार कृत)

अडिल्ल छंद

आदीश्वरके द्वितीय पुत्र बाहुबली,

कामदेव भये प्रथम श्रीबाहुबली ।

नये न मस्तक शुद्ध कियो बाहुबली,

चक्री अरु विधि जीत जजूं बाहुबली ॥

ॐ ह्रीं श्रीपोदनापुरोद्याने मोक्षपदप्राप्त श्रीबाहुबलिस्वामिन्
अत्र अवतर अवतर संबौषट् आब्धाननं । तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्था-
पनम् । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणं ।

अष्टक ।

पंचम उदधितनो जल लेकर, कंचन भारी मांदि भरूं ।
जन्म जरामृतु नाश करनको, बाहुबली पद धार करूं ॥

ॐ ह्रीं श्रीबाहुबलिस्वामिने जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ १ ॥

केशर संग घिसूं मलयगिरि, चन्दन अधिक सुगंध रचूं ।
भव आताप विनाशन कारन, श्रीबाहुबलि पद चरचूं ॥

ॐ ह्रीं श्रीमद्बाहुबलिस्वामिने संसारतापविनाशनाय चन्दनं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ २ ॥

उज्ज्वल मुक्ताफल सम तंदुल, धोकर कंचन थाल भरूं ।
अक्षयपदके हेतु विनयसे, बाहुबली टिग पुंज करूं ॥

ॐ ह्रीं श्रीमद्बाहुबलिस्वामिने अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं नि० ॥३॥

कमल केतुकी चंप चमेली, सुमन सुगंधित लाय धरूं ।
मदनवान निरवारन कारन, बाहुबली को भेंट करूं ॥

ॐ ह्रीं श्रीमद्बाहुबलिस्वामिने कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं
निर्वपामीति स्वाहा ॥ ४ ॥

नाना विध पकवान मनोहर, खाजे ताजे षट् रसमय ।

बुधारोग विध्वंस करनको, जजूं बाहुबलि चरन उभय ॥

ॐ ह्रीं श्रीमद्बाहुबलिस्वामिने बुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि० ।

सजो दीप घृत वा कपूरका, जासों दश दिक् तम भागे ।
नाशन अंतर तमको आरति, करूं बाहुबलि प्रभु आगे ॥

ॐ ह्रीं श्रीमद्बाहुबलिस्वामिने मोहान्धकारविध्वंसनाय दीप
अगर तगर कपूर धूप दश-अंगी अगनीमें खेऊं ।

दुष्ट अष्ट बिधि नष्ट करनको, श्रीबाहुबलि पद संऊं ॥

ॐ ह्रीं श्रीमद्बाहुबलिस्वामिने अष्टकर्मदहनाय धूप नि० ॥७॥
आम अनार जाम नरंगी, पुंगी स्वारक श्रीफलको ।
मोक्ष महाफल प्राप्त हेतु मैं, अर्पन करूं बाहुबलिको ॥

ॐ ह्रीं श्रीमद्बाहुबलिस्वामिने मोक्षफलप्राप्तये फल नि० ॥८॥
ऐसे मनहर अष्ट द्रव्य सब, हेम थाल भरके लाऊं ।
पद अनर्घके प्राप्ति हेतु मैं, श्रीबाहुबलीके गुण गाऊं ॥

ॐ ह्रीं श्री मद्बाहुबलिस्वामिने अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ॥९॥

दोहा ।

बाहुबली निज बाहु बल, हर शत्रु बलवान ।

जये नये नहिं सिद्ध भये पोदनपुर उद्यान ॥१॥

जयमाला ।

पद्वरी छंद

श्रीआदीश्वर के सुत सुजान, हैं प्रथम भरत चक्री महान ।

दूजे बाहुबलि बल अपार, पुनि एकऊनशत हैं कुमार ॥ २ ॥

सब ही हैं चर्म शरीर सोय, सब ही पहुंचे शिव कर्म खोय ।

तिनमें बाहुबलि द्वितिय पुत्र, रतिपति तिनको सुनिये चरित्र ॥३॥

जब ऋषभ ऋषीपद धरो सार, तब राज भाग कीने विचार ।
 अरु दिये यथाविधि नृपन दान, सब करे प्रजा पालन सुजान ॥१४॥

तिनमे श्रीबाहूबलि कुमार, पायो पोदनपुर राज्यसार ।
 अरु भरत अवधिपुर भये नरेश, सुख भोगे बहु विधि सम सुरेश ॥१५॥

जब उदय चक्रपद भयो आय, षट् खंड साधने गये राय ।
 अरु किये बहुत नृप निजाधीन, फिर लौटे राजधानी प्रवीन ॥१६॥

पर चक्र करो नहिं पुर प्रवेश, तब निमती भाष्यो सुन नरेश ।
 तुम भ्रात पोदनापुर नरेन्द्र, नही आज्ञा माने तुभु नृपन्द्र ॥१७॥

सुन भरत तबहिं पाती लिग्याय, पोदनपुर दूत दियो पठाय ।
 आ नमों भेटयुत विनय धार, या हो जावो रणको तयार ॥१८॥

वैश्वानर जिमि घृत परे आय, तिमि कोपो भुजबलि पत्र पाय ।
 फिर फाड़ पत्र कहे सुनहु दूत, हम और भरत द्वय ऋषभपुत्र ॥१९॥

हम भोगे पितुको दियो राज, भरतहिं शिर नावे कौन काज ।
 यदि भरत अधिक कर है गरूर, ता करिहो रणमे चूर चूर ॥२०॥

सुन भज्यो दूत गयो भरत पास, कह दीनों सब वृत्तान्त ग्याम ।
 तब सजी सैन्य लग्य उभय ओर, मत्री गण माचे इहय बहोर ॥२१॥

ये उभय बली अरु चरम देह, लड व्यथे सैन्यको क्षय करेह ।
 इमि सोच गये निज नृपन पास, विनती सुनिये प्रभु कहहिं दास ॥२२॥

तुम उभय बली अरु स्वयंबुद्ध, नहिं सैन्य मरे कीजे सु युद्ध ।
 तब नेत्र मल्ल जल तीन युद्ध, कीने द्वय भ्रात स्वयं प्रबुद्ध ॥२३॥

तीनोंमे हारे भरत राय, तब कोप चक्र दीनो चलाय ।
 सो चक्र करे नहिं गोत्र घात, चक्री इमि सब विधि ग्वाई माता ॥२४॥

यह देख चरित भुजबलि कुमार, उपनौ हिय दृढ़ बैराग्य सार ।
 अरु त्याग राज तृणवत असार, कर क्षमा महाव्रत धरे सार ॥२५॥

तप एकासन कीनो महान, पर उपजो नहिं केवल सुज्ञान ।
 इक शल्य लग रही चित्त लार, मैं खड़ो भरत पृथ्वी मझार ॥१६॥
 तव शल्य दूर की भरतराय, नहिं वसुधापति कोई जग बनाय ।
 यह आदि अंत बिन जग महान, बहुते भये हूँ है मुझ समान ॥१७॥
 इमि सुनत शल्य हनि घाति चार, उपजायो केवलज्ञान सार ।
 फिर पोदनपुरके वन मझार, पंचमगति लहि कर कर्म चार ।
 तिन प्रतिमा अतिशययुत अपार, है श्रवणवेलगोला मझार ।
 गोमटस्वामी तिहूँ कहत सोय, नहिं छाया ताकी पड़त कोय ॥१८॥
 अरु तुंग हाथ छव्वीस धार, निरधार खड़ी पर्वत मझार ।
 यात्री आवे बंदन अपार, दर्शन कर पातक करे चार ॥२०॥
 इत्यादि और अतिशय अपार, कथ 'दीपचन्द' नहिं लहे पार ।
 ॐ ह्रीं श्रीमद्वाहुर्बालस्वामिने पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

घत्ता

सब विधि सुखकारी, महिमा भारी, भुजबलि थारी अपरम्पार ।
 सून बिनय हमारी शिव सुखकारी, हे त्रिपुरारी अचल अपार ॥
 इत्याशीर्वादः

कैलाश गिरि पूजा

काव्य छन्द

श्री कैलाश पहाड़ जगत् परधान कहा है,
 आदिनाथ भगवान जहाँ शिव-वास लहा है ।
 नागकुमार महाब्याल व्याल आदिक मुनिराई,
 भये तिहि गिरिसों मोक्ष थापि पूजों शिरनाई ॥

दोहा

श्री कैलाश पहाड़सों, आदिनाथ जिनदेव ।

मुनी आदि जे शिव गये, थापि करौ पद सेव ॥

ॐ ह्रीं कैलाशपर्वत से श्रीआदिनाथ स्वामी और नागकुमारादि
मुनि मोक्ष-पद-प्राप्ता अत्र अवतरत अवतरत संवौषट् ।
तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः । अत्र मम सन्निहिता भवत भवत वषट् ।

पद्धरी छन्द ।

नद गंग सु निरमल नीर लाय, करि प्रासुक भरु
कुंभन भराय । जिन आदि मोक्ष कैलाश थान, मुन्यादि
पाद जजु जोरि पान ॥

ॐ ह्रीं कैलाशपर्वत से श्रीआदिनाथ भगवान और नागकुमारादि
मोक्षपदप्राप्तेभ्यो जलं निर्वपामीति स्वाहा

मलयागिर चंदन को घसाय, कुकुंमयुत भरु कुम्भन भराय ॥
जिन आदि मोक्ष कैलाश थान, मुन्यादि पाद जजु जोरि पान ॥

ॐ ह्रीं कैलाशपर्वत से श्रीआदिनाथ भगवान और नागकुमारादि
मोक्षपदप्राप्तेभ्यः चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा

फिनवा कमोद वर शालि लाय, खंड हीन घोय थारा भराय ।
जिन आदि मोक्ष कैलाश थान०

ॐ ह्रीं कैलाशपर्वतसे श्रीआदिनाथ भगवान और नागकुमारादि
मोक्षपदप्राप्तेभ्यो अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा

सुम बेल चमेली जुही लेय, पाटिल वारिज थारा भरेय ॥ जिन०

ॐ ह्रीं श्रीकैलाशपर्वतसे श्रीआदिनाथभगवान और नागकुमारादि मोक्षपदप्राप्तेभ्यः पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

मोदक घेवर खाजे बनाय, गोभ्रा सुहाल भरि थाल लाय ॥जि०

ॐ ह्रीं श्रीकैलाशपर्वतसे श्रीआदिनाथ भगवान और नागकुमारादि मोक्षपदप्राप्तेभ्यो नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

घृत करपुर मखिके दीप जाय, जिनसे प्रकाश तम क्षीण हाय ।
जिन आदि मोक्ष कैलाश थान०

ॐ ह्रीं श्री कैलाशपर्वत से श्री आदिनाथ भगवान और नागकुमारादि मोक्षपदप्राप्तेभ्यो दीपं निर्वपामीति स्वाहा

वर धूप दशांगी अग्नि धार, जसु धूम घटा छाये अपार । जि०

ॐ ह्रीं श्री कैलाश पर्वत से श्री आदिनाथ भगवान और नागकुमारादि मोक्षपदप्राप्तेभ्यो धूपं निर्वपामीति स्वाहा

फल चोच मोच नरियार जेय, दाडिम नारंग भरि थार लेय ।
जिन आदि मोक्ष कैलाश थान०

ॐ ह्रीं श्री कैलाशपर्वत से श्रीआदिनाथ भगवान और नागकुमारादि मोक्षपदप्राप्तेभ्यः फलं निर्वपामीति स्वाहा

जलआदिक आठौद्रव्य लेप, भरि स्वर्णधारअर्घहिकरेय । जिन०

ॐ ह्रीं श्रीकैलाशपर्वत अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

छन्द त्रिभंगी।

कैलाशपहारा, जग उजियारा, जिन शिव गाया ध्यान धरो ।

बसु द्रव्यन लाई, तिहि थल जाई, जिन गुण गाई पूज करो ॥२

पद्दरी छन्द

अयोध्यापुरि बहु शोभ मान, है आदिनाथ जिन जन्मथान ।
 भये भोगभूमिको अंत जान, प्रभु कर्मभूमि रचना करान ॥
 असि मसि कृषि बाणिज वृत्तिजान, पशु पालन बतालायो जनान
 करि राज जगतसों हूँ उदास, दे सुतहिं कियो जा वन निवास ॥
 तप धरते मनपर्यय लहाय, रिपु घाति नाश केवल लहाय ।
 हरि आज्ञा सों धनदेव आय, तिन समवशरण रचना कराय ॥
 तामध्य गंधकूटी बनाय, मणि सिंहासन तापर दिपाय ।
 ता ऊपर वारिज हेम मान, अंतरीक्ष विराजै देव जान ॥१॥
 प्रभु वाणि खिरै वृष वृष्टि होय, मुनि २ समभे सबजीव सोय ।
 निज वैभवयुत भरतेश आय, है पूजौ जिनपद शीश नाय ॥
 हरि आन जजत जिन चरण कीन, करिवे विहार हित विनय कीन
 प्रभु विहरे आरज देश जान, केलाश शैल दिय ध्यान आन ॥
 प्रभु कमे अघाती घात कीन, पंचम गति स्वामी प्राप्त कीन ।
 हरि आन चितारचि दाहदीन, धरि चार शीश सुर गमन कीन
 हाँ सों औरहु मुनि सुजान, इनि कमे लयो है मोक्षथान ।
 गिरि को वेदे स्वातिक सुजान, अरु मान सरोवर भील मान ॥
 तासों यात्रा है कठिन जान, नहिं सुलभ किछु दिश सों बखान ।
 है आठ सहस्र पैड़ी प्रमान, तासों अष्टापद नाम जान ॥१०॥
 सुत कन्हईलाल भगवानदास, कर जोरि नमै थल शिव निवास
 मांगत जिनवर मुनिवरदयाल, भव भ्रमण काटिद्यो शिव विटाल

घत्ता नंदा छन्द ।

आदीश्वर ध्यावै, भाव लगावै, पूज रचावै, चावन सों ।
सो होय निरोगी, बहु सुख भोगी, पुण्य उपावै भावन सों ।

ॐ ह्रीं श्री कैलाशपर्वत से श्री आदिनाथ भगवान और नाग-
कुमारादि मोक्षप्राप्तेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा

अङ्गिल छन्द ।

जे पूजै कैलास आदिजनराय को, पढ़ै पाठ बहुभांति
सु भाव लगाय को । ते धन धान्यहि पुत्र पौत्र सम्पति लहै,
नर सुर सुखको भांगि अन्त शिवपुर रहै ॥

इत्याशीर्वादः ।

श्री चंपापुरसिद्धक्षेत्र पूजा

दोहा

उत्सव किय पनवार जहं, सुरगनयुत हरि आय ।

जजौ सुथल वसुपूज्यसुत, चंपापुर हर्षाय ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीचंपापुरसिद्धक्षेत्र ! अत्रावतरावतर । संवोपट् ।

ॐ ह्रीं चम्पापुरसिद्धक्षेत्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ । ठः ठः ।

ॐ ह्रीं चंपापुरसिद्धक्षेत्र ! अत्र मम सन्निहितं भव भव वषट् ।

अष्टक । चाल नन्दीश्वरपूजनकी ।

सम अमिय विगतत्रस वारि, लो हिमकुंभ भरा ।

लख सुखद त्रिगदहरतार, दे प्रय धार धरा ॥

श्रीवासुपूज्य जिनराय, निर्वृतिथान प्रिया ।

चंपापुर थल सुखदाय, पूजों हषे हिया ॥

ॐ ह्रीं श्रीचम्पापुरसिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि०

कश्मीरी केशर सार, अति ही पवित खरी ।

शीतल चन्दनसंग सार, लै भव ताप हरी ॥ श्रीवासु० ॥

ॐ ह्रीं श्रीचम्पापुरसिद्धक्षेत्राय चन्दनं निर्वपामीति स्वाहा

मण्डिद्वयुतिसम खंडविहीन, तंदुल ले नीके ।

सौरभयुत नव वर बीन, शालि महा नीके ॥ श्रीवासु० ॥

ॐ ह्रीं श्रीचंपापुरसिद्धक्षेत्राय अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा

अलि लुभन सभन द्यग घ्राण, सुमन जु सरद्रु मके ।

लै वाहिम अर्जुनवान, सुमन दमन भुमके ॥ श्रीवासु० ॥

ॐ ह्रीं श्रीचंपापुरसिद्धक्षेत्राय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा

रस पुरित तुरित पकवान, पक्व यथोक्त घृती ।

क्षुधगदमदप्रदमन जान, लै विघ युक्तकृती ॥ श्रीवासु० ॥

ॐ ह्रीं श्रीचंपापुरसिद्धक्षेत्राय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा

तमभ्रप्रनाशक सूर, शिवमग परकाशी ।

लै गन्तद्वीप द्वयुतिपूर, अनुपम सुखराशी ॥ श्रीवासु० ॥

ॐ ह्रीं श्रीचंपापुरसिद्धक्षेत्राय वीपं निर्वपामीति स्वाहा

वर परिमल द्रव्य अनूप, सोष पवित्र करी ।

तस चूरण कर कर धूप, ले बिधिकुंज हरी ॥ श्रीवासु० ॥

ॐ ह्रीं श्रीचम्पापुरसिद्धक्षेत्राय धूपं निर्वपामीति स्वाहा

फल पक्व मधुररसवान, प्रासुक बहुविधिके ।
 लखि सुखद रसनदग घान, ले प्रद पदसिधके ॥श्रीवासु०
 ॐ ह्रीं श्रीचम्पापुरसिद्धक्षेत्राय फलं निर्वपामीति स्वाहा
 जल फल वसुद्रव्य मिलाय, लै मर हिमथारी ।
 वसुत्रंग धरापर न्याय, प्रमुदित चितधारी ॥श्रीवासु०॥
 ॐ ह्रीं श्रीचम्पापुरसिद्धक्षेत्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा

जयमाला ।

दोहा

भयं द्वादशम तीर्थपति, चंपापुर निर्वाण ।
 तिन गुणकी जयमाल कहु, कहीं श्रवण सुखदान ॥

पद्वरीछन्द ।

जय जय श्री चंपापुर सुधाम, जहं गजत नृप वसुपुज
 नाम । जय पौन पन्थसे धर्महीन, भवभ्रमन दुःखमय लख
 प्रवीन ॥१॥ उर कृष्णाधर सो तम विडार, उपजे किरणा-
 वलिधर अपार । श्री वासुपूज्य तिनके जु बाल, द्वादशम
 तीर्थकर्ता विशाल ॥२॥ भवरोग देहते विरत होय, वह बाल-
 माहि ही नाथ सोय । सिद्धन नमि महाव्रत धार लीन, तप
 द्वादशविधि उग्रोग्र कीन ॥ ३ ॥ तहें मांछ सप्तत्रय आयु
 येह, दश प्रकृति पूर्व ही छय करेह । श्रेणी जु क्षपक आरूढ़
 होय, गुण नवमभाग नवमाहिं सोय ॥४॥ सोलहवसु इक इक

षट् इकेय, इक इक इक इम इन कुल संहय । पुन दशम
थान इक लोभ टार, द्वादशमथान सालह बिडार ॥५॥ हूँ
अनंत चतुष्टय युक्त स्वाम, पायां सब सुखद सयाग ठाम ।
तहं काल त्रिगोचर सर्व ज्ञेय, युगपतहि समय इकमहि
लखेय ॥६॥ कछु काल दुविध वृष अमिय वृष्टि, कर पोषे
भविभ्रुविधान्यमृष्टि । इक मास आयु अवशेष जान, जिन
योगनका सु प्रवृत्ति हान ॥ ७ ॥ ताही थल तृते शितध्यान
ध्याय, चतुदशम थान निवसे जिनाल । तहँ दुचरम समय-
मभार इश, प्रकृति जु वहत्तर तिनहि पीश ॥८॥ तेरह नर
चरम समयमभार, करके श्रीजगत्तेश्वर प्रहार । अष्टमि
अवनी इक समयमद्ध, निवसे पाकर निज अचल ऋद्ध ॥९॥
युत गुण वसु प्रमुख अमित गणेश, हूँ रहे सदा ही इमहि
वेश । तबहीतँ सो थानक पवित्र, त्रैलोक्यपूज्य गायो
विचित्र ॥१०॥ भँ तसु रज निज मस्तक लगाय, बन्दौ पुन
पुन भुवि शीश नाय । ताही पद बांछा उरमभार, धर अन्य
चाहबुद्धी विडार ॥ ११ ॥

दोहा

श्रीचंपापुर जो पुरुष, पूजै मन वच काय ।
बखि "दौल" सो पाय ही, सुखसम्पत्ति अधिकाय ॥

इत्याशीर्वादः ।

श्री गिरनारक्षेत्र पूजा ।

दोहा ।

वंदों नेमि जिनेश पद, नेमि-धर्म-दातार ।
 नेमधुरंधर परम गुरु, भविजन सुख कर्तार ॥१॥
 जिनवाणीको प्रणमिकर, गुरु गणधर उरधार ।
 सिद्धक्षेत्र पूजा रचो, सब जीवन हितकार ॥२॥
 उर्जयंत गिरिनाम तस, कब्यो जगत विख्यात ।
 गिरिनारी तासों कहत, देखत मन हर्षात ॥३॥

द्रुतविलंबित तथा सुन्दरी छंद ।

गिरि सु उन्नत सुभगाकार है, पञ्चकूट उत्तङ्ग सुधार है ।
 वन मनोहर शिला सुहावनी, लखत सुन्दर मनका भावना ॥
 अवर कूट अनेक बने तहां, सिद्ध धान सु अति सुन्दर जहां ।
 देखि भविजन मन हर्षाविते, सकल जन बंदनको आवते ॥

त्रिभंगी छंद ।

तहँ नेमकुमारा व्रत तप धारा, कर्म विदारा शिवपाई ।
 मुनि कोडिबहचर सातशतक धर, ता गिरिऊपर सुखदाई ॥
 हूँ शिवपुरवासी गुणके राशी, विधिधितिनाशी ऋद्धिधरा ।
 तिनके गुण गाऊँ पूज रचाऊँ, मन हर्षाऊँ सिद्धिकरा ॥

दोहा ।

ऐसे क्षेत्र महान तिहिं, पूजों मन वच काय ।
 स्थापन त्रय बार कर, तिष्ठ तिष्ठ इत आय ॥

ॐ ह्रीं श्रीगिरनारसिद्धक्षेत्र ! अत्र अवतर अवतर संबौषट् ।

ॐ ह्रीं श्रीगिरनारसिद्धक्षेत्र ! अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीगिरनारसिद्धक्षेत्र ! अत्र मम सन्निहितं भव भव षषट्

अष्टक कवित्त ।

लेकर नीर सुक्षारसमान महा सुखदान सुप्रासुक भाई,
दे त्रय धार जज्ञो चरणा हरना मम जन्म, जरा दुखदाई ।
नेमिपती तत्र राजमती भयो बालयती तहँतै शिवपाडे ।
कोडि बहत्तरि सातसौ सिद्ध मुनीश भये सु जज्ञो हर्षाई ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीगिरनारसिद्धक्षेत्राय जलं निर्वपामीति स्वाहा ।
चंदनगारि मिलाय सुगंध हु, ल्याय कटोरीमें धरना ।
मोहमहातममटनकाज सु चर्चतु हां तुम्हरे चरना ॥ नेमि०

ॐ ह्रीं श्रीगिरनारसिद्धक्षेत्राय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।
अक्षत उज्वल ल्याय धरो तहँ, पुंज करो मनकां हर्षाई ।
देहु अखयपद प्रभु करुणा कर, फेर न या भववासकराई ॥नेमि०

ॐ ह्रीं श्रीगिरनारसिद्धक्षेत्राय अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा ।
फूल गुलाब चमेली बेल कदंब सु चंपकबीन सुन्याई ।
प्रासुकपुष्प लवंग चढाय सु गाथ प्रभु गुणकाम नसाई ॥नेमि०

ॐ ह्रीं श्रीगिरनारसिद्धक्षेत्राय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।
नेवज नव्य करों भरथाल सुकंचन भाजनमें धर भाई ।
मिष्ट मनोहर क्षेपत हों यह रोग क्षुधा हरियो जिनराई ॥नेमि०

ॐ ह्रीं श्रीगिरनारसिद्धक्षेत्राय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

धूप दशांग सुगंधमई कर खेबहु अग्निमंभार सुहाई ।
शीघ्रहि अर्ज सुनो जिनजी मम कर्ममहावन देउ जराई ॥ने०

ॐ ह्रीं श्रीगिरनारिसिद्धक्षेत्राय धूप निबंपामीति स्वाहा ।

ले फल सार सुगंधमई रसनाहृद नेत्रनको सुखदाई ।
क्षेपत हों तुम्हरे चरणाप्रभु देहु हमें शिवकी ठकुराई ॥नेमि०

ॐ ह्रीं श्रीगिरनारिसिद्धक्षेत्राय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।

ले वसु द्रव्य सु अर्घं करों धर थाल सुमध्य महा हरषाई ।
पूजत हों तुमरे चरणा हरिये वसुकर्मबली दुखदाई ॥

ॐ ह्रीं श्रीगिरनारिसिद्धक्षेत्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

दाहा ।

पूजत हों वसुद्रव्य ले, सिद्धक्षेत्र सुखदाय ।

निजहितहेतु सुहावनो, पूरण अर्घ चदाय ॥

ॐ ह्रीं श्रीगिरनारिसिद्धक्षेत्राय पूर्णांघं निर्वपामीति स्वाहा ।

कार्तिकसुदिकी छठि जानो, गर्भागम तादिन मानो ।

उत इंद्र जजै उस थानी, इत पूजत हिम हरषानी ॥

ॐ ह्रीं कार्तिकशक्लाषष्ठायां गर्भमंगलप्राप्ताय नेमिनाथजिनेन्द्राय
अघ निवपामीति स्वाहा ।

श्रावणसुदि छठि सुखकारी, तब जन्ममहोत्सवधारी

सुरराज सुमेर न्हाई, हम पूजत इत सुखदाई ॥

ॐ ह्रीं श्रावणशक्लाषष्ठायां जन्ममंगलमङ्गिताय नेमिनाथजिनेन्द्राय
अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सित सावनकी छटि प्यारी, तादिन प्रभु दीक्षा धारी ।

तप धोर वीर तहँ करना, हम पूजत तिनके चरणा ॥

ॐ ह्रीं श्रावणशुक्लषष्ठीदिने दीक्षामंगलप्राप्त्या नेमिनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

एकम सुदि आश्विन मासा, तव केवलज्ञान प्रकाशा ।

हरि समवशरण तव कीना, हम पूजत इत सुख लीना ॥

ॐ ह्रीं आश्विनशुक्लाप्रतिपदि केवलज्ञानप्राप्त्या नेमिनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

सित अष्टमि मास अषाढ़ा, तव याग प्रभूने छांड़ा ।

जिन लई मोक्ष ठकुराई, इत पूजत चरणा भाई ॥

ॐ ह्रीं अषाढ़शुक्लषष्ठ्यां मोक्षमंगलप्राप्त्या नेमिनाथजिनेन्द्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

अडिल्ल ।

कोडिबहत्तरि सप्त सैकड़ा जानिये, मुनिवर मुक्ति गये तहँते

सुप्रमाणिये । पूजों तिनके चरण सु मनवचकाय के ।

वसुविध द्रव्य मिलाय सुगाय बजायकें ॥ पूर्णार्घ ॥

जयमाला ।

दोहा ।

मिद्वक्षेत्र गिरनारशुभ, सब जीवन सुखदाय ।

कहों तासु जयमालिका सुनतहि पाप नशाय ॥

पद्मरीङ्गद ।

जय सिद्धक्षेत्र तीरथ महान, गिरिनागि सुगिरि उन्नत बखान ।
 तहँ जूनागढ़ है नगर सार, सौराष्ट्रदेशके मधिविथार ॥
 तिस जनागढ़से चले सांड, समभूमि काम वर तीन हांड ।
 दरवाजेसे चल कांस आध, इक नदी बहत है जल अगाध ॥
 पर्वत उत्तरदक्षिण सु दोय, मधि बहत नदी उज्वल सु तोय ।
 ता नदीमध्य कइकुंड जान, दोनों तट मंदिर बने मान ॥
 तहँ वैरागी वैष्णव रहाय, भिन्नाकारण तीरथ कराय ।
 इक कांस तहां यह मच्यो ख्याल, आगेँ इक वरनदि बहत नाल ॥
 तहँ श्रावकजन करते मनान, धौं द्रव्य चलत आगेँ सुजान ।
 फिर मृगीकुंड इक नाम जान, तहँ वैरागिनके बने थान ॥
 वैष्णव तीरथ जहँ रच्यो सांड, वैष्णव पूजत आनंद हांड ।
 आगे चल डेढ़ सु कांस जाव, फिर छाट पर्वतका चढ़ाव ॥
 तहँ तीन कुंड सोहें महान, श्रीजिनके युगमंदिर बखान ।
 मंदिर दिगबरी दोय जान, श्वेतांबरके बहुते प्रमान ॥
 जहँ बनी धर्मशाला सु जोय, जलकुंड तहां निर्मल सु तोय ।
 तहँ श्वेतांबरगण दिशा जाय, ता कुंडमाहिं नितही नहाय ॥
 फिर आगेँ पर्वतपर चढ़ाव, चढ़ि प्रथम कूटको चले जाव ।
 तहँ दर्शन कर आगे सुजाय, तहँ दुतिय टोंकका दर्श पाय ॥
 तहँ नेमिनाथके चरण जान, फिर है उतार भारी महान ।
 तहँ चढ़कर पंचम टोंक जाय, अति कठिन चढ़ाव तहां लखाय

श्रीनेमिनाथका मुक्तिथान, देखत नयनों अति हर्षमान ।
 इक चिब चरनयुग तहां जान, भवि करत बंदना हर्ष ठान ॥
 कोउ करते जय जय भक्ति लाय, कोऊ धुति पढते तहं सुनाय
 तुम त्रिभुवनपति त्रैलोक्यपाल, मम दुःख दूर कीजे दयाल ॥
 तुम राजश्रद्धि भुगती न कोय, यह अथिररूप संसार जोय ।
 तज मातपिता घर कुटुम्ब द्वार, तज राजमतीपी सतीनार ॥
 द्वादशभावन भाई निदान, पशुबंदि छोड़ दे अभयदान ।
 सहसावनमें दीक्षा सुधार, तप करके कर्म किये सुधार ॥
 ताही वन केवल श्रद्धि पाय, इंद्रादिक पूजे चरण आय ।
 तहं समवशरण रचियों विशाल, मणिपन्थ वर्णकर अति रमाल ॥
 तहं वेदी कांट सभा अनूप, दरवाजे भूमि बनी सुरूप । वसु
 प्रातिहार्य छत्रादि मार, वर द्वादशि सुभा बनी अपार ॥
 करके विहार देशों मभार, भवि जीव करे भवसिंधु पार । पुन
 टोंक पंचमीको सुजाय, शिवनाथ लख्यो आनंद पाय ॥ सो
 पूजनीक यह थान जान, बंदत जन तिनके पाप हान । तहतें
 सु बहत्तर कोड़ि और, मुनि सप्तशतक सब कहे जोर ॥ उस
 पर्वतसों सब मोक्ष पाय, सब भूमि सु पूजन योग्य थाय ।
 तहं देश देशके भव्य आय, वंदन कर बहु आनंद पाय ॥
 पूजन कर कीने पाप नाश, बहु पुण्यबंध कीनो प्रकाश । यह
 ऐसो क्षेत्र महान जान, हम करी बंदना हर्ष ठान ॥ उनईस
 शतक उनतीस जान, संवत अष्टमि सित फाग मान ।

सब संघसहित बंदन कराय, पूजा कीनी आनंद पाय ॥ अब
दुःख दूर कीजै दयाल, कहै 'चंद' कृपा कीजै कृपाल । मैं
अल्पवद्वि जयमाल गाय, भवि जीव शुद्ध लीज्यो बनाय ॥

घत्ता ।

तुम दयाविशाला सब क्षितिपाला, तुम गुणमाला कंठ धरी
ते भव्य विशाला तज जगजाला, नवता भाला मुक्ति वरी ॥

ॐ ह्रीं श्रीगिरिनारसिद्धक्षेत्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीपावापुरसिद्धक्षेत्र पूजा ।

जिहिं पावापुर छिति अर्घति, हत सन्मति जगदीश ।

भये सिद्ध शुभधान सो, जजों नाय निज शीश ॥

ॐ ह्रीं श्रीपावापुरसिद्धक्षेत्र ! अत्र अवतर अवतर । संवौषट् ।

ॐ ह्रीं श्रीपावापुरसिद्धक्षेत्र ! अत्र निष्ट निष्ट । ठः ठः ।

ॐ ह्रीं श्रीपावापुरसिद्धक्षेत्र ! अत्र मम सर्वाहितं भव भव । वषट् ।

अष्टक ।

गीताछन्द ।

शुचि सलिल शीतौ कलिलगीतौ श्रमन चीतौ लै जिमो,

भर कनकभारी त्रिगदहारी दै त्रिधारी जित तृषां ।

वर पद्मवन भर पद्मसरवर बहिर पावाग्राम ही,

शिवधाम सन्मति स्वामि पायो, जजों सो सुखदा मही ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीपावापुरसिद्धक्षेत्राय वीरनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाथ जलं निर्वपामीति स्वाहा ।

भव भ्रमन भ्रमत अशर्म तपकी, तपन कर तपताइयो ।

तसु बलयकंदन मलय-चंदन, उदक संग घिस न्याइयां ॥ वर०

ॐ ह्रीं श्रीपावापुरसिद्धक्षेत्राय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा ।

तंदुल नवीने अखंड लीने, ले महोने ऊजरे ।

मणिकुन्द : 'दु तुषार धु ति-जित, कनरकावीमें धरे ॥ वर० ॥

ॐ ह्रीं श्रीपावापुरक्षेत्राय अक्षतान् निर्वपामीति स्वाहा ।

मकरदलोभन सुमन शामन सुगभि चोभन लेय जी ।

मद ममर हरवर अमर तरुके, घान-दग हरखेय जी ॥ वर० ॥

ॐ ह्रीं श्रीपावापुरसिद्धक्षेत्राय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

नैवेद्य पावन लुध मिटावन सेव्य भावन युत क्रिया ।

रस मिष्ट पूरित इष्ट सूरति लेयकर प्रभु हित हिया ॥ वर० ॥

ॐ ह्रीं श्रीपावापुरसिद्धक्षेत्राय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

तम अज्ञनाशक स्वपरभासक ज्ञेय परकाशक सही ।

हिमपात्रमें धर मौन्यविन वर द्यांतधर मणि दीपही ॥ वर० ॥

ॐ ह्रीं श्रीपावापुरसिद्धक्षेत्राय दीपं निर्वपामीति स्वाहा ।

आमोदकारी वस्तुसारी विध दुचारी-जागनी ।

तसु तूप कर कर धूप ले दश दिश-सुरभि-विस्तारनी ॥ वर० ॥

ॐ ह्रीं श्रीपावापुरक्षेत्राय धूपं निर्वपामीति स्वाहा ।

कल भक्त पक्क मुचक्य सोहन, सुक जनमन मोहने ।
 वर सुरस पूरित त्वरित मधुरत लेयकर अति सोहने ॥ वर० ॥
 ॐ ह्रीं श्रीपावापुरक्षेत्राय फलं निर्वपामीति स्वाहा ।
 जल गंध आदि मिलाय वसुविध धारस्वर्ण भरायकै ।
 मन प्रमृद भाव उपाय कर ले आय अर्घ बनायकै ॥ वर० ॥
 ॐ ह्रीं श्रीपावापुरसिद्धक्षेत्राय अर्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

दोहा ।

चरम तीर्थकरतार श्री वर्द्धमान जगपाल ।
 कलमलदलविधविकल हूँ, गाऊँ तिन जयमाल ॥
 पद्वरी छन्द ।

जय जय सुवीर जन मुक्तिथान, पावापुरवनसर शाभ-
 वान । जे सित अषाढ छट स्वर्गधाम, तज पुष्पोत्तर सुविमान
 ठाम ॥१॥ कुंडलपुर सिद्धारथ नृशेश, आये त्रिशला जननी
 उरेश । सित चैत्र त्रयोदशि युत त्रिज्ञान, जनमे तम भङ्ग-
 निवार भान ॥ २ ॥ पूर्वान्ह धवल चउदिश दिनेश, किय
 नहून कनकगिरि-शिर सुरेश । चय वर्ष तीस पद कुमारकाल,
 सुख दिव्य भोग भुगते विशाल ॥ ३ ॥ मारगासिर अलि
 दशमी पवित्र, चठ चंद्रप्रभा शिविका विचित्र । चलि पुरसों
 सिद्धन शीशनाय, धारयो संजम वर शर्मदाय ॥४॥ गतवर्ष
 दुदश कर तप-विधान, दिन शित वैशाख दशैं महान ।

रिजुकूला सरिता तट भव सोध, उपजायो जिनवर चरम बोध
 ॥५॥ तब ही हरि आज्ञा शिर चढाय, रचि समवसरण वर
 धनदराय । चउसंघ प्रभृति गौतम दिनेश, युत तास वरष
 विहरे जिनेश ॥६॥ भविजावदेशना विविध देत, आये वर
 पावानगर खेत । कातिक अलि अंतिम दिवस ईश, कर योग
 निरोध अघातिपीस ॥७॥ ह्ने पूर्ण अमल इक समयमाहिं,
 पंचम गति पाई श्रीजिनाह । तब सुरपति जिनरवि अस्तमान
 आये तुरंत चढि निज विमान ॥८॥ करि वपु अरचा थुति
 विविध भाँत, लै विविध द्रव्य परिमल विख्यात । तब ही
 अगनींद्र नवाय शीश, संस्कार देह की त्रिजगदीश ॥९॥ कर
 भस्म वंदना निज महीय, निवसे प्रभु गुन चितवन स्वहीय
 पुनि नरमुनि गनपति आयआय, वंदी सां रज शिर नायनाय
 ॥१०॥ तब हीसों सो दिन पूज्य मान, पूजत जिनगृह जन
 हर्ष मान । मै पुन पुन तिस भुवि शीशघार, वंदौ तिन गुण
 धर उर मभार ॥११॥ तिनही का अब भी तीर्थ एह, बरतत
 दायक अति शर्म गेह । अरु दुषमकाल अवसान ताहि,
 वर्तगो भवधितिहर मदाहि ॥१२॥

कुसुमलता छन्द ।

श्रीसन्मति जिन अंग्रिपन्न युगज्जै भव्य जो मन वचकाय,
 तम्हे जन्म जन्म संचित अघ जावहिं इक छिन माहिं फलाय ।

धनधान्यादिक शर्म इन्द्रपद लहे सां शर्म अतीन्द्री थाय,
अजर अमर अविनाशी शिवथल वर्यो दौल रहै शिर नाय ॥

ॐ ह्रीं श्रीपावापुरक्षेत्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा ।

श्रीखंडगिरिक्षेत्र पूजा

(मुनीम मुन्नालालजी कृत)

अंगबंग के पास है देश कलिंग विख्यात ।

तामें खंडगिरी बसत दशेन भये सुखान ॥ १ ॥

जसरथ राजा के सत अतिगुणवान जी ।

और मुनीश्वर पंच सैकड़ा जान जी ॥

अष्टकर्म कर नष्ट मांछगामी भये ।

तिनके पूजहुँ चरण सकल मम मल छये ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं श्रीकलिंगदेशमध्य खंडगिरीजी सिद्धक्षेत्र से सिद्धपद
प्राप्त दशरथ राजा के सुत तथा पंचशतक मुनि अत्र अवतरतं
अवतरत । अत्र तिष्ठत २ ठः ठः । अत्र मम सन्निहिता भवत, भवत
वषट् ।

अष्टक

अनि उत्तम शुचि जल न्याय, कंचन कलशभरा ।

करुं धार समनवचकाय, नाशत जन्म जरा ॥

श्री खंडगिरी के शीश जसरथ तनय कहे ।

मुनि पञ्चशतक शिवलीन देश कलिंग दहे ॥

ॐ ह्रीं श्री खंडगिरि क्षेत्र से दशरथराजा के सुत तथा पांचश-
तक मुनि सिद्धपदप्राप्तेभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि० ।

केशर मलयागिरि मार, घिसके सुगंध किया ।

संसार ताप निरवार, तुमपद वसत हिया ॥ २ ॥ श्री० ॥

ॐ ह्रीं श्रीखंडगिरिसिद्धक्षेत्राय संसारतापविनाशनाय चंदनं नि० ।

मुक्ताफल की उनमान, अक्षत शुद्ध लिया ।

मम सर्व दोष निरवार, निजगुण मोय दिया ॥ ३ ॥ श्री० ॥

ॐ ह्रीं श्री खंडगिरिसिद्धक्षेत्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं नि० ।

ले सुमन कल्पतरु थार, चुन २ ल्याय धरूं ।

तुम पदद्विग धरताह वाण काम समूल हरूं ॥ ४ ॥ श्री० ॥

ॐ ह्रीं श्रीखंडगिरिसिद्धक्षेत्राय कामवाणविध्वंसनाय पर्षपं नि०

लाडू घेवर शुचि ल्याय, प्रभुपद पूजनको ।

घारूं चरनन द्विग आय, मम लुध नाशनको ॥ ५ ॥ श्री० ॥

ॐ ह्रीं श्रीखंडगिरिसिद्धक्षेत्राय लुधारोगविनाशाय नैवेद्यं नि०

ले मणिमय दीपक धार दौय कर जाड़ धरो ।

मम माहांधेर निवार, ज्ञान प्रकाश करो ॥ ६ ॥ श्री० ॥

ॐ ह्रीं श्रीखंडगिरिसिद्धक्षेत्राय मोहांधकारविनाशाय दीपं नि० ।

ले दशविधि गंध कुटाय, अग्निमञ्जार धरूं ।

मम अष्ट करम जल जाय, यार्ते पांय परूं ॥ ७ ॥ श्री० ॥

ॐ ह्रीं श्रीखंडगिरिसिद्धक्षेत्राय अष्टकर्मविध्वंसनाय धूपं नि० ।

श्रीफल पिस्ता सुवदाम, आम नरंगि धरुं ।

ले प्रासुक हेमके थार, भवतर मोक्ष वरुं ॥ ८ ॥ श्री० ॥

ॐ ह्री श्रीखंडगिरिसिद्धक्षेत्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि० ।

जल फल वसु द्रव्य पुनीत, लेकर अर्घ करुं ।

नाचूं गाऊं इहभांत, भवतर मोक्ष वरुं ॥ ९ ॥ श्री० ॥

ॐ ह्री श्रीखंडगिरिसिद्धक्षेत्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ।

जयमाला ।

दोहा ।

देश कलिंगके मध्य है, खंडगिरी सुखधाम ।

उदयागिरि तसु पास है, गाऊं जय जय धाम ॥

पदकी छंद ।

श्री सिद्ध खंडगिरिक्षेत्र पात, अतिसरल चढाइ नाकी सुजात ।

अतिसघनवृक्ष फलरहे आय, तिनकी सुगंध दशादश जुछाय ॥

ताके सुमध्यमें गुफा आय, तब भुनि सुनाम ताको कहाय ।

तामें प्रतिमा दशयोग धार, पद्यासन हैं द्वार चंवरदार ॥

ता दक्षिण हैं सु गुफा महान, तामें चौबीसो भगवान जान ।

प्रतिप्रतिमा इन्द्र खडे दुष्मोर, करचंवर धरें प्रभुभक्ति जार ॥

आजूबाजू खडि देवि द्वार, पद्यावति चक्रं सरी सार ।

करि द्वादश भुजि हथियार धार, मानहुं निदक नहिं आवें द्वार ॥

ताके दक्षिण चलि गुफा आय, सतबखरा है ताको कहाय ।
 तामें चौबीसी बनी सार, अरु त्रय प्रतिमा सब योग धार ॥
 सबमें हरि चमर सुधरहि हाथ, नित आय भव्य नावहिं सुमाथ ।
 ताके ऊपर मंदिर विशाल, देखत भविजन होते निहाल ॥६॥
 ता दक्षिण टूटी गुफा आय, तिनमें ग्यारह प्रतिमा सुहाय ।
 पुनि पर्वतके ऊपर सु जाय, मंदिर दीर्घ बन रहा भाय ॥७॥
 तामें प्रतिमा मुनिराज मान, खडगासन योग धरें महान् ।
 ले अष्ट द्रव्य तसु पुजकीन, मन बचतन करि भव धोक दीन ॥
 मानो जन्म सकल अपनो सुभाय, दर्शन अनूप देखो है आय ।
 अब अष्टकर्म होंगे चूर-चूर, जातें सुख पाहें पूर पूर ॥८॥
 पूर उत्तर द्वय जिन सुधाम, प्रतिमा खडगासन अति तमाम ।
 पुनि चबूतगामें प्रतिमा बनीय, चारह भुजी है दर्शनीय ॥
 पुनि एक गुफामें विम्बसार, ताको पूजनकर फिर उतार ।
 पुनि और गुफा खाली अनेक, ते हैं मुनिजनके ध्यान हेत ॥
 पुनि चलकर उदयगिरी सुजाय, भारी भारी गुफा हैं लखाय ।
 एक गुफामें विम्ब विराजमान, पद्मासन धर प्रभु करत ध्यान ॥
 ताको पूजन मनवचनकाय, सो भवभवके दुख जावें पलाय ।
 निनमें एक हाथागुफ महान्, तामें इक लेख विशाल धाम ॥
 पुनि और गुफामें लेख जान, पढ़ते जिनमत मानत प्रधान ।
 न जसरथ नृपके पुत्र आय, संगमुनि पंचशतक ध्याय ॥

तप बारह विधिका यह करंत, बाईस परीषह वह सहंत ।
 पुनि समिति पंचयुत चलें सार, दोषा छ्यालिस टल कर आहार
 इस विध तप दुद्धर करत जाय, सो उपजे केवलज्ञान साय ।
 सब इन्द्र आय अति भक्तिधार, पूजा कीनी आनंद धार ॥
 पुनि धर्मोपदेश दे भव्यपार, नाना देशनमें कर विहार ।
 पुनि आय याही शिखर थान, सो ध्यान योग्य आघाति हान ।
 भये सिद्ध अनंत गुणन ईश, तिनके युगपदपर धरत शीष ।
 तिन सिद्धनका पुनि र प्रणाम, सो सुख लेय अविचल सुधाम ॥
 बंदत भवदुख जावे पलाय, सेवक अनुक्रम शिवपद लहाय ।
 ता क्षेत्रको पूजत मैं त्रिकाल, कर जोड़ नमत हैं मुन्नालाल ॥

वत्ता ।

श्री खंडगिरि क्षेत्रं, अतिमुख दत्तं तुरतहि भवदधि पार करे ।
 जो पूजे ध्यावे करम नशावे, बंझित पावे मुक्ति वरे ॥

ॐ ह्रीं श्रीखंडागिरिसिद्धक्षेत्राय जयमालार्घं नि० ।

बोहा ।

श्री खंडगिरी उदयागिरी, जो पूजे त्रिकाल ।
 पुत्र पौत्र संपति लहे, पावे शिवसुख हाल ॥

इत्याशीर्वादः ।

श्रीपावागिरि सिद्धक्षेत्र पूजा ।

पावागिरिवर सिद्धरे, सुवर्णभद्राद् मुखिवरा चउरो ।
 चेलणाखई तडगो, खिन्वाण गथा खमो तेसिं ॥१३॥

[निर्वाण-काण्ड ।]

स्थापना

चाल—जोगीरासा ।

वरनगरी के निकट सुसुन्दर पावागिरिवर जाना,
 ताके समीप स नदी चेलना, तट ताका परमाना ।
 सुवर्णभद्र आदि मुनि चारों तहँ त मोक्ष विराजे,
 हम थापन कर पूजे तिनको पाप ताप सब भाजे ॥१॥

ॐ ह्रीं श्रीसुवर्णभद्रादिचतुर्णाम् मुनीनां निर्वाणास्पदं चेलना-
 नदीतटे श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्र—अत्र अवतर अवतर संवोषट्
 आह्वाननं । तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनं । अत्र मम सन्निहितं भव २
 वषट् सन्निधिकरणं ।

हरिगीतिका छन्द ।

शुद्ध प्राशुक नीर निरमल लायकर भारी भरीं,
 तब चरणतल प्रथ धार देकर जन्ममृत्यु जरा हरीं ।
 श्री पावागिरिवर चेलनातट सिद्धक्षेत्र महान है,
 गये मोक्ष चारों सुवर्णभद्रादि मुनीनां प्रणाम है ॥१॥

ॐ ह्रीं सुवर्णभद्रादिचतुर्णाम् मुनीनां निर्वाणास्पदे चेलना-
 नदीतटे श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय जन्ममृत्युविनाशनाय जलं नि० ।

केशर कपूर मिलाय चन्दन घिम कटोरी लाय हूँ,
 इस भवताप नशायवे का नाथ चरण चढ़ाय हूँ ।
 श्रीपावागिरिवर चेलना तट सिद्धक्षेत्र महान है,
 गये मोक्ष चारों सुवर्णभद्रादि मुनी को प्रणाम है ॥२॥

ॐ ह्रीं सुवर्णभद्रादिचतुर्णाम् मुनीनां निर्वाणास्पदे चेलनानदी-
 नदीतटे श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय संसारतापविनाशनाय चंदनं नि०

उज्वल अखण्डित लेय अक्षत धोय थाली में भरां,
 देवों अक्षयपद हमें प्रभु जी चरण में अक्षत धरौं ।

श्री पावागिरिवर चेलना तट सिद्धक्षेत्र महान है,
 गये मोक्ष चारों सुवर्णभद्रादि मुनीको प्रणाम है ॥३॥

ॐ ह्रीं सुवर्णभद्रादिचतुर्णाम् मुनीनां निर्वाणास्पदे चेलनानदी-
 तटे श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निवे० ।

मकरन्द लोभन विविध पुष्प सुलाय थाली में धरौं,
 चरण में करकं समर्पित कामवाण सर्वे हरौं ।

श्रीपावागिरिवर चेलना तट सिद्धक्षेत्र महान है,
 गये मोक्ष चारों सुवर्णभद्रादि मुनी को प्रणाम है ॥४॥

ॐ ह्रीं सुवर्णभद्रादिचतुर्णाम् मुनीनां निर्वाणास्पदे चेलनानदी-
 तटे श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा ।

पकवान नाना भांतिके लेकर कनक थाली भरौं,
 दूध रोग नाशन कारणो नैवेद्य ले आगे धरौं ।

श्रीपावागिरिवर चेलना तट सिद्धक्षेत्र महान है,
गये मोक्ष चारों सुवर्णभद्रादि मुनी का प्रणाम है ॥५॥

ॐ ह्रीं सुवर्णभद्रादिचतुर्णाम् मुनीनां निर्वाणास्पदे चेलना-
नदीतटे श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय लुधारोगविनाशाय नैवेद्यं नि० ।

अज्ञानध्वान्त महान् अंधकार कारि राख्यो सब,
निज-पद सुभेद पिछान कारण दीप ले आयो अबै ।

श्रीपावागिरिवर चेलना तट सिद्धक्षेत्र महान है,
गये मोक्ष चारों सुवर्णभद्रादि मुनी को प्रणाम है ॥

ॐ ह्रीं सुवर्णभद्रादिचतुर्णाम् मुनीनां निर्वाणास्पदे चेलना-
नदीतटे श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं
निर्वपामीति स्वाहा ।

बसुकर्म दृष्ट महाबली ने सब जगत वश में किया,
हो धूमके मिस नाश कारण धूप प्रभु दिंग क्षेपिया ।

श्रीपावागिरिवर चेलना तट सिद्धक्षेत्र महान है,
गये मोक्ष चारों सुवर्णभद्रादि मुनी का प्रणाम है ॥

ॐ ह्रीं सुवर्णभद्रादिचतुर्णाम् मुनीनां निर्वाणास्पदे चेलना-
नदीतटे श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं नि० ।

लेय करके फल मनोहर पक्कयुक्त सुपावना,
इस फल का फल हो मोक्षफल ये ही हमारा भावना ।

श्रीपावागिरिवर चेलनातट सिद्धक्षेत्र महान है,
गये मोक्ष चारों सुवर्णभद्रादि मुनी को प्रणाम है ॥

ॐ ह्रीं सुवर्णभद्रादिचतुर्णाम् मुनीनां निर्वाणास्पदे चेलना-
नदीतटे श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि० ।

जल से लेकर फल तलक सब अष्टद्रव्यमिलायकर,
हम मांगते हैं अनर्घपद प्रभु अर्घ चरण चढ़ाय कर ।
श्री पावागिरिवर चेलना तट सिद्धक्षेत्र महान है,
गये मोक्ष चारों सुवर्णभद्रादि मुनी को प्रणाम है ॥

ॐ ह्रीं सुवर्णभद्रादिचतुर्णाम् मुनीनां निर्वाणास्पदे चेलनानदी-
तटे श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय अर्घ्यं निर्वाणामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

दोहा ।

पावागिरि सिद्धक्षेत्र है, पावन परम विशाल ।
अल्प बुद्धिमे कहत हों, तिनकी यह जयमाल ॥

पद्धरी छन्द ।

श्री मिक्षेत्र पर्वत सुजान, श्रीपावागिरि ताको सुनाम ।
तहां नदी चेलना बहे नीर, मरिता छोटी पर है गँगा ॥१॥
तहाँ सुवर्णभद्र मुनीश चार, कर कर्मखार गये शिवमँभार ।
तातें श्रीसिद्धक्षेत्र जान, बन्दौ पुनि-पुनि सो सुखदथान ॥३॥
ताके समीप है ऊन ग्राम, है छोटा पर सुन्दर सुजान ।
दक्षिणदिशिका भूमति बलाल, था रोग भयङ्कर कठिन हाल ॥
कछु कारणवश इस थान आय, तब रोगमुक्त नैरोग्य थाय ।
तब हर्षधार द्विय भक्ति लाय, निन्यानवे चैत्यालय बनाय ॥

शत चैत्यालय में एक न्यून, होने से नाम हुआ है ऊन ।
 गिरि पर है मन्दिर एक ढाल, कारीगिरीमें अद्भुत विशाल ॥
 तहाँ प्रतिमा तीन विराजमान, कायोत्सर्गो स्थित हैं महान् ।
 उनमें दो प्रतिमा पांच हाथ, है मध्य की प्रतिमा आठ हाथ ॥
 तीनों प्रतिमा सुन्दर ललाम, करजोड़ि करीं तिनका प्रणाम ।
 सम्बत् उन्नीसजु शतक और, ता ऊपर इक्ष्यानवे जोड़ ॥८॥
 है कृष्णपक्ष आषाढ़ मास, बुधवार तिथी अष्टमी स्वाम ।
 ताही दिन आया स्वप्न सांच, अरु प्रतिमा प्रगटी तहां पांच ॥
 तामें एक प्रतिमा है मनोज्ञ, श्री वीर प्रभु की दरशयांग्य ।
 अङ्कित सम्बत् वारासी जान, अरु ता ऊपर बावन प्रमाण ॥
 तिन प्रतिमाकी छवि कहि न जाय, देखतही सम्यक्प्रगट थाय
 दरशनही से कालुष हरन्त, मिथ्यात्व पाप सबदा दुरन्त ॥
 जुत विभव परम वर्जित सुसङ्ग, लखि नग्न अङ्ग लाजें अनङ्ग ।
 ऐसे पावागिर सिद्धथान, अरु अतिशय क्षेत्र जु है महान् ॥
 इसलिए पुनीत सु है अपार, दर्शन करि हो जग-जलधि-पार
 इमि जानि वंदना कर उदार, लूटो शुभ पुण्यतयां भंडार ॥
 तुम धारत हो करुखा अपार, हे देव ! सुनो मेरी पुकार ।
 मेरी करनी पर मत निहार, निज प्रणतपाल प्रणको विचार ॥
 विधिबंधयोग्य दुरभाव हानि, करि चायिक भव कृपानिधान ।
 यह मांगतहुं कर जोड़ि देव, भव भव पाऊँ तुव चरख सेव ॥

धत्ता-छन्द

षावागिरिच्छेत्रं अस्ति सुख देतं, तुरतहिं भवदधि पार करे ।
 'विष्णु' नित ध्यावे, कर्म नशावे, वाञ्छित पावे मुक्ति वरै ॥

ॐ ह्रीं सुवर्णभद्रादिचतुर्णां मुनीनां निर्वाणास्पदे चेलना-नदी-
 तटे, श्रीषावागिरिसिद्धक्षेत्राय अनर्घपदप्राप्तये पूर्णार्घं निर्वपामीति
 स्वाहा ।

अडिल्ल-छन्द

श्रीषावागिरिच्छेत्र की नित पूजा करौ,
 गुण को पावो भक्तिभाव हिरदे धरौ ।
 उम जगमें हो धर्म कृपासे सुख घना,
 'विष्णु' मनमें धरौ नित्य शुभ भावना ।
 इति आशीर्वादः

श्रीमोनागिरिं पूजा ।

(कवि आशारामजी कृत)

अडिल्ल छन्द ।

जम्बू द्वीप मङ्गल भरत क्षेत्र सु कहो,
 आर्यखंड सुजान भद्रदेशे लहो ।
 सुवर्णगिरि अभिराम सु पर्वत है तहां,
 पंच कोटि अरु अर्द्ध षण्ये मुनि शिव तहां ॥

दोहा ।

सोनागिरिके शीसपर, बहुत जिनालय जान ।

चन्द्रप्रभ जिन आदि दे, पूजो सब भगवान ॥

ॐ ह्रीं श्रीसोनागिरिसिद्धक्षेत्रसे साढ़े पांच करोड़ मुनि सिद्धपद
प्राप्ता अत्र अवतरत २ संवौषट् आब्धाननं । अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः
ठः स्थापनं अत्र मम सन्निहिता भवत भवत बषट् सन्निधिकरणं ।

अष्टक ।

सारंग छन्द ।

पद्मद्रवको नीर न्याय, गंगामे भरके,

कनक कटोरी मांहि, हेम धारनमें भरके ।

सोनागिरिके शीम, भूमि निर्वाण सुहाई,

पंच कोडि अरु अर्द्ध, मुक्ति पहुंचे मुनिराई ॥

चन्द्रप्रभ जिन आदि सकल जिनवर पद पूजो,

स्वर्गमुक्ति फल पाय, जाय अविचल पद हूबो ॥

दोहा ।

सोनागिरिके शीमपर, जेते सब जिनराज ।

तिन पद धारा तीन दे, तृषा हरनके काज ॥

ॐ ह्रीं श्रीसोनागिरिसिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाथ जलं

केशर आदि कपूर, मिले मलयागिरि चन्दन ।

परिमल अधिकी तास, और सब दाह निकंदन ॥सोना०

दोहा ।

मोनागिरिके शीसपर, जेते सब जिनराज ।

ते सुगंध कर पूजिये, दाह निकन्दन काज ॥

ॐ ह्रीं श्रीसोनागिरिसिद्धक्षेत्राय संसारतार्पविनाशनाय चन्दनं नि०
तंदुल धवल सुगन्धित न्याय, जल घोय पत्वारों ।

अक्षयपदके हेतु, पुंज द्वादश तहाँ धारों ॥ सोना०

दोहा ।

मोनागिरिके शीसपर, जेते सब जिनराज ।

तिनपद पूजा कीजिये, अक्षयपदके काज ॥

ॐ ह्रीं श्रीसोनागिरिसिद्धक्षेत्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं नि० ।

बेला और गुलाब मालती कमल मँगाये ।

पारिजातके पुष्प न्याय, जिन चरन चढ़ाये ॥सोना०

दोहा ।

मोनागिरिके शीसपर, जेत सब जिनराज ।

ते सब पूजों पुष्प ले, मदन विनाशन काज ॥

ॐ ह्रीं श्रीसोनागिरिसिद्धक्षेत्राय कामवासुविध्वसनाय पुष्पं नि०

व्यंजन जो जग माँहि, खाँड़ घृत माँहि पकाये,

मीठे तुरत बनाय, हेम थारी भर न्याये ॥सोना०

दोहा ।

सोनागिरिके शीसपर, जेते सब जिनराज ।

ते पूजों नैवेद्य ले, छुधा हरणके काज ॥

ॐ ह्रीं श्रीसोनागिरिसिद्धक्षेत्राय छुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि०

मण्डिमय दीपप्रजाल धरों पंकति भर यारी ।

जिनमंदिर तमहार, करहु दर्शन नर नारा ॥सा०

दोहा ।

सोनागिरिके शीमपर, जेते मब जिनराज ।

करों दीप ल आरती, ज्ञान प्रकाशन काज ॥

ॐ ह्रीं श्रीसोनागिरिसिद्धक्षेत्राय मोहान्धकारविध्वंसनाय दीप नि०

दश विध धूप अनूप, अग्नि भाजनमें डालो ।

जाकी धूम सुगंध रह, भर मर्च दिशा ला ॥सोना०

दोहा ।

मानागिरिके शीसपर, जेते सब जिनराज ।

धूप कुंभ आगे धरों, कर्म दहनके काज ॥

ॐ ह्रीं श्रीसोनागिरिसिद्धक्षेत्राय अष्टकमदहनाय धूप निव० ॥

उत्तम फल जग मांहि, बहुत मीठे अरु पाके ।

अमित अनार अवार, आदि अमृतरम छाके ॥ माना०

दाहा ।

सोनागिरिके शीमपर, जेते मब जिनराज ।

उत्तम फल तिनको मिलो, कर्म विनाशन काज ॥

ॐ ह्रीं श्रीसोनागिरिसिद्धक्षेत्राय मोक्षफलप्राप्तये फल नि० ॥

जल आदिक वसु द्रव्य, अर्घ करके धर नांचो ।

बाजे बहुत बजाय, पाठ पढ़के सुख सांचो ॥ सो० ॥

[६४५]

दोहा ।

सोनागिरिके शीसपर, जेते सब जिनराज ।

ते हम पूजें अर्घ ले मुक्ति रमनिके काज ॥

ॐ ह्रीं श्रीसोनागिरिसिद्धचेत्राय अनन्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ॥

अद्विल्ल छन्द ।

श्रीजिनवरकी भक्ति, सु जे नर करत हैं,

फलवांछा कुछ नाहिं, प्रेम उर धरत हैं ।

ज्यों जगमाँहि किमान, सु खेतोकाँ करे,

नाज काज जिय जान सु भुम आपहिं भरे ॥

गमे पूजा दान, भक्ति यश काँजिए,

सुख सम्पति गति मुक्ति, महज कर लीजियं ॥

ॐ ह्रीं श्रीमोनागिरिसिद्धचेत्राय पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ॥

जयमाला ।

दोहा ।

मानागिरिके शीसपर, जिनमन्दिर अभिराम ।

तिन गुणकाँ जयमालिका, बरत 'आशागम' ॥१॥

पद्धरी छन्द ।

गिरि नीचे जिनमन्दिर सु चार, ते यतिन रचे शोभा
अपार । तिनके अति दीरघ चौक जान, तिनमें यात्री मेलें
सु आन ॥२॥ गुमटी छज्जे शोभित अनूप, ध्वज पंकति सोहे
चिविध रूप । बसुप्रातिहार्य तहांधरे आन, सब मंगल द्रव्य-

निकी सु खान ॥३॥ दरवाजोंपर कलशा निहार, कर जोर सु
जय जय ध्वनि उचार । इक मन्दिरमें यतिराज मान,
आचार्य विजयकीर्ती सु जान ॥४॥ तिन शिष्य भगीरथ
विवुध नाम, जिनराज भक्ति नहि और काम । अब पर्वतको
चढ़ चलो जान, दरवाजो तहां इक शोभे महान ॥५॥ तिस
ऊपर जिन प्रतिमा निहार, तिन बंदि पूज आगे सुधार ।
तहां दृखित भुखितको देत दान, याचकजन तहां है अप्र-
मान ॥६॥ आगे जिनमन्दिर दुहु ओर, जिनगान होत
वादित्र शोर । माली बहु ठाड़े चौक पौर, ले हार कलंगा
तहां देत दौर ॥७॥ जिन-यात्री तिनके हाथ माहिं, बखशीम
रीझ तहां देते जाहि । दरवाजो तहां दूजो विशाल, तहां
क्षेत्रपाल दोऊ ओर लाल ॥८॥ दरवाजे भीतर चौक माहिं,
जिनभवन रचे प्राचीन आहि । तिनकी माहिमा वरणी न
जाय, दा कुंड सुजत कर अनि सुहाय ॥९॥ जिनमन्दिर-
की वेदी विशाल, दरवाजो तीजो बहु सुठाल । ता दरवाजे
पर द्वाग्पाल, ले मुकुट खड़े अरु हाथ माल ॥१०॥ जे
दुर्जनको नहिं जान देत, ते निदकको ना दरश देत । चल
चन्द्रप्रभूके चौक माहिं, दालाने तहां चौतर्फ आय ॥११॥
तहां मध्य सभामंडप निहार, तिसकी रचना नाजा प्रकार ।
तहां चन्द्रप्रभूके दरश पाय, फल जात लहो नर जन्म आय
॥१२॥ प्रतिमा विशाल तहां हाथ सात, कायोत्सर्ग मुद्रा

सुहात । बंदे पुजे तहां देय दान, जन नृत्य भजन कर मधुर
 जान ॥१३॥ ता थेई थेई थेई बाजत सितार, मृदंग बीन
 हुहचंग सार । तिनकी ध्वनि सुन भवि हान प्रेम, जयकार
 करत नाचत सुएम ॥१४॥ ते स्तुतिकर फिर नाय शीस,
 भवि चले मनोकर कर्म स्वीस । यह सोनागिरि रचना अपार,
 बरणन कर को कवि लहे पार ॥१५॥ अति तनक बुद्धि
 'आशा' सुपाय, बश भक्ति कही इतनी सु गाय । मै मन्द-
 बुद्धि किमि लहों पार, बुधिमान चूक लीजो सुधार ॥१६॥

ॐ ह्रीं श्रीसोनागिरिसिद्धक्षेत्राय महाघ निर्बपामीति स्वाहा ।
 दोहा ।

सोनागिरि जयमालिका, लघुमति कहा बनाय ।
 पदे सुने जे प्रीतसे, सो नर शिवपुर जाय ॥१७॥
 इत्यारीर्वादः ।

श्रीनयनागिरि (रेसन्दीगिरि) पूजा ।

(स्व० त्यामी दौलतरामजी वर्णी कृत)

दोहा

पावन परम सुहावनो, गिरि रेशिन्दि अनूप ।
 जजहुँ मोद उर धार अति, कर त्रिकरण शुचिरूप ॥

ॐ ह्रीं श्रीनयनागिरिसिद्धक्षेत्रसे वरदत्तादि पंच ऋषिराज
 सिद्धपद प्राप्त अत्र अवतर-अवतर संवौषट् आब्धाननं । अत्र
 तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनं । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्
 सन्निधिकरणं ।

अष्टक ।

(डार नदीश्वरपूजाकी)

अति निर्मल क्षीरधि वारि, भर हाटक भारी ।
जिन अग्र देय त्रय धार, करन त्रिरुग छारी ॥
पन वरदत्ताद मुनान्द्र, शिवथल सुखदाई ।
पूजों श्रीगिरिरेशिन्दि, प्रभुदित चित थाई ॥

ॐ ह्रीं श्रीगिरिरेशिन्दिस्त्रिदशक्षेत्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाथ
जल नि० ॥ १ ॥

शुभयागिरि चन्दन सार, केशर मंग घसो ।

शातल वामित सुखकार, जन्माताप कसी ॥ पन वरदत्ता०

ॐ ह्रीं श्रीगिरिरेशिन्दिस्त्रिदशक्षेत्राय ससारतापविनाशनाथ चन्दन
शुचि विमल नवल अति श्वेत, द्युति जित सामतनी ।

मो ले फद अक्षय हेत, अक्षत युक्त अनी ॥ पन वरदत्ता१०

ॐ ह्रीं श्रीगिरिरेशिन्दिस्त्रिदशक्षेत्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं नि० ।

शुभ सुमन त्रिदश-तरुक्षेय, स्वच्छ करण्ड भर ।

मदब्रह्म-तनुज हरनय, भेंट जिनाग्र धरो ॥ पन वरदत्ता२०

ॐ ह्रीं श्रीगिरिरेशिन्दिस्त्रिदशक्षेत्राय कामवाणविष्वसनाथ पुष्प नि० ।

लुध फणहि विहंगमनाथ नवज सद्यानी ।

कर विविध मधुर रम साथ, कवियुत अमलानी ॥ पन०

ॐ ह्रीं श्रीगिरिरेशिन्दिस्त्रिदशक्षेत्राय लुधारोगविनाशनाथ नैवेद्य-

मिथ्यातम मानिन भानु, स्वपर उजास कृती ।

ले मणिमय दीप सुभानि, विमल प्रकाश धृती ॥ पन०

ॐ ह्रीं श्रीगिरिरेशिन्दिसिद्धक्षेत्राय मोहाम्बुकारविध्वंसनाय दीप
कर्मेन्धन जारन काज, पाषक भाव मही ।

वर दश विधि घूपहि साज, स्वय उच्चाह गही ॥ पन०

ॐ ह्रीं श्रीगिरिरेशिन्दिसिद्धक्षेत्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं नि० ।

दृग घ्र.ण रसन मन प्रीय, प्रासुक रस भीने ।

लख दायक मोक्षपदीय, लै फल अमलीने ॥ पन० ॥

ॐ ह्रीं श्रीगिरिरेशिन्दिसिद्धक्षेत्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि० ।

शुचि अमृत आदि समग्र, सजि वसु द्रव्य प्रिया ।

धारों त्रिजगतपति अग्र, धर वर भक्त हिया ॥ पन० ॥

ॐ ह्रीं श्रीगिरिरेशिन्दिसिद्धक्षेत्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ।

जयमाला ।

दोहा ।

जग बाधक विधि बाधकर, हूँ अबाध शिव धाम ।

निवसे तिन गुण धर सुहृद, माऊँ वर जयदाम ॥१॥

पदरी छंद ।

जय जय जिन पार्श्व जगत्रि स्वाम । भवदधि तारण
तारी ललाम । हति घाति चतुक हूँ युक्त सन्त, दृगज्ञान
शर्म वीरज अनन्त ॥१॥ सो समवशरण कमलासमेत, विहरत
विहरत पुर ग्राम खेत । सुर नर मुनिगण सेवत कृपाल,

आये भवि हितु तिहिं अचल भाल ॥ २ ॥ अरु वरदत्तादि
 मुनीन्द्र पंच, चतुर्विधि इनि केवल ज्ञान संच । लख सर्व
 चराचर त्रिजग केय, त्रैकालिक युगपत पद अमेय ॥ ३ ॥
 निज आनन द्वेविध वृषस्वरूप, उपदेश भरख भवि भर्म कूप ।
 दृगज्ञान चरण सम्यक प्रकार, शिवपथ साधक कह त्रिजग
 तार ॥ ४ ॥ अरु सप्त तन्त्र षट् द्रव्य केव, पञ्चास्तिकाय
 नव पदन भेव । दृग कारण सो दरशाय ईश, तिहि भूधर
 शिर पुनि अघति पीश ॥ ५ ॥ पंचमगति निवसे तब सुरेश,
 आके ले सुरगण सँग अशेष । रेशिन्दि शिखर रज शीस
 ल्याय, किय पंचम कल्याणक उछाय ॥ ६ ॥ मै तिन पद
 पावन चाह ठान, बंदों पुनिपुनि सो सुखद थान । मन वच
 तन तिन गुण स्व उर धार, 'वर्षी दौलत' अनचाह हार ॥७॥

ॐ ह्री श्रीगिरिरेशिन्दिसिद्धक्षेत्राय महार्घ निवपामीति स्वाहा ।

दोहा

आनन्द कन्द मुनीन्द्र गुण, धर उरकोष मझार ।

पूजे प्यावे सो सुधी, हूँ लघु महि मब पार ॥ ५ ॥

इत्याशीर्वादः ।

श्रीद्रोणागिरि पूजा ।

(५० दरयाबजी चौधरी कृत)

बोहा ।

सिद्धक्षेत्र परवत कहो, द्रोणागिरि तसु नाम ।

गुरुदत्तादि मुनीश नमि, ब्रुकि गये इहि ठाम ॥ १ ॥

इहि थल जिन प्रतिमा भवन, बने अपरब घाम ।

तिन प्रति पुष्प चढ़ाइये, और सकल तज काम ॥२॥

ॐ ह्रीं श्रीद्रोणागिरिसिद्धक्षेत्रसे गुरुदत्तादिमुनिसिद्धपदप्राप्ता
अत्र अवतरत अवतरत संबौषट् आव्दाननं । अत्र तिष्ठत तिष्ठत
ठः ठः स्थापनं । अत्र मम सन्निहिता भवत भवत वषट्
सन्निधिकरणं ॥

अष्टक ।

सुन्दरी छन्द ।

सरस छीर सु नीर गहीर ले, जिन सुचरनन धारा दीजिए ।

नशत जन्मजरामृतु रोग हैं, मिटत भवदुख शिवसुख होत हैं

ॐ ह्रीं श्रीद्रोणागिरिसिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि०

अगर कुमकुम चन्दन गारिये, जिन चढ़ाय सो ताप निवारिये

जगत जन जे भव आताप ते, चर्चं जिनपद अघ इमि नाशते ॥

ॐ ह्रीं श्रीद्रोणागिरिसिद्धक्षेत्रायसंसारतापविनाशनाय चन्दनं नि०

देवजीरो उर सुख दासके, पावनी धन केशर आदिके ।

सरस अनियारे अनवीध ले, पुंज जिनपद आनन तीन दे ॥

ॐ ह्रीं श्रीद्रोणागिरिसिद्धक्षेत्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं नि० ।

सरस बेला और गुलाब ले, केवरा इन आदि सुवास ले ।

जिन चढ़ाय सुहर्ष सु पावते, मदन काम व्यथा सब नाशते

ॐ ह्रीं श्रीद्रोणागिरिसिद्धक्षेत्राय कामवाणविष्वसनाय पुष्पं नि० ।

पूरियां पेड़ादि सु आनिये, खांपरा खुरमादिक जानिये ।

सरस सुन्दर धार सु धारिये, जिन चढ़ाय छुधादि निवारिये ॥

ॐ ह्रीं श्रीद्रोणागिरिसिद्धक्षेत्राय छुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि० ।
रतन माणमय जोति उद्यांत है, मोह तम नशि ज्ञानहु होत है

करत जिन तट भविजन आरती, सकल जन्मन ज्ञान सु भासती

ॐ ह्रीं श्रीद्रोणागिरिसिद्धक्षेत्राय मोहान्धकारविनाशनाय दीपं नि०

कूट वसु विधि धूप अनूप है, महका रहि सुन्दर अग्नि है ।

खेइये जिन अग्र सु आयकें, ज्वलनमध्य सु कर्म नशायकें ॥

ॐ ह्रीं श्रीद्रोणागिरिसिद्धक्षेत्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं नि० ।

नारियल सु छुहारं न्याइये, जायफल बादाम मिलाइये ।

लायर्चा पुंगी फल ले सही, जजत शिवपुरकी पात्रं मही ॥

ॐ ह्रीं श्रीद्रोणागिरिसिद्धक्षेत्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि० ।

जल सु चन्दन अक्षत लीजिये, पुष्प धर नैवेद्य गनीजिये ।

दीप धूप सुफल बहुसाजहीं, जिन चढ़ाय सु पातक भाजहीं ॥

ॐ ह्रीं श्रीद्रोणागिरिसिद्धक्षेत्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ।

करत पूजा जे मन लायकें, हेत निज कल्याण सु पायकें ।

सरस मंगल नित नये होत हैं, जजत जिनपद ज्ञान उदोत है

ॐ ह्रीं श्रीद्रोणागिरिसिद्धक्षेत्राय परार्थे' निर्वपामीति स्वाहा ।

जयमाला ।

गेहा ।

ये ही भावन भायकें, करों आरती गाय ।

मिद्धक्षेत्र वर्णन करी, छंद पढ़री गाय ॥१॥

पढ़री छन्द ।

श्रीसिद्धक्षेत्र पर्वत सु जान, श्रीद्रोनागिर्गि ताको सु नाम ।
 तहें नदी चन्द्रभागा प्रमान, मगरादि मीन तामें सुजान ॥१॥
 ताको अति सुन्दर बहे नीर, मरिता सुजान भारी गँभीर ।
 यात्री सु देश देशनके आय, स्नान करत आनंद पाय ॥
 फलहोड़ी ग्राम कहा बखान, जिनमन्दिर तामें एक जान ।
 पूजा सु पाठ तहां होत निच, स्वाध्याय वाचनाम सुवच ॥
 अब गिरि उतंग जानो महान, ता ऊपर को लागे शिवान ।
 तरुवर उन्नत अति सघन पांत, फल फूल लगें नाना सु भांत
 तहें गुफा रही सुन्दर गहीर, मुनिराज ध्यान धारे तपीस ।
 गिरि शीस घीस जिन बने धाम, अब और होय तिनका प्रनाम
 तहें झालर घंटा बजे सोय, वादित्र बजे आनन्द हाय ।
 तहें प्रातिहार्य मंगल सु दर्ब, भामंडल चंद्रोपक सु सर्व ॥६॥
 जिनराज विराजत ठाम ठाम, बन्दत भविजन तज सकल काम
 पूजा सु पाठ तहें करे आय, ताथेई थेई थेई आनंद पाय ॥
 अब जन्म सुफल अपनो सु जान, श्रीजिनवर षट् पूजे सु आन
 मैं अर्भ्यो सदा या जग मभार, नहिं मिली शरन तुमरी अपार

सोरठा ।

सिद्धक्षेत्र सु महान, विघन हरन मंगल करन ।

वन्दत शिवसुख थान, पावत जे निश्चय मजे ॥६॥

ॐ ह्रीं श्रीद्रोणागिरिसिद्धक्षेत्राय पूर्णार्घं निर्बपामीति स्वाहा ।

गीतिका छन्द ।

जाके सुपुत्र पौत्रादि सम्पति, होय मंगल नित नये,

जो जजत भजत जिनेंद्रपद अब, तासु विघन सु नसि गए ।

मैं करों धुत निज हेत मंगल, देत फल वाञ्छित सही,

'दरयाव' है जिन दास तुमरो, आश हम पूरन भई ॥

इत्याशीर्वादः ।

श्रीशत्रुञ्जय पूजा ।

(श्रीयुत भगोतीलालजी कृत)

चौपाई ।

श्रीशत्रुञ्जयशिवर अनूप, पांडव तीन बड़े शुभ भूप ।

आठ कोडि मुनि मुक्ति प्रधान, तिनके चरण नमू धर प्यान ॥

तहाँ जिनेश्वर बहुत सरूप, शान्तिनाथ शुभ मूल अनूप ।

तिनके चरण नमू त्रिकाल, तिष्ठ तिष्ठ तुम दीनदयाल ॥

ॐ ह्रीं श्रीशत्रुञ्जय सिद्धक्षेत्रसे आठ कोडि मुनि और तीन

पांडव मोक्षपद प्राप्ता अत्र अवतरत अबतरत संबोधट् आह्वाननं ।

अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः स्थापनं । अत्र मम सन्निहिता भवत-

भवत वषट् । सन्निधिकर्ण ।

अष्टक ।

त्रोटक छन्द ।

क्षीरादधि नीरं उज्ज्वल सीरं, गंध गहीरं ले आया ।
 मै सन्मुख आया धार दिवाया, शीस नवाया खोल हिया ।
 पांडव शुभ तीनं सिद्ध लहीनं, आठ कोडि मुनि मुक्ति गये ।
 श्रीशत्रुञ्जय पूजो सन्मुख हूजो, शान्तिनाथ शुभ मूल नये ॥
 ॐ ह्री श्रीशत्रुञ्जयसिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि०

मलायागिरि लाऊं गंध मिल्लाऊं, केशर डारी रंग भरी ।
 जिन चरन चढ़ाऊ सन्मुख जाऊं, व्याधि नशाऊं तपत हरी ॥
 पांडव शुभ तीनं सिद्ध लहानं० ॥

ॐ ह्री श्रीशत्रुञ्जयसिद्धक्षेत्राय संसारतापविनाशनाय चंदनं नि० ।
 तन्दुल शुभ चोखे बहुत अनोखे, लखि निर्दोषे पुंज घरुं ।
 अक्षयपद दीजो सब सुख कीजो, निजरस पीजो चरण परुं ॥
 पांडवशुभ तीनं सिद्ध लहीनं० ॥

ॐ ह्री श्रीशत्रुञ्जयसिद्धक्षेत्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं नि० ।
 शुभ फूल सुवासी मधुर प्रकासी, आनंद रासी ले आयो ।
 मो काम नशाया शील बढाया, अमृत छाया सुख पायो ॥
 पांडवशुभतीनं सिद्ध लहीनं० ॥

ॐ ह्री श्रीशत्रुञ्जयसिद्धक्षेत्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं नि० ।
 नेवज शुभ लाया धार भराया, भंगल भाया भक्ति करी ।

मा लुधा नशाया सुख उपजाया, ताल लजाया मेव करी ॥
पांडवशुभ तीनं सिद्ध लहीनं० ॥

ॐ ह्रीं श्रीशत्रुं जयसिद्धक्षेत्राय लुधारोगाविनाशनाय नैवेशं नि० ।
दीपक ले आया जांति जगाया, तुम गुण गाया चरण परू ।
भं शरणे आया शीस नवाया, तिमिर नशाया नृत्य करू ॥
पांडवशुभ तीनं सिद्ध लहीनं० ॥

ॐ ह्रीं श्रीशत्रुं जयसिद्धक्षेत्राय मोहान्धकारविध्वंसनाय दीप नि० ।
दश गंध कुटाई धूप बनाई, अग्नि डार जिन अग्र धरौ ।
तुम कर्म जगाई शिव पहुँचाई, होय सुहाई कष्ट हरो । पांडव० ॥

ॐ ह्रीं श्रीशत्रुं जयसिद्धक्षेत्राय अष्टकमदहनाय धूप नि० ।
फल प्रासुक चाख बहुत अनोखे, लग निर्दोखे भेट धरू ।
मेवककी अरजी चितमें धरजी, कर अब मरजी मोक्ष वरू ।
पांडव शुभ तीनं सिद्ध लहीनं० ॥

ॐ ह्रीं श्रीशत्रुं जयसिद्धक्षेत्राय मोक्षफलप्राप्तये फल नि० ।
वम द्रव्य मिलाई, धार भराई, मन्मुख आई नजर करो ।
तुम शिवसुखदाई धर्म बढाई, हर दुखदाई अर्घ कर । पांडव० ॥

ॐ ह्रीं श्रीशत्रुं जयसिद्धक्षेत्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ नि० ।

दोहा ।

पूरण अर्घ बनाय कर, चरणनमें चित लाय ।

भक्तिभाव जिनराजकी, शिव रमणी दरशाय ॥

ॐ ह्रीं श्रीशत्रुं जयसिद्धक्षेत्राय पूर्यार्घं निर्त्रपामीति स्वाहा ॥१०॥

जयमाला ।

पढरी छन्द ।

जय नमन करूँ शिर नाय नाय, मोहूँ वर दोजे हे जिनाय । तुम भक्ति हियेमें रही छाव, सो उमम उमम अरु प्राति लाय ॥१॥ जय तुम मुख महिमा है अपार, नहि कवि पंडितजन लहे पार । जय तुच्छ बुद्धि मैं करत गगन, तुम भक्ति हियेमें रही आन ॥२॥ जय श्रोत्रं जय शिखर जाय, निर्वाणभूमि जानो जु सोय । जहां पांडव तीन जु मुक्ति होय, जय राय युधिष्ठिर भीम जोय ॥३॥ जय अरजुन जानो धनुष धीर, तामम नहि जाना कोइ वीर । जय आठ कोडि मुनि और सोय, तिन बरी नारि मुक्ती जु लोय ॥४॥ जय सही परोषह बीस दोय, जय यथारूपात चारित्र होय । जय कायर कपै सुनो जोय, वे ध्यानारूढ भये जु सोय ॥५॥ जय बारह भावन भाव सोय, तेरह विधि चारित धरा साय । जय कर्म करे चक्रचूर जोय, अरु सिद्ध भये संसार खोय ॥६॥ जय सेवक जनकी करहु सोय, जय दर्शन ज्ञान चरित्र होय । जय क्लो नही संसार माय, अरु छोडे दिनमें मुक्ति पाय ॥७॥ जय 'धर्मचन्द्रजी' मुनीम सोय, सो अल्प बुद्धि-सों मेल होय । वे धर्मीजन हैं बहुत जोय, सो कही उन्होंने मोहि सोय ॥८॥ तुम शत्रुं जय पूजा बनाय, तो बांचे भवि-जन प्रीति लाय । जय 'लाल भगोतीलाल' भोय, तिन

रची पाठ पूजन जु सोय ॥६॥ जय घाट बाढ़ कहु अर्थ
 होय, सोधो संभार जैसे जु सोय । जय भूलचूक जामे जु होय,
 सो पंडितजन शोधो जु लोय ॥१०॥ जय सम्बतसर गुनईस
 जोय, अरु ता ऊपर गुनचास होय । जय पौष सुदी द्वादश
 जु होय, अरु बार शुक्र जानो जु सोय ॥११॥ जय सेवक
 बिनवे जोर हाथ, मो मिले अखयपद वेग नाथ । जय चाह
 रहो नहीं और कोय, भवसिंधु उतारो पार मोय ॥१२॥

सोरठा ।

भक्तिभाव उर लाय, करके जिनगुण पाठको ।

मंगल आरति गाय, चरणन शीस नवायके ॥१३॥

श्री ह्री श्रीशत्रुञ्जयसिद्धचेत्रसे तीन पांडव और आठ कोटि
 मुनि मोक्षपदप्राप्तेभ्यो महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

गीता छंद ।

हरषाय गाय जिनेन्द्र पूजूं, कृत कारित अनुमादना ।

शुभ पुण्य प्रापति अर्थ तिनकी, करी बहु विधि थापना ॥

जिनराज धर्म समान जगमें, और नाहीं हित घना ।

ताते सु जानो भव्य तुम, नित पाठ पूजन भावना ॥१४॥

इत्याशीर्वादः ।

श्रीतारंगगिरि पूजा ।

[श्रीयुत पं० दीपचन्दजी परवार कृत]

वरदत्तादिक आठ कोटि मुनि जानिये,

मुक्ति गये तारंगगिरिमे मानिये ।

तिन सबका शिरनाय सु पूजा ठानिय,

भवदधि तारन जान सु विरद बखानिये ॥

ॐ ह्रीं श्रीतारंगगिरिसे वरदत्तादि साढ़े तीन कोटि मुनि
मोक्षपदप्राप्ता अत्र अवतरत अवतरत संवौषट् आह्वाननं । अत्र
तिष्ठत तिष्ठन् ठः ठः । अत्र मम सन्निहिता भवत भवत वषट् ।

अष्टक ।

शीतल प्रासुक जल लाय भाजनमें भरके,

जिन चरनन देत चढ़ाय रोग त्रिविध हरके ।

तारंगगिरि से जान वरदत्तादि मुनी,

सब ऊंठ कोटि परमान घ्याऊं मोक्षधनी ॥

ॐ ह्रीं श्रीतारंगगिरिसिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं

मलयगिरि चन्दन लाय केशर मॉहि घसे,

जिन चरण जजूं चितलाय भव आताप नसे । तारंगग०

ॐ ह्रीं श्रीतारंगगिरिसिद्धक्षेत्राय संसारतापविनाशनाय चंदनं ।

तंदुल अखंड भर धार उज्जल अति लीजे,

अक्षयपद कारखसार पुंज सु ढिग कीजे । तारंगग०

ॐ ह्रीं श्रीतारंगागिरिसिद्धक्षेत्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं नि० ।

चंपा गुलाब जुहि आदि फूल बहुत लीजे,

पूजो श्रीजिनवर पांव कामविथा छीजे । तारंगा०

ॐ ह्रीं श्रीतारंगागिरिसिद्धक्षेत्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं नि०

नाना पकवान बनाय सुवर्ण थाल भरे,

प्रभुको अरचो चितलाय रोग बुधादि टरे । तारंगा०

ॐ ह्रीं श्रीतारंगागिरिसिद्धक्षेत्राय बुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि०

दीप कपूर जगाय जगमग जोति लसे,

करूं अरति जिन चित लाय मिथ्या तिमिर नसे । तारंगा०

ॐ ह्रीं श्रीतारंगागिरिसिद्धक्षेत्राय मोहान्धकारविध्वंसनाय दीपं नि०

कृष्णामरु धूप सुवास खेऊं प्रभु आगे,

जल जाय कर्मकी राशि ध्यानकला जागे । तारंगा० ॥

ॐ ह्रीं श्रीतारंगागिरिसिद्धक्षेत्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं नि० ।

श्रीफल कदली बादाम पुं गीफल लीजे,

पूजो श्रीजिनवर धाम शिवफल पालीजे । तारंगा० ॥

ॐ ह्रीं श्रीतारंगागिरिसिद्धक्षेत्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि० ।

शुचि आठों द्रव्य मिलाय तिनको अर्घ करो,

मन बच तन देहु चदाय भवतर मोक्ष वरो ।

श्रीतारंगागिरिसे जान वरदत्तादि मुनी,

सब ऊंठ कोटि परमान व्याऊं मोक्षधनी ॥

ॐ ह्रीं श्रीतारंगागिरिसिद्धक्षेत्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ।

जयमाला ।

सोरठा ।

वरदत्तादि मुनीन्द्र, उंठ कोटि मुक्तिहि गये ।

वंदत सुर नर इन्द्र, मुक्ति रमनके कारखे ॥ १ ॥

पद्वरी छंद ।

गुजरात देशके मध्य जान, इक सोहे ईडर संस्थान ।

ताकी दिशि पच्छिममें बस्वान, गिरि तारंगा सोहे महान ॥१॥

तहेंते मुनि उंठ करोड़ सोय, हनि कर्म गये सब मोक्ष सोय ।

ता गिरपर मंदिर है विशाल, दर्शनते चित हावे खुशाल ॥२॥

नायक सुमूल संभव अनूप, देखत भवि ध्यावत नित्र स्वरूप ।

पुनि तीन टोंकपर दर्श जान, भविजन वंदत उर हर्ष ठान ॥

तहां कोटि शिला पहली प्रसिद्ध, दूजी तीजी है मोक्ष सिद्ध ।

तिनपर जिन बरख विराजमान, दर्शन फल इस सुनिये सुजान ॥

जो बंदे भविजन एक बार, मनवांछित फल पावे अपार ।

वसु विधि पूजे जां प्रीति लाय, दारिद तिनको क्षममें पलाय ।

सब रोग शोक नाशे तुरंत, जो ध्यावे प्रभुको पुण्यवंत ।

अरु पुत्र पौत्र सम्पत्ति सुहोय, भव भवके दुख डारे सुखोय ॥

इत्यादिक महिमा है अपार, वर्णन कर कबि को लहे पार ।

अब बहुत कहा कहिये बस्वान, कहें 'दीप' लहें ते मोक्षधान ॥

ॐ ह्रीं श्रीतारंगगिरिसे वरदत्तसागरदत्तादि सादेतीन कोटिमुनि

मोक्षपदप्राप्तभ्यः पूर्णार्थं निर्वपामीति स्वाहा ।

घत्ता ।

तारंगा बंदो मन आनन्दो, घ्याऊ मन वच शुद्ध करा ।
सब कर्म नशाऊं शिवफल पाऊं, ऊंठ कोटि मुनिराजवरा ॥
इत्याशीर्वादः ।

श्रीपावागढ़ पूजा ।

(श्रीयुत धर्मचन्दजी कृत)
दोहा ।

श्रीपावागिरि मुकति शुभ, पांच कोटि मुनिराय ।
लाड़ नरेन्द्रको आदि दे, शिवपुर पहुँचे जाय ॥ १ ॥
तिनको आह्वानन करो, मन वच काय लगाय ।
शुद्ध भाव कर पूजजो, शिव सन्मुख चितलाय ॥ २ ॥

ॐ ह्रीं श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्र से लाड़ नरेन्द्र आदि पाँच
करोड़ मुनि सिद्धपदप्राप्ता अत्र अवतरत अवतरत संबोधित
आह्वाननं । अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठ. ठः स्थापनं । अत्र मम सन्निहिता
भवत भवत सन्निधिकरणं ।

अष्टक ।

छंद त्रोटक ।

जल उज्ज्वल लीनो प्रासुक कीनो, धार सु दीनो हितकारी ।
जिन चरन चढ़ाऊं कर्म नशाऊं, शिवमुख पाऊं बलिहारी ॥
पावागिरि बन्दो मन आनन्दो, भव दुख कन्दो चितधारी ।
मुनि पांच जु कोटं भवदुख छाड़ं, शिवमुख जोडं मुखभारी ॥

ॐ ह्रीं श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाथ जलं नि०
चन्दन घसि लाऊं गंध मिलाऊं, सब सुख पाऊं हर्ष बढ़ो ।
भव बाधा टारो तपत निवारो, शिवसुख कारो मोद बढ़ो ॥पा०

ॐ ह्रीं श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय संसारतापविनाशनाथ चंदनं नि०
गजमुक्ता घोखे बहुत अनोखे, लख निरदोखे पुंज करूं ।
अक्षयपद पाऊं और न चाऊं, कर्म नशाऊं चरख परूं ॥पा०

ॐ ह्रीं श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं नि० ।

शुभ फूल मगाऊं गंध लखाऊं, बहु उमगाऊं भेट धरूं ।
मम कर्मनशावो दाह मिटावो, तुम गुनगाऊं ध्यानधरूं ॥पा०

ॐ ह्रीं श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय कामवाणविध्वसनाय पुष्पं नि० ।
नेवज बहु ताजे उज्ज्वल साजे, सब सुख काजे चरन धरूं ।
मो भूख नशावे ज्ञान जगावे, धर्म बढ़ाव चैन करूं ॥पा०॥

ॐ ह्रीं श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय बुधरोगविनाशनाथ नैवेद्यं नि० ।
दीपककी जोतं तम छय होतं, बहुत उद्योतं लाय धरूं ।
तुम आरति गाऊं भक्ति बढ़ाऊं, खूब नचाऊं प्रेम भरूं ॥पा०

ॐ ह्रीं श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय मोहान्धकार विध्वंसनाय दीपं नि० ।
बहु धूप मँगाऊं गंध लगाऊं, बहु महकाऊं दश दिशिकों ।
धर अग्नि जलाई कर्म खिपाई, भवजनभाई सब हितका ॥पा०

ॐ ह्रीं श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय अष्टकर्मबहनाय धूपं निर्व० ।

फल प्रासुरु लाई भवजन भाई, मिष्ट सुहाई भेट करूं ।
शिवपदको आशा मन हुल्लासा, कर खुहलासा मोक्ष वरूं ॥

ॐ ह्रीं श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्वृ० ।
 वसु द्रव्य मिलाई भवजन भाई, धर्म सदाई अर्घ करूँ ।
 पूजाको गाऊँ हर्ष बढ़ाऊँ, सुख नचाऊँ प्रेम भरूँ ॥पा०॥
 ॐ ह्रीं श्रीपावागिरिसिद्धक्षेत्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं निः ।

जयमाला ।

सोरठा ।

करके चोखे भाव, भक्ति भाव उर लायके ।
 पूजों श्रीजिनराय, पावागिरि बंदों सदा ॥

चाल जोगीरासाफी ।

श्रीपावागिरि तीर्थ बड़ो है, दंत शिवसुख होई,
 रामचन्द्रके सुत दाय जाना, लान्द नरेन्द्र जु सोई ।
 इनहिं आदि दे पाँच कोटि ह्युनि, शिवपुर पहुंचे जाई,
 सेवक दो कर जोर बीनवे, मन वच कर चितलाई ॥१॥
 कर्म काट जे मुक्त बधारे, सब सिद्धनमें जोई,
 सुख सत्ता अरु बाध ज्ञानमय, राजत सब सुख हाई ।
 दर्श अनंतो ज्ञान अनंतो, देखे जाने सोई,
 समय एकमें सबही मूलके, लोकालोक जु दोई ॥२॥
 ज्ञान अतींद्रो पूरन तिनके, सुखस्त्र अनंतो होई,
 लोक शिखरपर जाय विराजे, जामन भरन न होई ।
 जा श्रद्धको तुम प्राप्त भये हो, सों पद मोहि मिलाई,
 भक्ति भावकर निशि दिन बन्दों, निशि दिन शीस नवाई

‘धर्मचन्द श्रावककी विनती, धर्म बढ़ो हितदाई,
जो कोई भविजन पूजन गावें, तन मन प्रीति लगाई ।
सो तैसी फल जन्दी पावे, पुण्य बढ़े दुख जाई,
सेवकको सुख जन्दी दीजो, सम्यक् ज्ञान जगाई ॥४॥

ॐ ह्रीं श्रीपावागदसे लाङ्ग नरेन्द्र और पाँच करोड़ मुनि
मोक्षपदप्राप्तभ्यो महार्घं निर्बपामीति स्वाहा ।

श्लोक छन्द ।

श्रीजिनवरराई करमन भाई, धर्म सहाई दुख छीजे,
पूजा नित चाहूँ भक्ति बढ़ाऊँ, ध्यान लगाऊँ सुख कीजे ।
सुन भवजन भाई द्रव्य मिलाई, बहु गुन गाई नृत्य करो,
सब ही दुख जाई बहु उमगाई, शिवसुख पाई चरन परो ॥

इत्याशीर्वादः ।

श्रीगजपंथ पूजा ।

[श्रीयुत किशोरीलालजी कृत]

श्रीगजपंथ शिखर जगमें सुखदायजा ।

आठ कोटि मुनिराय परमपद पायजी ॥

और गये बलभद्र सात शिवधामजी ।

आह्वानन विधि करूँ त्रिविध घर ध्यानजो ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपंथाचलसे सप्तबलभद्र आवि आठकोटि मुनिसिद्धपद
प्राप्ता अवतरत अवतरत संवोषट् आह्वाननं । अत्र विष्टत विष्टत ठः
ठः स्थापनं । अत्र मम सज्जिहिता भवत भवत वषट् सन्निधिकरणं ।

अष्टक ।

चाल जोगीरासाकी ।

कंचन मणिमय भारी लेके, गंगाजल भर न्याई,
जन्म जरा मृत नाशन कारन, पूजो गिरि सुखदाई ।

बलभद्र सात वसु कोडि मुनीश्वर, यहांपर करम स्वपाई,
केवल लहि शिवधाम पधारे, जजूँ तिनहें शिरनाई ॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपंथसिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि० ।

मलयगिरि चन्दन घसि, केशर सुवरेण भृंग भराई ।

भव आतापनिवारन कारन, श्रीजिनचरण चढ़ाई ॥ बल० ॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपंथसिद्धक्षेत्राय संसारतापविनाशनाय चन्दनं नि० ।

अक्षत उज्ज्वल चन्द्रकिरण सम, कनकथाल भर लाई ।

अक्षय सुख भागनके कारन, पूजूँ देह हुलसाई ॥ बल० ॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपंथसिद्धक्षेत्राय अक्षपदप्राप्तये अक्षतं नि० ।

पुष्प मनोहर रंग सुरंगी, आवे बहु महकाई ।

कामवाणके नाशन कारन, जिनपद भेंट धराई ॥ बल० ॥

ॐ ह्रीं गजपंथसिद्धक्षेत्राय कामवाणबिर्ध्वसनाय पुष्पं नि० ।

घेवर बाबर लाहू फेनी, नेवज शुद्ध कराई ।

लुघावेदनी रांग हरनकां, पूजो श्रीजिनराई ॥ बल० ॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपंथसिद्धक्षेत्राय मोहान्धकारबिर्ध्वसनाय दीपं नि० ।

अगर तगर कृष्णागरु लेके, दस गंध घूष बनाई ।

स्वेय अगनिमें श्रीजिन आगे, करमजरे दुखदाई ॥ बल० ॥

ॐ श्रीगजपंथसिद्धक्षेत्राय अष्टकर्मदहन्याय धूप नि० ।

फल अति उत्तम पुंगी खारक, श्रीफल आदि सुहाई ।

मोक्ष महाफल चाखन कारन, भेंट घरो गुखगाई ॥ बल० ॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपंथसिद्धक्षेत्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि० ।

जल फल आदि वसु द्रव अति उत्तम, मखिमय थाल मराई ।

नाचनाच गुख गायगायके, श्रीजिनचरन चढ़ाई ॥ बल० ॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपंथसिद्धक्षेत्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ।

जयमाला ।

गीता छन्द ।

गजपंथ गिरिवर शिखर उन्नत, दरश लख सब अघ हरे ।

नग नारि जे नित करत वंदन, तिन सुजश जग विस्तरे ॥

हस धानतें मुनि आठ कोड़ी, परमपदकूं पायके ।

तिनकी अबे जयमाल गाऊँ, सुनो चित हुलसायक । १ ॥

पद्वरी छन्द ।

जय गजपंथा गिरिशिखर सार, अति उन्नत है शाभा

अपार । ताकी दक्षिण दिश नगर जान, मसरूल नाम ताको

प्रधान ॥ २ ॥ तहां धरमशाला बनी महान, ता मध्य लसे

जिनवर सुथान । तहां बने शिखर शाामत उतंग, यह चित्र

विचित्र नाना सुरङ्ग ॥ ३ ॥ चारोंदिशि गुमटी लसत चार,

चित्राम रोचत नाना प्रकार । तिनके ऊपर ध्वजा फहरात,

मानुष बुलावत करत हाथ ॥ ४ ॥ तहां गुम्मजमे भीपारबेनाथ,

राजत पुनि प्रतिमा है विख्यात । तिन दरशन बंदन करन
जात, पूजत हैं नित प्रति भव्य आत ॥ ५ ॥ जिनमन्दिरमें
रचना विशेष, आरास रचित अद्भुत अनेक । बेदी उज्ज्वल
राजत रङ्गीन, अति ऊँचे सोहे शिखर तीन ॥ ६ ॥ तिनके
ऊपर कलशा लसंत, चन्द्रोपम ध्वज दर्पन दिखत । त्रय
कटनी खंभा चार माय, इन्द्रनकी छवि बरनी न जाय ॥७॥
ऊपरली कटनी मध्य जान, अन्तिम तीर्थेश विराजमान ।
भांडल चँवर सु छत्र तीन, पुनि चरण पादुका द्वय नवीन
॥ ८ ॥ पुनि पद्मावति अरु क्षेत्रपाल, तिष्ठत ता आगे रक्ष-
पाल । सन्मुख हस्ती घूमे सदीव, जहां पूजा करते भव्य
जीव ॥ ९ ॥ आगे मंडप रचना विशाल, तहां सभा भरे है
सदा काल । जहां बांचत पंडित शास्त्र आय, कोई जिनवर
गुण मधुर गाय ॥ १० ॥ कोई जाप जपे चरचा करत, कोई
नृत्य करत बाजे बजंत । नौबत भालर घंटा सुभांभ, पुनि
होत आरती नित्य सांभ ॥११॥ मंदिर आगे सुन्दर अरन्य,
तरु फल फलत दीसे रमन्य । अति सघन वृक्ष शीतल सु
छाय, जहां पथिक लेत विश्राम आय ॥ १२ ॥ इस उपवन
में बहु विध रसाल, चाखत जात्री होवें खुशाल । नीबू
नागझी अनार जाम, सीताफल भीफल केल आम ॥ १३ ॥
अमली जामन ककड़ी अरण्ड, केथोड़ी ऊँचे लगे कुंड ।
सेतुत लेसवो अरु खजूर, खारक अंजीर अरीठ पुर ॥ १४ ॥

फफनेस बोर वड़ नीम जान, पुनि पुष्पवाटिका शोभमान ।
 चंपो जु चमेलि गुलाब कुंज, जाई जु भोगरो अमर गुंज
 ॥ १५ ॥ गुलमहदी और अनेक बेल, तिन ऊपर पची करत
 केल । या बाग माहि गंभीर कूप, शीतल जल मिष्ट सु
 दुग्धरूप ॥ १६ ॥ ता पीवत ही गद सकल नाश, यह अतिच्य
 क्षेत्रतना प्रकाश । बंगला विशाल रमणीक जान, मझारक
 तिष्ठनको सु थान ॥ १७ ॥ परकाट बनो चउ तरफ सार,
 मध दरवाजो अति शाभकार । ताके ऊपर नौवत बजंत, सुन
 के यात्री आनंद लहंत ॥ १८ ॥ यहां दंडकवन की भूमि
 संत, तसु निकट शहर नासिक वसंत । तहां गंगा नाम नदी
 पुनीत, वैष्णवजन ठाने धर्म तीर्थ ॥ १९ ॥ पुनि त्रिम्बक
 सीतागुफा कीन, गजपंथ धाम सबमें प्राचीन । मझारकजी
 हिमकीर्ति आय, वंदे गजपन्था शिखर जाय ॥ २० ॥ मंदिर
 की नीव दई लगाय, पुनि पैड़ी ऊपरको चढ़ाय । दो शतक
 पिचौत्तर है सिबान, तसु आगे मोटी भीत जान ॥ २१ ॥
 इक होद भर्यो निर्मल सु नीर, शीतल सु मिष्ट राजत
 गंहीर । भवि प्रचालित बसु दरव आन, कोई वीर्थ जान कर
 है सनान ॥ २२ ॥ त्रय गुफा मध्य दरशन करन्त, बलभद्र
 सात तिष्ठत महंत । इक बिम्ब लसत उन्नत विशाल,
 श्रीपार्वनाथ बंदत त्रिकाल ॥ २३ ॥ द्रव मानभद्र इक
 चरणपाद, पुनि आठ कोडि थल है अनाद । बंदन पूजन

कर धरत ध्यान, निज जन्म सुफल मानत सुजान ॥ २४ ॥
 यहां से उतरत गिरितट सु थान, इक कुंड नोर निर्मल
 बखान । इक छत्री उज्ज्वल है पुनीत, भट्टारकजी छेमेन्द्रकीर्ति
 ॥ २५ ॥ तिनके सु चरणपादुक रचाय, अवलोकन कर
 निज थल सु आय । कोई फेरी पर्वतका करन्त, इमि बंदन
 कर अति सुख लहंत ॥ २६ ॥ श्रीगुनीकीर्ति महाराज आय,
 श्रावकजनको उपदेश थाय । पुनि नानचंद अरु फतहचंद,
 शोलापुगवासी धरमकंद ॥ २७ ॥ हृमड जंजी उपदेश धार,
 करवाई प्रतिष्ठा बिम्बसार । संवत् उगशीस अरु तियाल,
 सुध तेगस माघतनी विशाल ॥ २८ ॥ कल्याण पांच कीनो
 उछाव, करवाये अति उत्तम सुनाव । श्रीमहावीर अन्तिम
 तीर्थेश, पधगाये वेदी में जिनेश . २९ ॥ भट्टारकजी दियो
 सूर मंत्र, कीने पुनि जंत्र अनेक तंत्र । मानस सु धम रचिये
 उत्तंग, कञ्चन कलशा शोभे उर्चंग ॥ ३० ॥ बहु संघ जुरे
 तिनकू बुलाय, भक्ती कीनी उर हरष न्याय । बहु विधि
 पकवान बनाय सार, जौनार दई आनंद धार ॥३१॥ सुदि
 पुनम माघतनी सुजान, पूरण हुतो उत्सव महान । याही
 तिथिकू उत्तम सुजोय, यात्रा उत्सव दर साल होय ॥३२॥ पुनि
 सदाबरत नित प्रति बटंत, कोई विमुख जाय नहिं साधुसंत ।
 यहां देश देश के संघ आय, उत्सव करते हैं पूजन कराय
 ॥३३॥ दे दरब करत भंडार सोय, कोई करत रसोई मुदित

होय । बहु मर्यादा अद्भुत सु ठाठ, आवें यात्री मुख करत
पाठ ॥३४॥ संवत उगखीसौ उगचास, बुध अष्टम रवि दिन
पौष मास । ये पूजन विधि कीनी बनाय, सज्जन प्रति बिनती
यहा भाय ॥ ३५ ॥ जो भूल चूक तुक भंग होय, तुम शुद्ध
करो बुधिमान लोय । गजपन्थ शिखर मुनि आठ कोड,
बलभद्र सात नमि हाथ जोड़ ॥ ३६ ॥

दोहा ।

यह गजपन्था शिखर की, पूज रची सुखदाय ।

‘लालकिशोरी’ तुच्छ बुध, हाथ जोड़ सिर नाय ॥३७॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपन्थसिद्धक्षेत्रसे सातबलभद्र और आठकरोड़ मुनि
मोक्षपदप्राप्तेभ्यो महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

छंद त्रिभंगी ।

जय जय भगवंता श्रीगजपन्था, वंदत संता माव घरं,
सुर नर खग ध्यावें भगति बढ़ावें, पूज रचावें प्रीति करं ।
फल सुरपद पावें अमर कहावें, नरपद पावें शिव पावं,
यह जान सु भाई जात्र कराई, जग जस थाई सुख पावं ॥

इत्याशीर्वादः ।

श्री तुङ्गीगिरि पूजा ।

(श्रीयुत स्व० पं० सवाईसिधई गोपालसाहजी कृत)

दोहा ।

सिद्धक्षेत्र उस्कृष्ट अति, तुङ्गीगिरि शुभ थान ।
मुक्ति गये मुनिराज जे, ते तिष्ठहु इत आन ॥

ॐ ह्रीं श्रीमांगीतुंगीसिद्धक्षेत्रसे राम, हनु, सुग्रीव, सुडील, गब, गबाख्य, नील, महानील और निन्यानवेकरोड मुनि मोक्षपदप्राप्ता अत्र अवतरत अवतरत संवौषट् आह्वाननं । अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः स्थापनं । अत्र मम सन्निहिता भवत भवत वषट् ।

अष्टक ।

गंगाजल प्रासुक भर भ्रारी, तुव चरनन ढिग धारो,
परिग्रह तिसना लगी आदिकी, ताको हूँ निरवारो ।

राम हनु सुग्रीव आदि जे, तुंगीगिरि थित थाई,
कोडि निन्यानवे मुकत गये मुनि, पूजो मन वच काई ॥

ॐ ह्रीं श्रीतुंगीगिरिसिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाथ जलं नि०
चन्दन केश गार मली विधि, धार देत पय आगे ।

भव भरमन आताप जासते, पञ्चत तुरतहिं भागे ॥ राम० ॥

ॐ ह्रीं श्रीतुंगीगिरिसिद्धक्षेत्राय संसारतापविनाशनाथ चन्दनं नि०
मुक्ताफल सम उज्ज्वल अक्षत, धार धारकर पूजो ।

अक्षयपदको प्रापति कारन, या सम और न दूजो । राम० ॥

ॐ ह्रीं श्रीतुंगीगिरिसिद्धक्षेत्राय अक्षयपदप्राप्तये चन्दनं नि० ।

कमल केतकी बेल चमेली, जापर अलि गुंजावे ।

पुः नसो अरचो तुम चरनन, कामविथा भिट जावे । राम० ॥

ॐ ह्रीं श्रीतुंगीगिरिसिद्धक्षेत्राय कामवाणविध्वंसनाथ पुष्पं ।

गूजा स्वाः द्यंजन ताजे, तुरतहिं घृत उपराजे ।

दग सुख का न सन्मुख धारे, लुधावेदनी भाजे ॥ राम० ॥

ॐ ह्रीं श्रीतुंगीगिरिसिद्धक्षेत्राय लुधारोगविनाशनाथ नैवेद्यं ।

दीप रतनकर सुरपति पूजत, हम कपूर धर खास ।
नाशे मिथ्यातम अनादिको, ज्ञान भानु परकाशे ॥ राम० ॥

ॐ ह्रीं श्रीतुंगीगिरिसिद्धक्षेत्राय मोहान्धकारविनाशनाथ दीपं ।
अगर तगर कृष्णागरु चन्दन, जे सुवास मन भावें ।
खेवत धूप धूमके मिसकर, दुष्ट करम उड़ जावें ॥राम०॥

ॐ ह्रीं श्रीतुंगीगिरिसिद्धक्षेत्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्व० ।
श्रीफल पुंगी शुचि नारंगी, केला आम्र सुवासा ।
पूजत अष्ट करम दल धूजत, पाऊँ पद अविनासी ॥ राम०॥

ॐ ह्रीं श्रीतुंगीगिरिसिद्धक्षेत्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्व० ।
जल फलादि वसु द्रव साजके, हेमपात्र मर लाऊँ ।
मन वच काय नमूँ तुव चरना, बार बार शिर नाऊँ ॥राम०॥
ॐ ह्रीं श्रीतुंगीगिरिसिद्धक्षेत्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ।

जयमाला ।

दोहा ।

राम हनु सुग्रीव आदि जे, तुंगीगिरि थित थाय ।
कोडि निन्यानवे मुक्ति गये, पूजों मन वच काय ॥१॥

तुम पद प्राप्त कारने, सुमरो तुव गुणमाल ।
प्रति माफक वरनन करों, सार सुभग जयमाल ॥२॥

धन्य धन्य मुनिराज, कठिन व्रतधारी, भव भवमें सेवा
चरन मिले गृह थारी । दो पर्वत हैं अति तुंग चूलिका

भारी, मनो मेरु शिखर उनहार दगन सुखकारी ॥३॥ पहलो
 है मंगी नाम तुंगी है दूजा, जहाँ चढ़त जीव थक जात
 करम चिर धूजा । अति सुन्दर मन्दिर लखत भई सुध म्हारी,
 भव भवमें सेवा चरन मिले मुह थारी । धन्य धन्य मुनिराज
 कठिन व्रत धारी, भव भवमें सेवा चरन मिल मुह थारी
 ॥४॥ जहां राम हनु सुग्रीव सु खग बलधारी, अरु गव
 गवाच महानील नाल अघहारी । इन आदि निन्यानवे कोडि
 मुनी तप क्रीना, लया पंचमगतिका वास बहुरि गत रही ना
 ॥५॥ मैं पूजो त्रिकरन शुद्धनसे अघ भारी, भव भवमें सेवा
 चरन मिले मुह थारी । तुम विरत अहिंसा लिया दयाके
 कारन, ता पाषणको वच भूठ किया नरवारन ॥६॥ पुनि
 भये अदत्ता वस्तु सरवके त्यागी, नव वाढ़ साहित व्रत ब्रह्म-
 चर्य अनुरागी । चउवीस परिग्रह त्याग भये अनगारी, भव
 भवमें सेवा चरन मिले मुह थारी ॥७॥ षट्काय दयाके हेतु निरस्त्र
 भू चाले, वच शास्त्र उक्ति अनुसार असतका टाले । भाजन
 के षट्चालीस दोष निरवारे, लख जंतु वस्तुका लेप देख
 भू धारे ॥८॥ पन करन विषै चकचूर भये अत्रिकारी, भव
 भवमें सेवा चरन मिले मुह थारी । षट् आवश्यक नित करें
 नियम निरवाहें, तज न्हवन क्रिया जलकाय घात ना चाहें
 ॥९॥ निज करसों लुञ्चे केश राग तन भागी, बालकवत
 निर्भय रहें वस्त्रके त्यागी । कबहु दंतधवन नहिं करें दया

व्रतधारी, भव भवमें सेवा चरन मिले मुह थारी ॥१०॥ बिन
जांचे भोजन लेय उहंड अहारी, लघु भक्ति करें इक बार
तपी अधिकारी । जामें आलस न बदे राग हू हीना, निशि
दिन रस आतम चखे करे विधि छीना ॥११॥ कर घात करम
चउ नाश ज्ञान उजियारी, भव भवमें सेवा चरन मिले मुह
थारी । दे भव्यनको उपदेश अघाती जारे, मये मुकतिरमाके
कंत अष्ट गुन धारे ॥१२॥ तिन सिद्धनिकां मैं नमों सिद्धिके
काजा, सिधथल में दे मुहवास त्रिजगके राजा । नावत नित
माथ 'गुपाल' तुम्हें बहु भारी, भव भवमें सेवा चरन मिले
मुह थारी ॥१३॥

ॐ ह्रीं श्रीमांगीतुंगी सिद्धक्षेत्रसे राम हनू सुग्रीव सुडीज गव
गवाख्य नील महानील और निन्यानवे करोड़ मुनि मोक्षपदप्राप्तेभ्यो
पूर्यार्धं निर्वपामीति स्वाहा ।

घत्ता ।

तुम गुनमाला परम विशाला, जो पदरे नित्य भव्य गले ।
नाशें अघजाला हू सुख हाला, नित प्रति मंगल हात भले ॥१४

इत्यारीर्षावः ।

श्रीकुन्थलगिरि पूजा ।

[श्रीयुत कन्हैयालालजी कृत]

दोहा ।

तीरथ परम पवित्र अति, कुंथ शल शुभ धान ।

जहांते मुनि शिवथल गये, पूजों थिर मन आन ॥

ॐ ह्रीं श्रीकुन्थलगिरिसिद्धक्षेत्रसे कुलभूषण देशभूषण मुनि मोक्षपदप्राप्त अत्र अवतर अवतर संवौपट् आह्वाननं । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनं । अत्र मम सर्त्रिहितो भव भव वषट् सर्त्रिधि-करणं ।

अष्टक ।

आडिल ।

उत्तम उज्ज्वल नीर क्षीर सब ल्लानके,

कनक पात्रमें धार देत त्रय आनके ।

पूजों सिद्ध सु क्षेत्र हिये हरषायके,

कर मन वच तन शुद्ध करमवश टारके ॥

ॐ ह्रीं श्री कुंथलगिरिसिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल निर्वपामीति स्वाहा ।

चंदन दाह निकंदन केशर गारके ।

अरचों तुम टिंग आय शुद्ध मन धारके ॥ पूजों० ॥

ॐ ह्रीं श्रीकुंथलगिरिसिद्धक्षेत्राय संसारतापविनाशनाय चन्दन ।

तंदुल मोम समान अखंडिन आनके ।

हाटक धार भराय जजों शिर नायके ॥ पूजों० ॥

ॐ ह्रीं श्रीकुंथलगिरिसिद्धक्षेत्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं नि० ।

सुरद्रु म सम जे पुष्प सुगंधित लायके ।

दहन काम पन वाण धरों सुख पायके ॥ पूजों ॥

ॐ ह्रीं श्रीकुंथलगिरिसिद्धक्षेत्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं ।
व्यंजन विविध प्रकार पगे घृत खांड के ।

अरपत श्रीजिनराज छुधा ढिग छांडके ॥ पूजों ॥

ॐ ह्रीं श्रीकुंथलगिरिसिद्धक्षेत्राय जुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं नि०
कनक थार में धार कपूर जलाय के ।

बोध लहो तम नाश मिथ्या भ्रम जालके ॥ पूजों ॥

ॐ ह्रीं श्रीकुंथलगिरिसिद्धक्षेत्राय मोहान्धकारविध्वंसनाय दीपं नि०
अगर आदि दस वस्तु गंध जुत मेल के ।

करम दहन के काज दहों ढिग शलके ॥ पूजों ॥

ॐ ह्रीं श्रीकुंथलगिरिसिद्धक्षेत्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं नि० ।
फल उत्कृष्ट सु मिष्ट जे प्रासुक लायके ।

शिवफल प्रापति काज जजों उमगाय के ॥ पूजों ॥

ॐ ह्रीं श्रीकुंथलगिरिसिद्धक्षेत्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि० ।
जल फलादि वसु दरव लेय धुति ठान के ।

अर्घ जजों तुम पाय हरष मन आनके ॥ पूजों ॥

ॐ ह्रीं श्रीकुंथलगिरिसिद्धक्षेत्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ।

जयमाला ।

दोहा ।

तुम गुन अगम अपार गुरु, मैं बुधि कर हां बाल ।

पै सहाय तुव भक्तिवश, वरनत तुव गुनमाल ॥ १ ॥

पद्धरी छंद ।

कुल ऊँच राय सुत अति गंभीर, कुलभूषण दिशभूषण
 भये वीर । लख राज-श्रद्धिको अति असार, वय बाल माहिं
 तप कठिन धार ॥ २ ॥ द्वादश विधि व्रतकी सहत पीर,
 तेरह विधि चारित धरत वीर । गुन मूल बीस अरु आठ
 धार, सहें परीषह दस अरु आठ चार ॥ ३ ॥ भू निरख जंतु
 कर नित विहार, धर्मोपदेश देते विचार । मुनि भ्रमत पहुँचे
 कुंथ शैल, पाहन तरु कंटक कठिन गैल ॥ ४ ॥ निर्जन वन
 लख भये ध्यान लीन, सुर पूरवअरि उपसर्ग कीन । बहू
 सिंह सर्प अरु दैत्य आय, गरजत फुंकारत मुख चलाय
 ॥ ५ ॥ तहां राम लखन सीता समेत, ता दिन थिति कीनी
 थी अचेत । मुनिपर वेदन यह लखत घोर, दोउ वीर उचारे
 वच कठोर ॥ ६ ॥ रे देव ! दुष्ट तू जाति नीच, मुनि दुखित
 किये तुझ आई मीच । हम आगे तू कित भाग जाय, तुह
 देहें दुःकृतकी सजाय ॥ ७ ॥ यह कह दोऊ कर धनुष धार,
 हरि बल लखि सुर डरपौ अपार । तब मान सीख मुनि चरण
 धार, ता छिन घाते विधि घाति चार ॥ ८ ॥ उपजत केवल
 सुरकल्प आय, रांच गंधकुटी पद शीस नाय । सुन निज
 भव सुर आनंद पाय, जुग विद्या दे निज थल सिधाय ॥९॥
 प्रभु भाषे दो विधि धर्म सार, सुन धारे जिनते भये पार ।
 मुनिगज अघाता घात कान, गतिपंचम थिति अचलिलीन

॥ १० ॥ पूजा सुर नर निरवान कीन, गति ऊंचतनो फल
सुफल लीन । भव भरमत हम बहु दुःख पाय, पूजे तुम
चरना चित्त लगा ॥ ११ ॥ अरजी सुन कीजे महर आप,
नासो मेरा भव अमन ताप । विनवे अधिकौ क्या 'कनइलाल',
दुख मेट सकल सुख देव हाल ॥ १२ ॥

ॐ ह्रीं श्रीदेशभूषणकुलभूषणमोक्षपदप्राप्तकृन्थलगिरिसिद्ध-
क्षेत्राय पूर्णार्घं निर्वमामीति स्वाहा ।

घत्ता ।

तुम दुखहर्ता सब सुखकर्ता, भर्ता शिवतिय माक्षपती ।
में शरने आयां तुम गुन गायां, उमगाया ज्यों हती मती ॥
इत्याशीर्वादः ।

श्रीमुक्तागिरि पूजा ।

(स्व० कवि जवाहरलालजी कृत)

दोहा ।

मुक्तागिरि तारथ परम, सकल सिद्धि दातार ।
ताते पावन होत निज, नमों सीस कर धार ॥१॥

गीतां छन्द ।

येही जम्बूद्वीप मध्य भरतक्षेत्र सा जानिये,
आरज सो खंड मभार, जाके परम सुन्दर मानिये ।
ईशान दिशि अचला जु पुरकी, नाम मुक्तागिरि तहां,
कोई साढ़े तीन मुनिवर, शिवपुरी पहुंचे जहां ॥ २ ॥

दोहा ।

पारसप्रभुको आदि दे, चौवीसों जिनराय ।

पूजों पद जुग पन्न सम, सुर शिवपद सुखदाय ॥

ॐ ह्रीं मुक्तागिरिसिद्धक्षेत्रसे साडेतीनकरोड़मुनिमोक्षपदप्राप्ता
अत्र अवतरत अवतरत संबौषट् आह्वाननं । अत्र तिष्ठत तिष्ठत
ठः ठः स्थापनं । अत्र मम सन्निहिता भवत भवत वषट् सन्निधि-
करणं ।

अष्टक ।

परम प्रासुक नीर निर्मल, क्षीर दधि सम लीजिये,

हेम भारी मांही भरके, धार सुन्दर दीजिये ।

तीर्थं मुक्तागिरि मनोहर, परम पावन शुभ कहो,

कोटि साडे तीन मुनिवर, जहांते शिवपुर लहो ॥

ॐ ह्रीं श्रीमुक्तागिरिसिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि०
चंदन सु पावन दुख मिटावन, अति सुगंध मिलाइये ।

डार कर कर्पूर कंशर, नीर सों घिस लाइये ॥ तीर्थं ॥

ॐ ह्रीं श्रीमुक्तागिरिसिद्धक्षेत्राय संसारतापविनाशनाय चंदनं नि०
विमल तंदुल ले अखंडित, ज्योति निशिपति सम घरे ।

कनक थारी मांही धरके, पूज कर पावन परे ॥ तीर्थं ॥

ॐ ह्रीं श्रीमुक्तागिरिसिद्धक्षेत्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं निवे० ।

सुरवृक्षके सम फूल लेकर, गंधकर मधुकर फिरें ।

मदनवाण विनाशवेकों, प्रसू चरन पूजा करें ॥ तीर्थं ॥

ॐ ह्रीं श्रीमुक्तागिरिसिद्धक्षेत्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पं नि० ।

छहों रसकर युक्त नेवज, कनक थारी में भरों ।
 भाव से प्रभु चरन पूजों, लुधादिक मनकी हरीं ॥ तीर्थ० ॥
 ॐ ह्रीं श्रीमुक्तागिरिसिद्धक्षेत्राय बुधारोगविनासनाय नैवेद्यं नि० ।
 रतनदीप कपूर वाती, जाति जगमग होत है ।
 मोहतिमिर विनाशवेको, भानु सम उद्योत है ॥ तीर्थ० ॥
 ॐ ह्रीं श्रीमुक्तागिरिसिद्धक्षेत्राय मोहान्धकारविध्वंसनाय दीपं नि०
 कूट मलयागिरि सो चन्दन, अमर आदि मिलाइये ।
 ले दशांगी धूप सुन्दर, अगनि मांहि जराइये ॥ तीर्थ० ॥
 ॐ ह्रीं श्रीमुक्तागिरिसिद्धक्षेत्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं नि० ।
 न्याय एला लोंग दाडिम, और फल बहुते घने ।
 नेत्र रसना लगे सुन्दर, फल अनूप चढ़ावने ॥ तीर्थ० ॥
 ॐ ह्रीं श्रीमुक्तागिरिसिद्धक्षेत्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि० ।
 जल गंध आदिक द्रव्य लेके, अर्घ कर ले आवने ।
 लाय चरन चढ़ाय भविजन, मोक्षफलको पावने ॥ तीर्थ० ॥
 ॐ ह्रीं श्रीमुक्तागिरिसिद्धक्षेत्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ।

दोहा ।

मुक्तागिरिके सीसपर, बहुत जिनालय जान ।
 तिनकी अब जयमालिका, सुनो भव्य दे कान ॥ १ ॥

जयमाला ।

पद्वरी छन्द ।

श्रीमुक्तागिरि तीरथ विशाल, महिमा जाकी अद्भुत
 रसाल । जुग पर्वत बीच परे दो कौन, मुक्तागिरि जहाँ

सुखको सु भौन ॥ २ ॥ च्चदिय सिवान जहां ऊपर सो भान,
दहलाने पर सो सार जान । यात्री जहां डेरा करें आय,
अति मुदित हूँ चित्त उमगाय ॥ ३ ॥ ऊपर शुचि जलसों
भरे कुंड, जहं सपरे यात्रिन के सु भुंङ । बहु विधि की
द्रव्य धरी सो धाय, पूजन का भविजन चले साय ॥ ४ ॥
जहां मन्दिर बीच बने रसाल, पारसप्रभु की मूरत विशाल ।
पूजत जहां भविजन हरष धार, भव भवको पुण्य भरे भंडार
॥ ५ ॥ बावन जगह दर्शन जिनेश, पूजत जिनवर को सुर
महेश । इक मन्दिर में भुयरो जु साय, प्रतिमा श्रीशान्तिजिनेश
होय ॥ ६ ॥ दर्शन कर नरभव सुफल हाय, जहां जन्म-जन्म
के पाप खोय । मैदागिरिकी हैं गुफा भाय, मन्दिर सुन्दर
इक माम काय ॥ ७ ॥ प्रतिमा श्रीजिनवर देवराज, दर्शन
कर पूरन होय काज । मैदागिरि के ऊपर सुजान, द्वय टोंक
बनी अति सौम्यमान ॥ ८ ॥ इक पांटे बालक मुनि कराय,
इक भागवली का जान रमाय । जहां श्रीजिनवर के चरण
साग, बंदत मनवांछित सुखदातार ॥ ९ ॥ बावन मन्दिर
जहं शोभकार, महिमा तिनकी अद्भुत अपार । जहं सुर
आवत नित प्रति हमेश, स्तुति करते प्रभु तुम दिनेश ॥ १० ॥
जहं सुर नाचत नाना प्रकार, जै जै जै जै जे धुनि उच्चार ।
थै थै थै अब नाचत सुचाल, अति हर्ष सहित नित नमत
भाल ॥ ११ ॥ मुहचंग उपंग सु तूरसजे, मुरली स्वर वीन प्रवीन

बजे । द्रुम द्रुम द्रुम द्रुम वाचत मृदंग, ऋनननननन नूपुर
 सुरंग ॥ १२ ॥ तनननननन परे तसु तान, घननन घंटा
 करत ध्वान । इहि विधि बादित्र बाजे अपार, सुर गावत अब
 नाना प्रकार ॥ १३ ॥ अतिशय जाके हैं अति विशाल,
 जहां केशर अब बरसे त्रिकाल । अनहद निर बाजे बाजे
 अपार, गंधादकादिक वर्षा की बहार ॥ १४ ॥ तहां मारुत
 मंद सुगंध सोय, जिय जात जहां न विरोध होय । अतिशय
 जहां नाना प्रकार, भविजन हिय में हरष धार ॥ १५ ॥
 जहां कोढ़ जु साढ़े तीन मान, मुनि मोक्ष गये सुनिये
 सुजान । बंदत 'जवाहर' अब बार बार, भवसागर से प्रभु
 तार तार ॥ १६ ॥ प्रभु अशरन शरन अधार धार, सब
 विघ्न तूल गिरि जार जार । तू धन्य देव कृपानिधान,
 अज्ञान मिथ्यातम हरन भान ॥ १७ ॥ प्रभु दयासिंधु जै जै
 महेश, भव बाधा अब मेटो जिनेश । मैं बहुत अम्यो चिरकाल
 काल, अब हो दयाल मुझ पाल पाल ॥ १८ ॥ तार्ते मैं
 तुमरे शरण आय, यह अरज करूँ पग शीस नाय । मम
 कर्म बंध देउ चूर चूर, आनंद अनूपम पूर पूर ॥ १९ ॥

ॐ ह्रीं श्रीमुक्तागिरिसिद्धक्षेत्राय पर्याचिं निवेपामीति स्वाहा ।

घत्ता ।

मुक्तागिरि पूजे अति सुख हूजे, अद्भि होय है भर पूरी ।

अति कर्म विनाशे ज्ञान प्रकाशे, शिव पदवीको सुखकारी ॥२०॥

[६८४]

दोहा ।

अठरा सौ इक्यानवे, वैशाख मास तम लीन ।
तिथि दशमी शनिवार की, पूजा समाप्त कीन ॥२१॥
इत्याशीवादः ।

श्रीसिद्धवरकूट पूजा ।

(श्रीयुत स्व० भट्टारक महेन्द्रकीर्त्तिजी कृत)

दोहा ।

सिद्धकूट तीरथ महा, है उत्कृष्ट सुथान ।
मन वच काया कर नमों, होय पापकी हान ॥ १ ॥
दोय चक्री मन्मथ जु दस, गये तहँते निर्वान ।
पद पङ्कज तिनके नमों, हरे कर्म बलवान् ॥ २ ॥
रेवाजी के तटनर्ते, हूँठ कोडि मुनि जान ।
कर्म काट तहँते गये, मोक्षपुरी शुभ धान ॥ ३ ॥
जग में तीर्थ प्रधान है, सिद्धवरकूट महान ।
अल्पमती में किमि कहों, अद्भुत महिमा जान ॥ ४ ॥

अडिल्ल छन्द ।

इन्द्रादिक सुर जाय, तहाँ बन्दन करे,
नागपति तहँ आय, बहुत थुति उचरे ।
नरपति नित प्रति जाय, तहाँ बहु भावसों,
पूजन करहिं त्रिकाल, भगत बहु चावसों ॥

ॐ ह्रीं श्रीसिद्धवरकूटसे दोचक्री दशकाम कुमारादि साढ़े तीन
फरोड़ मुनि सिद्धपद प्राप्ता अत्र अवतरत अवतरत संवौषट् ।
अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठः ठः स्थापनं । अत्र मम सन्निहिता भवत
भवत वषट् सन्निधिकरणं ।

अष्टक ।

चाल-नंदीरवर पूजा की ।

उत्तम रेवा जल न्याय, मणिमय भर भारी,
प्रभु चरनन देउं चढ़ाय, जन्म जरा हारी ।
द्वय चक्रो दस कामकुमार, भवतर मांच गये,
ताते पूजो पद सार, मन में हरष ठये ॥

ॐ ह्रीं श्रीसिद्धवरकूटसिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं ।
मलयगिरि चन्दन न्याय, केशर शुभ डारी ।

प्रभु चरनन देत चढ़ाय, भवभय दुखहारी ॥ द्वय चक्री० ॥

ॐ ह्रीं श्रीसिद्धवरकूटसिद्धक्षेत्राय संसारतापविनाशनाय चन्दनं ।
तंदुल उज्ज्वल अविहार, मुकतासम सोहे ।

भरकर कंचनमय थाल, सुर नर मन मोहे ॥ द्वय चक्री० ॥

ॐ ह्रीं श्रीसिद्धवरकूटसिद्धक्षेत्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं नि० ।

ले पहुप सुगंधित सार, तापर अलि गाजे ।

जिन चरनन देत चढ़ाय, कामव्यथा भाजे ॥ द्वय चक्री० ॥

ॐ ह्रीं श्रीसिद्धवरकूटसिद्धक्षेत्राय कामवाणविध्वंसनाय पुष्पं नि० ।

नेवज नाना प्रकार, षट्स स्वाद मई ।

पद पङ्कज देहुं चढ़ाय, सुवरन थार लई ॥ द्वय चक्री० ॥

ॐ ह्रीं श्रीसिद्धवरकूटसिद्धक्षेत्राय क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि०

मणिमय दीपक को न्याय, कदलीसुत बाती ।

जांती जगमग लहक य, मोह तिमिर घाती ॥ द्वय चक्री० ॥

ॐ ह्रीं श्रीसिद्धवरकूटसिद्धक्षेत्राय मोहान्धकारविध्वंसनाय दीपं ।

कृष्णागरु आदिक न्याय, धूप दहन खेई ।

वसु दुष्ट कर्म जर जांय, भव भव सुख लेई ॥ द्वय चक्री० ॥

ॐ ह्रीं श्रीसिद्धवरकूटसिद्धक्षेत्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्व० ।

श्रीफल दाख बदाम, केला अमृत मई ।

लेकर बहु फल सुख धाम, जिनवर पूज ठई ॥ द्वय चक्री० ॥

ॐ ह्रीं श्रीसिद्धवरकूटसिद्धक्षेत्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि० ।

जल चन्दन अक्षत लेय, सुमन महा प्यारी ।

चरु दीप धूप फल सोय, अरघ करो भारी ॥ द्वय चक्री० ॥

ॐ ह्रीं श्रीसिद्धवरकूटसिद्धक्षेत्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ।

जयमाला ।

दोहा ।

सिद्धवर कूट सुधान की, रचना कहूं बनाय ।

अति विचित्र रमनीक अति, कहत अल्प कर भाय ॥१॥

पदरी छन्द ।

जय पर्वत अति उन्नत विशाल, तापर त्रय मन्दिर
शोभकार । तामें जिनबिम्ब विराजमान, जय रत्नमई प्रतिमा

बखान ॥२॥ ताकी शोभा किमि कहे सोय, सुरपति मन
 देखत थकित होय । तिन मन्दिरकी दिांश चार जान, तिनकूं
 वरनूं अब प्रीति ठान ॥३॥ ताकी पूरब दिशि ताल जान,
 तामें सु कमल फूले महान । कमलनपर मधुकर अमे जोय,
 ता धुनकर पूरित दिशा होय ॥४॥ ता सरवर पर नाना प्रकार,
 द्रु म फल रहे अति शोभकार । छह ऋतुके वृक्ष फूले फलाय,
 ऋतुराज सदा क्रीड़ा कराय ॥५॥ मंदिरनकी दक्षिन दिशा
 सार, सुरनदी बहे रेवा जु सार । ताके तट दोनों अति पवित्र,
 विद्याधर बहु विधि करे नृत्य ॥६॥ फिर तहँ ते उत्तर दिशा
 जान, इक कुण्ड बनो है शोभमान । ता कुण्ड बीच यात्री
 नहाय, तिन बहुत जनमके पाप जाय ॥७॥ ता कुण्ड ऊपर
 अति विचित्र, इक पांडुशिला है अति पवित्र । तिस थान
 बीच देवेन्द्र साय, जिनविम्ब धरे हैं सीस जोय ॥८॥ ताकी
 पश्चिम दिशि अति विशाल, कावेरी सोहे अति रसाल ।
 इन आदि मध्य जे भूमि जान, जय स्वर्णसिद्ध परवत महान
 ॥९॥ तापर तप धारी दोय चक्रीश, दस कामकुमार भये
 जगतईश । इन आदि मुनि आहूठ कांड़, तिनको बंदों में
 हाथ जोड़ ॥१०॥ इनको केवल उपज्यो सुज्ञान, देवेन्द्र जु
 आसन कँपो जान । तब अमरपुरीते इन्द्र आय, तहँ अष्ट द्रव्य
 साजे बनाय ॥११॥ तब पूजा ठाने देवइन्द्र, सब मिलके
 गावे शतक इन्द्र । तहँ यात्री आवे भुण्ड भुण्ड । सब पूज

धरें तंदुल अखंड ॥१२॥ कोई श्रीफल लावे अरु बादाम,
 कोई पुंगीफलको सु नाम । कोई अमृतफल केला सु लाय,
 कोई अष्ट द्रव्य ले पूज ठाय ॥१३॥ केई सूत्र पढ़ें अति हर्ष
 ठान, केई शास्त्र सुनें बहु प्रीति मान । कोई जिनगुन गावें
 सुर संगीत, कोई नाचें गावें धरें प्रीति ॥१४॥ इत्यादि ठाठ
 नितप्रति लहाय, वरनन किम मुखतें कहो जाय । सुरपति
 स्वर्गपति कौ जु सोय, रचना देखत मन थकित होय ॥१५॥
 सुर नर विद्याधर हर्ष मान, जिन गुन गावें हिय प्रीति ठान ।
 ॐ ह्रीं श्रीसिद्धवरकूटसिद्धक्षेत्राय महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

घत्ता छन्द ।

जो सिधवर पूजे, अति सुख हूजे, ता गृह संपति नाहि टरे ।
 ताको जस सुर नर मिल गावें 'महेन्द्रकोत्ति' जिनमक्ति करे ॥१६

दोहा ।

सिद्धवरकूट सुथानकी, महिमा अगम अपार ।

अन्यमती मैं किमि कहों, सुरगुरु लहें न पार ॥१७॥

इत्याशीर्वादः ।

चूलगिरि (वावनगजा) की पूजा ।

[श्रीयुक्त छगनजी कृत]

छंद शार्दूलविक्रीडित ।

आर्या क्षेत्र विहार बोध भवि ये दशग्रीव सुन भ्रातना,
 सम्यक्तादि गुणाष्ट प्राप्ति शिव कर्मारि घाती हना ।

ता भगवान् प्रति प्रार्थना सुध हृदै त्वङ्गक्ति मम वासना,
आव्हानन विमुक्तनाथ तु पुनः अत्राय तिष्ठो जिना ॥

ॐ ह्रीं श्रीवद्वानी चूलिगिरिसे इन्द्रजीत कुम्भकण्ठीदि मुनि
सिद्धपदप्राप्ता अत्र अवतरत अवतरत संवौषट् आव्हाननं । अत्र
तिष्ठत तिष्ठत ठ. ठः स्थापनं । अत्र सम सन्निहिता भवत भवत
चषट मन्निधिकारणं ।

अष्टक ।

गीता छन्द ।

पञ्चम उदधि सम नीर ले, त्रय धार तिन चरणन करा,
चिर रुजग जन्म जरारु अतक, ताहि अब तो परिहरो ।
दशग्रीव अंगज अनुज आदि, श्रृपीश जहँते शिव लहो ।
मो शैल बडवानी निकट गिरिचूलकी पूजा ठही ॥

ॐ ह्रीं श्रीचूलगिरिसिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाथ जलं ।
षति मलय कुमकुम शुद्ध जा, अलिगण न छोडे तासको ।

मो गंध शीतल कंद 'सजे' भव विरह हरु भवतापको ॥दश०॥

ॐ ह्रीं श्रीचूलगिरिसिद्धक्षेत्राय संसारतापविनाशनाथ चदनं ।
शशि वखं खडन मुक्त शाभा, मुक्त नहिं ताकी धरे ।

सो शालि तंदुल करन मंगल, वेग मय चष की हरे-५ दशा॥

ॐ ह्रीं श्रीचूलगिरिसिद्धक्षेत्राय अक्षयपदप्राप्तये अर्चनं निर्व० ।
सुरद्रु म निपज सुरलोकके, बहु वर्ष्य फूल मगाइये ।

अथवा कनक कुल चेल मोगर, चंपकादि चुनाइये ॥दश०॥

ॐ ह्रीं श्रीचूलगिरिसिद्धक्षेत्राय कामवाहविध्वंसनाथ पुष्पं ।

कृत सपकार अनूप छह रस, युक्त अमृत मान जो ।
 सो चारु चरु जिन अग्र धर, निज भूख वेदन टारि जो ॥६०
 ॐ ह्रीं श्रीचूलगिरिसिद्धक्षेत्राय लुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं ।
 बहुमून्य रत्न उद्यातयुत, भय वायु वरजित जो जगे ।
 सो दीप कंचन थाल धर, अरि दष्ट मोहादिक भजे ॥६०॥
 ॐ ह्रीं श्रीचूलगिरिसिद्धक्षेत्राय मोहान्धकारविध्वंसनाय दीपं ।
 दशगंध कृष्णागरु कपूरादिक, सुगंधित लावने ।
 दहि ज्वलन मध्य मनो भवान्तर, सर्वके विधि जालने । ६०
 ॐ ह्रीं श्रीचूलगिरिसिद्धक्षेत्राय अष्टकमदहनाय धूप निर्बं० ।
 सौमनस नंदन वृक्षक युत, मिष्ट ता फल लेयके ।
 ता देखते दृग घ्राण मोहे, मोक्षपुर कूं वेयके ॥ दश० ॥
 ॐ ह्रीं श्रीचूलगिरिसिद्धक्षेत्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं निर्बं० ।
 सजि सौंज आठो होयठाढा, हरष बाढा कथनं विन ।
 हे नाथ भक्तिवश मिलजो, पुर न छूट एक दिन ॥ ६० ॥
 ॐ ह्रीं श्रीचूलगिरिसिद्धक्षेत्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घं नि० ।

जयमाला ।

सोरठा ।

करमन कर चकचूर, बसिय शिवालय जाय तुम ।

मेरी आशा पूर, बहुत दुखी संसारमें ॥ १ ॥

पदरी छंद ।

बंदों श्री पुगल ऋषीश स्वाम, कर कर्मयुद्ध लहि मोक्ष वाम ।

है इन्द्रजीत तुम सत्य नाम, कामेन्द मोहको कियो काम ॥

हो कुंभकर्ण सार्थकहि आप, भवकर्ण ज्ञान तुम कुंभ थाप ।
 कर्मन कृत बंदों गृह मन्थार, बलि वासुदेवने दये डार ॥
 सत ज्ञान वानि सम्यक्त युक्त, जानों सत चारित आप युक्त ।
 विधि रिपु दुस्वदाई मूल ज्ञान, तार्प तमने लैची कमान ॥
 ओ सर्व जीवसों चमा धार, भाई अनुप्रेषा परम सार ।
 तन आदि अखिर दीखें समस्त, है नेहकरन सम कौन बस्त ।
 अशरख न शरख कहूँ जगतमाहि, अहमिन्द्रादिक मृत्यु लहाहि ॥
 भववनमें है नहि सार कुच्छ, तीर्थकर त्यागें जान तुच्छ ॥
 ये जीव भ्रमत एकाकि आप, नहि संग मित्र सुत मात बाप ।
 ये देह अन्य फिर कौन मुज्ज, वश माह परत न हिये मुज्ज ॥
 पल रुधिर पीव मल मूत्र आदि, इनकर निपजी तन होय खाद ॥
 जागनाह चपलता कमे डार, तिन रोक हिये संवर विचार ॥
 तपबल छूटनाविधि करमसुक्ख, तिहुँलोक भ्रमत लहि जीवदुक्ख
 बिन बोध भ्रम्या चहुँमति मन्थार, शिवकर्ता धर्म कदे न धार ॥
 यों पितत बहुजन सार लेय, जिनदीबा धारी हित करेय ।
 अद्वाइस गुख ह्वनि मूल धार, चारों अराधना कुं अराध ॥
 नाना विधि आसन धार धार, तप करत युद्ध विधि मार मार ।
 चउ घाति नाश केवल उपाय, भवि जीव बोधि जिनहुष लगाय
 करके विहार भवि सुक्खमाय, बड़वानी आपे अल्प आय ।
 गिरिचूल तिष्ठ करि कर्मनाश, छिनमें संसार कियो विनाश ॥
 अति आनददायक सिद्धधेन, पूजें भविजीव निजात्म हेत ॥

धन धन्य तिर्नाहको भाग्य जान, तिन पुण्यबंध होव महान॥
 इन्द्रादि आय उत्सव अनूप, कीनो लहि हर्षित भये भूप ।
 ता गिरिकी उत्तर दिशि मझार, रेवा सरिता है पूर्य वार ॥
 ॐ ह्रीं श्रीबड़वानीचलगिरिसे इन्द्रजीत कुंभकर्णादि मुनि सिद्धपद-
 प्राप्तेभ्यो महार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।

घत्ता ।

गिरिराज अनूप पूजे भूपं, तिन भविकूपं जल दीना ।
 यामें शक नाही कर्म नशाही, 'लग्न' मगन होय थात कोना ॥
 इत्याशीर्वादः ।

श्रीसुदर्शनसिद्धक्षेत्रपटनाकी पूजा ।

(बापू पन्नालालजी कृत)

बोहा ।

उत्तम देश बिहार में, पटना नगर सुहाय ।

सेठ सुदर्शन शिव गये, पूजों मन वच काय ॥ १ ॥

ॐ ह्रीं श्रीपटनासिद्धक्षेत्र से सुदर्शन सेठ सिद्धपद प्राप्त अत्र
 अवतर अवतर संबौषट् आब्धाननं । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः
 स्थापनं । अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणम् ।

अष्टक ।

नित पूजोरे माई या श्रावक कुल में आयकें ।

नित पूजोरे माई श्रीपटना नगर सुहावनो ॥

गंगाजल अति शुद्ध मनोहर, सकारी कनक भराई ।

जन्म जग मृत नाशन कारन, द्वारो नेह लभाई ॥ नि०

जंबूद्वीप भरत आरज में, देश विहार सुहाई ।
 पटना नगरी उपवनमें, शिव सेठ सुदर्शन पाई ॥ नि०
 ॐ ह्रीं श्रीपटनासिद्धक्षेत्राय जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं नि०
 चंदन चंद्र मिलायसु उज्ज्वल, केशर संग घिसाई ।
 महक उड़े सब दिशनु मनोहर, पूजों जिनपदराई ॥ नि०
 ॐ ह्रीं श्रीपटनासिद्धक्षेत्राय संसारतापविनाशनाय चंदनं नि० ।
 शुद्ध अमल शशिसम मुक्ताफल, अक्षत पुंज सुहाई ।
 अक्षयपद के कारण भविजन, पूजों मन हरषाई ॥ नि०
 ॐ ह्रीं श्रीपटनासिद्धक्षेत्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतं नि० ।
 पांचों विधिके पुष्प सुगंधित, नमलों महक उड़ाई ।
 पूजा काम विकार मिटावन, श्रीजिनके टिग जाई ॥ नि०
 ॐ ह्रीं श्रीपटनासिद्धक्षेत्राय कामवाणविश्वसनाय पुष्पं नि० ।
 उत्तम नेवज मिष्ट सुधासम, रस संयुक्त बनाई ।
 भूख निवारन कंचन धारन, भर भर देहु चढ़ाई ॥ नि०
 ॐ ह्रीं श्रीपटनासिद्धक्षेत्राय कुष्ठारोगविनाशनाय नैवेद्यं नि० ।
 मनियम भाजन घृतसे पूरित, जगमग जोति जगाई ।
 सब मिल भविजन करो आरती, मिथ्या तिमिर पलाई ॥ नि०
 ॐ ह्रीं श्रीपटनासिद्धक्षेत्राय मोहान्धकारविश्वसनाय दीपं नि० ।
 अमर तगर कपूर सुहावन, द्रव्य सुगंध मैगाई ।
 खेचो धूप धूम से वसुविधि, करम कलंक जराई ॥ नि०
 ॐ ह्रीं श्रीपटनासिद्धक्षेत्राय अष्टकर्मदहनाय धूपं नि० ॥ ७ ॥
 प्ला कला लोंग सुधारी, नरियल फल सुखदाई ।

भर भर पूजों थाल भविकजन, वाञ्छित फल वार्ई ॥ नि०
 ॐ ह्रीं श्रीपटनासिद्धक्षेत्राय मोक्षफलप्राप्तये फलं नि० ॥ ८ ॥
 अष्ट दरव ले पूज रचाओ, सब मिल हर्ष बढ़ाई ।
 भालर घंटा नाद बजाओ, 'पञ्चा' मंगल गाई ॥ नि०
 ॐ ह्रीं श्रीपटनासिद्धक्षेत्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अघ नि० ॥ ९ ॥

जयमाला ।

दोहा ।

सेठ सुदर्शन जे भये, शीलवान गुणस्वान ।
 तिनकी अब जयमालिका, सुनहु भव्य दे कान ॥१॥

पद्वरी छन्द ।

जै सेठ सुदर्शन शीलवंत, जग छाया रही महिमा अनंत ।
 तिनकी कछु मै जैमाल गाय, उर पूज रचाऊँ हर्ष ठाय
 ॥ २ ॥ जै भरतक्षेत्र मधि अंग देश, चंपापुर सोहे तहँ
 विशेष । नृप धात्रीबाहन राज गोह, प्रिय अभयमती सों अति
 सनेह ॥ ३ ॥ तहँ मुख्य शेट इक वृषभदास, तिन शेटानी
 जिनमतिय खास । तिन चाकर भाला सुभग नाम, मुनि
 देखे बन में एक जाम ॥ ४ ॥ सो महामंत्र नवकार पाय,
 अति भयो प्रफुल्लित कहि न जाय । पुनि एक दिवस गंगा
 मंझार, वह दूषत में जापत मंत्र सार ॥ ५ ॥ तुरतहिं भर
 शेट घरे विशाल, सुत भयो सुदर्शन माम्यशाल । सबको
 मुम्बदाई मिष्टवैन, निज कपिल यार संग दिवस रैन ॥६॥

पड़ि खेल कूद भयो अति सजान, तब सेठ मनोरया संग
सुजान । शुभ साइत ज्याह दिवो कराव, सो योगत सुख
अति हर्ष ठाय ॥ ७ ॥ पुनि कञ्जुक काल भीतर सुकंत, सुत
एक भयो अति रूपवंत । तब सेठ सुदर्शन धीरवान, निज
काम करे अति हर्ष ठान ॥ ८ ॥ तब कपिल नारि भासक
होय, घर सेठ बुलाये तुरत सोय । तहँ सेठ नपुंसक मिस
बनाय, निज शील लियो ऐसे बचाय ॥ ९ ॥ जब खबर सुनी
राना तुरंत, मन करी प्रतिज्ञा दीठवंत । मैं भोग करूं वाखूं
सिहाय, तब ही मम जीवन सुफल थाय ॥ १० ॥ इन सेठ
अष्टमी कर उपास, मरघटमें ध्यानारूढ़ खास । तहँ चेली
उनके पास जाय, रानी को हाल दियो सुनाय ॥ ११ ॥ तह
सेठ निरुत्तर देखि हाय, निज कन्धेर्षे धरिके उठाय । फिर
पहुँची रानी पास जाय, उन अचल देख तुरतै रिसाय ॥ १२ ॥
यो खबर करी नृपपास जाय, मो शील बिगारयो सेठ आय ।
यो सुनत वैन नृप क्रोध छाया, मारनको हुक्म दियो सुनाय
॥ १३ ॥ तहाँ करी प्रतिज्ञा शीलवंत, मुनि पदवी धारूं यदि
बचंत । सो देव करी रचा सु आय, पुनि दीक्षित हूँ वनको
सिहाय ॥ १४ ॥ सो करत करत कहु दिन विहार, तब
आये पटना नगर सार । तहँ देवदत्ता वेश्या रहाय, मिस
भोजन मुनि छीने बुलाय ॥ १५ ॥ उन कामधेष्टा कर सिहाय,
अट सेठ लिखे शय्या विराय । लख ऐसो मनमें कर विचार,

उपसर्ग भेद्ये यदि हो निवार ॥१६॥ सम्भवतः कस्तुर्जगदी
 न जाऊँ, वन ही कस्तु करत तपः किराठः । यह देख बेर्या
 निरूपाय, निशि प्रेतभूमि दीने पठाय ॥ १७ ॥ तहं सनी
 व्यंतर जोनि पाय, नाना उपसर्ग क्रियो बनस्य । मुनि
 पुण्यभाव से यक्ष आय, तब लिए सेठ तुरतै बचाय ॥१८॥
 सो कठिन तपस्या कर निदान, भयो सेठ जहां केवल जु
 ज्ञान । सो कहुक काल करके विहार, उन मुक्ति वरी अति
 श्रेष्ठ नार ॥ १९ ॥

वत्ता ।

इक ग्वाल गमारा जप नवकारा, सेठ सुदर्शन तन पाई ।
 सुत लालबिहारी आझाकारी, 'पन्ना' यह पूजा गाई ॥२०॥
 ॐ ह्रीं श्रीपटनासिद्ध क्षेत्राय पूर्णार्घं निर्वपामीति स्वाहा ।
 इत्याशीवादः ।

हस्तिनागपुरक्षेत्रपूजा ।

द्विष्य ह्यन्द । स्थापना ।

प्रथम द्वीप शुभ क्षेत्र भरत दक्षिण दिश काजे ।

आर्य्य खंड मङ्कार देश कुरुजाङ्गल राजै ॥

उत्तम तीर्थ हस्तनागपुर नगर महा जी ।

शांति कुंथु अरनाथ गर्भ तप जन्म लहा जी ॥

भुक्तिथान यह प्रथम जिन थित महिनाथ सम्बद्धकला ।

पावन त्रिषत्तिम भूमिनिस्त, जजन करै 'मन्थ जन्' सकल प

ॐ श्रीगजपुरजिनालयजिनेभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाथ जल
संबोधत आह्वानन । अत्र विद्यत विद्यत ः ः स्थापनं । अत्र मत्त
सन्निहिता भवत भवत वष्ट सन्निधिकरणम्

अष्टक ।

बाल नन्दीरवराष्टक ।

जल सुभग सुरसरीन्याय हाटक कुम्भ मरा,

त्रयधार ढार सुखदाय जरमर जन्म जरा ।

श्री गजपुर नगर सुथान श्री जिन चैत्य महा,

सुर नर नित बंदत आन भव तज मोक्ष लहा ॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपुरजिनालयजिनेभ्यो जन्मजरामृत्युविनाशनाथ जल
चदन कपूर घिसाय कुंकुम संग रला ।

प्रभु पद पूजूं हर्षाय भव आताप दला ॥श्री गजपुर० ॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपुरजिनालयजिनेभ्यो चन्दन नि० ।

वर उत्तम अक्षत श्वेत शशि सम अनियारे ।

जिनवर दिग पुंज करेय अक्षत विधि धारे ॥ श्रीगजपुर० ॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपुरजिनालयजिनेभ्यो अक्षत ।

पण वण सुमन्ध अनूप कुसुम विविध लाये ।

मनमथ मद हर जमभूप लख पूजन आये ॥श्री गजपुर०॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपुरजिनालयजिनेभ्यो दुग्ध नि० ।

मोक्षक बहु सरस सुहाल गुंजा मिष्ट सुधा ।

नेवज कीजे तत्काल नासै रोग सुधा ॥ श्री गजपुर० ॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपुरजिनालयजिनेभ्यो नैवेद्य नि० ।

महि दीपक ज्योतिः जगत् अहहृत् उजियारे ।

मिथ्यातम मोह यलाय निज गुण विस्तारे ॥श्रीगजपुर०॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपुरजिनालयजिनेभ्यो दीपं नि० ।

अष्टांग दशांग सुषूर गंध हुताशन में ।

खेऊं जिनराज हजूर विघ्न अरि नाशन में ॥ श्रीगजपुर०॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपुरजिनालयजिनेभ्यो धूपं नि० ।

श्रीफल बादाम छुहार पुंगी दाख खर ।

एलादिक फल अविकार सुवरण थाल भरे ॥श्रीगजपुर०॥

ॐ ह्रीं श्रीगजपुरजिनालयजिनेभ्यः फलं नि० ।

हरगीता छन्द ।

शुभ गंधवारि अखंड अक्षत पुष्प नेवज धूप जी,

बर दीप उत्तम फल मिलाय बनाय अर्घ अन्नप जी ।

जिननाथ चरखाम्बुज सदा भवि जजो चित हर्षाय,

भर थार जटित जवाहर निशदिन शुद्ध मन वच काय जी ॥

ॐ ह्रीं हस्तिनागपुरक्षेत्रस्थजिनालयजिनभ्यो अर्घं नि० ।

जयमाला ।

दोहा ।

बारण पुरवर क्षेत्र की, अर्चन कर हितकार ।

अब जयमाला तास की, सुनो सुबुध चित धार ॥१॥

पदरी छन्द ।

यह प्रथम जिनन्द्र आहार नग्न, दानीपति भूप श्रेयांस अग्र ।

षोडश सतरा अठदश जिनेश, त्रय कन्याखक पजे सुरेश ॥

अरु समवशरख थित मङ्गिदेव, अरु पांडुभूप ह नग्न एव ।

तहां मघवा आये बार बार, सज सेन अमरखुत सपरिवार ॥

अद्भुत रचना हरि करी सार, बहु स्तनवृष्टि नाटक अपार ।
 कर कर सहस्रहृदय देव ईश, नाटे नटवाचत नाय शीश ॥
 तिस क्षेत्रतनी महिमा महान, को बर्षासके कवि स्वल्पज्ञान ।
 श्री जिनमन्दिर राजत उतङ्ग, अरु शिखर कलश बहु धुज सुरङ्ग ॥
 बन महा विकट निर्भय विकार, तरु पुष्प बेल फल फलत सार
 है कूप नीर जुत मिष्ट मिष्ट, बहु घर्मशाल तहां इष्ट इष्ट ॥
 नितप्रति निशिदिन भवि जजन हेत, घर उर प्रमोद संघनसमेत
 कर अर्चन श्रीजिनचद्रईश, ते लहत पुण्य अति शुभगरीश ॥
 बहत बन में तप टोकजाय, मन वचन काय आनन्द पाय ।
 यह अतिशय बरनन सदाकाल, सब टरत त्रिघन अघके जंजाल
 कातिक शुक्ला पूनम सुजोय, उत्सव यात्रा प्रति बर्ष होय ।
 आवत आवक बहु देश देश, चदि चदिबाहन सजि सर्वभेस
 रथ गजारूढ जिनविम्ब सार, मङ्गल जय जय जय जय उचार
 बहु भक्ति करत गुण गाय गाय, निरतत संगीतादिक रचाय ॥
 ह्य ताल धुरज धुन करत घोर, संसागृदि सारङ्गी तान शोर ।
 करतल बजत टनटन ननाय, बीना तन नननन तन ननाय ॥
 सैनाय बांसुरी शब्द तूर, सैतार सुरावर भवन पूर ।
 थेई थेई गत नाचत मनुज नार, आवत मङ्गल गुण गण अपार
 मनु आनन्दघरभर लग्योआय, मिध्यातकलुष ततच्छिख पलाय
 प्राकृत सम्यक्त गुण निजाधीन, सरघाजुत शंकादिक विहीन ॥
 नरके प्रसाद नर स्वर्ग जाय, अनुक्रम शिवपुर को राजबाय ॥

यह जानत सुबुध नित नमन ठान, अलख कीजे तनु-बुन-बुन-बुन-बुन-
 हम यह निशि वंदत है त्रिकाल, अय बोध जुमतकर-शर-भु-भाल
 मन बांछित तरुफल है प्रत्यक्ष, है चेत्र जवाहर दानदत्त ॥

दोहा ।

गजपुर तीरथ राज की, महिमा अगम अपार ।

सुनत लखत परसत बढ़त संचय पुण्य भंडार ॥१६॥

महार्घ ।

जो पूजै जिन पद कमल, गजपुर चेत्र सुजाय ।

धर्म अर्थ लहि काम जुत, मोक्ष रमन सुख पाय ॥१७॥

इत्याशीर्वाद ।

पंचपरमेष्ठी की आरती ।

इहिविधि मंगल आरति कीजै, पंच परमपद भज सुख
 लीजै ॥ टेक ॥ पहली आरति श्रीजिनराजा, भवदधिपार-
 उतार जिहाजा ॥ इहिविधि० ॥१॥ दूसरि आरति सिद्धन-
 केरी, सुमरनकरत मिटै भवफेरी ॥ इहिविधि० ॥२॥ तीजी
 आरति सूर मुनिदा, जनममरनदुख दूर करिंदा ॥ इहिविधि०
 ॥ ३ ॥ चौथी आरति श्रीठवभाया, दर्शन देखत पाय
 पलाया ॥४॥ पांचमि आरति साधु त्रिहारी, कुमतिविना-
 शन शिव अधिकारी ॥ इहिविधि० ॥५॥ छट्ठी ग्यारहप्रतिमा
 धारी, भावक भदों आनंदकारी ॥ इहिविधि० ॥६॥ सातमि
 आरति श्रीजिनवानी, 'धानत' सुरगमुकति सुखदाना ॥

इहर्विधि मंगल आरति कीजै, पंच परमपद भज मुख
।स्त्रीजै ॥ ७ ॥

आरती श्रीजिनराजकी ।

आरति श्रीजिनराज तिहारी, करमदलन संतन हित-
कागी ॥ टेक ॥ सुरनरन्धसुर करत तुम सेवा, तुमही सब
देवनके देवा ॥ आरति श्री० ॥१॥ पंचमहाव्रत दुद्धर धार,
रागराष परिणाम विदारे ॥ आरति श्री० ॥२॥ भवभय भीत
शरन जे आये, ते परमारथपथ लगाये ॥ आरति श्री० ॥३॥
जा तुम नाथ जपै मनमार्ही, जनसमरनभय ताको नार्ही ॥
आरति श्री० ॥ ४ ॥ समवसरनसपूरन शाभा, जीते क्रोध-
मानछललोभा ॥ आरति श्री० ॥ ५ ॥ तुम गुण इम कैसे
कार गावैं, गणधर कहत पार नहि पावैं ॥ आरति श्री० ॥
६ ॥ कुरुषासागर कुरुषा कीजे, 'दानव' सेवकको सुख
कीजे ॥ आरति श्री० ॥ ७ ॥

। आरती श्रीमुनिराजकी ।

आरति कीजै श्रीमुनिराजकी, अधमउधारण आरतकाल-
की ॥ आरति० ॥ टक ॥ जा लक्ष्मीके सब अभिलाषी,
सो साधुन कर्दमवत् नास्ती ॥ आरति० ॥ १ ॥ सब जष
जीत लियो जिन नारी, सो साधुन नासिन्वित आती ॥
आरति० ॥ २ ॥ विषयन सब जगजिय बश कीने, ते
साधुन विषवत तज दीने ॥ आरति० ॥३॥ मुनिको राज

चहत सब प्रानी, जीरन तृणवत त्यागत ध्यानी ॥ आरति०
 ॥४॥ शत्रु मित्र सुखदुख सम मानै, लाभ भलाअबराबर जानै
 आरति० ॥ ५ ॥ छहों कायरचाप्रत धारै, सबको आप
 समान निहारै ॥ आरति० ॥६॥ इह आरति पढै जो गावै,
 'द्यानत' सुरगमुकति सुख पावै ॥ आरति० ॥

चौथी आरती ।

किस विधि आरति करौ प्रभु तेरी, आतम अकथ जस
 बुध नहिं मेरी ॥ टेक ॥ समुदविजयसुत रजमति छारी,
 यों वहि धुति नहि होय तुम्हारी ॥ १ ॥ काट स्तम्भ वेदि
 छवि सारी, समोशरथ धुति तुमसे न्यारी ॥२॥ चारि ज्ञान
 युत तिनके स्वामी, सेवकके प्रभु अन्तर्यामी ॥ ३ ॥ सुनके
 वचन भविक शिव जाहीं, सो पुदगलमें तुम गुण नाही ॥४॥
 अतम ज्योति समान बताऊँ, रवि शशि दीपक मूढ कहाऊँ
 ॥५॥ नमत त्रिजगपति शोभा उनकी, तुम सोभा तुममें निज
 गुणकी ॥६॥ मानसिंह महाराजा गाधे, तुम महिमा तुमही
 बन आवे ॥७॥

निश्चय आरती ।

इह विधि आरति करौ प्रभु तेरी, अमल अबाधित निज
 गुणकेरी ॥ टेक ॥ अचल अखंड अतुल अभिनाशी, लोक-
 लोक सकल परकाशी ॥ इहविधि० ॥ १ ॥ ज्ञानवरशसुखवल
 धारी, परमात्म अविकल अविकारी ॥ इहविधि० ॥२॥

क्रोधआदि रागादिक तेरे, जन्म जरामृतु कर्म न नेरे ॥इहविधि०
 ॥ ३ ॥ अबगु अर्चघकरख सुखरासी, अभय अनाकुल शिव
 पदबासी ॥ इहविधि० ॥ ४ ॥ रूप न रेख न भेख न कोई,
 चिन्मूरति प्रभु तम ही होई ॥ इहविधि० ॥ ५ ॥ अलख
 अनादि अनंत अरोगी, सिद्धविशुद्ध सुभातममोनी ॥इहविधि०
 ॥६॥ गुन अनंत किम वचन बतावै, दीपचंद भवि भावन
 भावै ॥ इहविधि० ॥ ७ ॥

आरती आत्मा

करौ आरती आतम देवा, गुणपरजाय अनंत अभेवा
 ॥ टंक ॥ जामें सब जग जे जगमाहीं । वसत जगतमें जग-
 सम नाही ॥ करौं ॥ १ ॥ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ध्यावै ।
 साधु सकल जिसके गुण गावै ॥ करौं ॥ २ ॥ बिन जाने
 जिय चिरभव डाले । जिहूँ जानें ते शिवपट खोले ॥ करौं ॥
 ३ ॥ अती अमती बखण्योहारा । सा तिहुं कालकरंमसों न्यारा ॥
 करौं ॥ ४ ॥ गुरुशिष उभय वचनकरि कहिये । वचना-
 तीत दशा तस लहिये ॥ करौं ॥ ५ ॥ स्व परभेदका खेद
 उखेदा । आप आपमें आप निवेदा ॥ करौं ॥ ६ ॥ सी
 परमातम शिव-सुख दाता । होहि 'विहारीदास' विख्याता ॥
 करौं आरती आतम देवा, गुणपरजाय अनंत अभेवा ।

आरती श्री वर्द्धमानजी

करौं आरती वर्द्धमानकी, पावापुर निर्वाण धानकी ।

करौं ॥ टेक ॥ राम-विना सब जग जन तारे, शेष विना
 सब करम विदारे ॥ करौं ॥ १ ॥ शील धुरंधर शिव तिस-
 भोगी, मधवचक्रायन कहिये योगी ॥ करौं ॥ २ ॥ रत्नत्रय
 निधि परिग्रह-हारी, ज्ञानसुधा भोजन प्रतधारा ॥ ३ ॥ लोक
 अलोक व्याप निजमाहीं, सुखमें इन्द्री सुख दुख नाहीं ॥४॥
 पंच क्रन्यास पूज्य विरागी, विमल दिगम्बर अम्बर
 त्यागी ॥ ५ ॥ गुह्यमनि भूषण भूषित स्वामी, तीन लोक
 के अन्तरयामी ॥६॥ कहैं कहाँ लो तुम सब जाना, दान-
 लकी अभिलाष प्रमानो ॥ ७ ॥

भारती

समल भारती आतमराम, तन मंदिर मन उद्यम ठाम
 ॥ टेक ॥ सम रस जल चन्दन आनन्द, तन्दुल ताप स्वरूप
 अमंद ॥ १ ॥ समयसार फूलनिकी माला, अनुभव सुख
 नेवज भरि थाला ॥ २ ॥ दीपक ज्ञान ध्यानकी धूप, निर-
 मल भाव महाफल रूप ॥ ३ ॥ सुगुण भविक जन इकरम
 लीन, निहचे नवधाभक्ति प्रवीन ॥ ४ ॥ धुनि उस्सखसु
 अनहद गान, परम समाधि निरत परधान ॥ ५ ॥ बाहिष
 आतमभाव बहावे, अन्तर हूँ परमात्म ध्यावै ॥६॥ साहिष
 सेवक भेद मिटाई, दानत एक भेष हो जाई ॥ ७ ॥

ग्रन्थमाला क मरुकर



दया दापर प्रकाश जा ऐन

म३३

ला० मुलतान सिंह जा सानोपत निरासी
पहाडा धीरज, देहली ।

श्रीजैन सिद्धान्त ग्रन्थमाला —

पहाड़ी धीरज, देहली —

संसार में ज्ञान के समान सुख देने वाला कोई पदार्थ नहीं है। वह ज्ञान जिनवाणी अथवा जैन साहित्य के द्वारा ही मिलता है। श्री जिनेन्द्र देव की वाणी ही जन साहित्य है और वह तीर्थंकर के समान ही महान् पूज्य है।

वर्तमान में जिनवाणी के उद्धार की अत्यन्त आवश्यकता देखकर उसका उद्धार करने और जन वाणी का सारे संसार में प्रचार करने के उद्देश्य से ही “श्री जैन सिद्धान्त ग्रन्थमाला” स्थापित की गई है।

इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:—

- १—प्राचीन अप्रामाण्य जैन ग्रन्थों की खोज करके उन को छपवाना।
- २—प्राकृत तथा संस्कृत के उपयोगी ग्रन्थों का सशोधन तथा सरल भाषा में अनुवाद करा कर छपवाना।
- ३—प्राचीन जैन आचार्य तथा लेखकों का इतिहास तैयार करना और उनके लिखे उपयोगी साहित्य का प्रकाशन करना।
- ४—जैन तथा अजैनों को जैनधर्म का सरलता से बोध कराने वाली पुस्तकों का प्रकाशन करना।
- ५—नवीन जैन साहित्य को छपवाकर धर्म का प्रचार करना।

कार्यकारी मेंडल के सदस्य

सभापति— श्रीमान् ज्ञान मनोहरलाल जी जौहरी देहली

उपसभापति— ,, पं० अजितकुमारजी शास्त्री

— “मुल्लतान् बीले”

मन्त्री—	”	डा० फूलचन्दजी पहाड़ीधीरज देहली
उपमन्त्री—	”	ला० प्रेमचन्दजीजैन (फर्म ला० भीराम बुध्दूमलजी सरसक)
प्रकाशनमन्त्री—	”	पं० हीरालालजी जैन “कौशल” (साहित्यरत्न, शास्त्री, न्यायतीर्थ)
कोषाध्यक्ष—	”	ला० राजेन्द्रप्रसादजी जैन (फर्म ला० प्यारेलाल जगन्नाथजी) देहली
सदस्य—	”	डा० दयादीपकप्रकाशजी सोनीपत बाले
”	”	डा० महावीर प्रसादजी B.Sc. (सुपरिन्टेन्डेन्ट फ़ीकल्चर विभाग)
”	”	श्री० मुलतान सिंहजी
”	”	ला० कालूरामजी (फर्म ला० कुन्जलाल कुन्दनलालजी नयाबाजार देहली)
”	”	ला० आशानन्दजी मुलतान बाले (फर्म भोलाराम श्रुषभ दासजी देहली)
”	”	ला० मंगत रावजी स्याह्यादी देहली
”	”	डा० वशेश्वरनाथजी रोहतकवाले मैनेजर राजेन्द्र आर्सेल एण्ड कोल्ड स्टोरेज देहली
”	श्रीमान्	ला० सप्तमचन्दजी रोहतकवाले
”	”	ला० सुलतानसिंहजी जैन देहली
”	”	ला० इन्द्रसैनजी देहली
”	”	ला० शिखरचन्दजी
”	”	ला० जयचन्दजी “मस्त” देहली
”	ला०	ला० रतनलाल जी बजाज देहली

२ सदस्यों का स्थान अभी खाली है ।

सहायकपद

संरक्षक—२५१) एक मुरत प्रदान करने वाले महात्मुभाव होंगे। जिस पुस्तक के छपने से पहले जो संरक्षक बनेंगे उनका विषय उस पुस्तक में दिया जायगा तथा ग्रन्थमाला से प्रकाशित हुये ग्रन्थ और आगे प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ की १०-१४ प्रतियाँ भेंट की जावेंगी।

विरोधसहायक—१०१) एक मुरत प्रदान करने वाले महात्मुभाव होंगे और उनको ग्रन्थमाला से प्रकाशित ग्रन्थों की ४-४ प्रतियाँ भेंट ही जावेंगी।

सहायक—५१) एक मुरत प्रदान करने वाले महात्मुभाव होंगे और उनको ग्रन्थमाला से प्रकाशित ग्रन्थों की २-२ प्रतियाँ भेंट ही जाया करेगी।

आजीवन सदस्य—२५) एक मुरत प्रदान करने वाले महात्मुभाव होंगे और उनको ग्रन्थों की १-१ प्रति भेंट ही जाया करेगी।

संरक्षक, विरोधसहायक, सहायक तथा आजीवन सदस्यों की नामावली हर ग्रन्थ में प्रकाशित हुष्या करेगी।

इसके सिवाय जो महात्मुभाव उपरोक्त रकम से कम की सहायता देंगे अथवा अपनी ओर से कोई पुस्तक छपकर ग्रन्थमाला को भेंट करना चाहेंगे वह भी सहर्ष स्वीकार की जावेगी।

संरक्षक

१. बा० द्वादीपक प्रकाश सोबीपत मिश्राजी।
२. ला० नन्देमल जैनचन्द जी रईया।
३. ला० पद्मचन्द शिखरचन्द।

विशेष संहोत्रक

१. ला० कुंज लाल कुन्दनलाल ।
२. ७७ रघुवीरसिंह प्रेमचन्द (जैना वाच क०)
३. ७७ महावीरप्रसाद पन्ड सन्स ।
४. ७७ भोळाराम ऋषभदास मुलतानवाले ।
५. सेठ परमानन्द मन्त्री जैन शिक्षा प्रचारक सोसायटी ।
६. मातेश्वरी ला० राजेन्द्रकुमार जैन वैकर मिलधौ नर नई दिल्ली

सहायक

- १ श्री मुन्शी उमरावसिंह महावीरप्रसाद
२. ७७ विशम्बरदास पन्ड सन्स
३. ७७ निरंजनदास बजभाथ
४. ७७ श्रीराम बुद्धमल सराफ
५. ७७ जयनारायण अनीपतवाले
६. ७७ डा० कैलाशचन्द (राजा टोय क०)
७. ७७ इन्द्रसेन ब्रलाल
८. ७७ फन्नालाल जैनी अर्दर्स (चाँदनी चौक देहली)
९. ७७ सेठ सुन्दरलाल सुरेन्द्रकुमार बीबीवाले
१०. ७७ सुखानेन्द शंकरदास मुलतानवाले
११. ७७ मनोहरलाल मोतीलाल जोहरी
१२. ७७ प्यारेलाल जगभाथ बजाज
१३. ७७ रीतलप्रसाद महावीर प्रसाद बृष
१४. ७७ सुन्दरलाल कोयलेवाले
१५. ७७ नन्हेमल फन्नालाल कसेरे



श्रीमती स्वर्गीय मेठानी धापा देवी जी

* धर्मपत्नी *

ला० नन्हें मल जी पहाड़ी धीरज, देहली।

(ग्रन्थ माला के संरक्षक श्री ला० नेम चन्द जी की माता जी)

॥ १६ ५ ॥ १४ ॥ पञ्जाशा
 C नन्दन डई फ़िल्ल
 टैली फोन P. १००
 कटा। अर सिंह

३०५०॥



श्री स्मृतीय ला० भाला नाथ जा जन

(सजानवा १९३२ २५ २ ल)

पहाडी धीरज, दहला।

(प्रथमान्ना क सरसक ला० पदम च न चा न ए न्ना)

आजीवन सदस्य

१६. श्री डा० फूलचन्द जैन
१७. " तुलनमल जैन
१८. " न्यादरमल गोविंदप्रसाद कासम्बवाले
१९. " बाबूराम हीरालाल सुतवाले
२०. " मोहनलाल श्रीपाळ
२१. " हजारीलाल मुलतानसिंह
२२. " हेमचन्द नेमचन्द कलकसेवाले
२३. " जैन क० सुतवाले
२४. मंगतराय स्याद्वादी
२५. मोती ब्रादर्स आगरेवाले
२६. वरोधर नाथ रोहतकवाले
२७. फूलचन्द पदमचन्द पाटनी
२८. " वसतलाल ललिताप्रसाद आगरेवाले
२९. " करमचन्द जैन
३०. " खुशीराम चन्दलाल जैन
३१. " करमीरीलाल सावलदास जी
३२. " लालचन्द साईकिलवाले
३३. " श्रीलाल भदनलाल
३४. " जयालाल अजितप्रसाद मिश्र
३५. " चौथराम जयकुमार मुलतानवाले
३६. " बुद्धामल रामजीलाल (फिरोजपुर)
३७. " धासीराम गुहानेवाले
३८. " सुरजभान श्रीकिसन
३९. " गिहकरमल जैन
४०. " दावीर प्रसाद (श्लोकफार्मिटी)

४१. श्री मुन्शीलाल पंडे सन्स
 ४२. " बालकिशनदास पद्मचन्द (आगरा)
 ४३. " रसकीमल गुलाबचन्द (आगरा)
 ४४. " मकलनलाल मिसरीलाल
 ४५. " वासुदेवप्रसाद महेन्द्रकुमार रईस (दुर्गछा)
 ४६. " पं० अजितकुमार शास्त्री मुलतानवाले
 ४७. " जयचन्द "मस्त", पानीपत वाले
 ४८. " कपूरचन्द धूपचन्द (कानपुर)
 ४९. " चुनीलाल शान्तिप्रसाद बजाज
 ५०. " प्रेमचन्द B. Sc. "नरतर"
 ५१. " प्रकाशचन्द शीलचन्द्र सराफ
 ५२. " मोतीलाल मार्फत महावीर प्रसाद एण्डसन्स
 ५३. " चतरसेन मा० महावीर प्रसाद एण्डसन्स
 ५४. " न्यादरमल अमरनाथ कासनवाले
 ५५. " सरदारीलाल त्रिलोकचन्द
 ५६. " रामकिशनदास नेमचन्द कागजी
 ५७. " खजांचीमल मालिक नेहरू होजरी फैक्टरी
 ५८. " कुडियामल बनारसीदास सूत वाले
 ५९. " सुमति प्रसाद जैन सराफ
 ६०. " बाबूराम हीरालाल इक्रीम
 ६१. " बाबूलाल विमलप्रसाद बिजलीवाले
 ६२. " प्रकाशचन्द स्याहीवाले
 ६३. " गिरीलाल त्रिलोकचन्द दरीवा
 ६४. " डा० प्रकाशचन्द (हैदिस)
 ६५. " रतनलाल भादीपुरिये
 ६६. " सीमन्धरदास मोदीलाल कपडेवाले

६७. श्री भोलाराम रगूलाल सुलतानवाले
 ६८. " आसाराम रोहतकवाले
 ६९. " मदनलाल सराफ रोहतक वाले
 ७०. " राजकिरान हरीचन्द दरियागंज
 ७१. " डा० राजबहादुर जैन
 ७२. " पीतमचन्द महावीरप्रसाद आगरेवाले
 ७३. " निर्मल कुमार जैन पानीपतवाले
 ७४. " डिप्टीमल नेमचन्द
 ७५. " उलफतराय जैन परमिट ओफीसर
 ७६. " सुमतप्रसाद जैन सराफ
 ७७. " दीपचन्द जोतीप्रसाद लोहेवाले बड़ौत
 ७८. " नेमचन्द सुरेशचन्द सुलतानपुरवाले (सहारनपुर)
 ७९. " सागरचन्दजी रोहतकवाले (डिप्टीगंज)
 ८०. " वीरेन्द्र कुमार जैन (फरुक्खाबाद)
 ८१. " सेठ छवामीलाल जैन (फरीदकोट)
 ८२. " किशोरीलाल B.कोथ संक्षीमन्धी
 ८३. " जयन्तीप्रसाद बहसुसुन्दवाले
 ८४. " जग्गीबल जयचन्द D c.m.
 ८५. " किसनलाल उम्मेदकुमार जैन
 ८६. " दीपचन्द महावीरप्रसाद
 ८७. " धरम दास अतरसेन
 ८८. " श्री हुन्डीलाल श्यामबिहारीलाल
 ८९. " सोहनलाल ज्ञानचन्द कामनवाले
 ९०. " अतरचन्द जैन B.Sc. सुपरि, कृषि मंत्रालय
 ९१. " सूरजभान सुलतानचन्द
 ९२. " फूलचन्द कस्तूरचन्द
 ९३. " हेमचन्द सुशीलकुमार

६४. श्री स्त्री समाज मन्दिर पहाड़ीधीरज
 ६५. " स्त्री समाज मन्दिर डिप्टीरज
 ६६. " श्रीमती रामप्यारी हैडमिस्ट्रैस
 ६७. " " गणेशीबाई मुलतानवाली
 ६८. " धर्मपत्नी मट्टोमल
 ६९. " " डा० चन्द्रभान
 १००. " " अतरसेन
 १०१. " " मोतीराम
 १०२. " " रामचन्द्र
 १०३. " " गिरधारीलाल
 १०४. " " दरोगालाल सूत वाले
 १०५. " " चावारी लाल (रेवाड़ी)
 १०६. " " मक्खनलाल फिरोजीलाल सोनीपत निवासी ।

जिनवाणी के उद्धार और उसके प्रचार का कठिन कार्य "श्री जैन सिद्धान्त ग्रन्थमाला" ने अपने ऊपर लिया है। इसको तन, मन, धन, से सहायता करना जैन समाज का धर्म है। इसमें सहायता देने से बश और पुण्य के साथ २ जैन वाणी के उद्धार का महान पुण्यलाभ होगा इसलिये समाज से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक इस ग्रन्थमाला के सरक्षक, विरोध सहायक, सहायक तथा आजीवन सदस्य बन कर उपयोगी ग्रन्थों के प्रकाशन और धर्म प्रचार में पूरा सहायता दें।

ग्रन्थमाला संबंधी पत्रव्यवहार निम्न लिखित पते पर कीजिये ।

मवदीय,

डा० फूलचन्द्र जैन

मन्त्री—श्री जैन सिद्धान्त ग्रन्थमाला, पहाड़ी धीरज, देहली ।

“श्री चौबीस तीर्थंकर के पंच कल्याणक”

हर एक श्रावक नीचे लिखे दिनों में जरूर पूजन और स्वाध्याय करे क्योंकि ऐसा करने से पुण्य और लाभ को प्राप्ति होती है।

नं०	नाम तीर्थंकर	गर्भ	जन्म	तप	ज्ञान कल्याण	मोक्ष
१	श्री आदिनाथ जी (श्री ऋषभदेव)	आधाढ़ कृष्ण	चैत बदी ६	चैत बदी ६	फागुन बदी ११	माघ बदी १४
२	“ अजितनाथ जी	जेठ बदी, १५	माघ सुदी १०	माघ सुदी १०	पौष सुदी ४	चैत सुदी ५
३	“ शशबनाथ जी	फागुन सुदी ८	कार्तिक सुदी १५	मगसिर सुदी १५	कार्तिक बदी ४	चैत सुदी ६
४	“ अभिमन्दननाथ जी	वैशाख सुदी ६	माघ बदी १२	माघ सुदी १२	पौष सुदी १४	वैशाख सुदी ६
५	“ सुमतिनाथ जी	सावन सुदी २	चैत्र सुदी ११	चैत सुदी ११	चैत सुदी ११	चैत सुदी ११
६	“ पद्म प्रभ जी	माघ बदी ६	कार्तिक सुदी १३	कार्तिक सुदी १३	चैत सुदी १५	फागुन बदी ४
७	“ सुपारवनाथ जी	आदों सुदी ६	जेठ सुदी १२	जेठ सुदी १२	फागुन बदी ६	फागुन बदी ७
८	“ चन्द्रप्रभ जी	चैत बदी ५	पौष बदी ११	पौष बदी ११	फागुन बदी ७	फागुन सुदी ७
९	“ दुष्पहत जी	फागुन बदी ६	मगसिर सुदी १	मगसिर सुदी १	कार्तिक सुदी २	आश्विन सुदी ८
१०	“ शीतलनाथ जी	चैत बदी ८	माघ बदी १२	माघ बदी १२	पौष बदी १४	आश्विन सुदी ८

नं०	नाम तीर्थंकर	गमो	जन्म	तप	ज्ञान कल्याण	मोक्ष
११	श्री श्रेयांसनाथ जी	जेठ बदी ८	फागुन बदी ११	फागुन बदी ११	माघ बदी १	सावन सुदी १५
१२	वासुपूष जी	असाढ़ बदी ६	फागुन बदी ११	फागुन बदी १४	भाद्रपद बदी	भाद्रपद सुदी १४
१३	विमलनाथ जी	जेठ बदी १०	माघ सुदी १४	माघ सुदी १४	माघ सुदी ६	असाढ़ बदी ६
१४	अनन्तनाथ जी	कार्तिक बदी १	जेठ बदी १२	जेठ बदी १०	चैत्र बदी १५	चैत्र बदी ४
१५	धर्मनाथ जी	वैशाख सुदी ८	माघ सुदी १३	माघ सुदी १३	पौष सुदी १५	जेठ सुदी १४
१६	रान्तिनाथ जी	भाद्रपद बदी ७	जेठ बदी ४	जेठ बदी १४	पौष सुदी १०	जेठ बदी १४
१७	कुंथुनाथ जी	सावन बदी १०	वैशाख सुदी १	वैशाख सुदी १	चैत्र सुदी ३	वैशाख सुदी १
१८	अरनाथ जी	फागुन सुदी ३	मगसिरसुदी ४	मगसिरसु० १४	कार्तिक सुदी १०	चैत्र सुदी ११
१९	मङ्गलनाथ जी	चैत्र सुदी १	मगसिरसुदी ११	मगसिरसु० १५	गोष बदी २	फागुन सुदी ५
२०	सुनिमुप्रतनाथ जी	सावन बदी ८	वैशाख ८० १०	वैशाख बदी १०	वैशाख बदी ६	फागुन बदी १२
२१	नमिनाथ जी	असोज बदी २	असाढ़ बदी १०	असाढ़ बदी १०	मगसिरसु० ११	वैशाख बदी १४
२२	नेमिनाथ जी	कार्तिक सुदी ६	सावन सुदी ६	सावन सुदी ६	असोज सुदी ५	असाढ़ सुदी ८
२३	परबनाथ जी	वैशाख बदी २	पौष बदी ११	पौष बदी ११	चैत्र बदी ४	सावन सुदी १
२४	श्री महावीर जी	असाढ़ सुदी ६	चैत्रसुदी १३	मगसिरसु० १०	वैशाख सुदी १०	कार्तिक बदी १५

मेरी चाह ।

मैं देव नित अरहंत चाहूँ, सिद्ध का सुमिरन करों ।
मैं सूरि गुरु मुनि तीन पद ये, साधुपद हिरदय धरों ॥
मैं धर्म करखामथ जु चाहूँ, जहाँ हिंसा रंच ना ।
मैं शास्त्र ज्ञान विराग चाहूँ, जासुमें परपंच ना ॥ १ ॥

चौबीस श्रीजिनदेव चाहूँ, और देव न मन बसै ।
जिन बीस शैत्रविदेह चाहूँ, बंदिते पातक नसै ॥
गिरनार शिखर समेद चाहूँ, चंपापूर पावापुरी ।
बेंलास श्रीजिनधाम चाहूँ, भजत भाजै भ्रमजुरी ॥ २ ॥

नवतत्वका सरधान चाहूँ, और तत्व न मन धरों ।
पट्द्रव्यगुन परजाय चाहूँ, ठीक तासों भय हरोँ ॥
पूजा परम जिनराज चाहूँ, और देव न हूँ, सदा ।
तिहुँकाल की मैं जाप चाहूँ, पाप नहिं लागै कदा ॥ ३ ॥

सम्यक्त दर्शन ज्ञान चारित, सदा चाहूँ, भाव सों ।
दशलक्षणी मैं धर्म चाहूँ, महा हरष उद्भावसों ॥
सोलह जु कारण दुख निवारण, सदा चाहूँ, प्रीतिसों ।
मैं नित अठार्ह पर्व चाहूँ, महामंगल रीति सों ॥ ४ ॥

मैं वेद चारों सदा चाहूँ, आदि अन्त निवाहसों ।
गाये धरम के चार चाहूँ, अधिक चित्त उद्भावसों ॥
मैं दान चारों सदा चाहूँ, भवनवशि लाहो लहूँ ।
आराधना मैं चारि चाहूँ, अन्त में ये ही गहूँ ॥ ५ ॥

भावना बारह जु भाऊँ, भाव निरमल होत हैं ।
मैं व्रत जु बारह सदा चाहूँ, त्याग भाव उद्योत हैं ॥

प्रसिमा दिगंबर सदा चाहूँ, ध्यान आसन सोहना ।
 वसुकर्म तें मैं छुटा चाहूँ, शिव लहूँ, जहाँ मोह ना ॥
 मैं साधुजन को संग चाहूँ, प्रीति तिन्ही सों करी ।
 पर्व के उपवास चाहूँ, अवर आरंभ परिहरोँ ॥
 इस दुषम पंचम काल माही, कुल भावक मैं लह्यो ।
 अरु महाप्रत धरि सकों नाही, निबल तन मैंने गह्यो ॥ ७ ॥
 आराधना उत्तम सदा चाहूँ, सुनो भी जिनरामजी ।
 तुम कृपानाथ अनाथ 'दानत' दया करना न्यास-जी ॥
 वसुकर्मनारा विकारा ज्ञानप्रकाश मोकों कीजिये ।
 करि सुगतिगमन समाधिसरन सुभक्ति चरनत दीजिये ॥ ८ ॥

भजन

स्वामी मेरे रे, कर्मों के बन्धन तोड़ दे ॥ १ ॥
 ध्यान की कमानी, तीर ज्ञान का बनाय कर
 मोह बैरी को, निशाना करके फोड़ दे ॥ १ ॥
 हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह, पाँच
 दुख दाईं रे, पापों का मुँह मोड़ दे ॥ २ ॥
 सुमत्त, विवेक, लज्जा, दया, क्षमा, शीलप्रत
 जप तप रे, संयम से नाता जोड़ दे ॥ ३ ॥
 मक्खन अपार, भव सिन्धु से उभार पार ।
 सुख मई रे, मुक्ति में जाकर छोड़ दे ॥ ४ ॥

(महावीरचरितम्)

卐 आरती श्री महावीर प्रभो 卐

तर्जः (प्रोथम जय जगदीश हरे)

ॐ जय महावीर प्रभो, स्वामी जय महावीर प्रभो
 कुण्डलपुर अवतारी, त्रिशता नन्द विभो । ॐ जय महावीर०
 मिन्दारथ पर जन्म, वैभव था भारी
 बाल ब्रह्मचारी व्रत, पालयो तब धारी । ॐ जय महावीर०
 आत्म ज्ञान वैरागी, सम दृष्टि धारी
 माया मोह विनाशक, ज्ञान ज्योति जारी । ॐ जय महावीर०
 जग में पाठ अहिंसा, आप ही विचारकों
 हिंसा पाप पिटाकर, सुव्रत परिवारियों । ॐ जय महावीर०
 यही विषी चाँदन पुर में, अतिशय दरशायो
 खाल मनोरथ पूरयो, दूय माय पायो । ॐ जय महावीर०
 पाप व्रत मन्त्री ह्ये, प्रभु नृपते शीला
 मन्दिर तीन अक्षरका, निर्माण हे कीनार । ॐ जय महावीर०
 अथपुर नृप भी तेरे, आनन्द के संशरी
 एक शाम दिन शीला, सेवा दिन यक्षुभी । ॐ जय महावीर०
 जो काँट तेरे दर पर, इच्छा कर आवे
 धन भूत सब कुछ पावे, मकट मिट जावे । ॐ जय महावीर०
 अन्तिम दिन प्रभु मन्दिर में, अवस्यत जोरि जने
 अशोक कुमार चरनों में, आनन्द मोद भरे । ॐ जय महावीर०

भट कर्ता

अजना कुमारी जैन

मसान न २६५/१०/५-ए आई

रघुबरपुरा नं २ गली नं ११ पाँची नगर.

मुद्रकः पापुलर प्रिन्टिंग प्रेस रघुबरपुरा नं २ गली नं ११ पाँची नगर, दिल्ली-२१

ज्योतिष और रत्न

यदि किसी बालिका की आयु ज्यादा हो जाए और उसका विवाह नहीं हो सके तो उसके विवाह में बाधाएं आती हैं तो उसे पुष्कराज रत्न पहनना लाभदायक रहता है क्योंकि पुष्कराज रत्न पहनने से गृहस्थ सुख में वृद्धि होती है और गृहस्थ सुख सभी सम्भव है जब उसका विवाह हो जाए। इसलिए पुष्कराज उसके पूरे जीवन के लिए सहायक रत्न माना गया है जिन पुरुषों के विवाह में बाधाएं आती हैं या गृहस्थ सुख में न्यूनता हो हीरा रत्न पहनना ज्यादा अनुकूल एवं शुभ रहेगा।

यदि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता हो तो मणिष्य धारण करने से लाभ होता है। इसी प्रकार हिस्टीरिया या मिरगी के रोग में मोती अत्यन्त अनुकूल पड़ता है। यदि किसी को कमजोरी या रक्त न्यूनता का रोग हो तो भी मूंगा पहनने से इस प्रकार का रोग सर्वथा मिटते देखा गया है। दमा की शिकायत होने पर अग्न्य पीपघि के साथ-साथ पन्ना रत्न भी अत्यधिक अनुकूल प्रभाव डालता है। इसी प्रकार जिबेर की शिकायत दूर करने के लिए पुष्कराज धारण करना चाहिए। बर्तन दोष को दूर करने के लिए हीरा रत्न अत्यन्त लाभदायक है।

—पुष्कराज शर्मा